

- 
- राजस्थान विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० की उपाधि के लिये स्वीकृत शोध-प्रबन्ध ।
  - शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशन में सहायता प्रदान करने की योजना में स्वीकृत ग्रन्थ ।

# संस्कृत के ऐतिहासिक नाटक

लूँहलूँ

डा० श्याम शर्मा  
एम.ए. पी-एच.टी.

देवनागर प्रकाशन, जयपुर-३

क्रिति	संस्कृत के ऐतिहासिक नाटक
कृतिकार	दा० श्याम शर्मा
प्रकाशक	देवनागर प्रकाशन, चौहा रास्ता, जयपुर ।
मुद्रक	ऐलोरा प्रिण्टर्स, शिवटीन जी का रास्ता, जयपुर ।
मूल्य	५०.०० रुपये मात्र ।

संस्कृत

संस्कृत के ऐतिहासिक नाटकों  
का सर्वप्रथम  
ऐतिहासिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक  
अनुशीलन



ऋषिकल्प, प्रातः स्मरणीय  
पूज्य पिताजी—  
(स्व० वैद्य श्री हरिकृष्ण जी “कमलेश”)  
की  
परम पावन स्मृति को  
सविनय समर्पित

## "भूमिका"

संस्कृत भाषा साहित्य के विविध अंगों-उपांगों से प्रचुर समृद्ध है। एक दीर्घकाल तक प्राचीन विश्व के एक बड़े भूभाग की भाषा हीने का गौरव उसे प्राप्त रहा। भारत की वर्तमान भौगोलिक सीमाओं के बाहर भी संस्कृत को फूलने-फलने का अवसर मिला। इस भाषा के अनेक विशिष्ट गुणों के कारण ऐसा संभव हो सका। विदेशों के साथ भारत के सम्बन्धों तथा भारतीय संस्कृति के प्रसार की जानकारी के लिए संस्कृत अपरिहार्य है।

नाट्य-साहित्य के रूप में संस्कृत भाषा का अध्य अंग अन्य मूल्य अंगों की भाँति महत्वपूर्ण रहा है। वस्तुतः नाट्य साहित्य का प्रयोगमूलक ललित श्रव्य रूप है। हमारे यहाँ के आचार्यों ने उसमें अनुरंजन के साथ कल्याण-भावना को प्रमुखता दी। साहित्य की अन्य प्रमुख विधाओं के समान नाट्य में भी सत्य, शिव तथा मुन्द्र की अभिव्यक्ति को श्रेय माना गया। नाट्यशास्त्र के प्रमुख आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अनुकृति-गुण के साथ भाव या रस की निष्पत्ति को अनिवार्य घोषित किया। नाट्य का विभुज जिन तीन केंद्रविन्दुओं से निर्मित है वे हैं : विषयवस्तु, रस तथा नेता। संस्कृत के प्रमुख नाटकों में इन तीनों मूल तत्त्वों का यथेष्ट निर्वाह देखने को मिलता है।

ऐतिहासिक नाटकों का साहित्य में अपना विशेष स्थान है। इनमें विषय-वस्तु को इतिवृत्त का आधार लेना होता है और तदनुरूप नेता का चयन किया जाता है। अन्य नाटकों की तरह ऐतिहासिक नाटकों में भी रस परम आवश्यक है; उसके विना नाटक का उद्देश्य चरितार्थ नहीं हो सकता। संस्कृत के उल्लेखनीय नाटकों के मूल में रस-मूर्छित हेतु प्रेम और शृंगार को वरीयता प्रदान की गयी। इसके लिए ऐतिहासिक तथ्यों के साथ कल्पना का प्रयोग भी किया गया। परंतु यह प्रयोग औचित्य-संबलित है। मात्र चमत्कार उत्पन्न करने के लिए कल्पना के निस्सीम प्रयोग को उचित नहीं माना गया। उसका उद्देश्य ऐतिहासिक शुष्कता को दूर कर रस की उत्पत्ति करना था, न कि अविश्वसनीय या अनर्गल भावों की सृष्टि करना।

'ऐतिहासिक' शब्द को उसके व्यापक रूप में देखने पर जात होगा कि इस संस्कृत में ऐसे नाटकों की रचना उस काल के बहुत पहले आरम्भ हो चुकी थी जिसे

भारतीय इतिहास का 'ऐतिहासिक युग' कहा जाता है। इस युग का आरम्भ लगभग ई० पूर्व ६०० से माना जाता है, जब त्रि इतिहास की आधुनिक मान्य परिभ्राया के अनुसार हमारे इतिहास के टोक, प्रामाणिक आधार निभित हो गये। उसके पहले की स्थिति 'आद्य इतिहास' कहलाती है, जब त्रि इतिहास के थोत या आपार परवर्ती युग के समान पुष्ट प्रबन्ध नहीं मिलत। भारतीय आद्यैतिहासिक सस्कृति की भारी वेदिक पौराणिक साहित्य तथा रामायण महामारत म उपरब्ध है। इम प्रमूल साहित्य से स्पष्ट है कि उनित वला के अन्य अनेक दूरा के साथ नाट्य का भी उद्भव तथा विकास ई० पूर्व छठी शती के पहले हो चुका था। इस प्राचीन साहित्य की एक घड़ी विशेषता यह है कि उसने परवर्ती नाटका के लिए विषय-वस्तु के रूप मे प्रनुर मीलिक सामग्री प्रदान की।

प्रस्तुत ग्रन्थ्यन मे एस्कृत के ऐतिहासिक नाटको की पूर्ववर्ती सीमा ई० पूर्व छठी शती ही रखी गयी है। उस समय से लेकर आधुनिक युग तक के नाट्य साहित्य का यथेष्ट विवेचन यही किया गया है। महात्मा बुद्ध के समवालीन उदयन इस ग्रन्थ्यन की प्रारम्भिक कही है। भारतीय वक्ता साहित्य मे राजा उदयन वहुचर्चित है। अनेक विशेष, नाट्यकारो तथा शिल्पकारो ने भी उदयन की रोचक कथा की विविध रूपों मे अमरता प्रदान की।

सोनह महाजननदो के युग से लेकर भव्यताल तक भारतीय राजनीतिक इतिहास मे अनेक उत्थान-पतन देखने को मिलते हैं। उनके बारण तथा दश-वालयत अन्य परिस्थितियों के बारण धर्म-दर्शन, भाषा-साहित्य, शिल्पकला एवं जन-जीवन के द्वेष अप्रभावित न रहे। कालत्रमालगत विभिन्न परिवर्तनों को हमारे राजितकारो तथा कलाकारो ने देखा-परखा। अपनी रचनाओं म उन्होंने उनका रूप मुयरित किया। नाट्यकार इसमे पीछे नहीं रहे। सोनानुरजन उनका मुख्य उद्देश्य पा जिसकी पूर्ति के लिए उन्होंने अपनी सामर्थ्य के अनुमार कायं निष्पत्त किये।

अब प्रश्न यह है कि सस्कृत के ऐतिहासिक नाटककार इतिहास को योग प्रदान करने मे खड़ी तक सफल हुए। इस का उत्तर देते समय हमे यह ध्यान मे रखना है कि भाग, कानिदास, शूद्रव, विशायवदत जैसे निष्ठात नाट्यकारो ने इतिहास को उसके व्यापक रूप मे प्रदृष्ट किया। उनकी हास्ति मे ऐतिहासिक पात्रों तथा राजनीतिक घटनाओं का महत्व था। साथ ही के उन सास्कृतिक पारामों के महत्व को समझते थे जो राष्ट्रीय जीवन मे अपना विशेष स्थान रखती हैं। व्यापक के निर्वह के साथ के उक्त तथ्यों को नहीं भूल सकते थे। समाज के गुणों के साथ उसके दोपो वा तथा सरितष्ट भारतीय सस्कृत के विघटनकारी तत्वों का भी वर्णन सस्कृत के नाटककारो ने अपना कर्तव्य समझा। इम कर्तव्य मे के कहीं तक सफल हुए, इसकी बहुत-कुछ जानकारी प्रस्तुत रचना मे गिल सकेगी।

जहाँ तक तथ्यमूलक घटनाओं का सम्बन्ध है, इसमें संदेह नहीं कि संस्कृत नाट्यसाहित्य से अनेक पूर्तियाँ हुई हैं, जो अन्य साधनों से या तो अज्ञात थीं या अल्पज्ञात । उदयन, चन्द्रगुप्तमीर्य, पुष्यमित्र, अग्निमित्र, गुप्त-सम्राट्-चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य, रामगुप्त, हर्षवर्घन, चाहमान पृथिवीराज आदि शासकों के सम्बन्ध में अनेक ज्ञातव्य वातें संस्कृत नाटकों में उपलब्ध हैं । यूनानियों, शकों, हूणों तथा मुग्लमानों के आक्रमणों आदि के विवरण भी कतिपय नाटकों में मिलते हैं । जनपदों, नगरों, यात्रा-मार्गों के साथ विविध कलाओं तथा व्यवसाय-व्यापार के भी रोचक वृत्तान्त इस साहित्य में उपलब्ध हैं । इतिहास को व्यापक हप में जानने-समझने में इन विवरणों का महत्व स्पष्ट है ।

वत्सराज उदयन के कलामर्जन होने तथा उसके एक सफल शासक होने के मौलिक कारणों का पता भास के नाटकों से चलता है । वामव्रदत्ता के प्रनि उसके प्रे-म तथा उज्जविनी से दोनों प्रेमियों के भागने की कथा की पुष्टि अन्य स्रोतों से भी हुई है । कौशाम्बी से शुंगकालीन कतिपय मृण्मूर्तियाँ मिली हैं जिनमें चण्डप्रद्योत के वंधन से वासवदत्ता-उदयन के पलायन की कथा अत्यंत रोचक ढंग से आलेखित है । चन्द्रगुप्त मीर्य के समय की राजनीतिक जटिलताओं की भाँकी विशाखदत्त के 'मुद्रारक्षस' में उपवृहित है । कविकुल गुरु कालिदास का 'मालविकारिनमित्र' नाटक शुंगराज पुष्यमित्र तथा विदिशा-स्थित उसके ज्येष्ठ पुत्र अरितमित्र के समय की राजनीतिक परिस्थिति का उपयोगी चित्रण उपस्थित करता है । इस नाटक से यह भी ज्ञात होता है कि विदिशा-राज्य पर यूनानियों का आक्रमण विफल हुआ और यमुना की सहायिका सिधुनदी के तट पर अरितमित्र के यशस्वी पुत्र वसुमित्र ने यवनों की सेना को पराजित किया । उसके बाद यूनानी लोग पुनः इस और बढ़ने का साहस न कर सके । उक्त नाटक से यह भी ज्ञात होता है कि राजनीतिक कारणों से उत्तर भारत की मुख्य राजधानी को पाटलिपुत्र से हटाकर विदिशा में स्थापित किया गया जो अनेक प्रकार से लाभप्रद सिद्ध हुआ । इसकी पुष्टि तत्कालीन अन्य ऐतिहासिक साधनों से हुई है ।

हाल में गुप्त-सम्राट्-चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के अग्रज रामगुप्त की बहुसंख्यक मुद्राएँ तथा तीन शिलालेख प्राप्त हुए हैं । इनसे रामगुप्त की ऐतिहासिकता सिद्ध हुई है । परन्तु इसके पहले 'देवीचन्द्रगुप्तम्' नाटक के उद्धरण ही ऐतिहासिकता के प्रमुख प्रमाण थे । इन उद्धरणों में रामगुप्त तथा उसकी पत्नी ध्रुवदेवी एवं चन्द्रगुप्त के वीच जो संवाद विद्यमान हैं वे शक-गुप्त संघर्ष तथा गुप्तवंश के इतिहास पर प्रभूत प्रकाश डालते हैं । शूद्रक का 'मृच्छकटिक' गुप्तकालीन 'स्वरंयुग' की अनेक विशेषताओं के साथ जनसमाज की कतिपय दुर्बलताओं का स्वच्छ दर्पण है ।

२० श्याम शर्मा ने सस्तृत के ऐतिहासिक नाटकों या विस्तृत, सर्वाङ्गीण अध्ययन विद्वज्जनों के सम्बुद्ध रखा है। सस्तृत के ऐतिहासिक नाट्यमाहित्य पर हिन्दी में पहली बार ऐसा विवेचन उपस्थित किया गया है। सस्तृत साहित्य के विवेच्य अंग की गरिमा वो समझने में यह अध्ययन निम्नदेह भव्यन्त सहायक गिर्द होगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

इस उपयोगी प्रथ के विद्वान् लेखक तथा इसके प्रकाशक वो हार्दिक साधुवाद।

कृपणदत्त याजपेयी  
टैगोर प्रोफेसर तथा अध्यक्ष,  
प्राचीन भारतीय इतिहास, गास्त्रति  
तथा पुरातत्त्व विभाग,  
संचालक, उत्तरनन्द तथा सर्वेक्षण  
सागर विश्वविद्यालय,  
अध्यक्ष, मारतीय मुद्रागास्त्र परिषद्।

सागर  
१४ जून, १९७४

## प्राककथन

संस्कृत नाटक के क्षेत्र में प्राचीन भारतीयों की उपलब्धियाँ विश्वनाट्य-साहित्य में बहुत उच्च स्थान रखती हैं। अनेक संस्कृत नाटकों में इतिवृत्त को उपजीव्य बनाया गया है। इस प्रकार के ऐतिहासिक नाटक दो प्रकार से अपना विगिष्ठ महत्त्व रखते हैं। प्रथम, कला के रूप में सुधी साहित्यानुरागियों का अनुरंजन के कारण; द्वितीय, ऐतिहास के लिए महत्त्वपूर्ण सामग्री प्रदान करने के कारण। इन नाटकों के रूप में सामान्य रूप से तो बहुत कुछ लिखा गया है, किन्तु जहाँ तक मुझे जात है, इनमें ऐतिहासिक तत्वों के विनियोग की सफलता तथा असफलता के मूल्यांकन का अभी तक कोई प्रयत्न नहीं किया गया। निश्चित रूप से ऐतिहासिक नाटकों से प्राप्त न्यूनाधिक महत्त्व की सामग्री का प्रायः उपयोग करते रहे हैं, किन्तु इनका ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व आदि की दृष्टि से सर्वाङ्गीण गूल्यांकन अभी तक अवैक्षित था। डॉ० श्याम शर्मा ने इस कार्य को सफलतापूर्वक सम्पादित करके वस्तुतः संस्कृत साहित्य की महान् सेवा की है।

डॉ० शर्मा ने इस प्रबन्ध को तीन भागों में विभक्त किया है। प्रथम भाग में ऐतिहासिक नाटकों के अनुशीलन के सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उदाहरणार्थ, संस्कृत नाटकों के विभिन्न प्रकारों का वर्गीकरण, ऐतिहास तथा ऐतिहासिक नाटकों का सम्बन्ध, ऐतिहासिक नाटक लिखने के उद्देश्य एवं संस्कृत के ऐतिहासिक नाटकों का वर्गीकरण। द्वितीय भाग में अत्यधिक महत्त्व के संस्कृत के प्राचीन ऐतिहासिक नाटकों का सर्वाङ्गीण मूल्यांकन किया गया है। जैसे भास के स्वप्नवास-वदता एवं प्रतिज्ञायोगन्धरायण, कालिदास का मालविकाग्निमित्र, शूद्रक का मृच्छकटिक, हर्ष की रत्नावली तथा प्रियदर्शिका और विशाखदत्त का मुद्राराक्षस तथा देवीचन्द्रगुप्तम्। वस्तुतः प्रबन्ध का यह भाग सर्वाधिक मूल्यवान् है। क्योंकि डॉ० शर्मा ने इस भाग में अत्यधिक प्रबल प्रमाणों के आधार पर अनेक नये निष्कर्प निकाले हैं। उदाहरणार्थ डॉ० शर्मा ने प्रमाणित किया है कि भास के दोनों ऐतिहासिक नाटक वृहत्कथा पर आधारित नहीं हैं; अपितु उससे स्पष्टतः प्राचीन हैं; और प्रसंग-वश इससे भास के समय पर भी प्रकाश पड़ता है, जिसका लेखक ने विस्तार से विवेचन किया है।

डा० शर्मा ने कालिदास के ऐतिहासिक नाटक मात्रविदानिभित्र के घटनापात्र आदि का सर्वाङ्गीण अनुग्रह न भरके इनके ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला है। इन्होंने अनेक प्रश्न अन्त साध्यों के आधार पर यह भी प्रमाणित किया है कि चारसदत्त भास की रचना नहीं है, अपितु भूद्रक की रचना के रूप में प्रभिद्वयनिक के प्रथम चार अर्थों का मध्यिक्षण रगमचीय गम्भरण है। इन्होंने भूद्रक के नाटक के राजनीतिक क्यानिक का मूड़म अध्ययन करते हुए ऐतिहासिक महत्व के क्यामूर्तों का अन्वेषण एवं विश्लेषण किया है। इसी प्रकार इन्होंने भाग तथा हर्ष के उदयन-काम पर अधिकृत ऐतिहासिक नाटकों में महत्वपूर्ण अन्तरों का भी निर्देश किया है। अन्त में, इन्होंने न केवल विजायदत्त था ही प्रशासनीय अध्ययन प्रस्तुत किया है, अपितु विजायदत्त के तुप्त नाटक देवीचन्द्रगुण पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला है। प्रवन्ध के तृतीय भाग में इन्होंने अध्यकालीन तथा आधुनिक युग के ऐतिहासिक नाटकों का, जिनमें अनेक अप्रकाशित भी हैं, अध्ययन प्रस्तुत किया है।

डा० शर्मा का यह अध्ययन वैज्ञानिक समानोचनात्मक तथा पूरणत नवीन है। इन्होंने इस प्रबन्ध में इतिहासकार तथा समानोचना दोनों के बायें भी बहुत ही भफलता पूर्वक सम्पन्न किया है। नि सन्देह यह प्रबन्ध समृद्धि की एक विजिट शास्त्र से सम्बन्धित हमारे ज्ञान के निए एक महत्वपूर्ण मौलिक देन है। मैं आशा करता हूँ कि इस वृत्ति का अवश्यमेव हार्दिक स्वागत होगा।

डॉ. पी. एल. भार्गव  
विजिटिंग प्रोफेसर,  
मैसास्टर यूनिवर्सिटी, हैमिल्टन, वनाडा;  
मू० पू० अध्यक्ष, समृद्धि विभाग,  
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

## प्रस्तुत्यापन

प्रस्तुत प्रबन्ध “संस्कृत के ऐतिहासिक नाटक” का शीर्षक आपाततः कुछ विस्मयोत्पादक एवं विवादाप्पद अवश्य प्रतीत होता है, क्गेंकि प्राचीन भारतीय प्रारम्भ में इतिहास तथा पुराण शब्द प्रायणः पर्याय के रूप में प्रयुक्त हुए हैं तथा अनेक आधुनिक विद्वानों ने पुराणों से इतिहास संजोया है। अतः प्रस्तुत अध्ययन के प्रारम्भ में मेरे सामने भी पौराणिक तथा ऐतिहासिक नाटकों के सीमा-निर्वारण की विकट समस्या थी; और इसीलिए यहाँ विस्तार से इतिहासकारों के विचार, प्रवृत्ति तथा पद्धति का पर्यवेक्षण करते हुए ज्ञात तथा ल्यात अर्थात् प्रामाणिक एवं इतिहास-कारों द्वारा स्वीकृत इतिहास को ही “इतिहास” के रूप में स्वीकार्य मानकर परिसीमित कर दिया है। और इस ‘इतिहास’ पर आधित नाटकों को ही इस अध्ययन-क्रम में ग्राह्य माना है।

संस्कृत साहित्य के इतिहासकारों एवं समालोचकों ने जिस प्रकार ऐतिहासिक महाकाव्य का पृथक् क्षेत्र निर्धारित किया है, उस प्रकार ऐतिहासिक नाटकों का नहीं किया है। मुद्राराक्षस का आनुपगिक रूप से राजनीतिक नाटक के रूप में निर्देश करने के अतिरिक्त केवल कुछ परवर्ती नाटकों का ही इस प्रक्षंग में उल्लेख किया है। प्रो० कीथ ने कुछ पंक्तियों में परवर्ती ऐतिहासिक नाटकों का उल्लेख मात्र किया है, तो दासगुप्ता ने इनका अर्द्धैतिहासिक-नाटक के रूप में उल्लेख किया है। मुकेह कृष्णरामी आयंगर कोमामरेशन वाल्यम् (१६३६) में प्रो० विन्दनिंद्ज का ‘हिस्टारिकल ड्रामाज् इन संस्कृत लिटरेचर’ शीर्षक से सर्वप्रथम स्वतंत्र लेख देखने को मिला। किन्तु उन्होंने भी उस समय वहुर्चित ‘कौमुदीमहोत्सव’ नाटक के समीक्षण के प्रसंग में केवल मुद्राराक्षस तथा देवीचन्द्रगुप्तम् आदि का ही उल्लेख किया है। स्पष्ट है कि संस्कृत के ऐतिहासिक नाटकों की अव तक पूर्ण उपेक्षा होती रही है। अतः मेरे विनाश विचार से इस ग्रंथ के द्वारा सर्वप्रथम स्वतंत्र रूप से संस्कृत के ऐतिहासिक नाटकों के अनुसन्धान तथा अनुशीलन का समारम्भ किया गया है।

इस प्रबन्ध के प्रारम्भ में संस्कृत नाट्यसाहित्य के परिपार्श्व में आधुनिक समालोचन के अनुसार सर्वप्रथम संस्कृत नाटकों का वर्गीकरण करके, ऐतिहासिक नाटकों के स्वरूप, नाट्यशिल्प तथा महत्व पर प्रकाश डालते हुए सिद्धान्त-पक्ष पर

प्रकाश ढाला गया है, तथा भन्य अध्यायों में सस्कृत के प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक ऐतिहासिक नाटकों का महत्व वे अनुसार सधीय तथा विस्तार से ऐतिहासिक, सास्कृतिक तथा साहित्यिक अनुशीलन किया है। इस प्रवार इस मध्य को अधिकाधिक उपादेष्ट, सर्वाङ्गीण तथा ध्यापद बनाने वे लिए प्रत्येक सभव प्रयत्न किया गया है। विवेच्य विषय अत्यन्त ध्यापन होने पर भी इसमें अनेक महत्वपूर्ण नवीन निष्ठायों पर पहुँचने का प्रयास किया गया है। इस प्रयत्न मध्य अनुपलब्ध के अन्वेषण तथा उपलब्ध वे परिशीलन वी पूरी-पूरी चेष्टा भी गई है।

उक्त वार्य वा समस्त थेय सद्विद्विष्ट प्राच्यविद् प्रादरणीय डॉ० पी. एल भार्गव को है, जिनके सहायुक्तपूर्ण निर्देशन में मैं इस सर्वंषा नवीन दोष में अप्रसर हो सका। मैं उनके प्रति आमार व्यक्त करके भार भुक्त नहीं होना चाहता।

पूज्य गुरुद्वय महान् वंयाकरण प्राचार्य ५० गणेशदत्तजी पाण्डेय (बापी) ने इस वार्य में मुझे रामी प्रवार वा सहयोग ही नहीं दिया, अपितु उन्होंने ही मुझे सस्कृत के क्षेत्र मध्यवृत्त किया प्रीर और अन्त तक वित्तवर स्नेह रखते हुए मेरा भार्गव-दर्शन करते रहे। उनकी अहेतुत्वी वृत्ता वे प्रति मैं न तमस्तव हूँ।

इम वार्य मध्य प्रारम्भ से आत तक अद्देय डॉ० सुधीरबुमार जी गुप्त, डॉ० गणधर भट्ट एवं डॉ० जगदीश चन्द्र जोशी से अनेक प्रकार वी सहायता प्राप्त हुई है उनके प्रति मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ। डॉ० वस्तुरचन्द्र वासलीवाल, स्व० ५० चैनमुपदास जी, श्री यू० सी० भट्टाचार्य, मुनिजितविजय, डॉ० दशरथ शर्मा तथा श्री अग्रचन्द्र जी नाहटा आदि से समय-समय पर प्रेरणा एवं सामग्री प्राप्त हुई-इन सभी के प्रति मैं आभारी हूँ।

सामग्री एकत्र करने मध्य राजस्थान विश्वविद्यालयीय पुस्तकालय, महाराजा पुस्तकालय जयपुर, आगरा विश्वविद्यालयीय पुस्तकालय, संग्रह साक्षियालयीक लायब्रेरी दिल्ली, महाराजा लायब्रेरी तजीर, गवर्नरमेन्ट ओरियन्टल मौनुम्ब्रप्ट लायब्रेरी भद्रास आदि का पर्याप्त सहयोग प्राप्त हुआ-एतदर्थं उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त वरता हूँ।

मैं पितृवर अद्देय अपने अप्यज डॉ० राधाकान्त जी शर्मा से अध्ययनक्रम में निरन्तर प्रेरणा पाता रहा हूँ-उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित वरना मात्र धौपचारिकता होगा।

सुप्रसिद्ध इतिहासविद् प्रो० वृष्णादत्तजी वाजपेयी ने मेरे अनुरोध को स्वीकार कर अपने अमूल्य व्यस्त समय में से कुछ समय निवाल कर “भूमिका” लिखने की वृत्ता भी है। उनके स्नेह एवं उपकार के प्रति आभार व्यक्त करने का हु साहस न कर उनका आभारी ही बना रहना चाहता हूँ। डॉ० भार्गव साहब ने

विदेश जाने से पूर्व के अतिव्यस्त समय में प्राककथन लिखकर जो अनुग्रह किया है, उसके लिए उनका हृदय से आभारी हूँ।

यह प्रबन्ध राजस्थान विश्वविद्यालय की पी-एच०डी० के लिए मूलरूप में प्रस्तुत किया गया था, उसी को अब कुछ संशोधित एवं परिवर्तित कर प्रकाशित कराया जा रहा है।

देवनागर प्रकाशन, जयपुर के व्यवस्थापकों ने मेरे अनुरोध को स्वीकार कर कागज के भयंकर अभाव एवं मँहगाई के समय में भी तत्परता प्रकाशन की व्यवस्था की, इसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देना कर्तव्य समझता हूँ।

मुद्रण के समय मेरे दूर रहने तथा अतिव्यस्त रहने के कारण वर्तनी तथा प्रूफ आदि की कुछ श्रुटियाँ रह गई हैं इसका मुझे हार्दिक खेद है, और इसके लिए मैं विज्ञ पाठकों से क्षमा प्रार्थी हूँ।

अन्त में, यदि इस ग्रन्थ से संस्कृत नाटक के क्षेत्र में कुछ भी योगदान मिल सका—तो मैं अपना धम सफल समझूँगा—“वलेशः फलेन हि पुनर्नवतां विघत्ते।”

श्याम शर्मा  
“वाशिष्ठ”†

गुरु पूर्णिमा  
४ जीलाई १९७४,

## °प्रवन्ध के प्रमुख संकेत एवं संक्षेप

भ्र०	—	भ्रप्रवाशित
भ्रप०	—	भ्रप्रवण्ड
इ०	—	इ डियन एवं इ डिया,
इति०	—	इतिहास
ब०	—	बल्चरन
कथा०	—	कथामरितगांगर
फ्र०	—	कोमामरेशन
भा०	—	भारत या भारतीय
प्रा०	—	प्राचीन
स०	—	सहृत
सा०	—	माद्वित्य
लिट०	—	लिटरेचर
हि०	—	हिस्ट्री तथा हिस्टोरिकल
चना०	—	चनासीक्ल
वा०	—	वान्यूम्
स्वप्न०	—	स्वप्नवासवदत्ता
प्रतिज्ञा०	—	प्रतिज्ञायोगन्धरायण
मुद्रा०	—	मुद्राराक्षस
माजविका०	—	माजविकामिनिमित्र
मृच्छ०	—	मृच्छिक
वीणा०	—	वीणावासवदत्ता

—अन्य पुस्तकों के संक्षेप सहायक अन्यसूची में दिये गये हैं।

# विषयानुक्रम

- भूमिका
- प्राक्कथन
- प्रस्थापन
- प्रवन्ध के प्रमुख संकेत एवं संक्षेप

प्रथम खण्ड : संस्कृत के ऐतिहासिक नाटक : सिद्धान्त पक्ष,

## १. संस्कृत साहित्य-साहित्य के परिपाश्व में ऐतिहासिक नाटक

१-१६

संस्कृत साहित्य में नाटक, नाट्य-साहित्य की सोहे शयता, नाटक का स्वरूप, नाटक की परिभाषा, नाट्यविधान एवं उसके मूलतत्त्व, संस्कृत नाटकों का वर्गीकरण रस-पात्र-वस्तु के आधार पर, ऐतिहासिक नाटक ।

## २. इतिहास और ऐतिहासिक नाटक

१७-३८

इतिहास का स्वरूप, परिभाषा एवं क्षेत्र, इतिहास की परिवर्तनवादी प्रवृत्ति, प्राचीन भारत का इतिहास एवं उसका स्वरूप, प्राचीन भारत के इतिहास की प्रणयन-परम्परा-वैदिक वाड़मय में ऐतिहासिक परम्परा का सम रम्भ-रामायण महाभारत में ऐतिहासिक परम्परा-पुराणों में ऐतिहासिक परम्परा लोक कथाओं में इतिहास, भारतीय इतिहास की स्रोत सामग्री-इतिहासमूलक-ऐतिहासिक नाटक, इतिहास और ऐतिहासिक नाटक का सम्बन्ध, संस्कृत के ऐतिहासिक नाटक और इतिहास की परिसीमाएँ ।

## ३. ऐतिहासिक नाटक : स्वरूप तथा शिल्प

३६-७६

ऐतिहासिक नाटक का स्वरूप एवं परिभाषा, ऐतिहासिक नाटकों में इतिहास-प्रयोग की सोहे शयता, इतिहास का महत्त्व, नाटक में इतिहास-प्रयोग का उद्देश्य, ऐतिहासिक नाटक एवं उनमें इतिहास का स्वरूप, ऐतिहासिक नाटक में कल्पना-प्रयोग, इतिहास तथा नाटक में कल्पना-प्रयोग, ऐतिहासिक नाटक में कल्पना-प्रयोग की परिसीमा-पाश्चात्यमत-समन्वयवादी-प्रथार्थवादी, भारतीयमत में इतिहास तथा कल्पना-

प्रयोग, भारतीय मत में कल्पना-प्रयोग की परिसीमा, ऐतिहासिक नाटक तथा इतिहास, ऐतिहासिकता की निर्वाहकता, इतिहास रस तथा ऐतिहासिक रग, ऐतिहासिकता के आवश्यक तत्त्व, ऐतिहासिक नाटकों के विभिन्न रूप।

#### ४. सस्कृत के ऐतिहासिक नाटक तथा उनका वर्गीकरण ७७-८६

सस्कृत के ऐतिहासिक नाटकों का महत्त्व, सस्कृत के ऐतिहासिक नाटकों की परम्परा, सस्कृत के ऐतिहासिक नाटकों की न्यूनता एवं उसके कारण, सस्कृत के ऐतिहासिक नाटकों की विशेषताएँ-राजनीतिक सामाजिक पक्ष-प्रधान नाटक, शृणारिक वातावरण से सपृक्त रोमाटिक नाटक, सस्कृत के ऐतिहासिक नाटकों का वर्गीकरण, विशुद्ध ऐतिहासिक नाटक, इतिहास-प्रधान ऐतिहासिक नाटक, कल्पना-प्रधान ऐतिहासिक नाटक, सस्कृत के प्राचीन ऐतिहासिक नाटक, सस्कृत के मध्यशालीन तथा भर्वाचीन ऐतिहासिक नाटक।

द्वितीय खण्ड : सस्कृत के प्राचीन ऐतिहासिक नाटक

#### ५. स्वप्नवासवदत्तम् एव प्रतिज्ञायीगन्धरायण ६३-१८०

प्रथितवशम् भास, भास के वृत्तित्व की प्रामाणिकता, भास के अमदिग्ध नाटक स्वप्नम् एव प्रतिज्ञाम्, भास का समय, प्रतिज्ञा० एव स्वप्न० परस्पर पूख, नाटकों का कथानक, उदयनकथा की सोकप्रियता, भास की उदयन-कथा वा सोत तथा उपजीव्य, भास की उदयनकथा की ऐतिहासिकता-उदयन वा ऐतिहासिक व्यक्तित्व, पात्रों की ऐतिहासिकता, प्रतिज्ञा० के कथानक की ऐतिहासिकता, स्वप्न० के कथानक की ऐतिहासिकता, दर्शक की ऐतिहासिकता, भास के ऐतिहासिक नाटकों की नाट्यकला, प्रतिज्ञा० की वस्तुयोजना तथा चरित्रचित्रण, स्वप्न० की वस्तुयोजना तथा चरित्रचित्रण, सास्कृतिक चित्रण-राजनीतिक तथा भौगोलिक सामाजिक, शासन व्यवस्था, रणनीति।

#### ६. मालविकाग्निमित्र

१८१-२५६

कालिदास का समय, कालिदास के ऐतिहासिक नाटक का महत्त्व, मालविकाग्निमित्र के गृजन की पृष्ठभूमि, नाटक वा कथानक, ऐतिहासिक परीक्षण के साक्ष्य, पात्रों की ऐतिहासिकता, भालविका की ऐतिहासिकता, मालविकाग्निमित्र के कथानक का ऐतिहासिक विश्लेषण, कालिदास पर युद्ध आपेक्षा, शुगासाम्राज्य की स्थापना तथा राजनीतिक पृष्ठभूमि, सेनापति सम्माद् पुष्पमित्र, विदिशेश्वर ग्निमित्र की विदर्भ-विजय, पुष्पमित्र द्वारा यवन-पराजय तथा अश्वमेघ वा समायोजन, द्विरश्वमेघयानी पुष्पमित्र, प्रथम यवन-ग्रामण, द्वितीय यवन-ग्रामण, द्वितीय अश्वमेघ, विदर्भ-विजय-ग्राममेघयज्ञ तथा यवन पराजय का ऐतिहासिक महत्त्व, ग्रन्थ ऐतिहासिक सकेत, मालविकाग्निमित्र के परिप्रेक्ष में कालिदास की नाट्यकला, वस्तुविधान तथा चरित्र-

चित्रण, भास और कालिदास, परवर्ती नाटक और मालविकामिनिमित्र, सांस्कृतिक चित्रण-राजनीतिक, शासन-व्यवस्था, सामाजिक, नाट्यशास्त्रीय आदि ।

## ७. मृच्छकटिक

२५७-३१६

**मृच्छकटिक :** संस्कृति-प्रधान ऐतिहासिक नाटक, मृच्छकटिक का रचयिता, मृच्छकटिक का रचनाकाल, मृच्छकटिक का कथानक, कथानक का स्रोत, चारुदत्त की परवर्तिता तथा अमोलिकता, मृच्छकटिक के कथानक की ऐतिहासिकता तथा काल्पनिकता, पालक तथा आर्यक से सम्बन्धित कथानक की ऐतिहासिकता, मृच्छकटिक की नाट्यकला-वस्तुविधान-चरित्रचित्रण, नाट्यविधान एवं भाषा-शैली आदि, मृच्छकटिक कालीन सांस्कृतिक दशा-सामाजिक दशा, धार्मिक दशा, राजनीतिक दशा ।

## ८ प्रियदर्शिका तथा रत्नावली एवं अन्य उदयन नाटक

३१७-३३८

(अ) प्रियदर्शिका एवं रत्नावली, हृषि की कृतियाँ एवं कृतित्व, हृषि की नाटिकाओं का कथानक-प्रियदर्शिका-रत्नावली, नाटिकाओं की स्रोत सामग्री, नाटिकाओं के कथानक की ऐतिहासिकता, हृषि की नाटिकाओं का वस्तुविधान एवं चरित्रचित्रण, सांस्कृतिक चित्रण ।

(आ) अन्य उदयन नाटक, वासवदत्तनाट्यधारा, वीणावासवदत्ता, अभिसारिका-वंचिकतम्, मनोरमावत्सलराज, उदयनराज, ललितरत्नमाला ।

## ९. मुद्राराक्षस एवं देवीचन्द्रगुप्तम्

३३९-३८६

विशाखदत्त एवं उसका समय, (अ) मुद्राराक्षस, कथानक, कथानक के स्रोत; मुद्राराक्षस में कल्पना तथा ऐतिहासिकता—मुद्राराक्षस के घटना एवं पात्र, मुद्राराक्षस के काल्पनिक विनियोग, मुद्राराक्षस की ऐतिहासिकता; मुद्राराक्षस के कुछ विषादास्पद उल्लेख, मुद्राराक्षस की नाट्यकला: वस्तुविधान-चरित्रचित्रण, शैली, सांस्कृतिक चित्रण, मुद्राराक्षस का महत्व,

(आ) देवीचन्द्रगुप्तम् (अपखण्ड), नाटक का कथानक, देवीचन्द्रगुप्त की ऐतिहासिकता, सामान्य समालोचन ।

**तृतीय खण्ड :** संस्कृत के मध्यकालीन तथा आधुनिक ऐतिहासिक नाटक

## १०. कौमुदीमहोत्सव एवं हम्मीरमदमर्दन

३८६-४२७

(१) कौमुदीमहोत्सव-नाटक का नाम, नाटककार का समय, नाटक का कथानक, नाट्यरचना की परिस्थिति एवं नाटक का महत्व, कौमुदीमहोत्सव की

ऐतिहासिकता तथा काल्पनिकता; सुन्दरवर्मन्, बल्याणवर्मन्, श्रीतिवर्मन् तथा मन्महगुप्त आदि की अनेतिहासिकता।

(२) हम्मीरमदमदंन—रचनाकाल एवं रचनावार, नाटक वा सक्षिप्त कथानक, हम्मीरमदमदंन को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम्मीरमदमदंन की ऐतिहासिकता, सास्कृतिक एवं साहित्यिक पर्यंवेशण।

### ११. अन्य मध्यकालीन ऐतिहासिक नाटक ४२८—४६५

(१) प्रतिज्ञाचाण्डक्य (अप्र०), (२) ललितविग्रहराज (अप) परिचय, नाटक का समय, नाटक वा कथानक, साहित्यिक समालोचन, ऐतिहासिक समालोचन, (३) करणमुन्दरी, (४) पारिजातमजरी (अपूर्ण), नाटिका वा रचयिता तथा समय, नाटिका का समय, नाटिका की ऐतिहासिकता, साहित्यिक पर्यंवेशण, (५) प्रतापह्वद्वक्त्याण-रचयिता, नाटक वा फ्यानश, साहित्यिक समालोचन, ऐतिहासिक समालोचन, (६) गगादामप्रतापविलास (अप्र०), (७) रामवर्मविलास (अप्र०), (८) रसनवेतूदय (अपूर्ण), (९) शोजराजसच्चरित-रचयिता एवं रचनाकाल, ऐतिहासिकता, साहित्यिक समालोचना, (१०) रघुनाथविलास, (११) सेवन्तिकापरिणाय, (१२) शान्तिमती परिणाय (अप्र०), (१३) सदाशिव चरित दमुनदमीकल्याणम् (अप्र०) (१४) सुश्रहाण्याध्वरित् रचित दमुलदमीकल्याणम् (अप्र०) (१५) बालमातृष्ठविजय-रचना, रचयिता, रचनाकाल, नाटक वा कथानक, समालोचन, (१६) मृगांवलेपा, नाटकवार, कथानक, समालोचन (१७) राजविजयनाटकम् (अपूर्ण)—नाटक तथा नाटकवार, कथानक, समालोचन।

### १२. परम्परा एवं उपसंहार ४६६—४७५

परिशिष्ट —ऐतिहासिक महस्व के कुछ अन्य नाटक ४७६—४७७  
सहायक ग्रन्थ संक्षेप एवं अनुक्रमणिका ४७८—४८४

संस्कृत  
के  
ऐतिहासिक  
नाटक

## संस्कृत नाट्य-साहित्य के पारपार्श्व में ऐतिहासिक नाटकः

### संस्कृत साहित्य में नाटक

संस्कृत साहित्य अपनी विविधता तथा विशिष्टता, समृद्धि तथा सार्वभौमिकता, उपलब्धि तथा सक्रियता सभी दृष्टि से अनुपम है। भारत के साहित्यक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, आर्थिक तथा राजनीतिक स्वरूप का सर्वागीण अंकन तथा प्रतिविम्बन जितना प्रबुर तथा प्रांगल संस्कृत साहित्य में हुआ है, उतना अन्यत्र दुर्लभ है। गुण और परिमाण उभय दृष्टि से संस्कृत साहित्य महान है। इस विशाल संस्कृत साहित्य का एक-एक अंग अपनी समृद्धि परंपरा को लेकर चरम विकास के विन्दु तक पहुँचा है। यदि हम केवल संस्कृत के विजुट साहित्य का ही पर्यवेक्षण करें, तो दृश्य और शब्द के व्यापक परिवेश में यह महाकाव्य, खंडकाव्य, मुक्तक, कथा, आख्यायिका, चम्पू तथा नाट्य-साहित्य के विभिन्न रूपों में पर्याप्त विकसित दृष्टिगोचर होता है। इन सब में भी केवल नाट्य-साहित्य की विशाल परंपरा में रूपों की विविध रूपता ही गुम्फानुगम्फ-रूप से इतनी परिव्याप्त है कि संभवतः उतनी अन्य किसी अंग की उपलब्ध नहीं है। संस्कृत-साहित्य के विभिन्न रूपों में नाट्य रूपों का समधिक अभिसंजन नाट्यसाहित्य की अभिरूपता तथा लोकप्रियता का स्पष्ट प्रमाण है। इसके प्रस्तार का मूल कारण नाट्य-कला का वह हृदयावर्जक रूप ही है जिसके कि कारण कलाकारों ने अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में इसको सर्वविधि समृद्ध किया है। नाट्य रूपों की समृद्धि परंपरा में रूपक तथा उपरूपक से संबंधित रूपसमृद्धि ही नहीं, अपितु विषय आदि से सम्बन्धित परिवृद्धि परम्परा भी प्राप्त है। इसी रूप तथा विषय आदि की विविधता, साहित्य की सरसता एवं नाट्यकला की कलात्मक, आकर्षक, रंग-

## २ समृद्धत वे ऐतिहासिक नाटक

मचीयता वे कारण नाट्यसाहित्य की अधिक प्रपनाया गया है। सक्षेप में, आज सस्तृत में विशाल, समुद्रत एवं भूमृद नाट्यसाहित्य की उपलब्धि वा सर्वप्रमुख कारण इसकी समयिक सौदेश्यता है।

### नाट्यसाहित्य की सोदेश्यता

भारान्यत रसास्वाद या आनन्दास्वाद ही प्रारिगमात्र के जीवन का उद्देश्य होता है। पद्मिनी कुछ विद्वान ब्रह्मानन्द के आस्वाद को अधिक महत्व दते हैं तो कुछ काव्यानन्द के आस्वाद को, तथापि यह सभी मानन हैं कि इन दोनों में कुछ साम्य घटता है, और इस आनन्द प्राप्ति में ही भनुप्य के ज्ञान विज्ञान की गार्वकता है। अतएव मुख्यत इस उद्देश्यमूर्तव आनन्दप्राप्ति के लिये परा, प्रपरा, दो विद्याम्रो द्वा विधान दिया गया है। परा द्रष्टविद्या है। अपग म सर्वप्रथम काव्य या माहित्य वा परिगणन विद्या गया है।<sup>१</sup> इसी की राजमोरर न चारों विद्याम्रो वा निष्पन्द वहा है।<sup>२</sup> अत स्पष्ट है कि साहित्य या काव्य प्रानिभजान के कारण बलामात्र नहीं है, अपिनु मर्वन्देष्ट वसा है।<sup>३</sup>

कठोपनिषद् में जीवन-यापन के लिये प्रेयगारं तथा श्रेयमारं का निर्देश है।<sup>४</sup> वस्तुत में श्रेय नया प्रेय गन्य का दो ग्रामाम हैं। सामान्यत ममार में हम श्रेय-प्रेयात्मक सत्य की अभिव्यक्ति विभिन्न माध्यमों से होती है, इन्तु कुछ वेवल श्रेय-सापेश्य होते हैं तो कुछ वेवन प्रेयमापेदय, जबकि काव्य या माहित्य उभय-सापेदय है। सन्देश इसी कारण गत्य, शिव, सुन्दर वे प्रनिष्ठापत्र काव्य दो श्रेष्ठ माना गया है। भारतीय साहित्यशास्त्रियों ने काव्य की उद्देश्यतृतीय उदासता के अग्निरक्त, प्रयागनों की पारमार्थिक तथा व्यावहारिक उपलब्धि वे कारण इसे समधिक महत्व दिया है। भगवत्,<sup>५</sup> भास्मह,<sup>६</sup> वामन,<sup>७</sup> आनन्दवर्धन,<sup>८</sup> मम्मट<sup>९</sup> तथा घनजय<sup>१०</sup> आदि

१. काव्य भीमांसा राजरोकर, द्वितीय अध्याय, पृ० १२,
२. वही, द्वितीय अध्याय, पृ० १०,
३. भारतीय साहित्य शास्त्र, घलदेव उपराध्याय, द्वि० भाग, पृ० ४५७, ४६०,
४. श्रेयस श्रेयस भनुप्यमेतत्स्तो सप्तरीत्य विविनकि घोर। । कठोपनिषद्, ११२२,
५. नाट्यशास्त्र ११११—११३,
६. काव्यालंकार, ११२,
७. काव्यालंकार सूत्रवृत्ति १११५,
८. अन्यालोकः १११,
९. काव्य प्रकाश, ११२,
१०. दशस्पत्र ११६,

सभी ने इसीलिए लौकिक-प्रलौकिक तथा दृष्टि-अदृष्टि सभी दृष्टि से काव्य को महत्त्व-पूरण माना है। काव्य-प्रकाशकार भम्मट के शब्दों में सत्यः परनिवृत्तिदायिनी, नवरस-रुचिरा, आनन्द-निष्पन्निनी कवि की भारती (काव्य) श्रेयप्रेयोभयसंवलित होने के कारण ही अन्य शास्त्रादि की अपेक्षा अधिक स्पृहणीय<sup>१</sup> है।

यह काव्य दो प्रकार का माना गया है—श्रव्य और दृश्य ।<sup>२</sup> श्रव्य और दृश्य दोनों काव्य की ही आंगिक विधा हैं। अतः यद्यपि इनका उद्देश्य समानप्रायः है, तथापि उद्देश्य प्राप्ति के साधनों में पर्याप्त अन्तर है। श्रव्य-काव्य का उपयोग श्रवणेन्द्रिय के माध्यम से ही किया जाता है, अतः यह श्रुतिसापेक्ष्य होने से पाठ्य होता है।<sup>३</sup> श्रव्य में शब्दों के माध्यम से ही भावनात्मक चित्रों को मानसपटल पर अंकित किया जाता है, अतः श्रव्यकाव्य को आत्मसात् करने के लिये श्रोता में कल्पना आदि अपेक्षित है। परन्तु हृश्य चक्षुरिन्द्रिय का विषय होने से देखने की भी वस्तु है। यद्यपि इसमें श्रुति का सहयोग भी अपेक्षित है, परन्तु मुख्य चक्षु ही है। हृश्य में रंग-मंच की सहायता से विभिन्न उपादानों के प्रयोग द्वारा वर्णवस्तु का यथार्थचित्र प्रस्तुत किया जाता है। अतः यह रंगमंच पर अभिनय की वस्तु है। अभिनय के द्वारा ही सामाजिक दर्शक इसका पूरा-पूरा वास्तविक लाभ उठा सकता है। दूसरे शब्दों में, श्रव्य का रसास्त्राद पठन-श्रवण से संभव है, जबकि दृश्य का दर्शन, श्रवण तथा पठन से। श्रवण तथा पठन की अपेक्षा दर्शन की विशिष्टता होने के कारण ही दृश्य का श्रव्य से अधिक महत्त्व है। दृश्य में रंगमंच या अभिनय प्रमुख है, अतएव इसे रंगमंचीय या या अभिनेय भी कहा जाता है और, इसी कारण यह श्रव्य की अपेक्षा अधिक तथा म्बिय प्रभावोत्पादक, सार्ववर्णिक और शिक्षित अशिक्षित सभी को समान उपयोगी है। यही कारण है कि काव्य के विशाल परिवेश में अंगमात्र होते हुए भी महत्त्व तथा विशिष्टता की दृष्टि से हृश्य की अतिजय प्रतिष्ठा है।

इस हृश्य काव्य के लिये सामान्यतः नाट्य या नाटक आदि शब्द प्रचलित हैं जबकि श्रव्य के लिये काव्य। काव्य की अन्यान्य विधायें वर्णनप्रधान हैं, किन्तु नाटक प्रयोग-प्रवान है। नाटक में वर्णवस्तु को प्रायोगिक रूप से परिवर्त्त किया जाता है।

१. “सकलप्रयोजनमौलिभूतं समनन्तरमेव रसास्त्रादनसमुद्भूतं विगलित-चेद्यान्तर-मानन्दम्,” काव्य प्रकाश ११२ की वृत्ति, तथा—  
नियतिकृतनियमरहितां ह्लादैकमयीमनन्यपरतन्त्राम्।  
नवरसरुचिरो निर्मितिमादघटती भारती कवेर्जयति। वही १११,
२. साहित्यदर्पण ६। २६८,
३. पाठ्यशब्द से स्पष्ट है कि श्रव्य में चक्षु का भी सहयोग अपेक्षित है।

## ४ . सस्तुत के ऐतिहासिक नाटक

महिम भट्ट के शब्दों में वाच्य में अनुभावविभावों का बरण होता है, जिन्हीं उन्हीं का जब गीतादि में अनुरजित प्रयोग किया जाता है, तब वह नाटक बहनता है।<sup>१</sup> स्पष्ट है कि नाटक में 'गीतानुरजन' तथा 'प्रयोग' प्रमुख होता है। नाटक की इस अनुरंजनात्मकता तथा प्रयोगात्मकता के कारण ही इसकी मोदेश्यता वा महस्त्र परिषृद्ध हो जाता है।

वामन के शब्दों में वाच्यों में दशस्त्रहों की सर्वाधिक प्रतिष्ठा वा वाच्यगत यही है कि इसमें कथा, आम्नायिका, महाकाव्य आदि के पात्र मनोव होकर चित्रपट के समान अभिनय करते दीप पड़ते हैं।<sup>२</sup> अनादि इसमें वाच्य के आत्मस्वरूप रूप की महज अनुभूति होती है।

अभिनवगुप्त ने नाटक की मोदेश्यता को और भी स्पष्ट करते हुए लिखा है कि वस्तुत अनुभाव, विभाव तथा मन्त्रारीभाव वा गमप्राधान्य वाच्यों में भी वेवन (दशस्त्रपक) नाटकों द्वारा ही समव है। उनका अभिनव है कि नाटक के अभिनय के समय रगभच के वातावरण, पात्रों के वाचिक, आर्थिक, धारायं, अभिनय एवं क्रियाव्यापार द्वारा तथा आतोद्य, गान, विचित्रमहप तथा चतुराणिका आदि के उपरजन द्वारा रमास्वादन में वापर निजगुणादि को विवरण भाव के निवारण हो जाने के कारण असदृदय सामाजिक भी महदीयों के समान रमास्वाद म सर्वया ममर्थ होने हैं।<sup>३</sup> यही नहीं, बल्कि उनका यह भी मत है कि उत्तम नाटक रगभच के अभाव में भी पाठ्यरूप में रसास्वादन करा सकता है। स्पष्ट है कि नाट्यसाहित्य के पर्तीरक्त अन्य विसी भी काव्य प्रकार में महदम-असदृदय, शिक्षित प्रशिक्षित आदि सभी को इनमें महज दथा सात प्रकार में रमानुभूति नहीं हो सकती। नाटक की इस रमानुभूति को प्रभावात्मकता के अतिरेक के कारण ही त्रिभिक दुया वा अभाव, मनोविकारों वा परिप्लार तथा इच्छा का गम्भार होता है। इसमें लोगानुरजक होने से शिक्षा, उपदेश तथा अन्य नैतिक तत्त्वों को आमगात् करने तथा सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक तथा ऐतिहासिक ज्ञानधर्मन मरलता होती है। चरित्र निर्माण तथा आत्मोत्पान में महायता मिलती है और इसको मार्वर्णिता तथा सर्वजनीनता के कारण जीवन के प्रत्येक उद्देश्य को द्वे पर्याय बनाकर गहज ही हृदयगम बरगाया

१. व्यक्ति विवेक, प्रथम विमर्श, पृ० ६६,

२. सन्दर्भेषु दशस्त्रपक श्रेष्ठ । तदिवचित्य चित्रपटवद्विशेषतावत्यात् ।

ततोऽन्यमेदविलक्षित, ततो दशस्त्रकादायेषां मेदाना किलक्ष्मि कल्पनमिति ।

दशस्त्रकस्य हि-इद सर्वं विलक्षित, पदुतक्यास्यायिकामहाकाव्यमिति ।

का० पृ० ११३।३०-३२,

३. अभिनवभारती, पृ० २८२-२८३.,

जा सकता है। कालिदास के शब्दों में, 'एकमात्र नाटक भिन्न रुचिवाले जनों का समाराघन करने में समर्थ है।' भारतीय परम्परा के अनुसार नाटक के द्वारा पुरुषार्थ-चतुष्टय की संप्राप्ति सर्वथा सर्वाधिक सहज तथा सरल है। अन्त में, हम कह सकते हैं कि नाट्य-मंच पर ही समस्त ज्ञान-विज्ञान की अवतारणा करके अत्यधिक सरसता, सरलता तथा सफलता से सत्यं, शिवं तथा मुन्दरं को अभिव्यञ्जित किया जा सकता है।

## नाटक का स्वरूप

साहित्य में नाटक के लिये प्रायः नाटक, नाट्य, रूप, रूपक तथा रूप्य शब्दों का प्रयोग प्राप्त है। इनमें शाविद्वक समानार्थकता होते पर भी सभी परस्पर पर्याय ग्रन्थों के द्वारा उपयोग के बोतक है, किन्तु आजकल इनमें से मुख्यतः नाटक, नाट्य तथा रूपक शब्दों का ही प्रचलन अधिक है। सामान्यतः नाट्य शब्द की व्युत्पत्ति तथा अर्थ के सम्बन्ध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है,<sup>२</sup> किन्तु आजकल नाट्य या नाटक शब्द पारिणि

### १. भालविकाग्निमित्र ११४,

२. यद्यपि विद्वानों ने नाट्य शब्द की व्युत्पत्ति नट्, नाट् आदि से मानी है। पर आजकल प्रायः नट् से ही नाट्य का विकास माना जाता है। किन्तु विद्वानों में नट् शब्द के सम्बन्ध में भी मतभेद है। मोनियर विलियम्स तथा वेवर (संस्कृत इंगलिश डिक्शनरी, पृ० ५२५, ऐ हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, पृ० १६७) ने नट् को नृत्त का प्राकृत रूप माना है, जबकि श्रो० मनकड़ (टाइप्स ऑफ दि संस्कृत ड्रामा पृ० ६) तथा डा० गुप्त (दि इंडियन थियेटर, पृ० १३६) नट् को नृत्त की अपेक्षा वाद का मानते हैं किन्तु डा० त्रिगुणायत (शा० स० सि० पृ० १७६ तथा मा० ना० सा० में उनका लेख और दशरूपक की मुनिका) नट् तथा नृत्त दोनों को ऋग्वेद में प्रयुक्त मानकर, समानरूप से प्राचीन, अतः नट् से ही नाट्य का मूलतः विकास मानते हैं। किन्तु हम उनसे सहमत नहीं हैं। सर्वप्रथम ऋग्वेद में केवल 'नट्' का अस्तित्व खोजने से ही नट् से नाट्य या नाटक का विकास नहीं माना जा सकता। दूसरे, ऋग्वेद में वस्तुतः 'नट्' नहीं अपितु अभिनट् शब्द है। सायण ने इस अभिनट् को व्याप्त्यर्क 'नश्' से व्युत्पन्न मानकर इसका अर्थ 'अभिव्याप्तनोतु' लिया है (मा अभिनट्: मा अभिव्याप्तनोतु, नश्यतेव्याप्तिकर्मणोत्तुः इति: ऋग्वेद, सायणभाष्य ७।१०।५।२३): सम्भवतः डा० त्रिगुणायत को प्राकृत शब्द से भ्रम हो गया है। वस्तुतः नट् नृत्त का प्राकृत रूप है, किन्तु नट् नृत्त से प्राचीन नहीं है। प्राकृत से संस्कृत रूप ही प्राचीन होता है। ऋग्वेद (१०।१८।१३) में नृत्त का प्रयोग है, उसका अर्थ सायण ने हिलना-डुलना किया है। अतः हमारा विश्वास है कि नृत्त के मूल अर्थ ने ही नट् का अर्थविस्तार तथा अर्थपरिवर्तन किया है। उनके सिद्धान्तकौमुदी के उद्धरण से स्पष्ट है कि नृत्त अर्थ में नट् का प्रयोग हुआ अर्थात् नृत्त नट् की अपेक्षा अपने अर्थ में अधिक वद्धमूल है। नट् व्यपदेश से भी यही ध्वनित होता है। वस्तुतः अभिनय का तात्पर्य नटन् से है अर्थात् नृत्त से नट् का और नट् से नाट् का विकास हुआ है।

के अनुगार 'नट' पातु में ही व्युत्पन्न माना जाता है।<sup>१</sup> दूसी प्रकार स्वरूप गद्द 'मृदू' से 'मृदू' प्रत्यय द्वारा निष्पाल है।<sup>२</sup> भारतीय वाङ्मय में रूपक शब्द अनेक अर्थों का घोतक रहा है, किन्तु साहित्य में यह नाट्य या नाटक का ही वोधक है। दण्डपत्रकार के अनुमार प्रवर्ण्या वी अनुद्वति ही नाट्य होती है, उसे ही दृश्य होने में स्पष्ट वहा जाता है। यद्वी नाट्य रूप के आरोप होने के कारण रूपक भी कहनाता है।<sup>३</sup> इससे स्पष्ट है कि नाटक तथा स्वरूप में अवस्थाओं का अनुभरण तथा रूप का आरोप प्रमुख होता है। इसे ही नट का कार्य होने से नाट्य भी कहा जाता है।

इसके अतिरिक्त, नाटक के वास्तविक स्वरूप के अधिगृहणार्थं भगवेज्ञानिक हृष्टि से पर्यवेक्षण करने पर ज्ञान होता है कि मनुष्य, क्योंकि निरार्थं एक अभिव्यजनशील प्राणी है। अत मानुभूतियों ने स्वेच्छित माध्यम में अभिव्यक्त करना मानव-स्वभाव है। मानुभूति को दूसरों की अनुभूति बनाने के लिये ही वह अभिव्यक्ति का माध्यम लेता है। वर्तुन यह अभिव्यक्ति ही नाटक या नाट्यरूप का आधार है।

रामाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में देखने पर ज्ञान होता है कि मनुष्य ने प्रारम्भ से ही दुर्घन-सुख आदि से प्रमूल भावों को अभिव्यक्ति करने के लिये जो-जो माध्यम अपनाये, उन्होंने ही विभिन्न वसाधों को जन्म दिया है। नाटक भी उनमें से एक है। यही कारण है कि नाटक की उत्तरति को मनुष्य की उत्तरति से सम्बन्धित माना जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि नाटक में विभिन्न माध्यमों द्वारा दुर्घन-सुख आदि से प्रमूल भावों की व्यञ्जना की जाती है।

दार्शनिक हृष्टि से देखने पर पता चलता है कि मर्वप्रथम एकारी मनुष्य के, एक दार्शनिक की भाँति 'एकोऽह वटृस्याम्' के रूप में, चिन्तन के फलस्वरूप नाट्य जैसी वसा का आविर्भाव हुआ। अत इस्पष्ट है कि नाटक में चिन्तन तथा भिन्न स्वाभिव्यक्ति भी प्रमुख होती है। यही नहीं, बल्कि क्योंकि यह माना जाता है कि नाटक की उत्तरति उम दिन हृदई जिस दिन वासन्त ने खेतं ही सेल में अपने दो बिसी अन्य की चल्पना की।<sup>४</sup> अत यह भी स्पष्ट है कि नाटक सामान्यतः एक ऐसा भैल है, जिसमें नट अन्य की कल्पना

१. ए हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, मंकडानल, पृ० ३४६,

२. दृष्टकम् वली० (स्पृष्टतोति, वृष्टिशुल्) नाटकम् ।

(तम्य संतातुहेमाह स्पारोपात्तुस्पकम्) इत्यादि । शब्दकल्पद्रुम, चतुर्थलंड पृ० १७६,

३. अवस्थानुकृतिनाट्यं दृष्टं दृश्यतपोच्यते । रूपकं तत्त्वमारोपात् ॥। दशाल्पक ११७,

४. दि डिवलपरमेंट ऑफ ड्रामेटिक आर्ट, डोनल्डलाइव स्टूपर्ट, पृ० १,

उनके अभिनय का खेल चेलता है या अन्य का सर्वांगीण अनुकरण तथा उसकी अभिव्यक्ति करता है।

संद्वान्तिक रूप से यद्यपि अनुकृति अभिव्यक्ति तथा रूप के आरोप को नाटक कहा जाता है, किन्तु वरतुतः यह नाटक का आधार मात्र है। नाट्य तत्त्वतः एक कला है। अतः यह आवश्यक है कि अनुकृति या अभिव्यक्ति हृदयावर्जक हो तथा उनमें कलात्मकता का समाधर्म हो। इसलिये जब संवेदनशील कलाकार सौन्दर्यभावित अनुभूति को सौन्दर्य-प्रबण बनाकर अभिव्यक्त करता है, तभी उसकी अनुकृति सौन्दर्य-कनिष्ठ होने पर नाटक कहनाती है। नाट्य में इस सौन्दर्यतत्त्व की समधिक प्रतिष्ठा है। नाट्यशास्त्र में इसी सौन्दर्यं तत्त्व को लक्ष्य में रखकर समस्त रंगमंचीय प्रावधान की अनिवार्यता का विधान दिया गया है। अतः नाटक एक ऐसी समाश्रित कला है, जिसमें अन्य समस्त गीत, वाद्य आदि कलायें गौण तथा सहयोगिनी बनकर नाट्य को सौन्दर्यकनिष्ठ बनाती हुई समधिक उत्कर्ष प्रदान करती है। अतश्च समस्त काव्यों तथा कलाओं में नाटक ही एक मात्र ऐसी विधा है, जो सम्पूर्णता तक गतिमान रहती है।

### नाटक की परिभाषा

नाटक के स्वरूप के पर्यावेक्षण करने पर यह स्पष्ट हो गया है कि नाटक एक समाश्रिता कला है। अतः नाटक की एक भूत्रात्मक संश्लिष्ट परिभाषा करना कठिन है। तथापि अनेक प्राच्य पञ्चात्य विद्वानों ने इसको सुनिश्चित, सीमित तथा सर्वांगीण परिभाषा में परिसीमित करने के प्रयास किये हैं। अरस्तू ने त्रासद (ट्रैज़ेडी) की परिभाषा करते हुए लिखा है कि “त्रासद उस व्यापार विशेष का अनुकरण है, जिसमें नंभीरत्ता हो, पूर्णता हो, तथा जिसमें एक विशेष परिणाम हो, भाषा अलंकृत, सजीव तथा विभाषाओं से युक्त हो और जैवी वर्णन प्रवान न होकर नाटकीय हो, जो कहणा तथा भयप्रदर्जन द्वारा मनोविकारों का उचित परिष्कार कर सके।”<sup>१</sup> स्पष्ट है कि इन्होंने अन्यान्य वाह्य आवश्यकताओं के अतिरिक्त अनुकृति तथा मनोविकार के परिष्करण या विरेचन पर विशेष वल दिया है। इनके अतिरिक्त सिसरो, ह्यूगो, सार्से तथा निकाल आदि अन्य पाञ्चात्य विचारकों ने भी इन्हीं के कुछ संशोधन तथा स्पष्टीकरण के रूप में अपने विचार उपन्यस्त किये हैं। इनमें कोई नाटक को जीवन की प्रतिलिपि कहता है, तो कोई प्रकृति को प्रतिव्यम्बत करने वाला दर्शण। कोई जीवन के प्रतिनिधित्व का साथन मानता है, तो कोई जीवन की अभिव्यञ्जन कला।

१. दि डिवलपमेंट आॅफ ड्रामेटिक आर्ट, डोनल्डकलाइव स्टुअर्ट, पृ० १,

२. आन दि आर्ट आॅफ पोथट्री: अरस्तू, पृ० ३५,

## ८ सर्वत्र वे ऐंहासिक नाटक

सामान्यन पारचाल्य विद्वानों ने ग्रनुकरण की याचार्यता पर वल दिया है। यद्यपि आनुपगिक स्वर में कुछ तत्त्व वा भी निर्देश किया गया है, उनमें सम्बन्ध का अभाव है।<sup>१</sup> उनका विवेचन प्राय पारागी रहा है। उनकी हास्त्रिय वाह्य-स्वर-रेखा पर विशेष जमी है, अन्यस्तत्रों पर नहीं।

यद्यपि भारतीय साहित्य शास्त्री भी नाटक या स्पष्ट के मूल में ग्रनुकरण-भावना की ही प्रधान मानते हैं, परन्तु उन्होंने अपनी व्यापक विद्वचनशक्ति द्वारा पूर्णता तक पढ़ूँचने की चेष्टा की है। नाट्यशास्त्र के ग्राचार्य मुनि भरत ने मनुष्य देवतोंस्य के भावानुकीर्तन की नाटक मानते हुए लिया है—“त्रिंशोपस्थास्य गवंस्य नाट्य भावानुकीर्तनम्।”<sup>२</sup> मुनि भरत ने यहीं ग्रनुकरण के भाव भाव अर्थात् रस की भी प्रमुखता दी है। इसी को और भी स्पष्ट करते हुए तथा मूलभूत अन्य मत्रिनष्ट तत्त्वों का निर्देश भरते हुए आग लिया है—

‘नानाभावोपस्थपन नानावस्थान्वगतमवम् ।

सोऽदृतानुवरण नाट्यमेतमयाहृतम् ॥’<sup>३</sup>

यहीं भरत न भावस्य म रस की, ग्रनुकरण के स्वर म रचनात्मक तत्त्वों की तथा ग्रनुकरण के स्वर में ग्रनितय तत्त्व की प्रतिष्ठा की है। मुनि भरत न अपन नाट्यशास्त्र में नाटक का मरीचीला मूलम विवरणप्रण किया है। एक-एक तत्त्व को अनेक प्रकार से स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। उपर्युक्त परिमापा को स्पष्ट करते हुए उन्होंने अन्यत्र लिखा है—

‘ममास्मवभाव मस्तुत्य मारोपागगतिथम् ।

ग्रनितयने गम्यने च तस्माद्व नाटक भूत्तम् ॥’<sup>४</sup>

तथा                   ये य भवनार्था लोकस्य नानावस्थान्वगतम् ।

माराभिनयोपत नाट्यमित्यमिधीवने ॥’<sup>५</sup>

उपर्युक्त परिमापाओं से स्पष्ट है कि भरत के ग्रनुकरण नाटक म अवस्थानुकरण, भावानुकरण एव वृत्तानुवरण सारोपाग तथा यथार्य स्वर में होना परमादर्श है। यहाँ इन अवस्था, भाव तथा वृत्त में भरत का तात्पर्य क्रमग नेना, रस तथा वस्तु तत्त्व से है। घनजय ने भी नाटक की इसी प्रकार परिमापा बरते हुए

१. नाट्यशला: डा० रघुवेश, पृ० ७,

२. नाट्यशास्त्र, ११०५,

३. वही, ११०८-९,

४. वही, २११२५,

५. वही, २११२६,

लिखा है:—

“अवस्थानुकृतिर्नाट्यं रूपं दृश्यतयोच्यते ।  
स्पष्टं तत्समारोपाद् दण्डयैव रसाश्रयम् ॥”<sup>१</sup>.

इन्होंने भी समन्वित रूप से अवस्थानुकरण, रूपानुकरण तथा रस अर्थात् भावानुकरण को प्रमुखता दी है। धनंजय के अनुसार दशरूपकों को मुख्यतः रसाश्रित होना आवश्यक है। इसी प्रकार अन्यान्य ग्रन्तेक विद्वानों ने परिभाषायें दी हैं, सभी में प्रायः आत्मभूत रूप को प्रमुख मानकर अन्य तत्त्वों का निर्देश किया गया है। अतः भारतीय विचारधारा के अनुसार नाटक एक ऐसा अनुकरण है जिससे दर्शकों को रसास्वाद मिल सके। उपर्युक्त समग्र-विचारों के पर्यवेक्षण के पश्चात् निष्पत्ति रूप में यदि हम ममन्वित तथा संश्लिष्ट परिभाषा करें, तो कह सकते हैं कि ‘नाटक, त्रैलोक्य की भी सर्वांगीण व्यार्थ अनुकृति पर आवारित एक रस प्रधान अभिनेय काव्य है।’ इससे स्पष्ट है कि नाटक में (१) यथार्थ अनुकृति, तथा (२) रस की प्रधानता आवश्यक है।

### नाट्य विधान एवं उसके मूलतत्त्व

नाटक के स्वरूप तथा परिभाषा के विवेचन-प्रसंग में आनुपंगिक रूप से नाटक की कुछ आधारभूत आवश्यकताओं तथा परिसीमाओं का उल्लेख हुआ है, किन्तु नाटककार इनसे कभी भी नियमित नहीं होता। नाटककार सर्वंप्रथम एक कलाकार है, साहित्यकार है, अतः वह सर्वतंत्र स्वतंत्र होता है। स्वेच्छित प्रकार से प्रतिभा का प्रयोग करता है तथा स्वतंत्र चिन्तन के अनुरूप नवनवोद्भावना करता रहता है। कलाकार की कला का यदि नियमन तथा परिसीमन कर दिया जाय तो उसका मृजन यथार्थहीन हो जाता है, प्रतिभा-कुंठित हो जाती है तथा मौलिकता पर आवरण पड़ जाता है। फलतः वह नवनवोद्भावना नहीं कर सकता। तथापि, कलाकार स्वयं, क्योंकि विचार और अभिव्यक्ति दोनों को एक विशेष पद्धति अपना लेता है, अतः वह स्वयंनिर्मित परंपरा के रूप में उससे नियमित होकर ही कलाविधान करता है। समालोचक भी उसकी पद्धति-विशेष का सूक्ष्म अध्ययन करके उन्हें स्थूल रूप देता है और उन्हीं के आधार पर समीक्षण, परीक्षण तथा मूल्यांकन आदि किया जाता है। भारतीय साहित्यशास्त्रियों तथा नाट्यशास्त्रियों ने भी नाटकों के रूपविधान तथा शिल्प-विधान के सन्वर्ध में पर्याप्त व्यवस्था दी है। सामान्यतः उसी के आवार पर संस्कृत नाटकों का समीक्षण परीक्षण किया जाता रहा है।

यद्यपि नाटकों के समीक्षण परीक्षण तथा मूल्यांकन में शास्त्रीय संद्वान्तिक व्यवस्था को अपनाया जाना स्वभाविक है, किन्तु संस्कृत के अधिकांश नाटकों का सृजन भी शास्त्रीय सिद्धान्तों को आधार मानकर परंपरा के रूप में हुआ है। फलतः

## १० सस्तुत के ऐतिहासिक नाटक

सस्तुत नाटकों का रूप-विधान तथा शिल्प-विधान प्राय स्व-गा है। रूप-विधान की हाइटि से पूर्वरण, नान्दी, प्रस्थापना, कथोदातक तथा अव-विभाजन आदि वे सम्बन्ध में अनेक नाट्य-ग्रन्थों में अत्यधिक विस्तार से व्यवस्था दी गई है।<sup>१</sup> सामान्यत नाटक में रूपविधान की अपेक्षा मर्यादिक विशेषता शिल्पविधान की है। अनएव भारतीय आचार्यों ने शिल्पविधायक तत्त्वों का सूक्ष्म, गभीर तथा व्यापक विवेचन किया है।

नान्दीशिला की हाइटि में नाट्याचार्यों ने नाटक वे मूलतत्त्व तीन माने हैं—वस्तु, नेता तथा रस। नाटक की परिभाषा के प्रसग में भी हम दृत्त, भाव तथा अभिनय के रूप में इन्हीं का निर्देश कर आये हैं। दशरथपक्कार ने “वस्तुनता रसस्तेपौ भेदव” वहूंकर इन्हीं ३ तत्त्वों का उल्लेख किया है।<sup>२</sup> यद्यपि कुद्य विद्वान् दशरथपक्कोक्त ३ तत्त्वों को भेदक मात्र मानते हैं तथा वृत्ति और अभिनय को भी तत्त्वों में स्वीकार करके ५ तत्त्व मानते हैं,<sup>३</sup> विन्तु अभिनय तथा वृत्ति इन्हीं तत्त्वों में समाहित तथा सशिलप्त है। अत इन्ह तत्त्व मानना उचित प्रतीत नहीं होना। मुख्यरूप से वस्तु, नेता, तथा रस ही ऐसे तत्त्व हैं, जिनके आधार पर समस्त नाट्यप्रासाद खड़ा किया जाता है। यही नहीं, वर्त्ति, इन्हीं भेदक तत्त्वों के आधार पर रूपकों की अनेक-रूपता का प्रस्तार हुआ है। रूपक के दणभेद तथा उपरूपकों के १८ भेदों का रूप विकास स्वय एक वृहद् विवेच्य विषय है। प्रो० मनकड ने “टाइप्स आंक दि सस्तुत ड्रामा” में तथा

१. देखिये, साहित्य दर्पण थष्ठ परिच्छेद, दशरथपक्कः प्रथम प्रकारा तथा नाट्य-शास्त्र का २१। ११७—१२० आदि।

२. दशरथपक्क १। १।

३. देखिये शा० सा० सि० ढा० त्रिगुणायत, पृ० १८८, १८९, ढा० त्रिगुणायत ने वृत्ति तथा अभिनय को समतर्थ माना है जबकि वस्तु नेता तथा रस को भेदकर्त्त्व। इस प्रकार समविषयम दोनों को सयुक्त करके ये ५ तत्त्व मानने के पक्ष में हैं। किन्तु चास्तर्य में वृत्ति ‘नान्दी मातरः’ कही जाने पर भी तत्त्व नहीं है। पात्रों के कायिक, वाचिक और मानसिक व्यापार वैचित्र्य को वृत्ति कहते हैं, तथा ये रस की कारण होती है (वर्तते रसोजनयेति वृत्तिः)। अत इनको वस्तु, पात्र तथा रस से पृथक सत्ता। स्वीकार करना असुभव है। अभिनय के बिना नाटक के स्वरूप की समावना नहीं दी जा सकती। अभिनय नाटक की एक आवश्यकता है। वस्तु नेता, रस के साथ स्वभावत इसका सम्बन्ध है। अत इसे भी पृथक् मानना ठीक नहीं है।

अन्य अनेक विद्वानों ने यद्व तथा इस विषय पर पर्याप्त प्रकाश डाला है,<sup>१</sup> जो कि वहीं दृष्टव्य है।

**बन्तुतः** नाटक के इन मूलभूत ३ तत्त्वों में भारतीय मान्यता के अनुसार 'रस' का सर्वाधिक महत्व है। यही बात नाटक की परिभाषा से भी स्पष्ट हो चुकी है। इसी कारण यहाँ न केवल नाट्य की, अपितु काव्य की भी आत्मा रस स्वीकार किया गया है और इसका साम्य "रसो वै सः" के रूप में ब्रह्मानन्द से माना गया है। परन्तु पाश्चात्य विचारवारा के अनुसार "पात्र" या नेता तत्व का सर्वाधिक महत्व है। इसी कारण पाश्चात्य विद्वानों ने चरित्र-चित्रण के ऊपर अधिक वल दिया है। यद्यपि वस्तुतः काव्य की आत्मा होने से "रस" का निःसन्देह अत्यधिक महत्व है, तथा रसोन्मीलन का आधार चरित्र-चित्रण होने से नेता का भी कम महत्व नहीं है। किन्तु हमारी मान्यता है कि रस तथा नेता (चरित्र-चित्रण) से भी "वस्तु" तत्त्व मुख्य है। यद्यपि "रस" आदि का महत्व अपने-प्रपने दृष्टिकोण से अधिक है, किन्तु उसका आधार "वस्तु" ही है। नाटक में जैसी वस्तु होगी उसी के अनुसार पात्र तथा उनका चित्रण होगा और उसी के अनुरूप रसोन्मीलन होगा। अतः वस्तु ही एक ऐसा तत्व है जिसकी उल्कृष्टता तथा भिन्नता के अनुसार पात्रों का चरित्र-चित्रण तथा रसोन्मेप भिन्न-भिन्न प्रकार का होता है। रूपकों के पात्र तथा रस की जो भेद-न्तीमा होती है, उसका भी मूल कारण वस्तु है। और, सम्भवतः यही कारण है कि इन तीन तत्त्वों में वस्तु का सर्वप्रथम परिगणन किया गया है। भारतीय आचार्यों ने इस वस्तु तत्व का न केवल स्वरूप की दृष्टि से अपितु नेता तत्व के कार्य आदि की दृष्टि से भी सूक्ष्म विवेचन किया है।<sup>२</sup> यहाँ ग्राप्रासंगिक होने से विशेष विस्तार में जाना उपयुक्त नहीं है। हमें यहाँ केवल यही कहना अभीष्ट है कि नाटक के मूल तत्व — वस्तु, नेता तथा रस हैं। इनमें भी नाट्य विद्यान की दृष्टि से 'वस्तु तत्व' का ही सर्वाधिक महत्व है।

### संस्कृत नाटकों का वर्गीकरण

**प्रायः साहित्यशास्त्र** तथा नाट्यशास्त्र के ग्रन्थों में सामान्यतः संस्कृत के नाटकों का व्यवस्थित एवं व्यापक वर्गीकरण प्राप्त नहीं होता है। उनमें जहाँ कहीं संस्कृत के

१. रूपक तथा उपरूपकों की संस्था के सम्बन्ध में भी प्राचीन आचार्यों में मतभेद है, इसके लिए देखिये, भा० ना० सा० में "संस्कृत नाट्यशास्त्र में रूपक का स्वरूप तथा भेद प्रभेद" डा० त्रिगुणायत का लेख, तथा टाइप्स आ॑फ दि संस्कृत ड्रामा : मनकड, पृ० ३६,
२. देखिये दशरूपक, १११-१३, ११७, १८, ११६-२०, १५६-५८, में क्रमशः वस्तु का स्वरूप, फल, कार्य, अभिनय की दृष्टि से नेद प्रभेद।

विशाल नाट्यसाहित्य का विवेचन किया गया है, वहाँ केवल भेद प्रभेद तथा स्वरूपागत धुधनी सीमाओं का निर्देश मात्र किया है। उशाहरण के लिये नाट्य प्रन्थों में विशाल नाट्यसाहित्य को रूपक तथा उपरूपक दो वर्गों में विभक्त किया गया है।<sup>१</sup> इस भेद व्यवस्था का मुख्य आधार इनकी स्वरूप आदि वी विशेषता है। रूपक नाट्य-विषया है तो उपरूपक नृत्य वी। रूपक रसाथय है तो उपरूपक ताललयाथय मान। इसी प्रकार इनकी अन्यान्य मूलभूत विशेषताओं के कारण इन्हें दो वर्गों में विभक्त किया गया है। इनमें एक कला वी हृष्टि से चरम उत्कृष्टता का निर्दर्शन है तो दूसरा निम्नस्तर वा। इसी प्रकार उपरूपक को भी दो वर्गों में विभक्त किया गया है। भावाथय नृत्य को मार्ग तथा ताललयात्रित नृत्य को देशी कहा गया है।<sup>२</sup> इन दोनों के भी पुन ऋमश लास्य तथा ताण्डव वी विशेषता से युक्त होने के बारण मधुर तथा उद्धृत भेदों का निर्देश किया गया है।<sup>३</sup> किन्तु उपर्युक्त भेद प्रभेद के आधार पर सस्कृत के विशाल नाट्यसाहित्य का न तो पूरण-पूरण वर्गीकरण ही सम्भव है और न वह विवेचन वी हृष्टि से उपयुक्त ही है। अत दृम इसे नाटकी के सर्वांगीण विवेचन की हृष्टि से ग्राह्य नहीं मानत।

डा० वी० राधवन न दशरूपकों की प्रकारगत विशेषताओं के आधार पर समस्त रूपकों को शौर्यप्रधान (Heroic Drama) तथा सामजिक (Social Drama) दो वर्गों में विभक्त किया है।<sup>४</sup> डा० दशरथ ओझा ने इन्हूं ऋमश आदर्शोंमुख तथा यथार्थोंमुख नाम दिया है।<sup>५</sup> डा० राधवन् ने आदर्शोंमुख में नाटक, व्यायोग, समवार, डिम, ईहामृग और ग्रक को परिगणित किया है, जबकि यथार्थोंमुख में प्रवरणा भारण, प्रहसन तथा वीथी को।<sup>६</sup> यह वर्गोंकरण भी केवल नाटकों के विकास की हृष्टि से किया गया है। अत विशाल नाट्यसाहित्य के अध्ययन वी हृष्टि में इसका विशेष महत्व नहीं है।

दशरूपकार ने रसाश्रित दशरूपकों के जिन वस्तु, नेता, तथा रम-तीन भेदक तत्त्वों का निर्देश किया है, उनके आधार पर भी समस्त नाटकों को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है—वस्तु-प्रधान (या घटना-प्रधान), पात्र-प्रधान तथा रस-

१. साहित्य दर्पण ६। ३००-३,

२. दशरूपक, १। ६,

३. वही १। १०,

४. दि सोशाल प्ले इन संस्कृत धौ० राधवन्, पृ० १-६,

५. नाट्यसमीक्षा: दशरथ ओझा, पृ० १०,

६. दि सोशाल प्ले इन संस्कृत धौ० राधवन्, पृ० १-६,

प्रधान। इसके अतिरिक्त दशरूपकोक्त ३ मूल तत्त्वों के आधार पर और भी सूक्ष्म वर्गीकरण किया जा सकता है :

(१) रस के आधार परः—भारतीय आचार्यों ने नाटक में चंगीरस के सम्बन्ध में केवल २ रसों—वीर, शृंगार का विवान किया है।<sup>१</sup> किन्तु प्रतिभाशाली क्रान्ति-कारी लेखक लक्षणग्रन्थों के अनुसार नाटक नहीं रचता है। अतः करण तथा शांत आदि रसों का भी अंगीरस के रूप में विनियोग हुआ है, तथापि स्वतन्त्र रूप से सभी ६-१० रसों पर आश्रित नाटकों का अभाव है। अतः समस्त रसों के आधार पर ६-१० भागों में नाट्यसाहित्य को विभक्त करने की अपेक्षा ५ भागों में विभक्त करना उचित है। शृंगारप्रधान, वीरप्रधान, करणप्रधान, शान्तप्रधान तथा अन्य। किन्तु यह वर्गीकरण भी केवल रस विवेचन की दृष्टि से उपयोगी हो सकता है, नाटकों के सर्वांगीण विवेचन की दृष्टि से नहीं। अतएव हम इसे ग्राह्य नहीं मानते।

(२) पात्रों के आधार परः—नेता तत्त्व को आधार बनाकर पात्रों की वहुलता या प्रभाव के आधार पर समस्त नाटकों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है—नायिकाप्रधान तथा नायकप्रधान। इसके अतिरिक्त एक पात्र वाले को एकाकी, (एक पात्री) दो पात्र वाले को युग्म (द्वि पात्री) आदि के रूप में भी विभागीकरण सम्भव है, किन्तु यह सर्वथा अनुपयोगी तथा अपूर्ण है। नाट्यकला के सभीक्षण की दृष्टि से इस वर्गीकरण का किञ्चिदपि महत्त्व नहीं है।

(३) वस्तु के आधार परः—वस्तु तत्त्व के आधार पर नाट्यसाहित्य का कई प्रकार से वर्गीकरण सम्भव है। उपजीव्यता के आधार पर प्रस्तातवस्तुप्रधान, उत्पादवस्तुप्रधान तथा मिश्रवस्तुप्रधान वर्गीकरण किया जा सकता है, किन्तु न तो यह व्यवस्थित है और न विवेचन में विशेष सहायक ही। इसी प्रकार साहित्य विधाओं के आधार पर वैदिक नाटक, पौराणिक नाटक, महाभारत नाटक आदि वर्ग सम्भव हैं, किन्तु ये भी अत्यन्त सामान्य तथा एकांगी हैं। इसी प्रकार कालगत साहित्य के आधार पर भी वैदिककालीन, महाकाव्यकालीन, वौद्धकालीन आदि वर्ग बनाये जा सकते हैं। किन्तु ये भी अधिक उपयोगी प्रतीत नहीं होते हैं। सामान्यतः उपर्युक्त ३ तत्त्वों के आधार पर नाटकों का वर्गीकरण किया अवश्य जा सकता है, किन्तु वह सामान्य तथा एकांगी होगा। उसमें सार्वदेशिकता तथा सर्वकालिकता का अभाव होगा। यही नहीं, बल्कि सभीक्षण की दृष्टि से अनुपयुक्त तथा भ्रांतिकर भी होगा। अतः हम कथावस्तु के आधार पर ही उनकी विशेषताओं को सम्मुख रख कर व्यापक वर्गीकरण करना उचित समझते हैं।

१. “एक एव भवेदंग”, शृंगारो वीर एव वा” साहित्य वर्षण ६।३०७,

प्रमुखत विषयगत विशेषता के आधार पर हम समस्त नाथ्यमाहित्य को निम्न बागो में विभक्त कर सकते हैं —

(१) पौराणिक, (२) सामाजिक, (३) रूपनाटमव (प्रतीकात्मक) (४) ऐतिहासिक तथा (५) अन्य ।

(१) पौराणिक नाटक — पौराणिक नाटकों से हमारा अभिप्राय उन नाटकों से है, जिनमें प्राचीन ऐतिहासिक, दैवी तथा प्राचीन पुराकथात्मक इतिवृत्त को उपजीव्य बनाया गया हो या पौराणिक शैली अपनायी गई हो। अत वेवल पुराणप्रत्या पर आधारित नाटकों को पौराणिक नाटक मानना उचित नहीं है। और यद्योऽपि प्राप्त पुराणों में इतिहास भी है, पुण्य भी है। अत पुराणों में प्राप्त पुराकथाओं पर आधारित नाटकों को ही पौराणिक बहना उचित है। इसके अतिरिक्त रामायण-महाभारत को भारतीय परम्परा में यद्यपि इतिहास माना जाता रहा है, तथापि इनकी सूर्यों ऐतिहासिकता का निश्चय अभी नहीं हुआ है और इनमें पौराणिक तत्त्व भी अधिकांश में परिव्याप्त हैं। अत इन्हें भा पौराणिक मत्ता प्राप्त है। यही कारण है कि हम रामायण तथा महाभारत पर आधारित नाटकों का पौराणिक नाटक बहना उचित नम्मत है। इसी प्रकार प्राचीन वाङ्मय में भी प्राय उपास्यान शब्द पुराण के पर्याय के रूप में प्रयुक्त है। अत वेदिक आस्यानोपास्याना पर आधारित या वेदिक साहित्य पर आधारित नाटकों का भी पौराणिक नाटक बहना उपयुक्त है। यही नहीं, बल्कि अवधीन आदर्शप्रधान, धार्मिक तथा भक्तिपरव इतिवृत्त को अतिरजनात्मक, वल्पनाप्रधान पौराणिक शैली में स्वायित करने के कारण उन्हें पौराणिक नाटक ही बहना आद्यक उचित समझते हैं।

उपर्युक्त निर्देश के १४वां हम कह सकते हैं कि पौराणिक नाटकों में दो तत्त्व प्राय प्राप्त होते हैं—(१) पौराणिक शैलों अर्थात् अनियायोक्ति अर्गैक्षिकता, अतिरजनात्मकता, असाधारण चित्र, चमत्कार-प्रावाय तथा दैवी तत्त्वा आ विनियोग। (२) कथा पुण्यकथा वे रूप में धार्मिक-दृष्ट धीरवृत्त तथा देवाण्यानपरव इतिवृत्त आदि। अत हम गमकथा, वृष्णीकथा, अन्य प्राचीन धार्मिक कथा, महाभारत, बुधकथा, वेदिक उपास्यान तथा पौराणिक शैली में उपनिवेद आदर्शचरित्र, धार्मिक चरित्र तथा सत्त्वरित्र पर आधारित नाटकों को पौराणिक नाटकों के अन्तर्गत मानते हैं। उत्तररामचरित्र, अभिज्ञानशाकुन्तल, वेणीसहार आदि सरकृत के अधिकांश नाटक इसी वर्ग में आते हैं।

(२) सामाजिक नाटक—सामाजिक नाटकों से अभिप्राय उन नाटकों से है जिनमें सामाजिक इतिवृत्त को नाटक का आधार बनाया जाता है। प्राय ऐसे नाटकों में समकालीन धार्मिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आदि समस्या पर आधारित कथानक

लो ही रूपादित किया जाता है। इन नाटकों में पात्र काल्पनिक तथा वास्तविक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। सामान्यतः इनमें आधुनिक विषयों पर आधारित समस्याप्रधान नाटक आते हैं।

यदि प्राचीन सामाजिक वस्तु को आधुनिक काल में उपजीव्य बनाकर नाटक लिखा जाये तो वह सामाजिक होने पर भी ऐतिहासिक नाटक के समान ही महत्वपूर्ण होगा। अतः प्राचीन कालीन सामाजिक नाटक को भी हम ऐतिहासिक नाटकों के समान महत्वपूर्ण समझते हैं। यदि ऐसे नाटकों में कदाचित् प्रासंगिक रूप से ऐतिहासिक वृत्त ही या राजनीतिक वातावरण हो तो ऐसे नाटकों को ऐतिहासिक नाटक मानना ही उचित होगा। उदाहरण के लिये बीसवीं सदी के गांधीविजय तथा भारतविजय सामाजिक नाटक है, किन्तु मृद्घटकटिक को सामाजिक नाटक होते हुए भी हम ऐतिहासिक नाटक के समान उपयोगी समझते हैं।

(३) रूपकात्मक (प्रतीकात्मक) नाटकः—रूपकात्मक नाटकों में वे नाटक आते हैं, जिनमें अमूर्ततत्त्वों को मूर्तकल्पना या लाक्षणिक तथा प्रतीकात्मक तत्त्वों पर सजीव पात्रों का आरोप करके रूपकर्जली में नाट्ययोजना की जाती है। ऐसे नाटकों में श्रद्धा, भक्ति, विवेक आदि अमूर्त तथा भावबाचक तत्त्वों को मूर्तपात्रों के समान नाटकीय रूप दिया जाता है। इन नाटकों में—प्रायः वस्तु उत्पाद्य तथा आध्यात्मिक या मनोवैज्ञानिक होती है। कभी-कभी इनमें सांसारिक सामाजिक या ऐतिहासिक घटनाओं का तथा १-२ वास्तविक पात्रों का भी विनियोग किया जाता है। प्रायः ऐसे नाटक धार्मिक तथा व्यग्यप्रवान होते हैं, प्रदोषवचन्द्रोदय, चैतन्य-चन्द्रोदय आदि नाटक इसी प्रकार के हैं।

(४) ऐतिहासिक नाटकः—ऐतिहासिक नाटकों में वे नाटक आते हैं जिनमें किसी न किसी रूप में इतिहास का विनियोग होता है। कथा-वस्तु प्रासंगिक या आधिकारिक रूप से ऐतिहासिक होती है; प्रधान या गौण पात्र ऐतिहासिक अवश्य होते हैं, अथवा पात्रों पर ऐतिहासिकता का आरोप अर्थात् इतिहासीकरण होता है। स्वप्नवासवदत्ता, प्रतिज्ञायीगन्धरायण तथा मुद्राराक्षस आदि नाटक इसी प्रकार के नाटक हैं।

(५.) काल्पनिक आदि अन्यः—उपर्युक्त नाटक के प्रकारों से अवशिष्ट नाटकों को इस वर्ग में रख सकते हैं। जैसे कुछ नाटक नितान्त काल्पनिक होते हैं, उनकी वस्तु, पात्र आदि सभी कल्पना द्वारा अभिसृष्ट होती है उन्हें इस वर्ग में रखा जा सकता है। किन्तु, संस्कृत में ऐसे नाटक बहुत स्वल्प हैं, जो कि उपर्युक्त नाट्य प्रकारों के अन्तर्गत न आ सकें। अतः नाटकों के सर्वांगीण विवेचन की दृष्टि से उपर्युक्त वर्गीकरण को हम व्यवस्थित तथा अधिक उचित समझते हैं।

## ऐतिहासिक नाटक

सस्तुत के ऐतिहासिक नाटक हमारे प्रबन्ध का विवेच्य विषय है। इसके 'ऐतिहासिक नाटक' शब्द से स्पष्ट है कि इसका सम्बन्ध इतिहास से नहीं, अग्रिम इतिहास पर आधित नाटकों से है। अत नाथ्य तत्त्व ही इसम प्रमुख है, इतिहास नहीं, तथापि, इन नाटकों में इतिहास का विनियोग विसी न विसी रूप म आवश्यक होता है। यही बारण है कि इतिहास तथा कल्पना के विनियोग-प्रकार के आधार पर इनके अनेक प्रकार सभव हैं। इसके अतिरिक्त कुछ विद्वान् पौराणिक नाटकों यों भी ऐतिहासिक बहना उचित समझते हैं तो कुछ प्रागैतिहासिक नाटकों को भी। अत इन नाटकों के उपजीव्यभूत इतिहास का स्वरूप तथा प्रकार आदि भी पृथक् विवेच्य विषय है। अतएव हम ऐतिहासिक नाटकों के विवेचन से पूर्व इतिहास के स्वरूप, प्रकार तथा उनके विनियोग-प्रकार से सम्बन्धित अनेक समस्याओं का समाधान तथा स्पष्टीकरण आवश्यक समझते हैं। यही नहीं, बल्कि मुख्यतः सस्तुत के ऐतिहासिक नाटक अन्य भाषाओं के ऐतिहासिक नाटकों से कुछ भिन्न तथा विशेष प्रकार के होते हैं, अत अग्रिम अध्यायों में उनके अध्ययन से पूर्व इन सब विषयों पर आवश्यकता-नुसार सक्षिप्त प्रवाग डालेंगे।

## इतिहास और ऐतिहासिक नाटक

इतिहास ऐतिहासिक नाटक का मूलआधार है। इतिहास की भूमि पर ही ऐतिहासिक नाटक का प्रासाद सड़ा किया जाता है। यद्यपि ऐतिहासिक नाटक संबंध्यम नाटक है, तथापि आधारभूत इतिहास के विना उस नाटक की रचना असम्भव है। अतएव ऐतिहासिक नाटककार को ऐतिहासिक नाटक के सृजन के लिए किसी न किसी रूप में बस्तु, पात्र आदि तत्त्व इतिहास से ही संजोने पड़ते हैं। किन्तु, इतिहास अनेक रूपात्मक है। इतिहास के भी अनेक स्रोत होते हैं तथा इतिहास का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। अतः नाटककार कहाँ से, किस रूप में इतिहास का चयन करता है, वह उसकी मान्यता, प्रतिभा, उद्देश्य तथा अभिरुचि पर निर्भर करता है। इसी प्रकार यह इतिहास की सीमा में आकर इसे ही क्यों रूपायित करता है, आदि प्रश्न भी उसके उद्देश्य तथा अभिरुचि से सावधित हैं। तथापि, यह सब ऐतिहासिक नाटकों के अव्ययन की दृष्टि से अनुसन्धेय हैं। अतः यहाँ विशेष विस्तार का अवसर न होते हुए भी, इस पर संक्षेप में प्रकाश डालना आवश्यक है।

### इतिहास का स्वरूप, परिभाषा एवं क्षेत्र

**सामान्यतः** भूतकालीन तत्त्वों की स्रोज तथा उनके विवरण को ही इतिहास माना जाता है।<sup>१</sup> भारत में इतिहास के लिए पुरावृत्त, उपाख्यान, पुराणोपाख्यान, पुरावृत्तोपाख्यान आदि शब्द भी प्रचलित रहे हैं।<sup>२</sup> इंग्लिश में इसे हिस्ट्री कहा जाता है। हिस्ट्री शब्द ग्रीक हिस्टोरिया का तत्सम है, जिसका अर्थ है तलाश, स्रोज, अनु-

१. ए स्टडी आफ हिस्ट्री: ए० जे० टायनवी, वाल्यूम १, १६४८, पृ० ४४१,

२. इंग्लिश संस्कृत डिक्षनरी: मोनियर विलियम्स, १६५६, पृ० ३४५, तथा अमरकोप १६१४,

सन्धान, सूचना आदि ।<sup>१</sup> इतिहास शब्द भी यही अर्थ रखता है, इति+ह+आस=इस प्रकार निश्चय रूप से हुआ ।<sup>२</sup> अत इतिहास में घटनाओं के ऋमिक धरण तथा निश्चयात्मकता का होना आवश्यक है ।

साधारणत इतिहास निमाण के दो मूलभूत आधार हैं । मनुष्य तथा भूमि । अत विसी भी देश के मनुष्यों के क्रिया-व्यापों को, जो कि प्रवहमान समय के प्रवाह के साथ प्रवाहित हो रहे हैं, यदि कोई शास्त्र सप्तह बरता है तो वह केवल इतिहास है । अतएव माना जाता है कि 'भूतवालीन तथ्यों का कालयम से सप्तह ही इतिहास है' ।<sup>३</sup> उक्सी प्रकार कुछ विद्वान् इतिहासों को "कालवृत्ति स्मृति में पिरोई हुई घटनाओं की माला" ।<sup>४</sup> वहना अधिक उचित मानते हैं ।

कि '॥ निमग्निदहु इतिहास के निमणि में वाल तथा घटनाएँ विनीत का समान महस्त्व हैं' काल से पृथक् इतिहासों कोई स्वरूप समिक्षा नहीं है । काल की भित्ति पर ही इतिहास की इमारत निर्मित होती है ।<sup>५</sup> इतिहास का निमणि काल पर होता है, और उसे निर्धारण की ओराएँ है घटनायें । अत हमें काल तथा घटनाओं की इतिहास के दो प्रमुख अधिकार मान सकते हैं । इसे हप्तिसे हैमें कहा सकते हैं कि 'मनुष्य के ग्रन्ति वै घटनाओं का निष्कर्यात्मक ग्रन्ति हो' इतिहास है । अर्जुन की प्रत्येक घटना कल इतिहास का रूप ले लेगी इस प्रकार इतिहास में अतीत काल से सर्वनिधि मनुष्यों द्वारा सभी महस्त्वपूर्ण घटनाओं प्रथलीं तथा घटनाओं का विवरण होता है । विवरण शब्द से स्पष्ट है । कि इतिहास में उन घटनाओं का निश्चयात्मक रूप से ऋमिक वर्णन आवश्यक है नहीं । इति+ह+आवश्यक है । इति+ह+आवश्यक है ।

किडां प्रत्येक इतिहासमें कई विसी भी देखती जाति का इतिहास निर्माण करते हैं भूमि की देशों को स्थिति, प्राकृति, अवस्था, सांस्कृतिक सीमाएँ भौगोलिक स्थान, इत्यादि आदि आवश्यक हैं ।

१. एन्साइक्लोपेडिया आफ र्सीशल ऑसाइटेज, भाग, छ, अनुव. ३५६८ देखते हैं—  
ग्राम्य नाम प्रेरणा अभिनृदन प्रथ्य, १६४६, पृ० ३७५, वस्तुत जम्मन धातु गुशेरन (Gusherchen), से निर्मित गेशिल्टे (Geechichle) शब्द के अर्थ से गान्ना वृहद्द्वारा के प्रचलित अर्थ वाले शब्द से विशेष साम्य है । इयोकि गेशिल्टे भूमि घटनाएँ, गर विशेष बल देता है । ग्राम्य राष्ट्रों द्वी प्राप्ति ०० द्वितीय ।

२. 'इति+इत्य, ह+निश्चयेन, आस+वभव,' ।

३. ए न्यू इगलिश डिक्शनरी एच० ए० मरे, १६०१, पृ० ३०४,

४. 'अनुसन्धान और प्रतिक्रिया इतिहास और साहित्य' डॉ लालरामन्न, १६६०, पृ० ५७५ द्वितीय, ३४३९, जगदीश रामनारायण डिक्शनरी छुड़ान लालीम्बू ५

५. वहो ।

६. १३१९ एडिशन

स्थानीय, धाराम-प्रवास, भागों तथा सांस्कृतिक, विनियोग आदि के सम्बन्ध में समुचित ज्ञान होता आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त इतिहास में काल-निर्णय तथा साक्षियों की सारांशी जाय, दोनों भी आवश्यक है। इसीलिए वहाँ अन्य विज्ञानों का समावेश प्रणाली करता है। अतः स्पष्ट है कि इतिहास के वर्ल रवाश्रित नहीं, अपितु पराश्रित है। इसमें अन्य शास्त्रों तथा विज्ञानों का विनियोग आवश्यक है।

अर्वाचीन दृष्टिकोण के अनुसार इतिहास एक विज्ञान है। विज्ञान में प्रायः साधारण नियमों की व्याख्या तथा तुलनात्मक श्राधार पर उनका प्रयोग किया जाता है।<sup>३</sup> इसमें भी तथ्यों का अन्वेषण, शोध तथा प्रमाणों की साक्षी अपेक्षित होती है। अतः दोनों में साम्य है। यही नहीं, वल्कि आक्रियालाजी, एथोलाजी, फिलोलाजी, ज्याग्राफी, कानोलाजी आदि विज्ञान इतिहास के प्रमुख अंग हैं। मुख्यतः फ़ानोलाजी तथा ज्याग्राफी को तो सूर्यचन्द्र के समान इतिहास की दो ग्रांडें कहा जाता है।<sup>४</sup> स्पष्ट है कि इतिहास में अन्यान्य विज्ञानों के आधार पर भूतकालीन तत्त्वों तथा तथ्यों का अन्वेषण, प्रमाणीकरण तथा उन्हें क्रमिक एकरूपता देने का प्रयास रहता है। इस दृष्टि से इतिहास विज्ञान है।

यद्यपि यह सच है कि इतिहास में वैज्ञानिकता रहती है। अर्वज्ञानिक प्रकार से इतिहास की घटनाओं का कालक्रम, तिथिचत, कर देने, मात्र से इतिहास, इतिहास नहीं कहा जा सकता। किन्तु दोनों में पर्याप्त अन्तर भी है। इतिहास विज्ञान के समान पदार्थ का प्रत्यक्षीकरण, पृथक्करण तथा प्रयोग नहीं कर सकता। इतिहासकार का पदार्थ काल में है, स्थल में नहीं। अतः इतिहास अन्य विज्ञानों के समान विज्ञान नहीं कहा जा सकता। इसके अतिरिक्त अनुमान-प्रक्रिया तथा संशिलिष्ट संभाव्यता के आधार पर इतिहास में एकरूपता लाने के लिये कल्पना का विनियोग भी आवश्यक होता है।<sup>५</sup> टॉयनबी के शब्दों में इतिहासकार जनता के भावों तथा विचारों की अभिव्यक्ति के क्षेत्र में कल्पना का आश्रय लेने को विवश है।<sup>६</sup> यही कारण है कि ऐतिहासिक कही जान वाली घटनाओं में पर्याप्त विश्वेषात्मकता न होकर कल्पना तथा

१. अनुसन्धान और प्रक्रिया: (इतिहास और साहित्य) डा० ताराचन्द्र, १६६०, पृ० १५४।

२. ए स्टडी आफ हिस्ट्री: टायनबी, भाग १, पृ० ४४१,

३. 'जोग्राफी एन्ड क्रीनोलैजी' आर दी सन् एन्ड दी मूर्न दी रेडिट' आइ एंड लैपट आफ आल हिस्ट्री। १५ लाइब्रेरी, १२ अप्रैल

४. देखो—नायुराम प्रेसी अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० २५४।

५. देखो, वही, पृ० २७६,

६. ए स्टडी आफ हिस्ट्री, भाग १, पृ० ४४५,

संभावना का व्यापार भी होता है। अब इनिहाम विज्ञान भी है और कला भी। यह विज्ञान के समान म्यनियो, सत्यायो, प्रगतियो तथा आन्दोलनों का विशेषण भवशय बरता है पर साथ ही कला के समान उनका सामोपाग बर्णन एवं सृजन भी करता है।<sup>१</sup> अब विज्ञान तथा कला का मतुलित निर्वाह होने पर ही सफल इतिहास सृजन सभव है और विज्ञान तथा इनिहाम के इस समन्वय होने पर ही भत्य ग्रांर गौल के समन्वय होने में मनुष्य की प्रगति होती है।<sup>२</sup> इस प्रकार स्पष्ट है कि इतिहास वे हप निर्माण म जर विज्ञान तथा कला दोनों समन्वयात्मक हप मे सक्रिय रहते हैं, तभी इनिहाम के उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। और यही कारण है कि इतिहास का महत्व विज्ञान तथा कला मे भी अधिक बढ़ जाता है।

### इतिहास की परिवर्तनवादी प्रवृत्ति

इनिहासकार को इनिहाम का अध्ययन तथा सृजन करते समय तथा स्थानगत प्रचलित प्रवृत्तियों मे अनुशासित रहना पड़ता है।<sup>३</sup> वह देश-बाल की उपेक्षा नहीं कर सकता। इसी प्रकार टायनबी के शब्दों म, जबकि वह स्वयं अपने विचारों तथा भावों को उस वानावरण मे जिसम वह रहता है, पृथम् नहीं रख सकता,<sup>४</sup> तो यह भी निश्चित है कि उग दग, बाल तथा वातावरण के अनुमार अपने विचारों भीर अभिव्यक्ति प्रकार म परिवर्तन करना होता है। यही कारण है कि देश विदेश के इतिहास सृजन की प्रतिक्षा, प्रवृत्ति तथा हट्टिकोण न समय समय पर बदलाव निया है। इस हट्टि से इतिहास का आधुनिक चंगानिक हप तक पहुँचाने वाले पारचात्यों की विचारधारा का सर्वेक्षण करने पर परिवर्तन की प्रवर्तनान प्रक्रिया की हमारी धारणा और भी स्पष्ट हो जाती है।

प्रारम्भ मे पारचात्य इतिहास-जगत मे इतिहास के जनक हेरोडोटस तथा लिकी के इतिहास ग्रन्थों को, करपनाधा के अम्बार मे तथ्याश माप होने पर भी इतिहास का प्रतिनिधि माना जाता जाता था। घाद मे मोसमसन जैसे प्रतिनिधि इतिहासमार आते हैं, टायनबी के अनुसार, जिनकी वृत्तियों मे अपनी शक्ति की शिलांगिक, हस्तलिखित ग्रन्थ आदि सामग्री मे जैमानन्सा व्यवस्थित-ग्रंथव्यवस्थित इतिहाम लिख दिया गया है।<sup>५</sup> वस्तुत हेरोडोटस आदि के ग्रन्थ पूरे अर्थ म इतिहास

१. अनुसन्धान और प्रक्रिया. इतिहास और साहित्य, ढा० साराधन्द, पृ० १६५,
२. देखो, इतिहास दर्शन ढा० बुद्धप्रवाश, पृ० ३६८,
३. ए स्टडी आफ हिस्ट्री टायनबी, भाग १, पृ० १,
४. वही, पृ० १५,
५. वही, पृ० ८,

की कर्तृटी पर स्वरे नहीं उत्तरते। इन्हें इतिहास का पहला कदम माना जाता है।<sup>१</sup> इसके बाद यज-पराजय, पड़यन्त्र विद्रोह की घटनाओं को इतिहास माना जाने लगा। इनमें राजा-सामन्त आदि की घटनाओं से इतिहास के पृष्ठ रंगे होते हैं। जर्मन इतिहासकार रॉके ने भी इतिहास को यथार्थवादी चोगा पहनाया तथा राजनीतिक इतिहास के सूजन को महत्व दिया।<sup>२</sup> १६वीं शती में माकियावेली तथा गिबन ने इतिहास को और भी नये मोड़ दिये।<sup>३</sup> १६वीं शती में डाविन की विकासवादी विचारधारा ने सभी विचारधाराओं को प्रभावित किया और इतिहास राजतन्त्र से अकुलाहट अनुभव करने लगा।<sup>४</sup> फलतः राजतन्त्र तथा सामन्तवाद से ऊपर उठा, किन्तु आज पुनः हिष्टिकोण में परिवर्तन आ रहा है और इतिहास की अभिनव परिसीमाओं, मौलिक मान्यताओं तथा स्वरूप एवं मापदण्डों का पुनर्निर्धारण हो रहा है।

अवचीन विचारधारा के अनुमार केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षा तथा उत्थान-पतन की कहानी ही इतिहास नहीं मानी जाती, अपिनु आज इतिहास में सम्यता तथा संस्कृति के उद्धारित एवं प्रकाशित करने की चेष्टा अधिक रहती है। टायनबो इतिहास पर राजनीतिक तथा आर्थिक आदि संस्थाओं तथा दशाओं का प्रभाव स्वीकार करता है।<sup>५</sup> वह प्रचलित प्रवर्तमान प्रत्येक वातावरण को इतिहास की हिष्टि से महत्व देता है।<sup>६</sup> उसका मत है कि वह जिस समाज में रहता है तथा जो समाज मानव के विभिन्न समयों तथा स्थानों के रहने का स्थान है, उसका प्रभाव उस पर पड़ना आवश्यक भावी है।<sup>७</sup> इसी प्रकार वह इतिहासकार के द्वारा समाज के विभिन्न समुदायों या वर्गों के सूक्ष्म भेदों तथा सम्बन्ध के रहस्यों का उद्घाटन आवश्यक मानता है।<sup>८</sup>

उपर्युक्त विहंगावनोकन से स्पष्ट है कि इतिहास में परिवर्तनवादी प्रवृत्ति

१. अनुसन्धान और प्रक्रिया: इतिहास और साहित्य: डा० ताराचन्द का लेख, पृ० १५८,
२. देखिये, इतिहास दर्शन, डा० बुद्ध प्रकाश, पृ० १०,
३. अनुसन्धान और प्रक्रिया: डा० ताराचन्द का लेख, पृ० १५६-१६०,
४. अनुसन्धान और प्रक्रिया: डा० ताराचन्द का लेख, पृ० १६०,
५. ए स्टडी आफ हिस्ट्री: टायनबो, पृ० २,
६. वही, पृ० १६,
७. वही।
८. वही, पृ० ३६,

निसर्गेत् रहती है । अतः इतिहास के स्वरूप आदि के सम्बन्ध में हृष्टि नाई । तथा मान्यताओं में परिवर्तन होता रहा है तथा होता रहता है । यद्यपि दायनकी आदि का ग्रन्थिनव इतिहासदर्शन ग्रन्थी सामंभौमिक स्वीकृति नहीं पा सका है किन्तु बायाभर में सम्भवतः यह स्वीकार किया जान सोगा । अतः आज भी इतिहास की धारा राजनीतिक तथा सास्कृतिक दो क्लूबों के मध्य बंदवाहिन हो रही है । अतः वैदिक हृष्टि से प्रचलित इतिहास के दो ही मूलभूत धाराएँ हैं—राजनीतिक तथा मस्कृतिक । इसके अनिरिक्त आज भी इतिहास में तीन गुण आवश्यक हैं—(१) निश्चात्मकता, (२) घटनाक्रम तथा (३) नियिक्रम ।

### प्राचीन भारत का इतिहास एवं उसका स्वरूप

इतिहास के स्वरूप तथा इतिहास-मृजन की प्रवृत्ति आदि वे सम्बन्ध में प्रकाश ढालने के पश्चात् यही भारतीय इतिहास वे सम्बन्ध में चर्चा करना उपयुक्त होगा । क्योंकि सस्कृत के ऐतिहासिक नाटकों मा सम्बन्ध प्रत्यक्षतः भारतीय इतिहास से है । सामान्यतः भारत के प्राचीन इतिहास के अभाव तथा भारतीयों मा इतिहास-नियन्त्रण की अयोग्यता आदि के सम्बन्ध में पर्याप्त तथा अल्पक्षणी आदि, पाश्चात्य विदानों ने अनेक आरोप, लगाय हैं । किन्तु उनके, आरोप, तथा मानेप, निराधार हैं ।

इतिहास के सम्बन्ध में प्राचीन, वाह्यमय, मे अनेक, उन्नेस्त, प्राप्त हैं । इसके अतिरिक्त मारत, का, प्राचीन, वाह्यमय सुर, अमुर, राजा—महाराजाओं, आदि के दृतान्तों से भरा पड़ा है ।<sup>१</sup> यही नहीं, वृत्तिक प्राचीन भारत, मे वशाग्रह्यरा का ज्ञान तथा तिथि, ज्ञान भी रहा है ।<sup>२</sup> भारतीयों का इतिहास नहीं रहा है या। उन्हें इतिहास प्रेम, नहीं है, ऐसी, वात, नहीं है, अपिनु इतिहास वारण्य इतिहास के सम्बन्ध में केवल हृष्टिकोण का प्रन्तर है । हम निर्देश वर खुके हैं कि इतिहास के स्वरूप, परिभाषा तथा प्रवृत्ति आदि के सम्बन्ध में परिवर्तन होता रहा है तथा होता रहता है । प्राचीन भारतीय हृष्टिकोण के अनुसार इतिहास में सुधारपूर्ण तथा जीवन मे उपादेय घटनाओं का आव्यानात्मक बरंग रहता था । प्राचीन पर्याप्तरा के अनुसार पुरुषार्थ चतुष्टय से सम्बद्धित क्योंत्सेवा, यूवंशुत्तहीं इतिहास कहा जाता

<sup>१</sup> ३३५ ॥ १८६ ॥ १८७ ॥ १८८ ॥ १८९ ॥ १९० ॥ १९१ ॥ १९२ ॥ १९३ ॥ १९४ ॥ १९५ ॥

<sup>२</sup> १९६ ॥ १९७ ॥ १९८ ॥ १९९ ॥ २०० ॥ १९१ ॥ १९२ ॥ १९३ ॥ १९४ ॥ १९५ ॥

१. देखिये, अबर हिस्टोरिक सेन्स बै० व्ही० श्रीर्व्वारा०। एस०८१० ॥ १६२४,
- पृ० ३२७-२८,
२. वही, पृ० ३२६,
३. वही, पृ० ३२६-३३,

रहा है।<sup>१</sup> कौटिल्य के समय तक सम्भवतः 'येही मान्यता प्रचलित थी'। कौटिल्य के शब्दों में जिन ग्रन्थों में पुराण इतिवृत्त, आत्मायाचिका, 'उदाहरण', 'धर्मग्रास्त्र' एवं धर्मग्रास्त्र हो, वह इतिहास होता है—

"पुराणमितीवृत्तमात्मायाचिकोदाहरणधर्मग्रास्त्रमर्थाशास्त्रंचेति" इतिहासः । १०८

भारत के प्राचीन इतिहास का प्रणयन इसी स्वरूप के अनुरूप हुआ है। इस इतिहास-पुराण का भारत में वृहद्भंडार है। अतः भारतीयों के इतिहास के अभाव की आशंका अनुपयुक्त है।<sup>२</sup>

किन्तु, भारत में जिन पुराणों की कथाओं को इतिहास माना जाता है, उनमें तथ्यांश कम तथा आत्म्यान का परिमाण अधिक रहता था।<sup>३</sup> अतः आज जिस प्रकार के वैज्ञानिक इतिहास की अपेक्षा रखते हैं उसका अभाव, अवश्य माना जा सकता है। किन्तु विद्वानों का मत है कि इस प्रकार का इतिहास प्राचीन काल में सम्भवतः ही कहीं रहा हो। पाश्चात्यों के उपलब्ध प्राचीन इतिहास भी कम अप्पे नहीं हैं। तथापि, इतना तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि हिरोडोटस आदि की कृतियाँ अपेक्षाकृत इतिहास के अधिक निकट हैं, किन्तु इसका तात्पर्य यह भी नहीं कि भारतीय पीराणिक साहित्य में ऐतिहासिक सामग्री नहीं है।

प्राचीन भारत की ऐतिहासिक सम्पत्ति का कुछ समय पूर्व तक न तो सम्यक् अन्वेषण ही हुआ था, और न उचित मूल्यांकन ही है। परन्तु, आधुनिक प्राच्य पाश्चात्य विद्वानों ने अनवरत शोव के पश्चात् भारतीय वाङ्मय तथा अपार पुरातत्व सामग्री के लिये भी भारत की "ऐतिहासिक समृद्धि" तथा "परम्परा" की प्रकाशित तथा प्रमाणित किया है। अतः "माज यह माना जाता है कि भारत में राजनीतिक तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को वास्तविक निर्माण सुदूरपूर्वकालीन प्राचीन तिहासिक युग में ही हो चुका था।" प्रस्तरवात्युगीन तथा सिन्धुसन्ध्यान की प्राप्त सामग्री से तत्कालीन "सर्वांगीण सांस्कृतिक विकास का" सम्बन्धज्ञान हो जाता है। उसके बाद की वैदिक, वैदिकोत्तर तथा बौद्ध युग की अपार लिखित सामग्री एवं पुरातत्व सामग्री उपलब्ध है, जिससे भारतीय इतिहास के प्राचीन स्वरूप तथा

धर्मयुक्तामोक्षारणामुपदेशसमन्वितम् ॥

पूर्ववृत्तकथावृत्तमितिहासं प्रचक्षते ॥

चिषोप-देविषो-अवर-हिस्तातिकुन्त संस्कृते० ज्ञ० श० आर० एस० १०,

१६२४,

२५ अगस्त २०१८

३. अनुसन्धान और प्रक्रिया, इतिहास और साहित्य डा० ताराचन्द्रसूर्य १५५,

परम्परा का ज्ञान होता है। इसीलिये सुप्रसिद्ध पाण्डित्य विद्वान् ए स्टीन ने भारतीय इतिहास की समृद्धि को स्वीकार किया है।<sup>१</sup>

विन्तु भारतीय ऐतिहासिक सामग्री की समृद्धि के अनुसन्धान के आधार पर यद्यपि यह तो स्वीकार किया जा सकता है कि भारतीयों में इतिहास—प्रेम, प्रतिभा तथा ज्ञान रहा है, तथापि प्राचीन भारत में जबकि गणित ज्योतिष, आयुर्वेद आदि विषयों को वैज्ञानिक रूप देवर अतिसमृद्ध किया गया है, तब क्या कारण है कि प्राचीन भारत के इतिहास में वैज्ञानिकता का अभाव रहा है? दूसरी ओर जबकि ब्रीक, रोमन आदि ने इसे वैज्ञानिक रूप दिया है। इससे प्रतीत होता है कि प्राचीन भारत में इतिहास के प्रति वास्तविक रुचि का अभाव था। अतएव यहाँ इतिहास के वैज्ञानिक रूप की उपक्षा हुई है। अनुमानत इसमें तीन प्रमुख कारण हैं—(१) प्राचीन भारत में ऐहिक चरित्रा की अपेक्षा पारलोरिंग विषयों के चिन्तन, अनुशीलन तथा अनुलेखन को अधिक महत्व दिया जाता था। (२) प्राचीन भारत में व्यक्ति की अपेक्षा घटनाओं को अधिक महत्व दिया जाता था। (३) प्राचीन भारत में इतिहास को पीराणिक पढ़ति मही लियने की पर परा थी। सभवत अतएव प्राचीन भारत का वैज्ञानिक इतिहास प्राप्त नहीं है। विन्तु वैज्ञानिक न्यूरूप के अभाव के कारण प्राचीन भारत में ऐतिहासिक परम्परा के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में यहाँ संक्षेप में प्राराश डालना उपयुक्त होगा।

### प्राचीन भारत के इतिहास की प्रणायन-पर परा

(१) वैदिक वाद्यमय में ऐतिहासिक परम्परा का समारम्भ—भारत की साहित्य-परम्परा का समारम्भ वैदिक वाद्यमय में माना जाता है। वैदिक वाद्यमय में उत्तिलिखित वर्ण, गीत, प्रवर आदि की तालिकाओं से ही भारतीय इतिहास उत्तर का श्रीगणेश माना जा सकता है।<sup>२</sup> कमकाढ़ आदि विषयों की पृष्ठभूमि में उद्भूत वैदिक आख्यानों में भी प्राचीन इतिहास निहित है। विद्वानों की मान्यता है कि मुख्यत दाशगजयुद्ध तथा दानस्तुति आदि से सम्बन्धित आख्यान तत्कालीन इतिहास में भी और सकेत करते हैं। इसी प्रकार देवासुर सग्राम आदि भी प्रतीक रूप में ऐतिहासिक माने जाते हैं। विद्वानों को मान्यता है कि प्राचीन सामरिक वृत्तान्तगमित आख्यानों में इतिहास का अश अवश्य रखता था। अधिकांश वैदिक साहित्य सामरिक वृत्तान्तों के रूप में लिखा गया है। सम्भवत इनके अभिलेखन में भी ऐतिहासिक प्रवृत्ति ही प्रेरक

१. देविये, हिस्ट्री आफ क्लासोकल सस्कृत लिटरेचर: एम० कृष्णमाचार्यमर,  
प्रस्तावना, पृ० ३८,
२. इतिहास दर्शन, डा० बुद्धप्रकाश, पृ० १७,

रही है।<sup>१</sup> तथापि, क्योंकि उनमें ग्रलैकिक शनितसम्पन्न देवता आदि के हस्तक्षेप को भी सहजरूप में स्वीकार किया गया है<sup>२</sup> तथा उनका अपने विशेष ढंग मेव र्णन किया है अतएव उनमें निश्चयात्मकता तथा क्रमबद्धता आदि का अभाव है। अतः ये इतिहासग्रन्थों की परिसीमा में नहीं आते, किन्तु प्रार्गेतिहासिक सामग्री के स्रोत के रूप में इनका महत्व है। इसी कारण वैदिक साहित्य के इतिवृत्तात्मक स्थलों से लेखन-क्रम का समारम्भ तथा उन्हें प्रार्गेतिहासिक सामग्री का स्रोत मानना उचित समझते हैं।

## (२) रामायण महाभारत में ऐतिहासिक परंपरा

भारतीय परम्परा में रामायण महाभारत को इतिहास कह कर पुराण साहित्य में भिन्नता का संकेत दिया है, किन्तु इन्हें १८ पुराणों के साथ-साथ पुराण संज्ञा से भी अभिहित किया गया है।<sup>३</sup> इनके अध्ययन से भी इनमें व्याप्त पीराणिक तत्त्वों के अस्तित्व का स्पष्ट पता चलता है। इसके अतिरिक्त इनकी सर्जना भी पुराणों के समान आख्यानों के रूप में हुआ है। अतएव इन्हें आख्यान भी कहा गया है।<sup>४</sup> भारतीय इतिहास की परम्परा के अनुसार परम्परागत वीर कथाओं को धर्म, दर्शन, राजनीति, इतिहास, पुराण और काव्य की सुन्दरता से सेवार कर वाल्मीकि तथा व्यास ने अपनी परिष्कृत भाषा में रूप दिया है।<sup>५</sup> अतः भारतीय परम्परा के अनुसार हम उन्हें आदि इतिहासकार भी कह सकते हैं।<sup>६</sup>

किन्तु, रामायण वस्तुतः आदि काव्य है तथा वाल्मीकि आदि-कवि। यद्यपि रामायण में ऐतिहासिक आख्यानक तथा अन्य अनेक पीराणिक तत्त्व हैं, अतएव स्वयं वाल्मीकि ने उसे आख्यान,<sup>७</sup> काव्य,<sup>८</sup> गीत,<sup>९</sup> कथा,<sup>१०</sup> तथा संहिता<sup>११</sup> तक कह दिया

१. देखिये—वही, पृ० १६१-५८,
२. इतिहास और दर्शन, डा० बुद्धप्रकाश. पृ० १७,
३. ए हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, विन्टरनिट्ज, भाग १, १६२७, पृ० ५१७,
४. वही, पृ० ३११,
५. सं० सा० इति०: गैरोला, पृ० २७३,
६. रामायण, विशेषतः: महाभारत विकसित महाकाव्य है, अतः इन्हें किसी एक व्यक्ति की तथा एक समय की कृति नहीं माना जाता। संभवतः पुराणविद् श्रुतजीवियों का इनके विकास में पूरा-पूरा योग रहा है।
७. रामायण, युद्ध०. ४।३२, ११८, १२५,
८. वही, वाल० २।४१, ४२,
९. वही, ४।२७,
१०. वही, २।३६,
११. वही, युद्ध १२, १२८,

है। महाभारत भी एक ऐसा ही ग्रन्थ है। उम्हें मूल में भी प्राचीन इतिहास के अग्र अवश्य हैं किन्तु, उन पर ग्रन्थ विषयों के तथा आव्याप्तियोग्यान के इतने पर्यंत चढ़े हैं कि वह विशालमागर या विश्वकोप के स्वप्न में परिवर्तित हो गया है। स्वयं व्याख्या ने उसमें अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, घर्मशास्त्र की सत्ता तो स्वीकार की ही है,<sup>१</sup> माय ही उसे इतिहास, पुराण, आत्म्यान, तथा साहित्य भी निया है। वस्तुतु ऐसा नोई भी विषय नहीं, जो इसमें न हो।<sup>२</sup> अत इसके लिए विभिन्न अभिधानों का प्रयोग सर्वद्या उचित है। हापकिन्स के अनुसार महाभारत में आव्याप्त क्यापुराण और इतिहास शब्दों का प्रयोग समान स्वप्न में हुआ है और तभी में विसी न विसी प्राचीन कहानी, घटना या आत्म्याना का वर्णन है।<sup>३</sup> इन कथा, कहानी या आत्म्यानों के बाह्यास्य से ये निरोक्तनित तथा तथ्यहीन प्रतीत होती हैं, परन्तु वस्तुत वे निराधार तथा बल्पित नहीं हैं, अपिन्तु उनका ऐतिहासिक आधार है तथा उनमें इतिहास के लिये अन्य उपयोगी सानंगी हैं।

दा० भार्गव के अनुमार रामायण में केवल रामकथा ही नहीं है अपिन्तु सम-कालीन कुछ राजवासादनियाँ भी हैं जो कि पौराणिक वशावली के संशोधन के लिये अति महत्वपूर्ण हैं। उनका कथन है कि रामायण काव्य है, इतिहास ग्रन्थ नहीं। इस कथा की बाह्य स्पष्टरेका तथा मुख्य-मुख्य चरित्र ऐतिहासिक प्रतीत होते हैं, किन्तु वे परिवृहित तथा बाल्पनिक हैं। उनकी मान्यता है कि परिवृहित तथा बाल्पनिक अग्र में से भी मूल ऐतिहासिक अग्र घोड़ा जा सकता है।<sup>४</sup>

रामायण की अपका महाभारत अधिक ऐतिहासिक प्रतीत होता है। महाभारत के युद्ध तथा युधिष्ठिर और ग्रन्थुन श्रादि के चरित्रों को विद्वानों ने ऐतिहासिक होने का अनुमान किया है। परन्तु बाल्पनिकता यही है कि अभी तब रामायण तथा महाभारत की ऐतिहासिकता के सम्बन्ध में अनुमान तथा सम्भावनायें ही बी गयी हैं। अत इनके चरित्र तथा घटनाओं को ऐतिहासिक मानन के निय अभी पर्याप्त शोध अपशिष्ट है। यद्यपि हम यह तो मानते हैं— कि इनमें भारत के थीर-युग का डितिहास अवश्य है, किन्तु इन्हें अभी ऐतिहासिक मानन की अपेक्षा प्रामंतिहासिक सामग्री का छोड़ा मानना ही अधिक उपयुक्त है।

१. अर्थशास्त्रमिद प्रोक्तं घर्मशास्त्रमिदमहत् कामशास्त्रमिद प्रोक्तं व्यामेनासित-बुद्धिना ॥ श्रादि० २।८३,
२. 'परिहस्ति तदन्यत्र यन्नेहस्ति न तद् कवचिद् ।'
३. दि घेट ऐपिक आफ इण्डिया० हापकिन्स, पृ० ५०,
४. इण्डिया इन दि वैदिक एज; दा० पी. एल. भार्गव, पृ० २१,

### (३) पुराणों में ऐतिहासिक परम्परा

पुराण शब्द वाङ्मय विशेष का चोतक है। पुराण शब्द का सामान्य अर्थ है प्राचीन। यह हिन्दी के 'पुराना' शब्द का संस्कृत रूप है। निरुक्त के अनुसार पुरानी बात को नवीन ढंग से कहने के कारण पुराण नामकरण हुआ (पुराणं कस्मात्, पुरानं वं मवति)।<sup>१</sup> पद्मपुराण के अनुसार प्राचीन परम्परा को कहने के कारण पुराण नाम पड़ा।<sup>२</sup> स्पष्ट है कि पुराणों में प्राचीन परम्परा का वाचन-अनुवाचन होता है।

सामान्यतः पौराणिक साहित्य धार्मिक उपाख्यानों के रूप में निवढ़ ऐसा साहित्य है, जिसमें विभिन्न कालों में प्राचीन परम्परागत विश्वासों के आधार पर प्राकृतिक, आश्चर्योत्पादक, अतिरंजनात्मक, दैवी तथा मानवी वर्गोंनों को धार्मिक रूप देकर उपन्यस्त किया गया है। अतः पुराणों में धार्मिक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक पक्ष प्रधान है, तथापि ऐतिहासिक अनुशीलन भी उसका एक भाग है। प्राचीन वीर-युग में, जिसका हम प्रार्गतिहासिक युग के रूप में उल्लेख कर आए हैं, इतिहास का स्वरूप पौराणिक रहा है। पुराणों में भी प्राचीन इतिहास पौराणिक रूप में ही उपलब्ध है।

भारतीय परम्परा के अनुसार वैदिक काल में ही पुराणों का अस्तित्व माना जाता है,<sup>३</sup> किन्तु वे आज हमें उस रूप में प्राप्त नहीं हैं। अनुमानतः समय-समय पर उनमें रूप परिवर्तन हुए हैं। डा० भार्गव ने अपने "वैदिक कालीन भारत" नामक शोधग्रन्थ में पौराणिक-साहित्य के सूक्ष्म अध्ययन के पश्चात् यह स्वीकार किया है कि पुराणों के कई संस्करण हुए हैं। उनके अनुमार उपलब्ध पुराण प्राचीन पुराणों से सर्वथा भिन्न तथा नवीन संस्करण है। पौराणिक अनुशीलन के बाद उन्होंने इनमें तथा प्राचीन पुराणों में पर्याप्त अन्तर माना है।<sup>४</sup> कुछ विद्वानों का मत है कि पुराणों का संक्षिप्तीकरण हुआ है,<sup>५</sup> तथा कुछ विषयों की वृद्धि से इनमें अभिवृद्धि भी स्वीकार करते हैं। यहाँ हम इस विवाद में न पड़ कर इतना ही कहना उचित समझते हैं कि पुराणों का पुनः संपादन तथा वर्गीकरण अवश्य हुआ है तथा सम्भवतः समय-समय पर इनमें अन्यान्य विषयों का प्रक्षेप भी होता रहा है।

१. निरुक्तः ३।१६।२४,

२. पद्मपुराण १।२।५३, तथा देखिये अमरकोषः पुराणे प्रतनप्रत्नपुरातन-विरन्तनाः। ३।७५,

३. देखिये, सं० सा० इति० गैरोला पृ० २८६-२८८,

४. इंडिया इन दि वैदिक ऐजः डा० पी. एल. भार्गव, पृ० १३, १६,

५. साप्ताहिक हिन्दुस्तान, २२ जुलाई, १९५६ में गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी का लेख।

कुछ विद्वान् पुराणों के अतिरिक्त इतिहास मन्थों का पृथक् अस्तित्व भी मानते हैं,<sup>१</sup> किन्तु यह एक विवादास्पद विषय है। हम कह आये हैं कि वैदिक साहित्य म् पुराणों वा अनेकश उल्लेख हुआ है, परन्तु वेद, व्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद् आदि ग्रन्थों के भाथ जिन पुराणों का उल्लेख हुआ है वे अब उपलब्ध नहीं हैं। किन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि प्राचीन युग में उनकी स्थिति अवश्य थी और उनम् न केवल सृष्टि विषयक वथा का वर्णन था, बरत् उनकी दिव्य वथाएँ वशवृत्तों से भी सपृक्त थीं।<sup>२</sup> आज भी पुराणों वा हमें लगभग यही रूप प्राप्त है।

भारतीय परम्परा के अनुसार पुराणों के पचलक्षण वत्साये गए हैं—सृष्टि-विस्तार एवं प्रलय वशावली, मनुश्चों का समय एवं उनकी घटनाएँ तथा विशेष वशा के राजाश्चों का चरित्र, ये जिसमें हो उसे ही पुराण कहा जाता है।<sup>३</sup> इन पचलक्षणों के अतिम लक्षण से पुराणों में इतिहास के अस्तित्व वा ज्ञान होता है। इससे स्पष्ट है कि पौराणिक साहित्य में इतिहास अवेक्षाङ्क अधिक परिमाण में उपलब्ध होता है, जबकि रामायण तथा महाभारत में इसका अस्तित्व अति प्रच्छन्न है। डा० भार्गव ने लिखा है कि अधिकांश पुराणों की सामान्य विशेषता प्राचीन आद्यं शासकों की वशावलियाँ प्रस्तुत करता है।<sup>४</sup> उन्होंने पुराणों को वैदिककाल के इतिहास के रूप म् अत्यधिक उपयोगी माना है।<sup>५</sup> इसके अतिरिक्त पुराणों में कलियुग के अर्वाचीन राजवशों से सम्बन्धित पर्याप्त सामग्री भी प्राप्त होती है। उदाहरण के लिय विष्णु-पुराण में मौर्यवंश से सम्बन्धित, वायुपुराण में गुप्तवंश से सम्बन्धित तथा मत्स्य पुराण में आधारवश से भव्यस्त विषयों की ही अपनी विशेषता है। अत म्पष्ट है कि पुराणों म् सृष्टि में लेकर वर्तमान तक वा अर्थात् अतीत अनागत वा इतिहास प्रस्तुत किया गया है। अतीत का इतिहास सबथ उपलब्ध है, जिन्तु भविष्य वाणिष्य के रूप में अनागत का इतिहास प्रस्तुत करना पुराणों की ही अपनी विशेषता है। सक्षेप म, उपरि निर्दिष्ट संक्षिप्ततम् परिशीलन से स्पष्ट है कि भारतीय पुराण इतिहास में विषयेतर सामग्रियों के होने हुए भी इतिहास है। अत प्राचीन भारत में इतिहास-परम्परा वो अम्बीकार करना समीक्षीन नहीं है।

१ देखिये स० सा० इति० मैरोला, पृ० २८६-६०,

२. वही, पृ० २६०,

३ सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वशो मत्वन्तरात्मि च । वशानुचरित चेद् पुराण पचलक्षणम् ॥

४ इदिया इन दि वैदिक एत, डा० भार्गव, पृ० १३,

५ वही, पृ० १६,

फिन्नु, पुराण-साहित्य की अपनी विशेष रचना-पद्धति है, विपयेतर सामग्रियों की प्रचुरता तथा इतिहास के आंशिक रूप में संप्रयोग के कारण इन्हें इतिहास-ग्रन्थ नहीं माना जा सकता। पुराण पुराण है, इतिहास नहीं। पुराण इतिहास से भिन्न विषय है। अतः प्राप्त पुराणों को इतिहास नहीं माना जा सकता। वस्तुतः इनका मुख्य विषय धार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इनमें वेद आदि के प्राचीन सिद्धान्तों तथा मान्यताओं को हटान्त तथा आव्यानोपाव्यान के रूप में नवीन करके रखा गया है। उपलब्ध पुराण विशेषतः मतवाद के उद्देश्य से भी अभिसृष्ट हैं। इनमें कल्पना का भी स्वच्छन्द प्रयोग हुआ है। अतः उनमें वर्णित अनेक घटनाओं पर विश्वास करना तक कठिन है। इनके आलयानोपालयानों के आवरण, अतिरंजनात्मकता, अलौकिक तथा दैवी हस्तक्षेप के कारण इन्हें इतिहास नहीं, अपितु इतिहास का प्रबल स्रोत ही मानना उचित है। अतः जिस प्रकार हैरीडोट्स, थ्यूसीडाइट्स तथा कर्टियल आदि ने प्राचीन साहित्य, अनुश्रुति तथा काव्यपरंपराओं के संशोधन-परिशोधन करके अपने इतिहास को रूप दिया है, उसी प्रकार उपर्युक्त श्रोतों के आधार पर भारत का प्राचीन इतिहास लिखा जा सकता है तथा लिखा जा रहा है।

पुराण इतिहास के अतिरिक्त भी भारतीय-इतिहास-सृजन की परम्परा बहुत बाद तक प्रवर्तमान रही है। इसी परम्परा में गजतरंगिणी-कार कल्हण जैसे इतिहासकार उत्पन्न हुए, जिन्होंने अपने समय में प्राप्त अनेकविध सामग्री का उपयोग कर वैज्ञानिक ढंग का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। कल्हण ने राजकथाओं से सम्बन्धित प्राचीन ग्रन्थ तथा प्रशस्तिपट्ट आदि का उपयोग किया है।<sup>१</sup> स्पष्ट है कि इस समय तक भारत में इतिहास का रूप बदल चुका था तथा एक व्यवस्थित रूप हो चला था। हर्षचरित आदि अनेक इतिहासमूलक ग्रन्थों से तथा अन्य भारतीय वाङ्मय के अनुशीलन से पुनः यही स्पष्ट होता है कि भारत में प्राचीनकाल से ही इतिहास की परम्परा प्रवर्तमान रही है। समय-समय पर भारत में भी इतिहास का स्वरूप बदला है तथा भारत में भी इतिहास के वैज्ञानिक स्वरूप तक पहुँचने की चेष्टा रही है।

#### (४) लोक कथाओं में इतिहास

उपर्युक्त साहित्य के अतिरिक्त लोककथा तथा दन्तकथा भी इतिहास के लिये महत्वपूर्ण हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं : मीखिक तथा लिपिवद्ध। सर्वप्रथम, ये एक के बाद एक परम्परित रूप से लोक में सन्तरण करती हुई आश्चर्य-त्मक तथा लोकप्रिय तत्वों से अभिवृद्ध होती रहती है। बहुत समय तक प्रवाहित

१. देखिये, अवर हिस्टोरिकल सेन्स, जे. वी. ओ. आर. एस. १०, १९२४,  
पृ० ३३४,

होने के बाद या विसी शिल्पी को प्रभिभूत बर लेने पर ये निपिवद हो जाती है। सामान्यत लोक कथाओं की यह प्रवृत्ति होती है कि वे विसी मूलभूत स्थूल आधार पर शर्नः शर्न एक वे बाद एक लोकविश्वासों तथा लोक-न्रसिद्धियों के रूप में कल्पित पत्ती से आवृत होनी रहती है। मुख्यत इनमें अनुरजनात्मक, उपन्देशात्मक तथा कुत्रूहलपूर्ण तत्त्वों के विनिवेश के लिये कल्पना का भी मुलकर प्रयोग होता है। यही नहीं, बल्कि, कभी-कभी कल्पना का इतना अधिक प्रयोग होता है कि मूल रूप ही नप्तप्राय सा प्रतीत होता है। किन्तु, लोक कथाओं को गढ़ने का बाम एक दिन में या एक व्यक्ति द्वारा नहीं होता, अपितु विभिन्न व्यक्तियों की कल्पना द्वारा लम्बे समय में ये कथाएँ विवसित रूप को प्राप्त कर पाती हैं। अत इन्हे विवसित कथा भी कहा जा सकता है।

लोक कथाओं की मृजन-प्रवृत्ति में इतना तो निश्चित हो जाता है कि लोककथाएँ इतिहास प्रन्थ नहीं हैं, तथापि इनसे इतिहास सौजोया जा सकता है। हमारा विश्वाम है कि इन लोक कथाओं की मृजन परम्परा में भी मूलत इतिहास परम्परा ही प्रवहमान रहती है। मर्वप्रथम लोककथा के प्रवर्तक किसी लोककथा या लोक तत्व से प्रभावित होकर ही इसे सौजोते हैं। अत लोककथाओं की उद्भावना निराधार नहीं होती, अपितु ऐतिहासिक या सामाजिक तथ्यपूर्ण घटनाओं को बीज-रूप में लेकर कल्पना द्वारा उनका पल्लवन किया जाता है। अत इन लोककथाओं में न केवल इतिहास के रिक्त अशो को भरने में तथा तथ्यों की पुष्टि में भद्रायता मिल सकती है, अपितु कभी कभी अन्य अनक ऐतिहासिक घटनाएँ भी प्रकाश में आ जाती हैं। मिहासनद्वाविशिका, वैतालपचविषति, भोजप्रवन्ध आदि इसी प्रकार की लोक-न्यायात्मक इतिहास हैं। इतिहासकारों ने भी इनका इतिहास के स्वार परिकार में पर्याप्त प्रयोग किया है। मीणिक लोककथाओं से भी इतिहासकारों ने इतिहास को हर दिया है। यही नहीं, बल्कि इन मीणिक तथा लिखित लोककथाओं की ऐतिहासिकता या लोकप्रियता से प्रभावित होकर साहित्यकारों ने भी नाटक, काव्य आदि के रूप में इन्हें उपजीव्य करनाया है। अत लोककथाओं पर आधारित न केवल कथात्मक कृतियों से, अपितु नाटक तथा काव्यों द्वी लोककथाओं से भी ऐतिहासिक कथाश को सौजोया जा सकता है।

### भारतीय इतिहास की स्रोत सामग्री

भारतीय इतिहास की परम्परा का सक्षिप्त सर्वेक्षण करने के पश्चात् यह स्वामान्वित हो जाता है कि भारतीय इतिहास की समस्त स्रोत सामग्री पर सामान्य-रूप से दृष्टिपात्र बर लिया जाय। हमने इतिहास-प्रणालय की परम्परा के रूप में

भारतीय वाद्यमय के ही नहीं, प्रपितु संस्कृत साहित्य के अंशमात्र का उल्लेख किया है। वास्तविकता यही है कि भारतीय इतिहास की अपार स्रोत सामग्री अनेकरूपों में परिव्याप्त है। सामान्यतः भारतीय इतिहास के निर्माण के लिये दो प्रकार की सामग्री उपलब्ध हैं—स्वदेशी तथा विदेशी। स्वदेशी उपादान भी दो रूपों में प्राप्त हैं—(१) स्थिर या कलात्मक, (२) लिपिवद्ध।

स्थिर तथा कलात्मक उपादानों से हमारा तात्पर्य देश की कलाकृतियों, मुद्रा, मूर्ति, स्तम्भ, प्रासाद, विहार, स्मारक, गुफा आदि स्थापत्य सामग्री से है। यह सामग्री मूर्तंरूप होती है, अतः अपरिवर्तनशील तथा प्रामाणिक होती है। इससे मुख्यतः तत्कालीन संस्कृति-सम्बन्ध के सम्बन्ध में प्रचुर प्रामाणिक ज्ञान होता है। अजन्ता एवं एलोरा की गुफायें तथा प्राचीन बौद्धमूर्तियाँ आदि इसी प्रकार की सामग्री है। किन्तु, यह कलात्मक सामग्री मूर्त तथा अचल होती है। अतः इसे अन्य ऐसी सामग्री की अपेक्षा होती है जो इसे वाणी तथा गति प्रदान कर सके। इसके अतिरिक्त, यह केवल इतिहास के किसी अंग विशेष की ओर संशक्त संकेत भर कर सकती हैं तथा प्रामाणिकता की छाप लगा सकती है। अतः इसे लिपिवद्ध सामग्री की अपेक्षा रहती है।

लिपिवद्ध सामग्री भी दो रूपों में उपलब्ध होती है : (१) अपरिवर्तनशील, तथा (२) परिवर्तनशील। अपरिवर्तनशील भी दो रूपों में प्राप्त होती है। एक में, वे विश्वस्त प्रामाणिक ग्रन्थ आते हैं, जो तथ्यपूर्ण तथा ऐतिहासिक घटनाओं के रूप में ही उपनिवद्ध हैं। इनसे इतिहास की घटनाओं पर प्रायः निश्चयात्मक तथा स्पष्ट प्रकाश पड़ता है। अतः इनमें परिवर्तन तथा संशोधन की विशेष संभावना नहीं होती है। इसमें एक तो समकालीन राजाओं के आश्रित रहकर लिखे गये या अन्य किसी ऐतिहासिक कारण से रचित ग्रन्थ आते हैं जोकि प्रायः इतिहासग्रन्थों के समान होते हैं। राजतरंगिणी सुकृतसंकीर्तन, वस्तुपालतेजपाल-प्रशस्ति, कीर्तिकीमुद्री आदि इसी प्रकार के ग्रन्थ हैं। इनके अतिरिक्त दूसरे में, विश्वस्त विशुद्ध स्रोतभूत ऐतिहासिक सामग्री है, जैसे ताम्रपत्र अभिलेख आदि। इनसे इतिहास का सर्वांगीण विवरण प्राप्त नहीं होता, वल्कि ये केवल किसी घटना विशेष पर ही प्रकाश ढालते हैं। उपर्युक्त दोनों प्रकार की लिपिवद्ध सामग्री इतिहास को लक्ष्य में रखकर अभिसृष्ट होने के कारण अपरिवर्तनीय होती है।

परिवर्तनशील लिपिवद्ध सामग्री वह है जिसकी रचना का उद्देश्य इतिहास न होकर कुछ भिन्न होता है। यह भी मुख्यतः दो उपविभागों में प्राप्त है—(१) पारलौकिक, (२) ऐहिक। ऐहिक में विषय-विशेष को आवार बनाकर लिखे गये समस्त लौकिक ग्रन्थ आते हैं। ये लेखक की अधिकृत कृति के रूप में रचित होने के कारण कोई अन्य व्यक्ति इनमें परिवर्तन आदि नहीं कर सकता।

ऐहिक सामग्री के भी, इतिहासोपलब्धि की हृष्टि से, दो उपभेद हो सकते हैं, इनिहासमूलक तथा इतिहासेतर विषयमूलक। इतिहासमूलक वे होते हैं जिनमें विसी ऐतिहासिक घटना वो उपजीव्य बनाकर साहित्यिक रूप में पल्लवित किया जाता है। इनमें मूलरूप में ऐतिहासिक ग्रन्थ होने पर भी लेखक उद्देश्य-विशेष के अनुसार कुछ परिवर्तन आदि कर देता है, और ऊपर से एक साहित्यिक आवारण डाल देता है। इनमें समस्त ऐतिहासिक काव्य, ऐतिहासिक नाटक, व्याग्रन्य तथा चरितग्रन्य आदि आते हैं। इतिहासेतरविषयमूलक ग्रन्थों का आधार इतिहास न होकर अन्य विषय होता है। इनमें मुख्यतः साहित्यिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक आदि दृष्टियाँ आती हैं। यद्यपि इनमें प्रत्यक्षतः ऐतिहासिक घटनाओं पर विशेष प्रकाश नहीं पड़ता है, तथापि इनमें इतिहासोपयोगी सास्कृतिक राजनीतिक आदि अनेक प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है। यही नहीं, बल्कि वभी वभी इनसे अत्यन्त महत्व की सूचनायें भी प्राप्त होती हैं, जिनमें इतिहास के सम्बन्ध-परिष्कार में अत्यन्त सहायता मिलती है। अप्टाध्यायी, भाष्य निवृत्त तथा कालिदास, भवभूति आदि के ग्रन्थ इसी प्रकार के हैं।

पारलौकिक सामग्री में समस्त वैदिक तथा लौकिक धार्मिक साहित्य आता है। वेद, ब्राह्मण उपनिषद, रामायण, महाभारत तथा स्मृति आदि इसी प्रकार के ग्रन्थ हैं। पुराण तथा रामायण आदि पर हम सधेषु में प्रकाश डाल चुके हैं। ये सभी ग्रन्थ धार्मिक गृष्ठभूमि में अभिमृष्ट होने पर भी प्रसगत इतिहासोपयोगी अमूल्य सर्वेत छोट जाते हैं, जिनसे इतिहास के रिक्त स्थान भरने में तथा उसने सास्कृतिक रूप की सेवारने में पर्याप्त महायता मिलती है। वभी इनमें अर्धेतिहासिक तथा इतिहासमूलक आस्थान भी प्राप्त होने हैं। यद्यपि ये विषयेतर के आस्थानोपास्थानों आदि में अप्ट-प्राप्त से ही प्रतीत होने हैं, तथापि अनुमतान के द्वारा इनसे प्रार्थितिहासिक तथा ऐतिहासिक प्रचुर सामग्री उपलब्ध होती है।

पारलौकिक साहित्य सामग्री में सस्त्रृत के अतिरिक्त कुछ अन्य भावाओं के महत्वपूर्ण ग्रन्थ भी आते हैं, जैसे बीदा के जातक तथा जैनों के आगम, पुराण आदि। इनसे ऐतिहासिक घटनाओं के ज्ञान के अतिरिक्त तत्कालीन राजनीतिक, सास्कृतिक अवस्था पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। यह समस्त स्वदेशी सामग्री है। इसके अतिरिक्त कुछ विदेशी सामग्री भी भारतीय इतिहास के लिये उपयोगी हैं। सक्षेप में, विदेशियों द्वारा निवित इतिहास, यात्रा विवरण तथा स्समरण आदि के सामजस्य के आधार पर भारतीय इतिहास का सक्तार, रिक्त स्थानों की पूर्ति तथा तथ्यों की पुष्टि की जा सकती है। उपर्युक्त समस्त स्वदेशी स्रोतसूत उपकरणों के आधार पर ही भारतीय इतिहास का निर्माण किया गया है।

## ( १ ) इतिहासमूलक

ऐहिक स्रोत सामग्री के इतिहासमूलक ग्रन्थों से ही हमारे विवेच्य विषय का सम्बन्ध है । अतः यहाँ इस पर कुछ विशेष विस्तार से प्रकाश डालना उपयुक्त होगा । इतिहासमूलक में सामान्यतः समस्त ऐतिहासिक-साहित्यिक रचनाओं आती हैं । मुख्यतः इनसे हमारा तात्पर्य उन साहित्यिक रचनाओं से है, जिन की उपजीव्य वस्तु ऐतिहासिक होती है । अतः इस वर्ग में समस्त ऐतिहासिक काव्य, नाटक, कथा-ग्रन्थ तथा चरितग्रन्थ आदि आते हैं । इतिहासमूलक ग्रन्थों में यही आवश्यक नहीं है कि उपजीव्यभूत ऐतिहासिक सामग्री मूलतः इतिहासग्रन्थों से ही मौजूदी गयी हो, अतः इनमें आनुभूतिक दन्त-कथा तथा समकालीन ऐतिहासिक वृत्त को भी रूपायित किया जा सकता है । इसकी मुख्यतम घर्तं उसकी ऐतिहासिकता का विनिश्चय है । किन्तु, जब इतिहासमूलक रचनाओं में आश्रयभूत राजा के चरित्र से सम्बन्धित घटनाओं या समकालीन लोककथा को संस्कार करके उपजीव्य बनाया जाता है, तब इनका ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है ।

इन इतिहासमूलक रचनाओं में रचितता एक और कलाकार के दायित्व का निर्वाह करता है तो दूसरी और सीधे ही इतिहास के स्रोतों से वस्तुचयन करने पर उसे इतिहासकार के दायित्व का भी निर्वाह करना पड़ता है । इन कृतियों में इतिहास तथा साहित्यिक तत्त्वों का सम्मिश्रण होता है, कहीं ऐतिहासिकता उभरी हुई होती है तो कहीं आवृत् । इतिहासकार उन साहित्यिक आवरणों को हटाकर इतिहासोपयोगी तत्त्वों का चयन करता है । इसके अतिरिक्त इनमें मुख्यतः ऐतिहासिक इतिवृत्त को आधार बनाने के कारण इतिवृत्त के रूप में ही सामग्री नहीं मिलती, अपितु इतिहास के समानान्तर ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक वातावरण की अभिसृष्टि होने के कारण इतिहासोपयोगी अन्यान्य सांस्कृतिक तत्त्वोपलब्धि भी प्रचुर मात्रा में होती है ।

## ( २ ) ऐतिहासिक नाटक

ऐतिहासिक नाटक इतिहासमूलक साहित्य में अन्यतम है, किन्तु इसकी कुछ अपनी विशेषताएँ भी हैं । प्रायः इतिहास किसी देशकाल की घटना विशेष तक ही सीमित रहता है, यतः इतिहास या इतिहास-मूलक चरितग्रन्थों के समान इसमें इतिवृत्तात्मकता की अपेक्षा नहीं होती । इसमें यह भी आवश्यक नहीं है कि वह किसी ऐतिहासिकग्रन्थ से ही वस्तुचयन करके उसी रूपमें उसको रूपायित करे, वल्कि ऐतिहासिक नाटककार लोककथा आदि कहीं से भी किसी भी घटनाविशेष को त्रुनने को पूर्ण स्वतंत्र है । ऐतिहासिकनाटक में सबसे महत्वपूर्ण तत्त्व इतिवृत्त की निश्चयात्मकता है । अतः ऐतिहासिक नाटककार का यह कर्तव्य है कि वह साहित्य के सत्य की सुरक्षा के साथ-साथ कृति को विश्वसनीय बनाने के लिये वृत्तगत निश्चयात्मकता

का निर्वाह करे तथा इतिहास के सत्य को न मरने दे । तथापि, ऐतिहासिक नाटकवार संवंप्रथम कलाकार है अत वह साहित्य-रस के समुचित निर्वाह के लिये ऐतिहासिक इतिवृत्त में परिवर्तन आदि को भी स्वतंत्र है । स्पष्ट है कि ऐतिहासिकनाटकों में नाट्यरूप ही प्रमुख होता है । अत उनमें इतिहासग्रन्थ के समान विशुद्ध इतिवृत्तात्मक तथा सर्वांगीण इतिहास की अवधा रमना अनुपसुक्त होगा । बास्तविकता यही है कि ऐतिहासिक नाटक इतिहास के लिए एक स्रोतभूत मामग्री के रूप में नि सदिगवृहप में अत्यन्त उपयोगी है । उमका विश्लेषण करने पर ऐतिहासिक घटनाओं तथा सास्कृतिक उपलब्धि के द्वारा कोई भी इतिहासकार अपन दतिहास का परिकार कर सकता है, तित स्थानों की पूर्ति कर सकता है, विस्मृत इतिहास प्रसगों को रूप दे सकता है तथा इतिहास को मामल बना सकता है ।

### इतिहास और ऐतिहासिक नाटक का सम्बन्ध

इतिहासकी ज्ञोत मामग्री पर हृष्टि ढालते हुए हम देख चुके हैं कि इतिहास-वार इतिहास वा रूप दन गमय मभी प्रकार वो साहित्यिक कृतियों से उपयोगी सामग्री संजोता है । किन्तु जिम प्रकार इतिहासवार साहित्यिक ज्ञोतों से तर्यों तथा घटना आदि का चयन करता है, उसी प्रकार साहित्यवार भी इतिहास को श्रपने उहे रूप के अनुरूप उपजीव्य बनाकर अपनी कृति प्रस्तुत करता है । इम प्रकार की साहित्य तथा इतिहास के पारम्परिक सम्बन्ध की परम्परा प्राचीन काल से चलती आयी है । सामान्यतया वर्तिपत माहित्य को छोड़कर प्रत्येक साहित्यविद्या इतिहास से सहायता लेती है । अतएव साहित्य को, विजेतन नाटकों को, प्रभाव आदि की हृष्टि से इतिहास ग्रभितन दे दिया गया है ।

इतिहास की ज्ञोत सामग्री की चर्चा से यह भी स्पष्ट हो गया है कि साहित्य में (वल्पित साहित्य को छोड़कर) प्रचलन या प्रकट, अधिक या स्वतंत्र मात्रा में इतिहास या इतिहासोपयोगी मामग्री अवश्य रहती है । इतिहासकार इतिहास वीरूप-सञ्ज्ञा में उसका प्रयोग करता है । इसमें अतिरिक्त इतिहास निर्माण भ कला भी सक्रिय रहती है<sup>१</sup> तथा इसमें साहित्य वा ग्रन्थ भी पर्याप्त मात्रा में होता है । अत इतिहास को भी माहित्य कहना किमी भीमा तर उचित होगा । यही कारण है कि पाश्चात्य कुछ विद्वान् इतिहास की गद्यवाच्य के रूप में स्वीकार करते हैं तथा नवि को इतिहासवार कहना उचित समझते हैं<sup>२</sup> । यद्यपि यह व्यक्तिगत मान्यता मात्र है तथापि, परम्पर आदान-प्रदान तथा अन्य समानताओं के रूप में दोनों में घनिष्ठ

१. इसी प्रबन्ध के इसी अध्याय में इतिहास का स्वरूप, देखिये ।

२. देखिये—समीक्षा शास्त्र, आचार्य सीताराम चतुर्वेदी, पृ० ४७७,

सम्बन्ध अवश्य है। यहीं नहीं, वल्कि साहित्य की नाथ्यविधा से इतिहास का लोकहित तथा अन्यान्य उद्देश्यों की समानता के कारण और भी घनिष्ठ सम्बन्ध है। अतएव सम्भवतः मुनि भरत ने नाटक को इतिहास कहा है।<sup>१</sup> टायनबी ने लिखा है कि ऐतिहासिक नाटक तथा अन्य साहित्यिक कृतियों में शैली मात्र साहित्यिक होती है, अन्यथा इतिहास की ही पर्याप्त मात्रा होती है।<sup>२</sup> जो भी हो, निष्कर्ष यही है कि सामान्यतः साहित्य, उसमें भी नाटक और उसमें भी ऐतिहासिक नाटक का इतिहास से अत्यधिक सम्बन्ध है। इतिहासकारं साहित्य, नाटक, मुख्यतः ऐतिहासिक नाटकों के प्रयोग के लिये स्वतंत्र हैं, उसी प्रकार नाटककार ऐतिहासिक नाटक के सृजन में इतिहास के किसी भी रूप से, किसी भी घटना का, किसी रूप में प्रयोग करने को स्वतंत्र है। इस सम्बन्ध में विशेष अग्रिम अध्याय में प्रकाश ढालेंगे।

## संस्कृत के ऐतिहासिक नाटक और इतिहास की परिसीमाएँ

आधुनिक कुछ विद्वान् भारतीय परंपरा के अनुसार रामायण, महाभारत तथा पुराण साहित्य को इतिहास ग्रन्थ मानने पर बल देते हैं। मुख्यतः पुराणों में, क्योंकि वशानुचरित के रूप में जात इतिहास प्राप्त है, तथा उनके अनेक राजाओं के चरित्र तथा वंशावलियाँ सत्य प्रमाणित हो चुकी हैं, अतः वे पुराणों को भारतीय इतिहास के प्रामाणिक ग्रन्थ मानने के पक्ष में हैं। यही कारण है कि कुछ विद्वानों ने पुराणों के आधार पर भारत का इतिहास लिखा है तथा प्रचलित इतिहास में अनेक संशोधन किये हैं।<sup>३</sup> यहीं नहीं, वल्कि हिन्दी के कुछ स्वतन्त्रामा नाटककारों ने पौराणिक इतिवृत्त पर आधारित नाटकों को ऐतिहासिक नाटक के रूप में प्रचलित किया है।<sup>४</sup> किन्तु हम न तो पुराणों को इतिहास-ग्रन्थ मानने के पक्ष में हैं और न पुराकथा पर आश्रित नाटकों को ऐतिहासिक नाटक। यथापि इतिहास-प्रणायन की परम्परा के प्रसंग में इस सम्बन्ध में प्रकाश डाल चुके हैं, तथापि यहाँ पुनः पौराणिक तथा ऐतिहासिक नाटकों से सम्बन्धित संभावित भ्रम को दूर करना तथा संस्कृत के ऐतिहासिक नाटकों के इतिहास की परिसीमा निर्वारित करना उचित समझते हैं।

१. नाट्यशास्त्रः ११६,

२. ए स्टडी आफ हिस्ट्री : टायनबी, पृ० ४४६,

३. देखिये, भारतवर्ष का वृहद इतिहास, भगवद्गत, भाग १, २, आदि।

४. जयशंकर प्रसाद का जनमेजय का नागरक इसी प्रकार का है। सेठ गोविन्द दास ने “राम से गान्धी” नाटकमाला में रामकृष्ण आदि को ऐतिहासिक माना है। डा० रामेयराघव ने भी ‘स्वर्गमूर्मि का यात्री’ को ऐतिहासिक लिखा है।

भारत की इतिहास-परम्परा की चर्चा के प्रसंग में हमने वैदिक वाङ्मय में इतिहास-लेखन का समारम्भ माना है। यह भी निश्चित सा है कि उनमें और युग के वृत्तान्तों का उल्लेख अवश्य है, किन्तु हम किसी भी प्रकार से उन्हें इतिहास स्वीकार नहीं कर सकते। अतएव हमने इतिहास की कड़ी के रूप में उनकी चर्चा की है। भारतीय परम्परा में इतिहास के नाम में व्यवहृत रामायण महाभारत वेवल काव्य हैं, इतिहास ग्रन्थ नहीं। इस सम्बन्ध में डा. वेनीप्रसाद ने ठीक ही लिखा है कि—“यह सच है कि रामायण और महाभारत में व्यहृत से राजाओं और युद्धों के बारें हैं, पर इनके इतिहास में काव्य और कल्पना का ऐसा समावेश है कि किसी घटना की ऐतिहासिकता पूरी तरह प्रमाणित नहीं होती। दूसरे, अगर मान भी ले कि पाड़वों का निवास या कुछकोव का युद्ध या ऐसी ही कोई और घटना ऐतिहासिक है तो भी तारीख का पता नहीं लगता और अन्य घटनाओं से इनका सम्बन्ध स्थिर नहीं किया जा सकता।”<sup>१</sup> अतएव हमने इन्हें इतिहास के स्रोत के रूप में उल्लेख बरते हुए प्रारंभितिहासिक स्वीकार किया है, ऐतिहासिक नहीं।

इसी प्रकार पुराणों को भी हमने इतिहास का प्रबल स्रोत मानते हुए प्रारंभितिहासिक माना है, ऐतिहासिक नहीं। पुराणों की संख्या १८ है, इनमें वेवल ७ में कल्युग के राजाओं का वृत्तान्त मिलता है, इनमें भी अत्युत्तिपूरण वाल्पनिक तथा देवी घटनाओं का इतना आधिकार्य है कि इहें महज ही इतिहास-ग्रन्थ स्वीकार नहीं किया जा सकता। पुराण वास्तव में इतिहास से भिन्न विषय है। सामान्यतः यह शब्द प्राचीन वाल्पनिक अत्युत्तिपूरण सत्यासत्य व्याख्यानों का अर्थभिव्यजक है। त्रिटिश विश्वकोप के अनुसार पुराण के अन्तर्गत वशानुक्रम तथा इतिहास के अतिरिक्त पौराणिक देवी, उपास्थान तथा दन्तवयानों का समावेश है।<sup>२</sup> पुराणों के पचलक्षणों के अनुसार भी वशानुक्रिति के रूप में इनमें आणिक इतिहास अवश्य है किन्तु वह अन्य विषयों में तिरोहितप्राय हो गया है। डा. भार्गव के अनुसार पुराणों के सत्तरणकर्ताओं तथा पुरोहिनों ने उनकी ऐतिहासिक सामग्री पर कल्पना तथा व्याख्यात्मक क्याओं के पतं चढ़ा दिये हैं।<sup>३</sup> अतः समग्रत्व में उन्हें इतिहास ग्रन्थ मानना तो दूर रहा, उन ऐतिहासिक अशों को विशुद्ध रूप में खोज पाना तक सतत अनुमन्यान का विषय है।

इसके अतिरिक्त हम उल्लेख कर चुके हैं कि इतिहास के लिये विशेष

१. हिन्दुस्तान की पुरानी सम्पत्ता : डा. वेनीप्रसाद, पृ० ११८,

२. एनसाइक्लोपेडिया ट्रिटेनिका, वाल्पूम १६, सत्करण ११, पृ० १२८,

३. इडिया इन दि वैदिक एन ; डा. भार्गव, पृ० १२-१३,

व्यवस्था पद्धति, कमवद्धता, निष्चयात्मकता, घटनाक्रम तथा वैज्ञानिकता का होना आवश्यक है, जबकि पुराणों में इनका अभाव है। यही नहीं, बल्कि न तो उनका रचनाकाल निश्चित है और न रचनाकार ही। यहाँ तक कि उनमें परस्पर विरोध भी है। वस्तु की दृष्टि से भूल तथा घटनाक्रम इतना अत्युक्तिपूर्ण है कि अधिकांश काल्पनिक प्रतीत होते हैं। इसके अतिरिक्त पुराणों के सम्बन्ध में अत्यधिक प्राचीनता तथा अनादिता की मान्यता भी इन्हें इतिहास मानने में वाधक है।<sup>१</sup>

धार्मिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से हम पुराणों में अविश्वास नहीं करते, किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से उनमें सहज विश्वास भी नहीं होता है। हम ही क्यों स्वयं पुराणों में सुप्रसिद्ध पीराणिक व्यक्तियों के अस्तित्व के सम्बन्ध में सन्देह व्यक्त किया गया है। विष्णुपुराण में लिखा है कि भगीरथ ग्रादि, सगर, दशानन, राम लक्ष्मण तथा युद्धिष्ठिर ग्रादि हुए हैं इस सम्बन्ध में क्या सच है, क्या झूँठ, कोई भी नहीं जानता<sup>२</sup>।<sup>१</sup> स्पष्ट है कि पुराणों के रचयिताओं को ही जब सगर, भगीरथ जैसे व्यक्तित्वों के अस्तित्व के सम्बन्ध में निष्चय नहीं है, तब उनसे सम्बन्धित वृत्तान्त को ऐतिहासिक कैसे स्वीकार किया जा सकता है?

इसके अतिरिक्त पुराणों में एक और सृष्टि से लेकर वर्तमान तक का वर्णन देने की चेष्टा है, अनेक पुराकथा तथा अभिनव-वृत्तान्तों का अनुकथन है, किन्तु महाभारत की युद्ध जैसी प्रसिद्ध घटना का वर्णन नहीं है, जबकि महाभारत के युद्ध को इतिहासकार भी ऐतिहासिक मानते हैं। इसी प्रकार और भी ऐसे अनेक कारण हैं, जिनसे कि पुराणों को न तो इतिहास-ग्रन्थ<sup>३</sup> माना जा सकता है, न उनके समस्त वृत्तान्त को ऐतिहासिक।

हम यह अवश्य मानते हैं कि पुराण निरे कल्पित नहीं हैं। इनमें आंशिक रूप से जो इतिवृत्त उपलब्ध हुए हैं, विद्वानों ने उनकी वंशावलियाँ तैयार की हैं तथा इतिहासकारों ने उन्हें ऐतिहासिक स्वीकार किया है। हमारा अनुमान है कि अन्य पीराणिक वृत्तान्तों में भी ऐतिहासिकता हो सकती है; किन्तु यह सब शोध का

१. अर्थव० में चारों वेदों के साथ पुराणों का आविर्भाव माना है। भत्त्य० में वेदों से भी पूर्व पुराणों के स्मरण का उल्लेख है तथा देखिये साप्ताहिक हिन्दुस्तान, २२ जुलाई १९५६ में श्री चतुर्वेदी का लेख।
२. भगीरथाद्या: सगर: ककुस्थो दशाननो राधवलक्ष्मणी च।  
युधिष्ठिराद्याश्च वभूवुरेते सत्यं वा मिथ्या वव्युते न विद्मः ॥
३. देखिये इतिहास दर्शनः डा० बुद्धप्रकाश, पृ० १८,

विषय है। विद्वानों ने इस ओर अनेक प्रयत्न किये हैं, किन्तु जब तक यद्यमत से अथवा सुदृढ़ साक्षों पर उन्हें ऐतिहासिक नहीं माना जाता, उन्हें इतिहासग्रन्थ मानना तथा उन पर आधारित नाटकों को ऐतिहासिक मानना कदाचि उचित प्रतीत नहीं होता।

सामान्यत इनिहासकारों के अनुसार उदयन से पूर्ववर्ती वृत्तान्त चाहे वितना भी प्रसिद्ध नयों न हो, विवादस्पद है।<sup>१</sup> इसके अतिरिक्त जबकि अनेक बुद्ध-पूर्व की घटनाएँ ऐतिहासिक हृष्टि से विवादास्पद हैं, तो सुदूर की कहने वाले पुराणों को दिना विसी आधार के ऐतिहासिक नहीं माना जा सकता। अत जब तक पुराणों में वर्णित वस्त्राश्रो के सम्बन्ध से इतिहासकार विसी मान्य तिष्ठपं पर नहीं पहुँचते, उन्हें पौराणिक मानना ही उचित होगा। टायनदी के अनुसार पुराण प्राचीन इतिहास के उत्तर ग्रवश्य हैं, किन्तु वे उत्तरभर हैं तथा उसके लिये भी अन्वेषण अपेक्षित है।<sup>२</sup> यही कारण है कि हमने पुराणों को भारतीय इतिहास का प्रबल स्रोत मानते हुए उन्हें प्रागेतिहासिक माना है तथा उन पर आधित नाटकों का पौराणिक नाटक के रूप में पृथक् निर्देश किया है।

अत में, पुराण आदि से सम्बन्धित सभावित भ्रम के निराकरण के लिये नथा सस्कृत के ऐतिहासिक नाटकों के इतिहास की सीमा निर्धारित करने के लिये भारत के विशाल इतिहास को सामान्यरूप से हम ३ भागों में विभक्त करना चाहेंगे—(१) प्रागेतिहासिक, (२) ऐतिहासिक तथा (३) जीवनचरितात्मक। इन्हीं को दूसरे भावों में स्थात, ज्ञात तथा जीवन-चरित-प्रधान भी कह सकते हैं। प्रागेतिहासिक के रूप में वैदिक साहित्य, रामायण, महाभारत तथा पुराण आदि का उल्लेख कर आए हैं, इनसे सम्बन्धित नाटकों को हमने पौराणिक नाटक के वर्ग में रखा है। जीवन-चरित प्रधान नाटकों में प्राय क्योंकि राजनीतिक घटनाश्रो का अभाव होता है, नैतिक तत्त्व प्रधान होता है, विवदन्तियों के आधार पर उपन्यास होने हैं तथा वे पौराणिक भर्यात् अतिरजनात्मक, दंवी-तत्त्व-मिथित शैली में रचित होते हैं, अत. इन्हें भी पौराणिक वर्ग में रखा है।<sup>३</sup> इनसे अवशिष्ट ऐतिहासिक अर्थात् ज्ञात तथा प्रामाणिक इतिहास पर आधित नाटकों को ही हम ऐतिहासिक नाटकों के प्रसग में विवेच्य मानते हैं। सामान्यत ज्ञात इतिहास बोद्धयुग से प्रारम्भ होता है। अन बौद्ध युग में उत्तर-दालीन ज्ञात इतिहास पर आधारित नाटकों को ही ऐतिहासिक नाटकों के ऋम में उनके महत्त्व आदि के अनुसार गणित तथा विस्तार से अध्ययन करना अभीष्ट है।

१. पालिटिकल हिस्ट्री आफ एन्शोन्ट इडिया, राय चौधरी, पृ० १३२,
२. ए स्टडी आफ हिस्ट्री, पृ० ४४२,
३. ए स्टडी आफ हिस्ट्री, पृ० ४४६ तथा ४५१ में चरित्र तथा इतिहास का अध्ययन करते हुए चरित्र को इतिहास से हैम माना है।

## ऐतिहासिक नाटक : स्वरूप तथा शिल्प

### ऐतिहासिक नाटक का स्वरूप एवं परिभाषा

ऐतिहासिक नाटक के 'ऐतिहासिक' शब्द से स्पष्ट है कि इनमें अन्य ऐतिहासिक साहित्य के समान कथावस्तु तथा पात्र आदि इतिहासग्रहीत होते हैं। मुख्यतः हमने नाटकों के वर्गीकरण के प्रसंग में उपजीव्यभूत कथावस्तु, जिसे मुनि भरत ने नाटक का शरीर कहा है,<sup>१</sup> के ऐतिहासिक होने के कारण ही ऐतिहासिक नाटक के रूप में उल्लेख किया है। किन्तु, इसमें समग्ररूप में विशुद्ध इतिहास का ही प्रयोग नहीं होता, अपितु इतिहास उसका एक आधार है, इसी आधार पर नाटककार अपने कलात्मक उपकरणों एवं साहित्यिक प्रतिभा द्वारा रसमय भव्य-नाटकीय प्रासाद खड़ा करता है। यही कारण है कि इन्हें इतिहास न कहकर ऐतिहासिक कहा जाता है। इसमें न तो इतिहास के समान तथ्यों एवं आँकड़ों का संग्रह तथा घटनाओं का विवरण होता है, न विशुद्ध साहित्यिक-कृति के समान काल्पनिकता का विनिवेश ही। इसके अतिरिक्त, यहाँ जहाँ एक और इतिहासग्रहीत वस्तु आदि का नियोजन करके ऐतिहासिकता का समावेश किया जाता है, वहाँ दूसरी और कल्पना द्वारा उसे कलात्मक घटनीय रूप दिया जाता है, तथा उसकी कला द्वारा ऐतिहासिकता को सम्प्रे परीय बनाकर नाव्य-रूप में प्रतिष्ठा की जाती है। अतएव कालरिज ने लिखा है कि ऐतिहासिक नाटक इतिहास से ग्रहण की हुई घटनाओं का एक ऐसा संकलन है, जहाँ घटनाओं के काल-कारण के सम्बन्ध की अन्वित नाटकीय कल्पना द्वारा काव्यात्मक प्रकार से परस्पर जोड़ दी जाती है।<sup>२</sup>

इस प्रकार प्रायः ऐतिहासिक नाटक के रूप तथा विषय को लेकर इनकी परिभाषा दी जाती रही है। कुछ विद्वान् इतिहास के उद्देश्य से रचे नाव्यरूप को

१. इतिवृत्तं हि नाट्यस्य (काव्यस्य) शरीरं परिकीर्तिम्-नाट्यशास्त्र २११,

२. देखिये : प्र० ऐति० ना०, डा० जोशी, पृ० २७, टिप्पणी।

ऐतिहासिक नाटक कहते हैं, तो बुद्ध राष्ट्रीय तथा राजनीतिक परिप्रेक्षण को अधिक महत्व देते हैं। हमारे विचार म "इतिहास से संजोयी क्यावस्तु के आधार पर रचित वलात्मक नाट्यरूप ही ऐतिहासिक नाटक है।" इस परिभाषा के अनुमार भी नाटक-कार इतिहास की वस्तु एव पात्रों का न्यूनधिक विनियोग जिस नाट्यप्रतिभा से बरता है, उसी पर उसकी सफलता असफलता निर्भर करती है।

स्पष्ट है कि इतिहास तथा काव्यात्मकता का नाट्यरूप म समन्वयात्मक समुचित प्रयोग ही ऐतिहासिक नाटक के रूपनिर्माण का मूलनात्मक है। इतिहास तथा वलात्मक नाट्यतत्त्वों के विचार से ही नाटकीय विधान समूहांता का सप्राप्ति करके संजीव, मासल तथा सरम वलाकृति के रूप म प्रादुर्भूत होता है। अत हम वह सकते हैं कि जब ऐतिहासिक वस्तु, पात्र, तथा सस्कृति आदि को वल्पना से संजीव तथा मासल बनाकर एक सरम वलात्मक नाट्यकृति के रूप मे उपन्यस्त किया जाता है, तब वह ऐतिहासिक नाटक कहलाता है। इसमे स्पष्ट है कि ऐतिहासिक नाटक के भूम्यन दो तत्व है—(१) इतिहास मे समग्रीत वस्तु, पात्र आदि तत्त्वों के विनियोग के रूप मे ऐतिहासिकता, तथा (२) नाट्यसुलभ नाटकीयता या वलात्मकता। इन तत्त्वों के विनियोग आदि के सम्बन्ध मे विचार करने से पहिले नाटक मे इतिहास प्रयोग के उद्देश्यों को स्पष्ट कर देना आवश्यक समझते हैं जिनके बारण नाटककार इतिहास की नाट्यरूप मे अवतारणा करता है।

### ऐतिहासिक नाटको मे इतिहास प्रयोग को सोहृदेश्यता

नाटक की सोहृदेश्यता के मम्बन्ध मे हम प्रथम अध्याय मे सक्षेप मे प्रकाश दाल चुके हैं। इतिहास के स्वरूप आदि पर भी द्विनीय अध्याय म सक्षेप मे प्रकाश दाला है, तथा ऐतिहासिक नाटक के स्वरूप की चर्चा के प्रसग म देख चुके हैं कि इतिहास का विनियोग इनका एक प्रमुखनात्मक है। अत यह प्रश्न भवाभाविक है कि नाटककार इतिहास का नाटक मे प्रयोग क्या बरता है। यद्यपि यह सत्य है कि नाटक के उद्देश्यों की पूर्ति के लिय ही इतिहास का विनियोग किया जाता है, मिन्तु इनमे मात्र मे जिजासा शात नही होती। वास्तविकता यही है कि नाटककार इतिहास की लोकप्रियता, विशालता तथा महत्व के बारण ही इस ओर आकृष्ट होता है, जिससे कि नाटक की उपादेयता भी द्विगुणित हो सके।

प्रत्येक मनुष्य प्रतिदिन नवीन वस्तु चाहता है। नाटककार भी इसीनिये लोक से, साहित्य से तथा वल्पना जगत से विर नवीन वस्तु की अवतारणा का प्रयास करता है। इतिहास अतीत की गाथाओं का आधार भण्डार है। इसमे एक से एक नये भिन्न भिन्न प्रकार के चरित्रों की उपलब्धि सहज हो जानी है। अतएव नाटक-कार विसी न विसी रूप म इतिहास को जाने अनजाने नाटक का उपजीव्य बना लेता

है। किन्तु इससे भी महत्वपूर्ण कारण ऐतिहास का महत्व, उपादेयता तथा लोक-प्रियता है।

## ऐतिहास का महत्व

**सामान्यतः** ऐतिहास का प्रत्येक देश तथा जाति के लिये अत्यधिक महत्व है। ऐतिहास देश का जीवन है तथा देशवासियों की जीवनीशक्ति भी। ऐतिहास केवल अतीत का मुकुर नहीं है, अपितु जयचन्द्र विद्यालंकार के शब्दों में “वह अतीत की ज्योति से वर्तमान-स्वरूप को पहिचानने और भविष्य के मार्ग के उजियारा करने की चेष्टा है।<sup>१</sup> वास्तव में ऐतिहास का तीनों कालों की दृष्टि से समधिक महत्व है। यदि भूत का ऐतिहास वर्तमान का प्रेरक है तो आज का बनने वाला ऐतिहास कल प्रेरक बनेगा। इस सम्बन्ध में डा. एन. वेंकटरमैया का यह कथन सर्वथा सत्य है कि “यद्यपि ऐतिहास भूत का रिकार्ड है, किन्तु ऐसी बात नहीं कि वह वर्तमान की रुचि से रहित हो, और न भविष्य के लिए मृत अर्थात् व्यर्थ है; भूत वर्तमान के बीज रूप में है, जिसका फल भविष्य होगा।<sup>२</sup>” यही कारण है कि ऐतिहास न केवल वर्तमान काल के लिये उपयोगी है, अपितु भविष्य के लिये भी उसका महत्व है। दूसरे शब्दों में ऐतिहास का महत्व सार्वकालिक है।

“ऐतिहास एक प्रकार से अतीत के समस्त उत्थान-पतन, सफलता-असफलता, उपलब्धि तथा संघर्ष की कहानी है। अतः ऐतिहास का प्रयोजन मनुष्य के गत अनुभवों तथा क्रियाकलापों की निरीक्षण-परीक्षण ही है।”<sup>३</sup> अतः ऐतिहास के अध्ययन से वर्तमान के निररण में सहायता मिलती है। ठंर के अनुसार ऐतिहास एक ऐसी सामाजिक स्मृति है, जो वर्तमान को अतीत के साथ सम्बन्धित करके वर्तमान को बोधगम्य बनाती है।<sup>४</sup> अतः ऐतिहासकार को आवश्यक है कि वह भूतकाल का

१. ऐतिहास प्रवेशः जयचन्द्र विद्यालंकार, प्रस्तावना (नागपुर ऐतिहास परियद के अध्यक्षीय भाषण का उद्धरण)।

२. “Though history is a record of the past, it is not without interest to the present, for the past is not dead to the future. The past is the seed of the present of which the future is the fruit” Dr N. Venkataramanayya, All India Oriental Conference 14th-Session. Darbhanga, 1948 Part II Presidential address of Historical section.

३. अनुसन्धान और प्रक्रिया, ऐतिहास और साहित्यः डा० ताराचन्द्र, पृ० १६४,  
४. ऐतिहास दर्शन, डा० बुद्धप्रकाश, पृ० ३३५,

चित्र तो प्रस्तुत करे, किन्तु वर्तमान को भी अपनी हृषि से ओझल न होने दे। डा वेंकटरमेया के शब्दों में इतिहासकार एक व्यास्थापना का कार्य करता है। वह अतीत का अध्ययन करता है तथा उसकी वर्तमान के स्पष्ट में व्यास्था भी करता है।<sup>१</sup> यहीं नहीं, उनका यह भी कथन है कि इतिहासकार को चाहिये कि उन गलत विकारों को जो कि दृश्य में जनता के मध्यिक में घर कर गये हैं, सशोभन करे, हठाए और उनके सच्चे यथार्थ चरित्र तथा महस्त्र पर प्रकाश डाले।<sup>२</sup> स्पष्ट है कि इतिहास में अनीत का चित्र ही प्रतिबिम्बित नहीं होता, अपिनु वर्तमान की व्याप्ति भी रहती है। यही कारण है कि इतिहास को सर्वोत्तम सरक्षक के अनिरिक्त देश की तथा राष्ट्र की बठिनाइयों तथा वाधाओं को सुलभाने में सहायक भी भाना जाता है।

वास्तव में इतिहास देश की अमूल्य मपति है तथा राष्ट्र की प्रतिष्ठा का घोनक है। यह विनाश का शास्त्र नहीं है। इसमें पतन और ह्रास का ऋद्धन ही नहीं होता है, उत्थान और विकास का समीत भी होता है।<sup>३</sup> जयचन्द्र विद्यालकार के शब्दों में “इतिहास राष्ट्र का आत्मपर्यवेक्षण, आत्मानुचितन, आत्मानुस्मरण और आत्मानुव्यान है।”<sup>४</sup> इतिहास के विना अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान असम्भव है। अत इतिहास की खोज आत्मा की जिजामा है।<sup>५</sup> इतिहास को जानना अपने को जानना है और इस जानने में बढ़कर विभी ज्ञान का मूल्य नहीं है।<sup>६</sup> अत यदि अत्मज्ञान सर्वधीर्ण ज्ञान है तो इतिहास ज्ञान भी उससे न्यून नहीं है। यही कारण है कि जब इतिहास के माध्यम से स्वदेश, राष्ट्र, जाति, समाज तथा उनकी प्रथा एवं परंपराओं का अभिज्ञान होता है तो हृदय अङ्गाद से भर उठता है।

परिवर्तित मान्यताओं के अनुसार इतिहास केवल राष्ट्र या राजा सामन्तों की कहानी नहीं है, अपिनु सर्वजनीत तथा सार्वभीम भावना से प्रोत्प्रोत होता है। वास्तव में इतिहास मानव की समूहां प्रति का वृत्तान्त है।<sup>७</sup> इसकी राष्ट्रीयता वा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व है। वर्तमान समय में राष्ट्र वा निरपेक्षव्य से कोई अस्तित्व

१. आत्म इंडियन आर्ट्सगृह कानकेस, १४ सन्न, दरभगा, १६४८ का इतिहास विभाग का अध्यक्षीय भाष्यण।

२. वही,

३. इतिहासदर्शन बुद्ध प्रकाश, पृ० ३४०-४१

४. इतिहास प्रवेश, जयचन्द्र विद्यालकार, प्रस्तावना,

५. अनुसन्धान और प्रक्रिया (इतिहास और साहित्य) डा० ताराचन्द्र, पृ० १६४,

६. वही,

७. इतिहासदर्शन: बुद्ध प्रकाश, पृ० १७०,

नहीं है। अबः इनिहाम में चित्रित राष्ट्रीय भावना, राष्ट्र के यथार्थ चित्र तथा राष्ट्रीय संस्कृति की अत्यधिक उपादेयता है। आज किसी का अनुराग केवल व्यक्तिगत या राष्ट्रीय इतिहास से नहीं होता, अपितु मानवमात्र के इतिहास से होता है। मानव से मानव का प्रकट अप्रकट अनेक प्रकार का सम्बन्ध है। कम से कम मानवता के सम्बन्ध में समस्त मानव परिवार एक है। अतएव मानव का मानव से स्वाभाविक लगाव तथा रागात्मक सम्बन्ध होता है। और, आज जब कि विश्व की हूरियाँ मिट गई हैं, ज्ञान के साधन बढ़ गये हैं, परस्पर लगाव तथा आकर्षण भी उतना ही अभिवृद्ध हो गया है। अतएव प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक मनुष्य के सम्बन्ध में अवश्य कुछ न कुछ जिजासा रखता है। यही नहीं, अपितु स्थान, देश, काल, पश्च, पक्षी आदि के प्रति भी इसी प्रकार का आत्मिक सम्बन्ध तथा जिजासा होती है। यह जिजासा सार्वकालिक, सार्वदेविक तथा विष्वजनीत है। इस जिजासा की शांति का माध्यन है इतिहास। इतिहास के अनुशीलन-श्रवण-मनन तथा अनुध्यान के द्वारा प्रत्येक अनुष्य अपनी जिजासाओं की शांति करके तृप्ति, आत्मसंतोष तथा प्रसन्नता का अनुभव करता है।

संक्षेप में, इतिहास एक और अतीत की संस्कृति का दर्शन कराने वाला चित्र संग्रह है, तो दूसरी और अतीत की कथा कहने वाला या गौरवगाथा गानेवाला चारण। यही नहीं, बल्कि इससे भी ग्रविक यह एक कलाकृति है, साहित्य है, दर्शन है तथा विज्ञान है। डा० ताराचन्द के गद्वां में “इतिहास क्या है यह जानने के लिये हमें यह देखना चाहिए कि इतिहास क्या नहीं है?”<sup>1</sup> जब हम इसका उत्तर खोजने की चेष्टा करते हैं तो सहज ही इतिहास का सार्वभीम रूप प्रकट हो जाता है, और हम स्वीकार करते हैं कि इतिहास में सब कुछ है। तथापि, इसमें सबसे अधिक श्रमूल्य अतीत की संस्कृति तथा सम्यता की धरोहर है, जिसके कारण प्रत्येक जन-मन में उसके प्रति सहज अनुराग, प्रेम तथा श्रद्धा होती है। और अतएव जिसे सेंजोने को प्रत्येक श्रद्धालु इतिहास के अनुशीलन को वाद्य होता है।

### नाटक में इतिहास प्रयोग का उद्देश्य

ऐतिहासिक नाटककार उपर्युक्त इतिहास की उपादेयता, लोकप्रियता तथा सार्वभीम महत्व से आकृष्ट होकर उसे और भी अधिक सम्प्रेरणीय बनाने के लिये, अपने नाट्य मुलभ उद्देश्यों की संप्राप्ति के लिये तथा नाट्यकला की समविक सफलता की संप्राप्ति के लिये नाट्यरूप में संप्रयोग करता है। इसलिये प्राश्चात्य समालोचक निकल ने भी काव्यात्मक प्रभाव की ओर उन्मुखता को एक कारण माना

१. अनुसन्धान की प्रक्रिया : इतिहास और साहित्य : डा० ताराचन्द, पृ० १५५,

है।<sup>१</sup> विन्तु ग्राधुनिर्दलीयों ने कुछ नवीन दृष्टिकोण से भी उपादेय समझतर इतिहास का नाट्यरूप म प्रयोग किया है। यहाँ तक कि पाश्चात्य विद्वानों ने मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को भी लक्ष्य मे रखकर नाटक मे इतिहास का प्रयोग किया है।<sup>२</sup> विन्तु यह सामान्य मत का प्रतिनिधित्व नहीं बरता। मामान्यतया नाटकरार इतिहास के किसी भी ग्रन का विसी भी उद्देश्य से प्रयोग बरते के लिय स्वतन्त्र है, तथावि सर्वसाधारण ध्येय नाटक द्वारा समाज मे अनीत के गोरख, उसके प्रति श्रद्धा, राष्ट्रप्रेम तथा आत्मगोरख की भावना वा उन्मेष बरना होता है। इतिहास के प्रयोग द्वारा राष्ट्रीय भग्नामुखों के चरित्र, तथा आदर्श के चित्रण द्वारा अनेक प्रकार की चारित्रिक शिक्षा देना, बलिदान तथा त्याग वा आदर्श प्रस्तुत करना, तथा राष्ट्रीय भावना का सचार बरना सरल होता है। यही नहीं, बल्कि नाटकरार इतिहास को नाट्यरूप म प्रदर्शित बरते और भी अधिक सीढ़िय तथा व्यापक रूप से प्रभाव दालन म सकल होता है। विश्व के अधिकांश ऐतिहासिक नाटक इसी उद्देश्य से अभियूष्ट हुए हैं।

इसके अतिरिक्त, ऐतिहासिक नाटक म प्राचीन जीवन व घटना के चित्रण के साथ-साथ सास्कृतिक चित्र के प्रस्तुत करना भी एक उद्देश्य है, विन्तु इसके मूल म भी देश प्रेम की भावना तथा राष्ट्र गोरख की भावना निहित होती है। यह दो वारणी से होता है, सर्वप्रथम जिनका अतीत गोरखपूर्ण तथा उन्कर्पंपूर्ण रहा है, और वर्तमान भी ममुज्ज्वल एव विकासशील है उनम स्वाभिमान का इतना अतिरेक होता है कि वे अपन अतीत की स्वर्णालम भाँवी पाने को चिन्ता हो रठते हैं। कहा जाता है कि शंकमपियर के अधिकार्य नाटक इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर लिखे गये थे, अतएव लोकप्रिय भी हुए थे।<sup>३</sup> दूसरे, अतीत यदि गोरखपूर्ण तथा साहस की कथाओं से भरा हो तथा वर्तमान पतनशील हो, तब भी साहस सधर्य तथा उत्थान आदि की प्रेरणा के उद्देश्य से भी ऐसे नाटक का बर मृजन होता है, अथवा वर्तमान की विभीषिका से मुक्ति के लिय भी ऐसे नाटक लिखे जाते हैं, जिनमे के वर्तमान से पलायन करके अतीत के चित्रों के साथे म तथा अतीत के गोरख के आवरण मे अपने को मुक्त समझत है। निम्न ले लिखा है कि अग्रे जी नाटककारों न ऐतिहासिक मूल को पुनर्जीवित करने के लिय या वर्तमान के यथार्थ से आण पाने के लिये ऐतिहासिक

१. विदिश द्वामा, निकल, पृ० ४८४,

२ दि वोग्यु आफ हिस्टोरिक प्ले, बल्ड द्वामा, निकल, पृ० ८५५,

३ शेषसदियर, जय जं इयान दियक, पृ० ११५,

नाटक रचे।<sup>१</sup> यह कागण भी प्रत्येक देश के ऐतिहासिक नाटकों के सृजन के संबंध में पाया जाता है।

उपर्युक्त उद्देश्य सामान्य है। वास्तविकता यही है कि ऐतिहासिक नाटकों के अभिसर्जन का उद्देश्य समय, देश तथा परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। युद्ध आदि के अवसर पर प्रायः राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत, देशप्रेम, त्याग, बलिदान को चित्रित करने वाले नाटकों की रचना होती है। निकल के अनुसार युद्ध के समय प्रायः स्वदेश प्रेम तथा स्वतंत्रता की भावना से नाटक रचे गये। १२वीं सदी में रंगमंच पर ऐसे नाटकों के प्रयोग का सर्वप्रमुख कारण भूत से सहायता तथा अनुरंजन की खोज थी।<sup>२</sup> इसी प्रकार इतिहास में वर्तमान के समाधान के उद्देश्य से भी ऐतिहासिक नाटकों का सृजन होता है, हम कह चुके हैं कि इतिहास वर्तमान की व्याख्या करता है। नाटककार भी भूत के आवार पर वर्तमान की समालोचना के रूप में इतिहास का उपयोग करता है। निकल ने फौंस के नाटककारों के सम्बन्ध में लिखा है कि अतीत में उनकी रुचि होते का प्रमुख कारण यह है कि वे वर्तमान की समालोचना के लिये भूत और सुदूरभूत से स्वेच्छित वस्तु की उपलब्धि में सफल होते हैं।<sup>३</sup> वास्तव में वर्तमान का समाधान खोजने के लिये भूत की ओर उन्मुख होता एक स्वाभाविक कारण है। डा० जोशी के अनुसार ऐतिहासिक नाटक दो प्रकार से इस उद्देश्य की प्राप्ति करता है। या तो वह वर्तमान को भूत में समाहित कर नाटक का सृजन करे या भूत को वर्तमान के सांचे में ढाल दे।<sup>४</sup> इस प्रकार जब नाटक रचा जाता है तो वर्तमान की त्रुटियाँ व श्रभाव आदि स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं और भूत की सफलताएँ तथा उपलब्धियाँ वर्तमान की समालोचना करती हुई मार्ग प्रदर्शित करती-सी प्रतीत होती हैं।

हम यह भी उल्लेख कर चुके हैं कि इतिहास का सम्बन्ध अतीत या वर्तमान

१. वर्ल्ड ड्रामा : दि चोग्यू आफ हिस्टारिकल ड्रामा, पृ० ८६२ तथा विद्यश ड्रामा, पृ० ४८५,
२. वर्ल्ड ड्रामा : निकल, पृ० ८५५,
३. Our principal interest for these dramatist in theme taken from the past lies of course, in the manner through which the choice of subject matter from past ages and for some there is the added incentive which comes from realization that only through the handling of a distanced story can there be even a hope of approaching the quality of tragedy : World Drama Nicoll, P. 857.
४. प्र० ऐति० ना०, डा० जोशी०, पृ० १३,

में नहीं, भविष्य से भी है। अत ऐतिहासिक नाटक का सृजन भविष्य में समावित भय से सुरक्षा पान, सधोरों पर विजय पाने तथा भविष्य को और भी प्रशस्त करने के उद्देश्य से भी होता है। यह उद्देश्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। कहा जाता है कि शैक्षणिकर के प्राय सम्मन ऐतिहासिक नाटक (वेवल हेनरी ग्रट्टम को थोड़कर) सदिग तथा भविष्य के प्रति भय के समय ही निये गये थे। वह इनम युद्ध के भय के प्रति चेनावनी दे रहा था। उसने अपने नाटक म भविष्य के भय को चिप्रित किया तथा भविष्य की रक्षा की इच्छा व्यक्त की है।<sup>१</sup> समालोचकों की मान्यता है कि जब शैक्षणिकर ने अपने नाटक निये तब वह भूत की ऐतिहासिक घटनाओं के प्रयोग के पद में न था, किन्तु उसने नाटक अवश्य लिये तथा इतिहास के सम्बन्ध म उमरी मान्यता थी कि अनीत की घटनायें भविष्य नवा वर्णमान के निये अत्यधिक महत्व रखती हैं। उसकी मान्यता थी कि गत इतिहास के ऊपर विप्रिपात करने पर वर्णमान तथा भविष्य के लिये अमूरत अनुभव प्राप्त होत है। उसने मत म इतिहास के प्रव्ययन से ऐमा प्रतीत होता है मानो कोई ईश्वरीय शक्ति हमेशा वायं करती है तथा करेगी।<sup>२</sup> स्पष्ट है कि नाटक म इतिहास का प्रयोग वर्णमान तथा भविष्य के निये अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

यही नहीं, बल्कि वास्तव म देखा जाय तो ऐतिहासिक-नाटकों का मानवता के वल्याएं की विप्रिपात से भी अत्यधिक महत्व है। हम इतिहास तथा मानवता के सबवध का निर्देश कर चुके हैं। माहित्य, विशेषत नाम्याहित्य और उमम भी ऐतिहासिक नाटक का इतिहास के सप्रयोग के कारण मानवता से सीधा सम्बन्ध है। हीगल ने एक स्थान पर साहित्य-स्पष्टा के सम्बन्ध म निका है कि एक महान साहित्यकार न वेवल अहप्ट मौद्र्यं का अनावरण करता है, अपितु वह मानवता का वक्ता भी होता है। अपन चारा और लोगों के अस्पष्ट स्वरों को मुनता है, उन्हे एक न करता है, ठोम आवार दता है और भना म लोगों के मौन आवेगों को ऊची आवाज देता है।<sup>३</sup> इसके अनिरिक्त हीगल ने जय कि इतिहास वो मानव की मपूण प्रगति का वृत्तान्त माना है,<sup>४</sup> अत यदि उमर्युक्त माहित्यकार तथा इतिहास में सम्प्रिति विचारा वो समुन्न वरके देखें तो ऐतिहासिक नाटक के सम्बन्ध म उमर्युक्त मान्यता अधिक चरितार्थ होती है। यही विचार हम मेहमिलत के व्ययन म प्राप्त होता है। उसने लिखा

१. शैक्षणिकर • ज्यार्ज इयान विधिक पृ० ११७,

२. वही, पृ० ११५,

३. देखिये, प्र० ऐति० भा०, डा० जोशी, पृ० १२,

४. देखिये, इतिहास दर्शन, डा० बुद्धप्रकाश, पृ० १७०,

है कि ऐतिहासिक नाटककार का एक मात्र उद्देश्य जीवन और देशकाल से चयन की हुई घटनाओं तथा परिस्थितियों की ठीक-ठीक एवं कलात्मक अभिव्यक्ति है, जो एक धूसरे से इस प्रकार संबंधित है कि मानवता और उसके भविष्य पर नया प्रकाश पड़ सके।<sup>१</sup>

मुख्यतया उपर्युक्त उद्देश्यों के कारण ही इतिहास का नाटक में प्रयोग होने से ऐतिहासिक नाटकों का उद्देश्य परिवृद्ध हो जाता है। ऐतिहासिक नाटकों के अभिसर्जन का उद्देश्य देश, राष्ट्र, जाति तथा भूत, भविष्य, वर्तमान से सम्बन्धित होने के साथ-साथ संपूर्ण मानवता से भी होता है। सामान्यतः साहित्य या इतिहास से जिस उद्देश्य की उपलब्धि नहीं हो सकती, उनकी ऐतिहासिक नाटक द्वारा समष्टिरूप में सहज ही संप्राप्ति हो जाती है। संक्षेप में, इतिहास तथा साहित्य दोनों के प्रयोजनों का लाभ ही ऐतिहासिक नाटक से नहीं होता, अपितु, इतिहास को नाट्यरूप में संप्रेपणीय बनाकर और भी अधिक सरलता, स्वाभाविकता से तथा सर्वजनप्रिय रूप में उभयनिष्ठ व्यापक प्रयोजनों की सिद्धि होती है।

प्रायः सर्वत्र उपर्युक्त उद्देश्यों को लक्ष्य में रखकर ऐतिहासिक नाटकों का सृजन किया गया है। किन्तु ये सभी सार्वकालिक तथा सार्वदेशिक नहीं हैं, अपितु देश, काल तथा परिस्थिति के अनुसार कहीं कुछ प्रयोजन महत्वपूर्ण होते हैं तो अन्यत्र कुछ। निकल के शब्दों में जब अंग्रेजी नाटककार भूत के परिवेश में वर्तमान की समलोचना करते से हिचकिचते थे, तब अमेरिका में ठीक विपरीत ही अनुसरण किया गया। वहाँ अतीत के प्रसंगों के परिवेश में सामाजिक मानदण्डों को अभिव्यक्त किया गया।<sup>२</sup> स्पष्ट है कि प्रत्येक देश में ऐतिहासिक नाटकों की रचना का उद्देश्य समान नहीं होता। यही नहीं, बल्कि एक देश में भी समय तथा परिस्थिति के अनुसार कुछ विशेष उद्देश्यों के कारण ही नाटकों का सृजन हुआ करता है। भारत में भी उपर्युक्त सभी उद्देश्यों के कारण नाटकों का सृजन नहीं हुआ है। विषेपतः संस्कृत के ऐतिहासिक नाटकों के सृजन में उपर्युक्त उद्देश्यों को कारण नहीं माना जा सकता।

### संस्कृत नाटकों में इतिहास प्रयोग का उद्देश्य

भारतीय परम्परा के अनुसार नाट्य साहित्य की सोद्देश्यता के सम्बन्ध में हम प्रकाश डाल चुके हैं। उससे स्पष्ट है कि नाट्य साहित्य ही नहीं, अपितु समस्त काव्य साहित्य का सर्वप्रमुख उद्देश्य आत्मभूत “रस” माना गया है। इसके अतिरिक्त हमने अनुरंजन, लोकोपदेश, पुरुषार्थ-चतुष्टय आदि समस्त उद्देश्यों का भी निर्देश

१. देविये, प्र० ऐति० ना०, डा० जोशी, पृ० १०,

२. शेक्षणियर, ज्यार्ज इथान दथिक, पृ० ११४,

किया है। मामान्यतया समस्त सस्कृत-नाटकों का मृजन उमी के अनुबूति हुआ है। सस्कृत के प्राचीन नाटकों का मुख्यतम उद्देश्य “रमप्रवण रचना वा निर्माण करना” रहा है, जबकि उपर्युक्त ऐतिहासिक नाटकों के उद्देश्य मुख्यत वस्तु-सापेक्ष है। भारतीय विचार-धारा म वस्तुगत उद्देश्यों पर विशेष बल नहीं दिया गया है। उनकी मान्यता रही है कि रस के निविष्ट होने पर वस्तुगत प्रयोजन आनुपगिक रूप से समाहित हो जाते हैं। यही कारण है कि भारतीय विचारधारा म वस्तुगत उद्देश्यों को गोण एव मुख्य मानकर ‘रम’ को ही मौलिभूत प्रयोजन भाना गया है।

भारत म मुख्यत भरिनष्ट रूप से नाटक के प्रयोजनों का निर्देश किया गया है। मुनि भरत ने अनुरजन के साथ माय भनुष्य के भावभौमि विवास को भी नाटक का उद्देश्य माना है<sup>१</sup>। इसी प्रकार यहाँ लोकोपदेश आदि उद्देश्यों का भी निर्देश दिया है, किन्तु सबका नियामक “रम” ही रहा है। फरत प्राय समस्त सस्कृत-नाटकों का उद्देश्य रसोन्मेष करना है। ऐतिहासिक नाटक भी इसके अपवाद नहीं हैं। यद्यपि भारतीय आचार्यों ने नाटक म ऐतिहासिक वस्तु के विनियोग पर विशेष बल दिया है,<sup>२</sup> किन्तु उनके बल देन का मुख्य कारण रमोन्मीलन, नाय्य प्रभाव तथा नाट्य मृजन म सफलता एव सखलता ही है। अत मस्तृत नाटककारों ने उपर्युक्त उद्देश्यों तथा प्रयोजनों की अपदा म ऐतिहासिक नाटकों का मृजन नहीं किया है। भास, कालिदास आदि के ऐतिहासिक नाटकों की रचना का मुख्य उद्देश्य रसोन्मीलन ही प्रतीत होता है। तथापि, उनम अन्यान्य उद्देश्यों की प्राप्तिगिक उपलब्धि भी होती है। उदाहरण के लिए भालविकामिनिमित्र अतीत के गीरव तथा मास्कृतिक परम्परा की भलक दिखाता है, तो प्रतिज्ञा-भीगन्धरायण तथा मुद्राराक्षस म राजनैतिक पक्ष प्रधान है। परन्तु इनका मुख्य उद्देश्य रसनिर्भर रचना का निर्माण ही है, क्योंकि मस्तृत नाटककार परम्परा के प्रति अतिशय आप्रहशील है। मस्तृत का नाट्यशिल्प प्राय परम्पराग्रस्त एव सूढ़ रहा है। सस्कृत के ऐतिहासिक नाटककार का उद्देश्य या तो रमनिर्भर रचना करना रहा है या समकालीन एव आश्रयदाता राजाश्री की प्रणय लीना का वर्णन अथवा प्रशस्ति लिखना। कुछ गिनी चुनी रचना ही इसकी अपवाद हो सकती है। अत प्रत्यक्षत हमें मस्कृत नाटकों की रचना में उपर्युक्त उद्देश्यों की सभावना करना समीक्षीय नहीं है।

सस्कृत के ऐतिहासिक नाटक मुख्यत रस-प्रधान, प्रणय-प्रधान, तथा प्रशस्तिपरव दै। इनम प्राचीन ऐतिहासिक नाटक प्रणय-प्रधान तथा रम-प्रधान हैं।

१. माद्यपशास्त्र, १।१।१—१।३,

२. विशेष देखिये—इसी प्रकार मे इसी अध्याय मे आगे ‘भारतीयमत मे इतिहास तथा इत्यन्ना प्रयोग।’

समकालीन नाटक प्रशस्तिपरक है तथा अर्वाचीन नाटक राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय गौरव से संबंधित है। इसके अतिरिक्त कुछ मुद्राराखण आदि ऐसे भी हैं जिनके मूल में उपर्युक्त उद्देश्यों को भी लोगा जा सकता है। अंत में, हम यही कहेंगे कि संस्कृत के ऐतिहासिक नाटक मुख्यतः रस प्रधान हैं। रस तथा नाट्य-प्रभाव के उद्देश्य से ही उनमें इतिहास-प्रयोग किया गया है, अत्यान्य वस्तुगत उद्देश्यों का विनियोग उनमें अनुयंगिक रूप से ही हुआ है। अतः यद्यपि सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय-तत्त्व उनमें प्रसंगतः मिलते अवश्य हैं, किन्तु उनसे उन्हीं की अपेक्षा रखना क्यमपि उचित नहीं है।

### ऐतिहासिक नाटक एवं उनमें इतिहास का रूप

**ऐतिहासिक वस्तुचयनः**—ऐतिहासिक-नाटक में इतिहास-प्रयोग का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। साधारणतया नाटककार वस्तुचयन के लिये स्वतंत्र होता है। यह उसकी इच्छा है कि वह वस्तुचयन सीधे ही लोगों से करे या इतिहास ग्रन्थों से। किन्तु कथानक का विश्वस्त तथा विश्रृत होना आवश्यक होता है। इस हिटि से वह वस्तु-चयन चार प्रकार से कर सकता है—

१. मूलत्रौत चर्चाओं से:—यदि वह मूल स्रोत ग्रन्थों से सामग्री चुनता है तो उसे यथासंभव इतिहासकार के दायित्व का भी निवाह करना होता है। वस्तु के संस्कार परिकार के अतिरिक्त उसे प्रामाणिक तथा विश्वस्त रूप देना आवश्यक है। इस तरह वह साहित्यकार तथा नाटककार दोनों का कार्य करता है।

२. इतिहास ग्रन्थों से:—इतिहास ग्रन्थों से वस्तु चुनकर नाटकीय रूप देना हर नाटककार का कार्य होता है।

३. समकालीन कथानक से:—समकालीन कथानक को भी प्रशस्ति आदि के रूप में नाट्यवद्ध किया जाता है किन्तु इसमें विश्वसनीयता तथा निश्चयात्मकता के होने पर भी अतिरंजनात्मक तत्त्वों का सहज विनियोग हो जाता है।

४. (अ) निकटमूर्त के लोकप्रिय ऐतिहासिक कथावृत्त से:—नाटककार कुछ पूर्व की ऐतिहासिक घटना का भी संग्रह कर सकता है, किन्तु उसमें विशुद्धता का होना आवश्यक है। कहीं ऐसा न हो कि लोकप्रिय होने से तथा किवदन्तियों के रूप में प्रबहमान होने से उसके सत्य पर आवरण पड़ गया हो। अन्यथा इसका उसे उचित परिकार करके ही विनियोग करना आवश्यक होता है।

(ब) लोककथाओं से:—कभी-कभी प्राचीन सभ्यता तथा संस्कृति को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से, प्राचीन आचार विचार और आदर्श को प्रस्तुत करने की भावना से या उसके लोकप्रिय तत्त्व की अभिव्यक्ति के हिटिकोण से प्रस्थात लोकप्रिय लोक-कथाओं की समृद्ध संपत्ति का भी आवश्यक संस्कार करके तथा विश्वसनीय रूप देकर,

नाथ्य-लेखन होता है। इसमें भी कोई न कोई निश्चित ऐतिहासिक तत्व के विनियोग द्वारा विश्वसनीयता तथा प्रामाणिकता उत्पन्न करना आवश्यक होता है।

उपर्युक्त उपजीव्यता के आधार पर मूलत ऐतिहासिक नाटकों को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है—(१) पश्चात्कालीन तथा (२) समकालीन। इनको भी क्रमशः २-२ उपविभागों में विभक्त बर सवते हैं—

पश्चात्कालीन—(१) विशुद्ध ऐतिहासिक ग्रन्थों पर आधारित, तथा (२) इतिहास के स्रोत ग्रन्थों पर आधारित

समकालीन—(३) समकालीन ऐतिहासिक वृत्त पर आधारित, (४) ऐतिहासिक लोकवृत्त पर आधारित।

### ऐतिहासिक वस्तु का रूप

नाटकवार के सम्मुख दो उद्देश्य होते हैं (१) साहित्यिक वृत्ति के स्पष्ट में नाथ्य रूप का सफल निर्माण, (२) उद्देश्य विशेष का सफल निर्बाह। इन्हीं उद्देश्यों द्वारा रास्ते में रथ बर वह कथा वस्तु का चयन करता है। विन्नु उसके भासने ज्ञात, अन्तात्, सुदूर एव निकट आदि अनेक प्रकार के कथानक होते हैं। इन रूपों में से किसका चयन बरे, इस सम्बन्ध में विद्वानों का मतभेद है।

### पाश्चात्य मत

साधारणतया पाश्चात्य ममालोचक इस सम्बन्ध में एक मत नहीं है। कुछ विद्वान् यह आवश्यक नहीं मानते कि कथानक, घटना या पात्र आदि ज्ञात तथा स्थान ही हों, तो कुछ दूर तथा दूदूर की घटना को ही अधिक महत्व देते हैं। पाश्चात्य समालोचक रेसाइन के अनुसार कथानक जितने ही दूर-सुदूर-अल्पज्ञात काल वा या फिर, दूसरे रेशों के इतिहास का प्रयोग किया जाय, उतनी ही सफलता ज्यादा सभव है। रेसाइन स्वदेशी तथा सुपरिचित इतिवृत्त के प्रयोग को उचित नहीं मानता। उमड़ी मान्यता है कि कथानक एक सहस्र वर्ष पूर्व वा या एक सद्य भीत वी द्वारी का होने पर सफलता अधिक सभव है। इसके विपरीत कालरिज वी मान्यता है कि कथानक उन्हीं के इतिहास वा होना चाहिए, जिनके लिए वह निया जा रहा है।<sup>१</sup>

उपर्युक्त दोनों मत 'मत' मात्र हैं, सिद्धान्त नहीं। हमें पाश्चात्य नाट्य-साहित्य में इनके अनेक अपवाद भी उपलब्ध हैं, जो कि नाथ्यकला की दृष्टि से

१. देखिये प्र० ऐति० ना० डा० जोशी, पृ० ३५-३६,

२. वही, पृ० २६-२७,

अत्यन्त लोकप्रिय हैं। वास्तविकता यही है कि नाट्यप्रतिभा, वस्तुगत आदर्श एवं प्रभाव के अभाव में किसी भी प्रकार के कथानक का विनियोग सफल नहीं हो सकता। अतः नाटक में आदर्श चरित्र, चमत्कारपूर्ण वस्तु और प्रभावोत्पादक नाट्य विन्यास ही ग्रावश्यक तत्त्व हैं।

## भारतीय मत

भारतीय परंपरा के पर्यवेक्षण से ज्ञात होता है कि प्रायः समस्त भारतीय विद्वान् वस्तुचयन के स्वरूप के सम्बन्ध में एक मत है। नाट्याचार्य मुनि भरत से लेकर सभी आचार्यों ने वस्तु के रूप में 'ख्यातवृत्त' को ही उपजीव्य बनाने का विधान किया है।<sup>१</sup> भारतीय आचार्यों ने इस विषय के सम्बन्ध में अधिक न लिख कर 'ख्यातवृत्त' जैसे सूत्रात्मक शब्द का प्रयोग किया है। किन्तु इसका अभिप्राय केवल "वृत्त" के ख्यात होने से ही नहीं है, अपितु इस सूत्रात्मक शब्द द्वारा वस्तु, पात्र, चरित्र, घटना आदि सभी के ख्यात होने का निर्देश किया गया है। विश्व के अधिकांश नाटककारों ने ख्यात तत्त्व को ही हृष्टि में रखकर "वस्तु" आदि का चयन किया है। विश्व के सफलतम ऐतिहासिक नाटकों में कोई ख्यात अंश अवश्य प्राप्त होता है। भारतीय मत के अनुसार अधिकारिक कथानक का प्रख्यात होना ग्रावश्यक है। प्रासांगिक कथानक कल्पित भी हो सकते हैं। पात्र तत्त्व के सम्बन्ध में भी यही मान्यता है।

सामान्यतः "ख्यात" शब्द का तान्पर्य यही है कि वस्तु तथा पात्र आदि के सम्बन्ध में इतनी प्रसिद्ध अवश्य हो कि वृत्त को श्रोता तथा दर्शक थोड़ा बहुत अवश्य पहिचान सकें, कम से कम उन्हें उसका यत्किञ्चित् परिचय अवश्य हो। अतएव ख्यात शब्द से प्रसिद्ध वृत्त की अपेक्षा की जाती है। चाहे वृत्त सुदूर का हो या निकट का, उसका ख्यात होना भारतीय नाट्यग्रन्थ की प्रथम शर्त है। मुख्यतः ऐतिहासिक नाटकों की हृष्टि से इस तत्त्व का अधिक महत्त्व है, क्योंकि:—

(१) ख्यात तत्त्व ही वह तत्त्व है जो नाटक को कल्पित होने से रोकता है तथा ऐतिहासिक रूप प्रदान कर "ऐतिहासिकता" की रक्षा करता है।

(२) ऐतिहासिक नाटकों के उर्ध्युक्त उद्देश्यों की हृष्टि से भी वृत्त के ख्यात होने पर ही कृतकार्य होने की संभावना अधिक रहती है।

(३) नाटक की रस-निर्भरता, नाट्य-प्रभाव तथा नैतिक आदर्शों की अभिट छाप

१. विशेष देखिये आगे इसी अध्याय में 'भारतीय मत में ऐतिहास तथा कल्पना प्रयोग।'

## ५२ सस्कृत के ऐतिहासिक नाटक

छोड़ने के लिए तथा सुपरिचित आदर्श का उदाहरण प्रस्तुत करने वी हृष्टि में भी स्थात वृत्त का महत्व है।

(४) "रथान" तत्त्व का सर्वाधिक महत्व यह है कि, क्योंकि वृत्त स्थात होने से दर्शकों की स्मृति पर स्वभावत् परिव्याप्त होता है, सम्मार रूप से स्थायित्व लिए रहता है। अत दर्शक या पाठकों का विना किसी पूर्व परिचय की अपेक्षा के तादात्म्य सम्बन्ध हो जाता है। उन्हें अनावश्यक कल्पना में नहीं उलझना पड़ता। नाटककार की कल्पना के माय-माय उनकी भी कल्पना शीघ्रता से उत्तरोत्तर बढ़नी जाती है। फलत उसमें रसोद्वेष तथा साधारणीकरण में अत्यन्त सहायता मिलती है और अकिञ्चन्त कल्पना के किसी अवरोध के बिना सहज ही सबेदन, अनुभावन तथा रसास्वादन की क्रिया स्वतं सम्पन्न हो जाती है।

(५) नाटक में इतिहास के स्थात-वृत्त को आधार बनाने पर नाथ्य-रचना सरल तथा उम्मी सफलता निश्चितप्राप्त हो जाती है। क्योंकि "वृत्त" विश्वस्त होने में सभी की आस्थाओं को समेटे होता है। अत कल्पित वृत्त के समान विश्वसनीयता पैदा करने की सेवक को आवश्यकता नहीं होती।

(६) रथान वृत्त उसी का होता है, जिसने अमाधारण कार्य करके इतिहास में ज्यो-नित नक्षत्र के समान चरित्र प्रवाणित किया हो, मध्यपी की नीद पर सफलता का प्राप्ताद घड़ा किया हो, परिम्यनि के प्रतिकूल प्रवाह को परिवर्तित कर अनुकूलता प्राप्त की हो तथा आशानीत मट्टनीय मफ्ल कार्यकलापों के द्वारा इतिहास के उत्थान-पतन में अपना स्थान बनाया हो। ऐस स्थान वृत्त से जहाँ ऐतिहासिक उद्देश्यों की सफलता की सभावना रहती है, वहाँ नाटकीय प्रभाव, चमत्कार, रस तथा आदर्श की हृष्टि में भी सर्वाधिक सहायता मिलती है। स्थात वृत्त को नाट्य रूप में प्रयोग करने से भारतीय उद्देश्यों की पूर्ति तो होनी ही है, इसके साथ-साथ पाश्चात्य नाटकारानुमोदित-नाटकीय प्रभाव, चरित्रोद्धारन तथा सामयिक समस्याओं के समाधान आदि उद्देश्यों की भी पूर्ति होनी है।<sup>१</sup>

(७) इसके अनिरिक्त हमारी यह भी मान्यता है कि स्थात तथा ज्ञात वृत्त को रसोद-बोध एव नाट्यप्रभाव में व्याधक मानना भ्रम मात्र है। वास्तव में नाट्य-प्रभाव तथा रसोद-बोध का सम्बन्ध वस्तु की अपेक्षा नाटककार की प्रतिभा तथा शिल्पकुशलता से अधिक

१. The author are all intent on first producing effective dramas second on revealing characters and thirdly on faithfully evoking spirit of the times with which they deal 'World Drama' Nicoll, P 863,

है। यही कारण है कि एक ही वृत्त पर आधारित भिन्न लेखकों की लेखनी से उद्भूत नाटक का प्रभाव तथा सफलता भी भिन्न-भिन्न प्रकार की होती है तथा सुन्दरतम् चमत्कारपूरण वस्तु भी प्रतिभाहीन नाटककार के हाथ में पड़कर सफल नहीं हो पाती। ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं, जिनके अनुसार नाटककारों ने ख्यात तथा चिरपरिचित वस्तु को उपजीव्य बनाकर भी अत्यधिक सफल-नाटकों का मृजन किया है। अतः हम वृत्त के अल्पन्नात या मुद्रूर के सिद्धान्त को विशेष महत्व नहीं देते।

### ऐतिहासिक नाटक में कल्पना-प्रयोग

हम यह उल्लेख कर आये हैं कि ऐतिहासिक नाटकों का मूलभूत आधार इतिहास है, किन्तु उसे नाट्कति बनाने के लिये वह कल्पना-प्रयोग भी करता है। इसी प्रकार हमने यह भी निर्देश किया है कि इतिहासकार भी इतिहास-निर्माण करते समय एक सम्पत्ता देने को तथा विशृंखलता दूर करने को कल्पना का आश्रय भी लेता है। किन्तु दोनों के कल्पना प्रयोग में अन्तर है। अतः ऐतिहासिक नाटक में कल्पना प्रयोग के सम्बन्ध में कुछ लिखने से पहिले हम दोनों में कल्पना प्रयोग की सीमाओं के सम्बन्ध में संक्षिप्त प्रकाश डालना आवश्यक समझते हैं।

### १. इतिहास तथा नाटक में कल्पना-प्रयोग

इतिहासकार को इतिहास में कल्पना का प्रयोग करना भी आवश्यक होता है, किन्तु उसमें भी उसकी वैज्ञानिक वृष्टि सक्रिय रहती है, कलाकार की नहीं। प्रतः इतिहासकार का कल्पना-प्रयोग अनुमान-प्रक्रिया तथा सम्भाव्यता के आधार पर सीमित मात्रा में होता है। इतिहासकार जब घटना तथा तिथियों को उस काल की अनुमानित पृष्ठभूमि में कार्यकारण के रूप में प्रामाणिक कलेवर प्रदान करके विवरण देता है तभी इतिहास की प्राणप्रतिष्ठा होती है, ऐतिहासिक गुणों से संपृक्त होता है तथा घटनीयता का समावेश होता है। यह सब कल्पना की क्रियाशक्ति है। इतिहास में यह कल्पना का कार्य प्रमाणों के आधार पर सीमित मात्रा में प्रक्रिया-विशेष के द्वारा होता है, स्वद्वन्द्व नहीं। यद्यपि वह अतीत के गर्भ से तथ्यों का अन्वेषण करके कल्पना द्वारा एक रूपता प्रदान करता है, तथापि उसका आग्रह ऐतिहासिक तिथियों, स्थल घटनाओं या ऐतिहासिक सत्य के प्रति ही अधिक होता है। इतिहास में कल्पना-प्रयोग का उद्देश्य तथ्यों एवं घटनाओं के रिक्त स्थानों की पूर्ति, रंगहीन स्थानों का (उभारना) अनुरंजन, विशृंखलित कड़ियों का जोड़ना तथा उसे घटनीय रूप प्रदान कर एक रूप एवं एक प्रवाह में आकार विशेष में स्थापित करना मात्र होता है। इतिहासकार प्रामाणिक सामग्री का अन्वेषण करता है, साक्ष्यों की निकाय पर कसता है, उप-

युवरता को मनोनना है, तब एक तत्वान्वेषक वैज्ञानिक भी भाँति उसका प्रयोग करता है। अत उसे निराधार, इवद्धन्द तथा अप्रामाणिक कल्पना प्रयोग का अधिकार नहीं है। वह कल्पना प्रयोग भी ममावित तथ्य के रूप में या अनुमानित इतिहास के रूप में ही करता है। अन स्पष्ट है कि इतिहासकार वेबल कल्पना के ढैनो पर वैठकर स्वद्धन्द रूप से उडान नहीं भरता, अपितु इतिहास की प्रामाणिकता से नियमित रहता है। उसकी बल्पना वेबल कल्पना नहीं होती, अपितु “ममावित-इतिहास” के सहश होती है। मध्येष में, इतिहासकार की कल्पना विज्ञान के ममानान्तर ही सक्रिय रहती है, निरपेक्ष तथा स्वद्धन्द नहीं। अत इतिहासकार विज्ञान का आचित पड़ाड़ बर उसके परिवेश में ही कल्पना का प्रयोग बरता है स्वद्धन्द होकर नहीं।

लेकिन, नाटककार एक कलाकार है। उसका उद्देश्य रसनिर्भर, कलात्मक रचना बरता है। वह एक कलाकार वे समान कल्पनाभक्ति के माध्यम से उन घटनाओं एवं तथ्यों के स्थूल अभ्यार के गर्भ में निहित अनुमूलिषुणं मत्य को आविभूत बरता है। वह इतिहास की शुष्क वस्तु को कल्पना के द्वारा ही सजीव, सरल तथा प्रभावोत्पादक बनाकर एक कलात्मकि के रूप में प्रस्तुत करता है। नाटककार की कल्पना-शक्ति का आश्रय पाकर इतिहास वा मन्य अतीत वे आवरण को छोड़कर वर्तमान की परिविम स जनजीवन के शाश्वत सत्य के सहश उभर बर मुकुर हो उठता है। अत स्पष्ट है कि नाटक म कल्पना का ममुवित प्रयोग करने की ग्रपक्षाहृत अधिक व्यतीता है, जबकि इतिहास में कल्पना के भ्रतप्रयोग से वह भ्रष्ट प्राय सा प्रतीत होता है। उसकी विश्वसनीयता तिरोहित हो जाती है और वह विज्ञान तथा शास्त्र वे स्तर में च्युत द्वो जाता है। वस्तुत नाटक में कल्पना प्रयोग होने पर ही नाटकीय प्रभाव, रस-निर्भरता, चमत्कृत तथा साहित्यिकता की पूर्ति होती है। कल्पना के अभाव म नाट्यकला की कल्पना ही ग्रमभव है। अत ऐतिहासिक नाटक म कल्पना-प्रयोग आवश्यक है, किन्तु अर्थ साहित्यिक दृतिया के समान स्वद्धन्द नहीं। इतप एक और ऐतिहासिकता का निर्वाह बरता होता है तो दूसरी ओर नाटकीयता तथा कलात्मकता का। इस प्रकार अन्य कलात्मकियां भी अपक्षा ऐतिहासिक नाटक का महत्व दिगुणित होता है, तो दायित्व मी दिगुणित हो जाता है। अत ऐतिहासिक नाटक में कल्पना-प्रयोग, प्रकार तथा सीमाओं के मम्बन्ध में मक्षिप्त विवरण आवश्यक है।

## (२) ऐतिहासिक नाटक में कल्पना-प्रयोग की परिसोभा

सबंग्रथम, ऐतिहासिक नाटककार एक नाटककार है, कलाकार है, इतिहासकार नहीं। इतिहास लिखना उसका उद्देश्य नहीं है। उसका उद्देश्य है कि अनीत वे सत्य को, इतिहास से कवान वे रूप में प्रहेण करके मासल, सरस, सजीव, रोचक बनाकर,

मुख्य-चित्रमय नाट्यरूप में प्रस्तुत करना। इस प्रस्तुतीकरण में सर्वप्रमुख सहायक उसकी निर्मातृ-शक्ति कल्पना की कलात्मकता होती है। अतः उसे यहाँ कल्पना-प्रयोग का पूरा-पूरा अधिकार है।

यद्यपि उसे यह अधिकार है कि वह अतीत की तथ्यभूत वस्तु को सजोकर कलात्मक कृति के रूप में मांसल, रसमय तथा सप्राण बनाकर पुनर्जीवित करे। किन्तु उसका यह दायित्व भी है कि वह इतिहास को अष्ट न होने दे। अतः उसे भी कल्पना प्रयोग में एक सीमा तक सीमित रहना पड़ता है। उस पर भी ऐतिहासिकता का श्रंकुश होता है। उसका दायित्व है कि वह कल्पना का इतना अतिप्रयोग न करे कि ऐतिहासिकता तिरोहित हो जाय और वह केवल सामान्य नाटक मात्र बनकर रह जाय। इसी प्रकार वह कल्पना का इतना न्यून प्रयोग भी न करे कि वह एक कथनो-पकथनात्मक इतिहास सा प्रतीत होने लगे। यद्यपि वह अपने उद्देश्य के अनुसार इतिहास के न्यूनाधिक प्रयोग के लिए स्वतंत्र है, किन्तु कल्पना का संतुलित प्रयोग उसकी शिल्प-कुशलता तथा प्रतिभा की अपेक्षा रखता है। कल्पना के प्रयोग के ग्रभाव में नाट्यकृति नहीं बन सकती, और कल्पना के अतिप्रयोग से उसका ऐतिहासिक रूप नहीं रह सकता। अतः ऐतिहासिक नाट्यसृजन में इतिहास तथा कल्पना अतिशयरूप से संश्लिष्ट तथा परस्पर सम्बन्धित तत्त्व है। इनके प्रयोग के सम्बन्ध में कोई भी निश्चित सर्वसम्मत मानदण्ड निर्धारित करना असंभव है, तथापि विद्वानों ने इनके प्रयोग के सम्बन्ध में यथा-प्रसंग कुछ स्परेखा दी है।

### पाश्चात्य मत

पाश्चात्य विद्वान् इस सम्बन्ध में एक मत नहीं है। उनके मतों को साधारण-तथा तीन वर्गों में विभक्त कर सकते हैं:—

कल्पनावादी—कुछ विद्वान् कल्पना के हर संभव प्रयोग के पक्षपाती है। इनके अनुसार संभाव्यता को दृष्टि में रख कर ऐतिहासिक वस्तु, पात्र तथा घटना आदि का स्वेच्छित प्रयोग संभव है। इनमें अरस्तु ने शक्यता को सबसे अधिक महत्व दिया है। ऐतिहासिक तत्त्व की दृष्टि से वह केवल एक दो पात्रों के नामों को ही ऐतिहासिक कृति में पर्याप्त मानता है। शेष में कल्पना-प्रयोग की स्वतंत्रता देता है। उसकी मान्यता है कि ज्ञात विषय भी बहुत कम व्यक्तियों को ज्ञात होता है। अतः वह ज्ञात इतिहास में भी परिवर्तन करने की स्वीकृति प्रदान करता है। लेसिंग भी अरस्तु का समर्थक है। इसका यह भी मत है कि ऐतिहासिक परम्परा-प्राप्त-वस्तु तथा उत्पाद्य में कोई विशेष अन्तर नहीं होता। यहाँ तक कि यह ऐति-

हासिक वस्तु की नाम, चरित्र तथा वातावरण में रहित रूपरेखा मात्र पर्याप्ति समझना है तथा नाम एवं घटना तक गढ़ने की स्वीकृति देता है।<sup>१</sup> इसी प्रकार शिवर वी मान्यता है कि नाटककार का दायित्व नाटकीय प्रभाव का निर्वाह करना है, न कि केवल शुष्क ऐतिहासिक इतिवृत्त का।<sup>२</sup> हेडलिन एवं का मत भी इनसे साम्य रखता है। यह भी नाटककार को इतिवृत्त में स्वेच्छित परिवर्तन का अधिकारी मानता है।<sup>३</sup>

### समन्वयवादी

बुद्ध ग्रन्थ विद्वान इतिहास तथा वल्पना-प्रयोग को समान महत्व देते हैं। ये नाटकीय उद्देश्यों तथा नाट्यसफलता की दृष्टि से आधारभूत इतिहास में परिवर्तन के पश्चाता हैं। होरेस ऐतिहासिक सत्य तथा कल्पना के सम्बद्धतापूर्ण प्रयोग को उचित मानता है, तथा नाटकीय प्रभाव को हृष्टि में रखकर घटनाओं में भी नाटकीय सम्बद्धता के साथ जन-विश्वासा वे अनुरूप क्रिय ग्रंथ परिवर्तना को भी उचित छहराता है।<sup>४</sup> इसी प्रकार बॉलरिज मम्भाव्यता की परिवर्तन में कलात्मकता वे अनुमार इतिहास की घटनाओं में परिवर्तन का अधिकार देता है।<sup>५</sup>

### यथार्थवादी

बुद्ध ऐसे भी विद्वान हैं जो इतिहास पर अधिक वल देते हैं। स्कैलिगर इसी मत के समर्थक हैं। वह ज्ञात इतिहास में परिवर्तन को क्रिविदपि उचित नहीं मानते तथा कल्पना वे प्रयोग की उननी ही अनुमति देते हैं जितन में वह उद्देश्यविशेष-उपदेश शिक्षा, आदर्श, मनोरजन आदि में सफल हो सके।<sup>६</sup>

समीक्षा —उपर्युक्त वल्पनावादी मत को हम उचित नहीं मानते। हम स्पष्ट कर चुके हैं कि वल्पना वे यथेच्छ व्ययोग से न ऐतिहासिकता उभर सकती है, न इतिहास रस वा निर्वाह ही हो सकता है। ऐतिहासिक नाटक में इतिहास की पृष्ठभूमि तथा रूपरेखा वे यथार्थ को बिना स्वीकार किये ऐतिहासिक वृत्त तथा वातावरण आदि की उपेक्षा करके यथेच्छ रूप से मूलव्यापक में परिवर्तन, परिवर्धन आदि करके सफल ऐतिहासिक नाटक नहीं रचा जा सकता। अत वल्पना पर अधिक

१. देखिये, प्र० ऐति० भा० ढा० जोशी, पृ० २४,

२. वही, २५-२६,

३. वही, २२-२३,

४. वही, २०-२१,

५. वही, २६-२७,

६. वही, २१-२२,

आग्रह रखना उचित नहीं है। इसी प्रकार ऐतिहास का अतिप्रयोग अनुपयुक्त है। ऐतिहास के अतिप्रयोग से कलात्मकता तिरोहितप्रायः हो जाती है। और सजीवता, सर्गता तथा प्रभावोत्तरादकता का आविभवि नहीं होने से ऐतिहासिक नाटक, रंगमंच पर दृष्टिहास का एक संवादात्मक रूप सा ज्ञात होता है। अतः समन्वय का मध्यम मार्ग ही सर्वथा उपयुक्त है। किन्तु सफल ऐतिहासिक नाटकों का जब परिगीलन करते हैं तो ज्ञात होता है कि उनमें इस समन्वय-भावना के रहते हुए भी चरम-उद्देश्यभूत-नाटकीय सफलता, नाट्यप्रभाव या रसनिष्पत्ति के लिये नाटककार कल्पना का अपेक्षाकृत अधिक प्रयोग करने को विवश हो जाता है और समन्वय नहीं कर पाता।

### भारतीयमत में ऐतिहास तथा कल्पना-प्रयोग

भारतीय आचार्यों ने पृथक् रूप से ऐतिहासिक नाटकों के विषय में कुछ नहीं लिखा है, तथापि उनके सामान्य विवेचन से ही कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। भारतीयों ने एक ही समन्वयात्मक मार्ग को प्रमुखता दी है। उन्होंने केवल सर्वसामान्य सिद्धान्तों का ही निरूपण किया है, जो कि सर्वत्र समान रूप से घटित होते हैं। भारतीयों की समन्वयात्मक व्यापक दृष्टि में ऐसा कोई भी विषय नहीं, जो उनके सामान्य विवेचन से छूट पाया हो। अतः ऐतिहासिक विषय की चर्चा भी वहाँ अनायास मिथित रूप में उपलब्ध हो जाती है।

### नाट्यगास्त्रकार भरत

मुनि भरत ने अपने नाट्यशास्त्र में वस्तु के विवेचन में स्वातइतिवृत्त को ग्रहण करने का आदेश तो दिया है, परन्तु उसके यथातथ्यवर्णन का कोई स्पष्ट निर्देश न देकर, विशेषतः रसनिर्भर वनाने पर ही बल दिया है। भरत का सर्वाधिक आग्रह 'रस' पर है। उनकी मान्यता है कि विना रस के कोई किसी अर्थ में प्रवृत्त ही नहीं होता,<sup>१</sup> चाहे वह किसी भी विषय-विशेष से सम्बन्धित क्यों न हो। और रस-मृष्टि का आधार कल्पना है। अतः भरत के उपर्युक्त निर्देश से उनका स्पष्ट अभिप्राय कल्पना प्रयोग से है।

मुनि भरत ने नाटक की परिभाषा भी कथावस्तु के ही आधार पर देते हुए लिखा है कि देवता, मनुष्य, राजा, महात्माश्रो-महापुरुषों के पूर्ववृत्तों की अनुकूलता को नाटक कहते हैं।<sup>२</sup> स्पष्ट है कि नाटक का विषय सार्वदेशिक है। यद्यपि भरत ने

१. नहि रसाहते कश्चिदर्थः प्रवर्तते, "नाट्यशास्त्र" ६। ३१-३२,

२. देवतानामृष्टाणां च राजामयकुट्टम्बिनाम् । कृतानुकरणं लौके नाट्यमेतद्भद्रिष्पति ॥" नाट्यशास्त्रः १। ११८,

तथा, "देवतानां मनुष्याणां राजां-लोकमहात्मनां । पूर्ववृत्तानुकरणं नाटकं नाम-तद्भवेत् ॥

## ५८ सत्त्वत के ऐतिहासिक नाटक

विशेष स्पृष्ट से इतिहास शब्द का भर्ती प्रयोग नहीं किया है, परन्तु मनुष्य, राजा तथा सोइ-महात्मा शब्द से इतिहास की ओर ही निर्देश है। इसके अनिरिक्त नाट्यशास्त्र में वही जगह 'इतिहास' शब्द का भी प्रयोग हुआ है। भरत के अनुसार नाटक (काव्य) के विकास में इतिहास का भूत्त्वपूर्ण योगदात रहा है। अतएव उन्होंने नाटक को "संतिहास पञ्चमवेद" कहा है।<sup>१</sup> इस इतिहास शब्द से नाट्य में क्यात्मक तत्त्व के रूप में उनका इनिहास पर ही आध्र है। यही कारण है कि भरत ने स्पष्टत व्याकात्मक की परिकल्पना के लिये इतिहास की भी स्वीकृति दी है।<sup>२</sup> यद्यपि भरत द्वारा प्रयुक्त इतिहास शब्द वर्तमानवालिक प्रचलित इतिहास शब्द से भिन्न है, किन्तु वह व्यापक है। अत उसमें ग्राधुनिक ग्रंथ भी समाहित है। भरत न नाट्यशास्त्र को भी इतिहास कहा है।<sup>३</sup> उनके इन प्रयोगों में वर्तमान म गृहीत इनिहास का ग्रंथ भी समाहित है। निष्कर्षमें उनके द्वारा प्रयुक्त इतिहास शब्द में यही तात्पर्य है कि नाटक में स्थानवृत्त का ही प्रयोग किया जाय। यही कारण है स्थानवृत्त के उदाहरणस्वरूप 'इन्द्रविजय' नामक भारत के सर्वप्रथम नाटक का व्याकात्मक तत्कालीन भाव्यनाप्राप्त इतिहास से मौजोया गया है। स्पष्ट है कि भरत के अनुसार नाटक में इतिहास का अतिशय महत्व है।

भरत द्वारा नाटक में इनिहासप्रयोग पर बन देने का कारण यह है कि भारतीय मत में नाटक के प्रयोगन तथा उद्देश्य की संप्राप्ति अविकृ स्पृष्ट से इनिहास-प्रयोग द्वारा ही समव है। नाटक का प्रयोगन नानाभावों से युक्त नाना अवस्थाओं से आविष्ट लोकवृत्त का अनुकरण करना है। अतएव इसमें उत्तम, मध्यम तथा अधम प्रकृति के पुरुषों के चरित्र वा आश्रय लिया जाता है, तभी लोकोपदेश तथा हितोपदेशस्वरूप व्यावहारिक प्रयोगन की पूर्ति होती है।<sup>४</sup> ये समस्त प्रयोगन मुख्यत इतिहास को उपजीव्य बनाने पर विशेष सकलता से स्वत ही सिद्ध हो जाते हैं। अतएव भरत न प्रकारान्तर से मान्यना प्रकट की है कि नाटक की व्यावस्था इनिहास से ही ग्रहण की जानी चाहिये। भरत का इस मन्त्रन्व म मत है कि प्रलयात्मक तथा प्रलयात नायक आदि का अवलम्बन लेना उपादेश है। क्गोकि प्रलयान्वस्तु के उपजीव्य बनान पर ही राजपिंश के चरित्र की प्राप्ति समव ही और प्राप्य राजाग्रा के चरित्र ही नाना रमभाव से युक्त हुए करते हैं।<sup>५</sup> स्पष्ट है कि भरत के अनुसार नाटक के

१. नाट्यसज्जनिम वेद सेतिहास करोम्यहम् । वही, ११५,

२. वेदविद्येतिहासानामर्थोना परिकल्पनम् । वही १११६,

३. इतिहासो-मया सूष्टि । वही, ११६,

४. नाट्यशास्त्र, ११०४-११८,

५. वही, २० ११०, ११, १२,

प्रयोगनों की सफलता की अधिकतम आणा से इतिहास-प्रयोग उपादेय है।

किन्तु मुख्यतः विचारणीय यह है कि भरत के मत में ऐतिहासिक नाटकों में इतिहास का रूप क्या है? इतिहास कितना हो तथा कल्पना कितनी? भरत का पृथक्करूप से इस विषय में कुछ भी स्पष्ट मत नहीं है। किन्तु, भरत के मत में “रस” नाटक का चरम उद्देश्य है। इतिहास नाटक का आधार एवं उपजीव्य मात्र है। अतः इतिवृत्त को नाटक का शरीर कहा है<sup>१</sup> तथा रस को आत्मा।<sup>२</sup> शरीरभूत इतिवृत्त नाटक का ढाँचा या एक नगनकंकाल मात्र होता है। उसमें आत्मभूत “रस” का निष्केप करके सजोवता का संचार करना, मासल बनाना, प्राण प्रतिष्ठा करना कल्पना या काव्यकला का कार्य है। नाटकीय उद्देश्य को हृष्टि में रखकर कल्पना-प्रयोग की तथा कथावस्तु में परिवर्तन परिवर्धन की समस्त स्वायत्तता कलाकार को है। अतएव भरत ने लिखा है कि कथावस्तु चयन करते समय कलाकार का यह कर्तव्य होता है कि वह मूलकथा के उन अंशों का जो रस या नायक के चरित्र के प्रतिकूल हों, परिहार करे अथवा अन्यथा कल्पना करे, तथा परिवर्तन परिवर्धन करके परिष्कार करे।<sup>३</sup> अतः भरत के मत में नाटककार ऐतिहासिक कथा-सूत्र को ग्रहण करके नाटक के निर्माण में अपने उद्देश्य की सफलता के लिये कल्पना-प्रयोग में स्वतंत्र है।

### दशरूपककार धनंजय

इतिहास तथा कल्पना-प्रयोग के सम्बन्ध में दशरूपककार धनंजय ने और भी अधिक स्पष्टीकरण करने की चेष्टा की है। धनंजय के अनुसार वर्णित कथावस्तु सामान्यतया तीन प्रकार की होती है<sup>४</sup>—प्रख्यात, उत्पाद्य, मिश्र। प्रख्यात में इतिहास, पुराण आदि से संग्रहीत, उत्पाद्य में कविकल्पित, तथा मिश्र में प्रख्यात एवं उत्पाद्य की मिथित वस्तु होती है। इससे स्पष्ट है कि धनंजय के अनुसार नाटककार स्वेच्छित वस्तु-चयन का अधिकारी है। यहाँ प्रख्यातवस्तु से विशेषतः ऐतिहासिक वस्तु से ही तात्पर्य है। दशरूपक में धनिक ने प्रख्यात के लिये “इतिहासादेः” लिखा है।<sup>५</sup> किन्तु व्याख्याकार प्रायः “आदि” शब्द-प्रयोग के कारण तथा इतिहास शब्द का व्यापक पुरातन अर्थ स्वीकार करके इसका इतिहास पुराण आदि अर्थ करते हैं। अतः संभव है कि धनंजय का भी अभिप्राय यहाँ इतिहास, पुराण आदि से ही रहा है। हम कह

१. नाट्यशास्त्र, २०१५१, २११,
२. वही, २०१५१;
३. देखिये, वही अध्याय २०,
४. दशरूपक, ११५,
५. वही, धनिक की वृत्ति,

चुके हैं कि इतिहास के अनिरिक्त पुराण भी प्रचीन परपरा में इतिहास माने जाते रहे हैं।<sup>१</sup> इस प्रकार धनजय का भी इतिहास पर प्राप्त है।

इसके अतिरिक्त नाटक में प्रव्यात वस्तु की निर्वाहकता तथा बल्पना के बारे में, धनजय का मत है कि वह परिवर्तन-परिवर्धन वा पूरण ग्रन्थिकारी है। धनजय के अनुमार नाटक का उद्देश्य है “रस-प्राप्ति,” न कि व्युत्पत्ति। क्योंकि व्युत्पत्ति तो इतिहास आदि में ही मभव है<sup>२</sup> इष्टटन यहाँ न टक्को (विशेषत ऐतिहासिक नाटक को) इतिहास आदि स महत्वपूर्ण बनलाया है। नाटक में वस्तु (इतिहासादि) की अपाधा मौलिभूत रमरूप प्रयोजन के निमित्त अधिक सक्रिय रहना होता है। इसी ‘रस’ निष्पादन की दृष्टि से नाटककार को ग्रन्थिकार है कि वह वस्तु तथा पात्र में यथेच्छ परिवर्तन बरे, जिसमें नाटक आनन्दनिष्पन्द म बृनकार्य हो मदे।

धनजय के अनुमार प्रस्ताव वश का राजपि नाटक का नायक होना चाहिए तथा मुख्यत आधिकारिक वस्तु प्रस्ताव होनी चाहिए।<sup>३</sup> विन्तु यह ग्रावश्यक है कि नायक को हमेशा उदात्त तथा अभिलापित उद्दिष्ट गुणों से मुक्त ही प्रदर्शित किया जाय।<sup>४</sup> अतएव उसे अधिकार है कि वह इतिवृत्त में रस तथा नायक के चरित्र के प्रभाव की दृष्टि से जो विश्वद्वय हो उसका परिणाम करदे, या किर अन्यथा सजंना या परिकल्पना करे।<sup>५</sup> धनजय का स्पष्ट मत है कि नाटककार का कर्तव्य यह है कि वह हमेशा ध्यान रखे कि वरतु, अलकार आदि के द्वारा न तो रम से वस्तु अनिदूर हो, और न रम का तिरोभाव ही।<sup>६</sup> निष्पर्यं रूप म हम मान सकते हैं कि धनजय रमरूप उद्देश्य, वस्तुगत आदर्श तथा प्रभाव को दृष्टि में रम कर नाटककार वो बल्पना-प्रयोग की स्वतत्रता दता है। उमकी मान्यता है कि वह वस्तु तथा चरित्र का केंसा ही स्वनिष्ठत मृजन तथा वियास करे, आधिकारिक वस्तु तथा चरित्र प्रव्यात अवश्य हो।

### आनन्दवर्धन

ध्यान्यालोक नामक अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ में ग्राचार्य आनन्दवर्धन ने इस विषय पर सबसे अधिक व्यवस्थित तथा विस्तृत प्रकाश ढाला है। उन्होंने भरत के

१. देखिये इसी प्रबन्ध का द्वितीय अध्याय

२. दशार्थक ११६,

३. वही, ३।२३

४. दशार्थक, ३।२२,

५. वही, ३।२४,

६. न चातिरसतो वस्तु द्वारं विच्छिन्नता नयेन् ।

रस वा न तिरोदध्यात् वस्तवत्कारत्त्वं ॥ वही ३।३२-३३,

प्रस्तुत वस्तु-विषय तथा प्रहरात् उदात्त नायक के प्रयोग का ग्रीचित्य का समर्थन करते हुए नाटक में ऐतिहास-प्रयोग की उपादेशता नांदूर-शिल्प के आधार पर सिद्ध की है। उनका मत है कि इससे (ग्रीष्मन् वस्तु के प्रयोग से) नायक के ग्रीचित्य-अनीचित्य के विषय में लेखक भ्रम में नहीं पड़ता है। किन्तु यदि कल्पित कथा के आधार पर नाटकादि का निर्माण किया जाय, तो उसमें अप्रसिद्ध प्रौर अनुचित नायक के स्वभावादि के बर्णन में बड़ी भूल होने की संभावना रहती है।<sup>१</sup> अतः इस लाभ को दृष्टि से इतिहास-प्रयोग ही अधिक उपादेश है। इसके अतिरिक्त कल्पित तथा छायात् दोनों में रस तथा ग्रीचित्य की दृष्टि से भी ऐतिहासिक वस्तु ही नाटक के लिये हितकर है। मूल कारिका की व्याख्या करते हुए उन्होंने लिखा है कि “ग्रीचित्य युक्त ऐतिहासिक या कल्पित कथा-शारीर का ग्रहण अभिव्यञ्जक होता है। इसके प्रतिपादन का तात्पर्य यही है कि ऐतिहासादि में रसवती विविध कथाओं के होने पर भी विभावादि के ग्रीचित्य से युक्त कथावस्तु यदि उनमें हो तो उसे ही ग्रहण करना चाहिए, अन्य को नहीं। और ऐतिहासिक कथावस्तु में अधिक कल्पित कथावस्तु में सावधान रहने का प्रयत्न होता है। क्योंकि कल्पित वस्तु में असावधानी से भूल कर जाने पर कवि की अव्यूत्पत्ति की बहुत अधिक संभावना रहती है।<sup>२</sup> ऐतिहासिक इतिवृत्त के ग्रहण करने से इस दायित्व से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आनन्द-वर्वन का आग्रह ऐतिहासिक वस्तुचयन में, विशेषतः लेखक की सुविधा तथा सफलता की अधिक संभावना के कारण ही है।

आनन्दवर्वन ने उपर्युक्त अभिमत के अतिरिक्त कल्पना के प्रयोग के सम्बन्ध में भी विचार व्यवत् किये हैं। उनके विचार से कवि तथा कथाकार को कल्पना-प्रयोग की पूर्ण स्वतंत्रता है। उनका मत है कि “ऐतिहासिक क्रम से प्राप्त होने पर भी रस के प्रतिकूल स्थिति (कथाशादि के प्रसंग) को छोड़कर, मध्य में अभीष्ट रस के अनुकूल नवीन कल्पना करके भी कथा का संस्करण एवं परिष्करण करना

१. अतएव च भरते प्रस्तातवस्तुविषयत्वं प्रस्तातोदात्तनायकत्वं च

नाटकस्यावश्यककर्तव्यतयोपम्यस्तम्। तेन हि नायकोचित्यानीचित्य-

विषये कविने व्याख्याहृति। प्रस्तृत्याद्यवस्तु नाटकादि कुर्यात् तस्याप्रसिद्धानुचित-  
नायक-स्वभाववर्णने महान् प्रमादः। घन्यालोक ३।१४, की व्याख्या, पृ० २६०,

२. ग्रीचित्यवत्: कथाशारीरस्यवृत्तस्योत्प्रेक्षितस्य वा ग्रहोव्यञ्जक इत्यनेनैतत्  
प्रतिपादयति यदितिहासादिषु कथासु रसवतीषु विविधासु सतीष्वपि यत्तत्र  
विभावाद्योचित्यवत् कथाशारीरं तदेव ग्राह्यं नेतरत्। वृत्तादपि च कथाशारीरा-  
द्युत्प्रेक्षिते विशेषतः प्रयत्नवता भवितव्यम्। तत्र ह्यनवधानात् स्वलतः  
कवेरव्यूत्पत्ति-सम्भावना महती भवति। वही, पृ० २६३,

आवश्यक है।<sup>१</sup> अब भारतीय कलाकार को यह पूर्ण अधिकार है कि वह कथावन्नम् म नायक का या रम के विरोधी अशो का परित्याग करदे, या फिर स्वेच्छित प्रबलपना करे। नाटककार ऐतिहासिक कथावस्तु को यथार्थ या यथावद्दूप म चित्रित मात्र करके ही अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर सकता। उसका प्रमुख उद्देश्य है—“रम-निभंर कलाकृति का निर्माण करना।” अतएव वस्तु भावि के अनुचित, अनुपसुक्त अशो की बांट छाँट तथा परिवर्तन-परिवर्धन का उमे समस्त अधिकार है। आनन्दवर्धन का स्पष्ट मत है कि “वाद्य का निर्माण करते भगव विकार को पूर्णरूप से रमायनप्र ही होना चाहिए। इसलिए यदि इतिहास में इसके विपरीत भी स्थिति दीप पड़े तो उमे तोड़कर स्वतन्त्ररूप से रम के अनुरूप किसी अन्य प्रकार की कथा निवद्ध करले। यथोकि इतिवृत्तमात्र के निर्वाह से ही विकार का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, वह तो केवल इतिहास में भी सिद्ध हो सकता है।<sup>२</sup> स्पष्ट है कि साहित्य को इतिहास बनाना कलाकार का बार्य नहीं है, अपिनु एक रमभग बलाकृति बनाना है। इसके निय उमे बल्पना प्रयोग की पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है।

उपर्युक्त शब्द द्वारा आनन्दवर्धन ने इतिहास तथा बल्पनाप्रयोग पर अधिक स्पष्ट रूप से प्रराश डाला है। यहाँ बल्पना प्रयोग तथा इतिहास-प्रयोग के श्रीचित्य निर्देश के साथ-माथ इतिहासकार तथा ऐतिहासिक कलाकार के मध्य एक सीमावन करन की भी सफल चेष्टा की है। दोनों के भेद, उद्देश्य तथा प्रायोगिक-विधान का भी मूलात्मक स्वरूप शब्दो म सक्षिप्त-विशेषण वर डाला है। आनन्दवर्धन द्वारा उल्लिखित ‘रमपरतत्र’ शब्द का अन्यदिक स्वारस्थ है। इस शब्द से स्पष्ट होता है कि भारतीय नाटककार का ‘रम’ ही चरम उद्देश्य होता है। अब वह इतिवृत्त यादि के अधीन न होकर मुम्ब्यत रम के अधीन ही रहता है। नाट्यगत रमनिधत्ति म ही उसके कलाकृति, तथा वृत्तित्र आदि की सार्थकता है। दूसरी ओर ‘भाव’ शब्द तथा ‘प्रयोजन’ शब्दो की सार्थकता भी मह निर्देश करती है कि केवल इतिवृत्त मात्र से इतिहासकार का प्रयोजन या उद्देश्य भले ही सिद्ध हो जाय, किन्तु कलाकार के उद्देश्य की मिठि निविदिय नहीं होती। स्पष्टत दोनों का उद्देश्य तथा प्रयोजन भिन्न है। अत रमपरतत्र कलाकार को बल्पना-प्रयोग वा भी स्वच्छित अधिकार है।

१. इतिवृत्तवरायात् त्यक्तव्यात्तनुगुणा स्थितिम्।

उत्तरेष्याप्यन्तराभीष्ट-रसोचित-क्षयोन्नेत्। ॥ ३११ ध्यान्यातोक, पृ० २५७,

२. कविना काव्यमुपनिवस्त्रा सर्वात्मना रसपरतत्रेन भवितव्यम्।

तत्रेतिवृत्ते, यदि रसाननुगुणा स्थिति पश्येत् तदेषा भड्तपापि स्वतन्त्रप्या रसानुगुणे क्यान्तरमुत्पादयेत्। नहि कवेरितिवृत्तमात्रनिवर्बहुणेन किंचित् प्रयोजनम्, इतिहासादेव तत्त्वदेः। वही, पृ० २६४,

## भारतीय मत में कल्पना-प्रयोग की परिसीमा

भारतीय-साहित्यशास्त्रियों की मान्यता के अनुसार जबकि भारतीय कलाकार का मुख्य उद्देश्य 'रम' है, अत यह भ्रम हो सकता है कि भारतीयों के अनुसार रस-निर्भर रचना के निर्माण के लिये कलाकार कल्पना का स्वतंत्रतापूर्वक ग्रन्थविक प्रयोग भी कर सकता है। किन्तु वास्तविकता यह नहीं है। भारतीयमत में कलाकार कल्पना के उच्छृंखल-प्रयोग द्वारा 'रसपेशलता' के द्वद्म से वस्तुतत्त्व की उपेक्षा तथा अनगंत, अनुचित कल्पना करने को कदापि स्वतंत्र नहीं है। भारतीय साहित्यशास्त्रियों ने यथासम्भव सभी की मर्यादाएँ बनाने की चेष्टा की है। इस प्रसंग में यह जान लेना पर्याप्त होगा कि पाश्वात्य समालोचकों ने "सम्भाव्यता" तथा सम्बद्धता के द्वारा जहाँ एक लोचदार सीमा रेखा बनाने की चेष्टा की है, उससे कही हृष्टतर मर्यादा भारतीयों ने "ओचित्य" के विधान द्वारा बना दी है। भारतीय साहित्यिक विवेचना तथा रचना-विधान ओचित्य के परिवेश पर हीं आधारित है। साहित्य के गुण-दोष आदि का समस्त विवेचन ओचित्य तथा अनीचित्यपूर्ण प्रयोग-विधान को दृष्टि में रखकर ही किया गया है। भारतीय विवेचना-पद्धति की यह विशेषता है कि भारतीय साहित्य कां समग्र विवेचन-प्रस्तार एकांगी न होकर परस्पर सम्बद्ध, एकरूप तथा समस्त उद्देश्यों को एक दृष्टि में समेट कर ही हुआ है। अनियत-विषयत्व तथा ग्राम्यत्व आदि दोषों का विवेचन अनीचित्य को ही दृष्टि में रख कर किया गया है।<sup>१</sup> भारतीय सिद्धान्त न तो कही अति को महत्त्व देते हैं, न न्यूनता को। अतएव समस्त भारतीय साहित्य-शास्त्र में च्यावहारिक रूप से ओचित्य के महत्त्व को स्वीकार किया गया है।

भारतीय मत में जब कि रस-परतंत्र-कलाकार का उद्देश्य 'रस-पेशल' रचना करना है, तो उसे सर्वांगीण रूप से ओचित्य-सापेक्ष रहना आवश्यक हो जाता है। अन्यथा वहाँ 'दोष' ही उत्पन्न नहीं होते, अपिन्तु उसको 'कामचार' या उच्छृंखल तक कह कर भारतीय समालोचकों ने उसकी उपेक्षा की है।<sup>२</sup> भारतीय मत में कलाकार का नियमन करने वाला ओचित्य सिद्धान्त ही है, अतएव वकृत, वाच्य तथा विषय ग्रादि का नियामक ओचित्य को ही बतलाया गया है।<sup>३</sup> घन्यालोककार आनन्दवर्धन का काव्य के संबंध में कथन है कि महाकाव्य तो रसप्रधान तथा इतिवृत्तप्रधान दोनों

१. भा० सा० शा० वलदेव उपाध्याय, भाग २, पृ० ५५-५७,

२. तत्र यदा कविरपगत-रसभौर्वो वक्ता तदा रचनायाः कामचारः ।

यदा हि कविनिवद्वो—इत्यादि, घन्यालोकः ३१६, की व्याख्या, पृ० २४५,

३. घन्यालोक, ३१६, ७,

प्रकार के देखे जाते हैं, उनमें रस-प्रधान ही थेठ है। रसप्रधान महाकाव्य में जो रस के ग्रीचित्य का निर्वाह नहीं करता वह कामचार अर्थात् मनमानी करने वाला है।<sup>३</sup>

इसके अतिरिक्त अभिनेयार्थ नाटकादि में मुख्यतः रसयोजना करन पर ही बल देते हुए लिखा है कि नाटकाकार वो रस पर ही आग्रह रखता चाहिए।<sup>४</sup> किन्तु, वास्तव में यदि रसप्रधान तथा इतिवृत्तप्रधान नाटकों के बांग भी स्वीकार कुरले तो हमें यह नहीं मानना चाहिए कि इतिवृत्त-प्रधान अर्थात् ऐतिहासिक आदि नाटकों में रसमयना का अभाव होता है। ही, यहीं इतना अवश्य है कि वेवल 'रस' निष्पत्ति के पीछे इतिवृत्त की उपेक्षा करना अनुचित ही माना जाएगा। ऐसे नाटकों में रस-ग्रीचित्य के साथ वस्तुगत ग्रीचित्य का परिपालन भी सर्वथा आवश्यक है, अन्यथा रसगत ग्रीचित्य का कदापि सम्पादन हो ही नहीं सकता। वयोंकि रस-ग्रीचित्य के निर्वाह न होने में वस्तु, नता तथा भावविभाव आदि की अनौचित्यपूरण योजना ही मुख्य कारण होती है। दूसरे शब्दों में, किन्तु, नेता आदि के ग्रीचित्य के निर्वाह होने पर रस-ग्रीचित्य का स्वतः निर्वाह हो जाता है। अनन्दवर्धन ने इसीलिए लिया है कि मुख्यतः अनौचित्य ही रसभग का प्रधान कारण है। अनुचित वस्तु के सम्प्रिवेश करने पर ही रस-मशिलपट रचना नहीं होती है। अतः रसोंमेप का मुख्य रहस्य है ग्रीचित्य के द्वारा वस्तु का उपनिवेशन।<sup>५</sup>

ग्रीचित्यमार्ग के प्रवर्तक धेमेन्द्र ने "ग्रीचित्य विचार चर्चा" में विस्तार से ग्रीचित्य का स्वरूप-निरूपण करते हुए, पद, वाक्य, अर्थ, रस, कारक, लिंग, वचन आदि अनेक स्थनों पर ग्रीचित्य विधान के महत्व का प्रतिपादन किया है। इसी प्रतिपादन के द्वारा उन्होंने भारतीय साहित्यकार की सीमाओं का निर्धारण करने का सफल प्रयास भी किया है। भारतीय परिवेश में रसात्मक रचना ही थेठ होनी है, और रसभग में अनौचित्य के अतिरिक्त और वोई कारण नहीं होता। अतएव धेमेन्द्र ने ग्रीचित्य को ही रस का जीवितभूत स्वीकार किया है।<sup>६</sup> अतः सर्वत्र भारतीय दृष्टिकोण के अनुमार कल्पना-प्रयोग में भी ग्रीचित्य का अतिक्रमण वर्ज्य है।

१. घन्यालोक, ३१७ की व्याख्या, पृ० ४३,

२. अभिनेयार्थ तु सर्वथा रसवन्धेऽभिनिवेशः कार्यं । वही, पृ० २५३,

३. देविये, धन्यालोक ३१४ की व्याख्या, पृ० २६०,

४. अनौचित्यादूद्वते भान्यत् रस-भगस्य कारणम् ।

ग्रीचित्योपनिवधस्तु रसस्योपनिषत्परा ॥

**वस्तुतः** भारतीय दृष्टि में 'वस्तु', नेता तथा रस का एक संग्रिहण्डि त्रिकोणात्मक आयाम है, जिसे ग्रीचित्य ही नियंत्रित करता है। प्रमुख उद्देश्य भूत 'रस' के भंग में ग्रीचित्य के अभाव के निर्देश से स्वत एव वस्तु तथा नेता के ग्रीचित्य की आनुपंगिक उपादेयता स्पष्ट हो जाती है। क्योंकि वस्तु तथा नेता तत्त्व का संविधान भी तो उसी निमित्त से होता है। जबकि भरत ग्रीचित्यपालन के रूप में लोक के व्यावहारिक तथा यावद्रूप में क्रियाकलाप के पालन को परमावश्यक मानते हैं,<sup>१</sup> तथा क्षेमेन्द्र रस का जीवित भूत ग्रीचित्य को मानते हैं और आनन्दवर्धन अनौचित्य को ही रसभंग का कारण स्वीकार करते हैं। स्पष्ट है कि रसोन्मेष के लिये वस्तु ग्रीत नेता गत ग्रीचित्य भी पालन किया जाय। कल्पना का प्रयोग वहीं तक स्वीकार्य है, जहाँ तक वस्तु तथा नेता का रूपविधान अनुचित न हो तथा ऐतिहासिकता को विकृत न करदे। वस्तु तथा नेता में मूलतः स्थित अनुचित स्थलों तथा चरित्रों का प्रसिद्धकार जहाँ आवश्यक है, वहाँ कल्पना द्वारा अनुचित तथा कुप्रभावकारी और वस्तु तथा नेता की वास्तविकता को नष्ट करने वाली परिकल्पना भी सर्वदा वर्ज्य है। यही नहीं, बल्कि भूत ने नाट्य-रचना के अतिरिक्त नाट्य-प्रदर्शन में भी ग्रीचित्य पर बल दिया है।<sup>२</sup> वेष-भूषा, वोलचाल, भाषा तथा कार्यकलाप सभी में ग्रीचित्य के महत्व की प्रतिष्ठा की है। इसी प्रकार दशरूपकार ने भी, ग्रीचित्य-निर्वाह तथा अनौचित्य के परिहार पर बल दिया है।<sup>३</sup>

ऐतिहासिक नाटककार की दृष्टि से इतिहास तथा कल्पना-प्रयोग में रस ही परमप्रयोजन है। उसी के लिये वस्तु, नेता आदि का विन्यास तथा कल्पना का विनियोजन किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि ग्रीचित्य के परिवेश में, रसभंग से चबने के लिये, कल्पना द्वारा इतिहास की तथ्यभूत सोहृदेश्यता तथा प्रामाणिकता की मुरक्खा सर्वथा अवश्यक है। कल्पना-प्रयोग वहीं तक उपादेय है, जहाँ तक इतिहास की मूलभूत सोहृदेश्यता तथा इतिवृत्तात्मकता नष्ट न हो जाये। इस प्रकार इतिहास एवं कल्पना प्रयोग का भी ग्रीचित्य ही नियमन करता है, तथापि इनके प्रयोग के लिये कोई दृढ़ नियम नहीं बनाये जा सकते। उनका प्रयोग लेखक के उद्देश्य, दृष्टिकोण, वस्तु का स्वरूप, चयनप्रकार तथा प्रतिभा आदि सभी पर निर्भर करता है। उपर्युक्त समस्त विश्लेषण के आधार पर कुछ स्थूल तथ्य निकाले जा सकते हैं:—

१. अनौचित्यादत्रते नाट्य रसभंगस्य कारणम् ।

ग्रीचित्योपनिवन्धस्तु रसस्योपनिषत्परा ॥

२. नाट्यशास्त्र २३।६८, तथा देखो १०।१०६, २६।११३,

३. चही, १४।६८,

४. दशरूपक ३।२४,

## ६६ . संस्कृत के ऐतिहासिक नाटक

(१) ऐतिहासिक नाटक में रस सृष्टि के लिये कल्पना प्रयोग की पूर्ण स्वतंत्रता है, किन्तु इसकी इतनी 'अनि' न हो कि इतिहास की सोइे शृणा, इतिवृत्ता-भक्ता तथा इतिहास का सत्य ही नष्ट हो जाय ।

(२) ऐतिहासिक नाटक में रससृष्टि के लिये कल्पना-प्रयोग के अनिरिक्त वस्तुगत अनुचित स्थलों का परिष्कार तथा पात्रगत चारित्रिक न्यूनताग्रों का मस्कार आवश्यक है, किन्तु इससे इतिहास का यथायं नष्ट न होने पाये ।

(३) नाट्यरूप के समुचित विन्यास के लिए तथा स्वकीय प्रयोजनोपलब्धि के लिये कल्पना के समाश्रय से उपयुक्त प्रसंगों तथा पात्रों की परिकल्पना भी आवश्यक है ।

(४) मुख्य ऐतिहासिक नाटकों में इतिहास-रस तथा ऐतिहासिक वातावरण की सृष्टि के लिये और समग्र वस्तु, पात्र आदि का इतिहासीकरण करने के लिये कल्पना का स्वेच्छित प्रयोग सम्भव है ।

(५) ऐतिहासिकता में बाधक तथा निराधार कल्पना ऐतिहासिक नाटकों में सर्वथा वज्य है । काल्पनिक भावुकता इतनी अधिक न हो कि नाटक काल्पनिक बन जाय ।

(६) श्रीचित्य के परिवेश ने सम्भाव्यता तथा सम्बद्धता को हृष्टि में रख कर इतिहास तथा कल्पना का समन्वित, सतुरित प्रयोग ही ऐतिहासिक नाटकों में अपेक्षित है ।

(७) ऐतिहासिक रूपनामा में वचन के लिये, विकीर्ण सामग्री के मधोजन के लिय, ऐतिहासिक घटनाग्रा के दिक्ष स्थानों की संरूपि वे लिये, घटनामूलक की क्रम-व्यवस्था के लिये, तथा उद्देश्य विशेष की पूर्ति के लिये कल्पना-प्रयोग का नाटककार को पूर्ण अधिकार है ।

## ऐतिहासिक नाटक तथा इतिहास

- ऐतिहासिक नाटक में कल्पना तथा इतिहास प्रयोग के सम्बन्ध में प्राच्य-पाश्चात्य समस्त विद्वानों के विचारों के समालोचन के बाद ऐतिहासिक नाटक तथा इतिहास के सामान्य अल्लर पर भी हृष्टि डाल लेना उचित होगा । यद्यपि साधारण-तथा ऐतिहासिक नाटककार तथा इतिहासकार दोनों ही घटनीयता तथा समाव्यता से भीमित होकर ही कल्पना वा प्रयोग करते हैं । दोनों ही श्रीचित्य द्वारा नियत्रित होते हैं, किन्तु इतिहास में तथ्य तथा सत्य सापेक्ष सम्भाव्यता वा प्रयोग होता है तो नाट्यरूप में कलात्मकता से ग्राविष्ट सम्भाव्यता वा । स्पष्टत नाटक में इतिहास

में प्रयुक्त संभावित कल्पना से बढ़कर, अपेक्षाकृत अधिक घटनीय, औचित्यपूर्ण तथा सम्भावित कल्पना-प्रयोग की स्वतंत्रता है।

हमें दोनों के सूक्ष्म अन्तर को आत्मसात् करने के लिये यह स्मरण रखना चाहिए कि ऐतिहासिक नाटक में कल्पना की मुख्यता तथा कलात्मकता से समावृत इतिहास की गौणता होती है, जबकि इतिहास में इतिहास-प्रमुख तथा कल्पना प्रच्छन्न होती है। ऐतिहासिक नाटककार इतिहास का प्रयोग उपजीव्य के रूप में आधार के लिये करता है। जबकि इतिहास में इतिहास-लेखन ही मुख्य होता है। स्पष्ट है कि कुछ ऐतिहासिक विवरणों को प्रस्तुत करने मात्र से तथा पात्रों और घटनाओं के वर्णनमात्र से ऐतिहासिक नाटक नहीं बन सकता। अतः इतिहासकार जिस प्रकार इतिहास में ऐतिहासिकता लाने के लिये यत्किञ्चित् कल्पना का संभाव्यता तथा अनुमान-प्रक्रिया के आधार पर प्रयोग करता है, उसी प्रकार नाटककार को नाटकीयता लाने के लिये कल्पना का स्वच्छन्द रूप से प्रयोग करता है। ऐतिहासिक नाटक में इतिहास की ऐतिहासिकता तथा नाट्य की नाटकीयता दोनों का मंजुल सामंजस्य ही उसके सफल निर्माण का आधार है। उपर्युक्त विवेचन से उनकी भिन्नता को संक्षेप में इस प्रकार निर्दिष्ट कर सकते हैं :—

### स्वरूपभेद

- (१) ऐतिहासिक नाटक कलाकृति है तो इतिहास शास्त्र।
- (२) प्रथम हश्य काव्य है तो दूसरा श्रव्य ग्रन्थ।
- (३) एक में कल्पना प्रधान है तो दूसरे में विषय प्रधान है।
- (४) एक का वाह्य रूप दस अंक तक प्राप्ति सीमित है, तो दूसरे का असीमित।

### उद्देश्यभेद

नाटक सरस, मनोरंजनप्रधान, पुरुषार्थचतुष्टयमाधक, भट्टिति प्रभावोत्पादक एवं रमणीयता-नैतिकता तथा व्यावहारिक-यथार्थता से परिपूर्ण होता है, जबकि इतिहास विधिनिषेधात्मक, उपदेशप्रधान, प्रामाणिकता के आधार पर नैतिक अनैतिक सभी कुछ अतीत की यथार्थ कथा तथा घटना का विवरण मात्र देता है। सत्य की सुरक्षा, प्रामाणिक-विवरण इसका मुख्य उद्देश्य है। नाटक हृदयस्पर्शी होता है तो इतिहास बौद्धिक। नाटक सभी को उपादेय है, सर्वजनीन तथा सर्वलोकोपयोगी है किन्तु इतिहास वर्ग विशेष को ही उपादेय है।

स्पष्टतः दोनों में बहुत अन्तर है। ऐतिहासिक नाटककार इतिहास का

यथावद् चित्रण या अनुकरण न करके कलात्मकता द्वारा अभिनव सूजन करना है। वह इतिहास की वैज्ञानिकता को मुरझा—किसी भी प्रकार नहीं कर सकता। इतिहास के वस्तुओं की उपेक्षा करके तथ्यान्वेषण की नीरसता से उठकर सरम, सजीव-उत्तमिध के रूप में एक अभिनव कलाकृति मात्र प्रस्तुत करना उसका उद्देश्य होता है। अत वह कल्पना के प्रयोग का इनना भी अधिकारी होता है कि वही कहीं तथ्या, घटनाओं, पात्रों आदि की अभिनवसृष्टि भी कर लेता है। किन्तु इतिहासकार इस अधिकार से बचित होता है। अभिनवसूजन करन वी ऐतिहासिक नाटककार की मौनिक स्वायत्तता है, इतिहासकार की नहीं। वह तो वेवल द्रष्टा, अन्वेषक तथा परिवर्तनकर्ता मात्र है, जबकि ऐतिहासिक नाटककार द्रष्टा-सम्पादक दोनों ही होता है। किसी भी तरह नाटक इतिहास नहीं हो सकता प्रौर न इतिहास नाटक। ऐतिहासिक नाटक में ऐतिहासिकता मात्र उपलब्ध हो सकती है। इसी ऐतिहासिकता की उद्भावना ऐतिहासिक नाटक की सफलता का रहस्य है।

### ऐतिहासिकता की निवाहिकता

हम यह स्पष्ट कर चुके हैं कि ऐतिहासिक नाटक तथा इतिहास का उद्देश्य भिन्न-भिन्न होता है। अत नाटककार इतिहास से मगूहीन वस्तु को यथावद्-पैण्डित द्वारा स्वयं व्यवहृत न करके कल्पना द्वारा परिवर्तन-परिवर्तन करके अनेक मोड़ भी दे देता है, तथा नाटकीय प्रभावोत्पादकता की हृष्टि से स्वयं अभिनवप्राप्ता का वार्य भी करता है। तथापि ऐतिहासिक नाटककार की समस्त वस्तु-संघटना इतिहास के परिवेश में न्यूनाधिक उसकी सीमाओं को रखने करते हुए ही होती है।

ऐतिहासिक नाटककार ऐतिहासिक परिवेश में वेवल वस्तु का परिवर्तन-परिवर्तन तथा नूतन अभिमूजन भी नहीं करता, अपितु पात्र तथा चरित्र आदि के विषय में भी ऐसा करने को स्वतंत्र होता है। इस प्रकार प्रथमि उसे समस्त ऐतिहासिक तत्त्वों का निर्वाह करना उतना आवश्यक नहीं, तथापि वस्तु, पात्र, घटना, चरित्र आदि विषयक स्थूल तत्त्वों की निर्वाहना किसी अश में अपेक्षित ही होती है, जिससे कि नाटक वा ऐतिहासिक स्वरूप नहीं जाय। ही, ही भवता है उसको रूप गौण-मुद्द्य या न्यूनाधिक हो, किन्तु उसकी म्यनि अवश्य रहती है। पर, नाटककार नाट्य-रचना में जहाँ वस्तु नेता, रम आदि के विन्यस्त करने में उद्देश्य विशेष यों नाटकीय प्रभाव की हृष्टि से स्वनव्रतापूर्वक, किन्तु ऐतिहासिक आपार पर, काल्पनिक भावकृता का प्रयोग करता है, वही, ऐतिहासिक-आधार पर कलात्मकता के प्रयोग करन पर भी वह बदाचित् कल्पन प्राप्त न बन जाय, इसलिये उसे सदा यह ध्यान रखना होता है कि उसकी नाटकीय कलात्मकता भी ऐतिहासिक

रंग से रँगी हो। नाटक में ऐतिहासिक रंग देना ऐतिहासिक वातावरण की सृष्टि द्वारा ही संभव है। ऐतिहासिक वातावरण के सृजन का मूलाधार है देशकाल का यथोचित प्रस्तुतीकरण। अतः इतिहासकार के समान ही ऐतिहासिक नाटककार को वस्तु-सापेक्ष देशकाल का सर्वागीण मूलमज्ञान आवश्यक होता है। यद्यपि संभव है कि नाटक में नाटककार के व्यक्तित्व तथा तत्कालीन देश काल का प्रतिविम्बन भी यथावसर निसर्गतः हो जाय, तथापि वह इनना उभर नहीं पाता,<sup>१</sup> जितना नाट्य-वस्तुगत देशकाल। अतः देशकाल के मूलमज्ञान के आधार पर ही उस देश की, उसे काल की संस्कृति-सम्पत्ति का चित्र खीचना होता है। बिना इसके न तो ऐतिहासिक वातावरण की अभिसृष्टि ही संभव हो सकती है, और न ऐतिहासिक रंग ही निखर सकता है। स्पष्टतः ये तीनों परस्पर सम्बन्धित हैं, तथा सर्वाधिक रूप से वस्तु तथा पात्र के स्थूल तत्त्वों की अपेक्षा सूक्ष्म ऐतिहासिक तत्त्वों की निर्वाहकता इन्हीं के नृजन द्वारा संभव होती है। स्थूल सूक्ष्म उभयरूप से जितना अधिक इन ऐतिहासिक तत्त्वों का निर्वाह होगा उतनी ही अधिक ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक उपलब्धि ऐतिहासिक नाटकों से संभव हो सकेगी, और उतनी ही अधिक इतिहास-रस की निष्पत्ति भी होगी।

### इतिहास-रस तथा ऐतिहासिक रंग

साहित्यशास्त्र में यद्यपि साहित्यिक नवरसों के अतिरिक्त इतिहास रस का उल्लेख नहीं है किन्तु आधुनिक समालोचकों ने इसका उल्लेख किया है।<sup>२</sup> अतः यह कुछ नवीन प्रतीत होता है। किन्तु यह जब्दतः नया है। यद्यपि साहित्यिक रसों में इतिहास रस कुछ भिन्न है पर मूलभूत साम्य भी है।<sup>३</sup> अतएव हम इस अभिवान को उचित मानते हैं। इतिहास रस, ऐतिहासिक कृतियों का स्वाभाविक 'धर्म' है जिसके विना ऐतिहासिक कृति सफल नहीं कही जा सकती।<sup>४</sup> इतिहास-रस का मुख्य आधार ऐतिहासिक विषय होता है। ऐतिहासिक कृतियों का अनुशीलन करते समय निसर्गतः एक विशेष प्रकार की अनुभूति होती है और क्योंकि यह अनुभूति है, तथा रस के समान आनन्दप्रद तथा मानसिक 'सरण' जैसी प्रक्रिया है। अतः इसका साहित्यिक रसों की अनुभूति से भी बहुत साम्य है। अतएव इसे 'इतिहास रस'

१. संस्कृत के ऐतिहासिक नाटकों में इसका निरंय कठिन है। अधिकांशतः उनमें नाटककार के समकालीन देशकाल का प्रभाव ही अधिक होता है।
२. देखो, प्र. ऐति. वॉ. डा. जोशी, पृ. ३४-३५,
३. समितिवारणी, वर्ष, १, अंक २ में पृ. १६ परं लेखक का लेख।
४. वही, पृ. १६,

अभिधान दिया गया है।<sup>१</sup> किन्तु अन्य साहित्यिक रसों के समान इसके अनुभाव विभावादि की कल्पना नहीं की गई है।

ऐतिहासिक कृतियों में इतिहास-रस वस्तुत ऐतिहासिकता या ऐतिहासिक अनुभूति वा ही नाम है। कवीन्द्र रवीन्द्र ने ऐतिहासिक कृतियों में प्राप्त होने वाले अनन्द विशेष को इतिहासरस माना है।<sup>२</sup> कुछ विद्वान् ऐतिहासिक वातावरण द्वारा सृष्टि एक विशेष प्रकार की अनुभूति को इतिहास रस कहना उचित समझते हैं तो कुछ सरम ऐतिहासिक वातावरण के चित्रण जो ही 'इतिहास-रस' कहना उपयुक्त मानते हैं।<sup>३</sup> किन्तु यदि गम्भीरता से देखा जाय तो इस 'इतिहास-रस' की कल्पना बरते वालों का इसमें अधिकांश में तात्पर्य मुख्यत धात-प्रतिधात मारणाड़-प्रधान राजनीतिक इतिहास को मंजोब्र लिखी गयी कृतियों से तथा सस्कृतप्रधान ऐतिहासिक कृतियों से अधिक प्रतीत होता है। हम वस्तुत ऐतिहासिकता जो इतिहास-रस कहना अधिक ठीक समझते हैं। इस ऐतिहासिकता की अभिसृष्टि तथा उसका आस्वाद वरा देना ही ऐतिहासिक नाटककार वा उद्देश्य होता है।

ऐतिहासिक नाटक म नाटकीयता वे अनिरिक्त, वैषयिक दृष्टि से ऐतिहासिकता के समन्वित, मजुल निर्वाह द्वारा ही इतिहास-रस की उद्भावना होती है। इसी उद्देश्य स वह उपयुक्त इतिहास की वस्तु तथा पात्र आदि का चयन करता है, वातावरण की सृष्टि करना है तथा देशकान की उद्भावना करता है, तभी ऐतिहासिक रग समस्त नाटक पर छा जाता है तथा नाट्यगत नाटकीयता जो अपने रग से परिव्याप्त कर लेता है। नाटकीयता में ऐतिहासिक रग (हिस्टोरीकल कलर) छा जाने पर ऐतिहासिकता तथा इतिहास-रस की उद्भावना होती है। इसी ऐतिहासिकता की उद्भावना होने पर दर्शक अनीत ने गर्भ में पहुँच कर तथा अपनी वर्तमान स्थिति को भुलाकर, सजीव अनीत का साक्षात्सार करता है। फलत तत्कालीन समस्त अनुभूति इतिहास से अनुप्राणित हो जठरी है। यही अनुभूति इतिहास-रस है। इस इतिहास-रस की अनुभूति वे समय साहित्यिक रस के समान ही साधारणीकरण जैसी 'इतिहासीकरण' की प्रक्रिया द्वारा पाठक या दर्शक अपनी वर्तमान वैयक्तिक स्थिति से उठकर उसी युग में विचरण करने लगता है और उसी देशकाल में पहुँचकर तत्कालीन घटना आदि से साहित्यिक सरस विधा द्वारा और

१. समितिवाणी, वर्ष, १, अंक २ से पृ. १६ पर लेखक का लेख।

२. देलिये प्र. ऐति ना. डा. जोशी, पृ. ३५,

३. वही, पृ. ३४-३५

भी अधिक आनन्दानुभव करता है। यही सरस, सजीव, ऐतिहासिक अनुभव इतिहास-रस है।<sup>१</sup>

### ऐतिहासिकता के आवश्यक तत्त्व

ऐतिहासिक नाटकों में इस ऐतिहासिकता या इतिहास-रस की उद्भावना के लिये नाटककार को विभिन्न रचनात्मक तत्त्वों का समाश्रय लेना होता है। उपर्युक्त विवेचन में हम ऐसे तत्त्वों का प्रसंगतः निर्देश कर आये हैं, उनमें प्रमुख हैं:—

(१) ऐतिहासिक वस्तु तथा पात्र तथा (२) ऐतिहासिक वातावरण;

**ऐतिहासिक वस्तु या पात्रः**—यह ऐतिहासिक नाटक का मुख्य तत्त्व है। इस पर प्रसंगतः हम पर्याप्त प्रकाश ढाल चुके हैं। दूसरा तत्त्व अत्यधिक उपादेय है। अतः इस तत्त्व के सम्बन्ध में किंचित् विस्तार से चर्चा करना आवश्यक है।

**ऐतिहासिक वातावरणः**—ऐतिहासिक नाटक में आधारभूत इतिवृत्तात्मक कंकाल इतिहास से ही संजोया जाता है, तथा कल्पना द्वारा उसके कलेवर को मांसल, सप्राण और सजीव बनाकर उसकी नसों में नाटकीय रस का संचार किया जाता है, किन्तु इतने मात्र से उसमें ऐतिहासिकता सक्रान्त नहीं होती। जब तक ऐतिहासिक रंग उसमें उभर नहीं आता, ऐतिहासिकता की अनुभूति सर्वथा असंभव है। इसके लिये उसे कुछ विशेष करना पड़ता है। मुख्यतः ऐतिहासिक नाटक को क्योंकि इतिहास की भूमि पर खड़ा किया जाता है। अतः वस्तु तथा पात्रगत समस्त क्रियाकलाप के चित्रण को भी इतिहासमय होना आवश्यक है, जिससे दर्शक को नाट्यगत ऐतिहासिकता के कारण तदैशिक तथा भूतकालिक संस्कृति-सम्यता की भलक मिल सके, नाट्यगत ऐतिहासिक रसवत्ता सहज ही अभिभूत कर सके, तथा मृत यथार्थ पुनर्जीवित हो सके। यह सब ऐतिहासिक वातावरण की अभिभूषित द्वारा ही संभव होता है। अतः स्पष्ट है कि ऐतिहासिक नाटकों में वातावरण का अत्यधिक महत्त्व है।

ऐतिहासिक नाटक में ही नहीं, अपिनुसभी प्रकार के नाटकों में 'वातावरण' ही प्रमुख तत्त्व है। यहाँ वातावरण से अभिप्राय है कि नाटककार जिस देश-काल की वस्तु, पात्र आदि उपजीव्य तत्त्वों पर नाट्यविन्यास कर रहा है, उसी देश-काल की संस्कृति-सम्यता का प्रयोग कर नाटकीय घटना, चरित्र तथा अन्य समस्त क्रियाकलाप को ऐतिहासिक-रंग से सजा कर, वर्तमान की दैशिक तथा कालिक स्थिति तथा अनुभूति को उस धरण के लिये अतीत के वातावरण में ढाल दे। इसके लिये

वस्तु के अनुरूप ही देशकाल का चित्रण करते समय कलित अतीत की भूमि पर समस्त जलवायु, पशु-पक्षी, मनुष्य आदि का सृजन करना होता है जिसमें वस्तुगत घटना तथा पात्रों की एकस्पता स्थापित हो सके, और दर्शक वर्तमान स्थिति को भुला वर अतीत के ऐतिहासिक वातावरण में विचरण कर सके।

वातावरण द्वारा ही विभिन्न प्रकार के नाटकों की वैपर्यिक विशेषता का अनुभावन होता है, अतएव पौराणिक, सामाजिक, ऐतिहासिक आदि वातावरणों की उद्धावना भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। सामान्यत प्रत्येक प्रकार के वातावरण के लिये वस्तु के अनुरूप सम्बूति-सम्पत्ता वा चित्रण अर्थात् रहन सहन, आचार-विचार, रीति-रिवाज, बोल-चाल, उठन-बैठन, खान-पान, वस्त्राभूपण वलाकौशल तथा मामानिक, ग्राहिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि समस्त चित्रण उस देश-काल की विशेषताओं से युक्त होना चाहिए। ऐतिहासिक नाटकों में इतिहास का वस्तु-तत्त्व एक भ्यूल बेन्द्र बिन्दु है, जिसके परिन नाटकीयता अपना सरस परिवेश बनाती है, और ऐतिहासिक वातावरण उस कानूनमान वृत्त की ऐतिहासिक रूप दता है। फलत केन्द्रीय ऐनिहासिक सत्य अपने मौलिक रूप में उभर पड़ता है। स्पष्ट है कि वातावरण द्वारा ही वस्तुगत विशेषताओं का परिज्ञान होता है, इतिहास की रमबत्ता वा आम्बाद होता है, तथा इसी की अगुली पकड़कर अतीत के गर्भमृह में प्रवेश वर वह साँझ लेता है। केंच उपन्यासकार ड्यूमा के ये अब्द यदि सत्य हैं तो इतिहास वह भू टी है, जिस पर मैं अपन नाटकों को लटकाता हूँ, १ तो डा जोशी वा यह कथन भी कुछ कम सत्य नहीं कि ऐतिहासिक वातावरण ही वह दीवाल है, जिस पर वह भू टी गाढ़ी जाती है।<sup>१</sup> वाम्तव में ऐतिहासिक वस्तु तथा वातावरण दोनों परम्पर मम्बन्धित तत्त्व हैं। एक के बिना दूसरे का अन्तित्व निरर्थक-भा है। अन ऐतिहासिक वृत्तियों में दोनों का ही सरिष्ट प्रयोग आवश्यक होता है।

विन्तु ऐतिहासिक नाट्य रचना में केवल इतिहास ग्रन्थों का ज्ञान मात्र ही अपेक्षित नहीं होता, अपिन्तु नाटककार की सबेदनशीलता, बहुज्ञता, बहुश्रूतता तथा बाल्पनिक उर्वरता और कलात्मकता भी आवश्यक होती है। इनिहासज्ञान के अतिरिक्त लेखक जिनना ही अधिक भवेदनशील कल्पनाजील मनोवैज्ञानिक तथा भावुक होगा, उतना ही अधिक अतीत की यथार्थ अनुभूति को संजोकर नाटक को ऐतिहासिकता से अनुप्राणित कर सकेगा। इस प्रकार नाटकीय कलात्मकता तथा ऐतिहासिकता के मुचित सम्बन्ध होने पर स्वाभाविकता, यथार्थता तथा मजीवता

१. देखिये, पृ. ऐति. ना. डा. जोशी, पृ. ३३,

२. वही,

के सामंजस्यपूर्ण आविर्भाव से ही सफल समर्थ ऐतिहासिक नाटक का निर्माण संभव होता है।

ऐतिहासिक नाटकों के वातावरण की सृष्टि दो प्रकार से होती है : १. वात्य तथा २. आन्तरिक।

(१) वाह्य से तात्पर्य है—“रंगमंचीय उपादानों द्वारा वातावरण की सृष्टि।” पर्दे, झट्टें, शिल्प तथा अन्य स्थापत्य आदि के निर्माण एवं प्रदर्शन द्वारा या चित्रकला आदि के द्वारा जब ऐतिहातिक चित्र खींचने तथा तत्कालीन भाँकी देने का प्रयास किया जाता है तब उसे वाह्य वातावरण कह सकते हैं। मुख्यतः यह ‘वाह्य’ स्वूल उपकरणों पर आधित होता है। इनमें प्रमुख हैं—(१) रंगमंचीय आलेखन, (२) दृश्य प्रसाधन (३) पात्रों की वेशभूपा, परिधान तथा अलंकरण, (४) घटनि, प्रकाण आदि अन्य।

वास्तव में जैसा कि नाट्यशास्त्र में भरतमुनि ने विस्तार से विवेचन किया है, उससे प्रमाणित होता है कि नाटकीय प्रभाव की हृष्टि से यह वाह्यतत्त्व परमावश्यक है। इस वाह्यसृष्टि से नाटककार को प्रभावोत्पादन में बहुत सहयोग मिलता है, तथा दर्शक भी सहज ही विना किसी विलम्ब कल्पना के वस्तु को आत्मसात् कर लेता है।

वाह्य वातावरण की उद्भावना करना केवल नाटककार का ही कार्य नहीं होता, अपितु मूलधार, नट, तथा निर्देशक की प्रतिभा भी बहुत कुछ हद तक इसमें सक्रिय रहती है, तथापि मूलतः वह नाटककार के निर्देशों पर ही अवलवित रहती है—अतः वाह्य वातावरण भी नाटककार की प्रतिभा द्वारा अभिसृष्ट होता है।

(२) आन्तरिक-वातावरण की अभिसृष्टि समग्र रूप में नाटककार की क्रियाज्ञति पर समाधित होती है। यह स्वूल न होकर सूक्ष्म, सर्वांगीण तथा मुख्यतः नाट्यकला या वन्तु तथा पात्र से सम्बन्धित होती है। नाटककार जब वस्तु के अनुरूप पात्रों के आचार-विचार, स्वभाव-प्रभाव, भाषा-भूपा, वोल-चाल आदि चरित्रगत व्यावहारिक तत्त्वों का यथार्थतः इतिहास सम्मत चित्रण करता है, तभी नाट्यरूप में आन्तरिक वातावरण के माध्यम से ऐतिहासिकता प्रकट होती है। यहाँ तक की प्राचीन तत्कालीन ऐतिहासिक शब्द उच्चारण-प्रकार, परंपरा तथा प्रथाओं के चित्रण से वातावरण के निर्माण में बहुत अधिक सहायता मिलती है।

मुख्य रूप से आन्तरिक वातावरण की सृष्टि के लिये यह आवश्यक है कि नाट्यवस्तु के अनुरूप ही देश-काल की पृष्ठभूमि का निर्माण किया जाय। समस्त भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक चित्र भी उसी देश काल के अनुरूप होना आवश्यक है। इनमें व्यतिक्रम होने से न केवल नाट्यप्रभाव में न्यूनता आती है, अपितु वह उपहासास्पद हेय रचना पात्र बन जाता है। अतः नाट्य प्रभावोन्मेप की

हृष्टि से ऐतिहासिक यथार्थवादी चित्रण होना भी आवश्यक है, तभी नाट्य के सद्य प्रभाव के साथ-साथ ऐतिहासिकता की उद्भावना अधिक मम्बव होनी है।

इम वातावरण की सृष्टि में तत्कालीन सस्कृति का यथातथ्य चित्रण तो आवश्यक है ही, इमरे साथ ही घटनाओं का शानुपूर्व यथाक्रम विन्यास भी आवश्यक है। जिस भाल की जो घटनाएँ जिस त्रय से हो उनके विन्यास के साथ साथ उसी समय के वातावरण में उभी समय का सांस्कृतिक चित्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। ऐसा वरने पर ही ऐतिहासिक यथार्थ तथा आन्तरिक वातावरण की सृष्टि सम्भव है। सधोप में, आन्तरिक अर्थात् नाट्यशिल्प में वातावरण की उद्भावना के लिये हम चार वस्तु आवश्यक समझते हैं —

- (१) कालिक ऐकता-अर्थात् जिस समय की वस्तु हो उभवा रूप-विधान तथा अभिव्यक्ति उसी समय के अनुरूप हो।
- (२) वस्तु तथा विचारों की विशुद्धता-अर्थात् तटस्थ होकर वस्तु तथा विचारों को रूपायित किया जाय। इनमें सकरता नहीं होनी चाहिए।
- (३) घटनाओं की अवधिता-घटनाविन्यास में पूर्वापर अम ऐतिहासिक हो, तथा विश्वसनीयता में वाधक घटनाओं का प्रक्षेप न किया जाय।

इसी प्रसाग में यह भी स्मरण रखना आवश्यक है कि समकालीन घटनाओं पर आधारित नाटक में देशकाल से प्रभावित भाषा का प्रयोग स्वाभाविकता की अभिवृद्धि के लिए आवश्यक होता है। विशेष रूप से यदि लेखक भी इसी देशकाल से रावधित हो तो पात्रों के व्यक्तिगत तथा देशकाल के अनुरूप ही भाषा भूषा के प्रयोग की आशा रखना आवश्यक है, किन्तु भिन्न देश-काल के लेखक से इसकी आशा करना सचिन नहीं है। क्योंकि तभ में लेखक इतिहास प्रन्थ आदि के आधार पर ही इसका प्रयोग करता है। किन्तु विशेषत यसस्कृत के ऐतिहासिक नाटकों में ऐसा नहीं हूआ है।

उपर्युक्त प्रकार से जहाँ जितनी ही अधिक सफलता से वानावरण का निर्माण होगा तथा ऐतिहासिकता की उद्भावना होगी वहाँ उतनी ही अधिक मात्रा में नाटक अपन उद्देश्य में सफल होगा, तथा ऐतिहासिक तत्त्वों की उपलब्धि होगी और नाटक की सौहेजता अभिवृद्ध हो जाएगी।

### ऐतिहासिक नाटकों के विभिन्न रूप :

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सफल ऐतिहासिक नाटक के लिए इतिहास तथा वस्तुना का सनुनित सामजस्यपूर्ण प्रयोग ही आवश्यक होता है, किन्तु ऐतिहासिक नाटक की रचना वरते समय समस्त नाटककारी की प्रवृत्ति सामान्यत वस्तु, पात्र तथा उद्देश्यों के प्रति या नाट्यविधान के मम्बन्ध में एक समान नहीं होनी है।

इन गुच्छों के अनुसार इन नाटकों का उद्देश्य आदि के अनुसार भिन्न-भिन्न होता है। कभी कोई नाटककार कल्पना का खुलकर प्रयोग करता है, तो कोई न्यूनाधिक रूप से। सुदूर अतीत की अज्ञात वस्तु होने पर प्रायः कल्पना के अनुसार सम्भाव्यता के आधार पर ही नाट्यविवाह ज्ञातवस्तु होता है; तो दूसरी ओर निकट अतीत की ज्ञातवस्तु होने पर विशुद्ध ऐतिहासिकता ज्यादा होती है। यही कारण है कि कहीं ऐतिहासिकता अधिक होती है तो कहीं काल्पनिक भावुकता।

यद्यपि प्रत्येक नाटककार ऐतिहासिक नाटक के सभी तत्त्वों का समन्वित संश्लिष्ट प्रयोग करता है, तथापि प्रायः रूपविवाह में विभिन्नता होती है। यहाँ तक कि कभी-कभी इतिहास से स्थूल नाम तथा घटना भर ही सँजोता है, तो कभी समुचित रूप में उपयोग करने पर भी उद्देश्य कुछ भिन्न होता है। परिणाम यही होता है कि कहीं हमें ऐतिहासिकता ज्यादा प्राप्त होती है, तो कहीं स्थूल ऐतिहासिक तत्त्व, और कहीं काल्पनिकता। इन विभिन्न प्रवृत्तियों के अनुसार विद्वानों ने विभिन्न रूपात्मक नाटकों को ऐतिहासिक स्वीकार किया है:—

(१) सफल ऐतिहासिक नाटक वे होते हैं, जिनमें इतिहास तथा कल्पना का संतुलित प्रयोग होता है, अतः उनमें ऐतिहासिकता और इतिहास-रस की यथार्थ अनुभूति होती है। यही आदर्श रूप है।

(२) कुछ वे, जहाँ मूल वस्तु इतिहास से सँजोयी जाती हैं, किन्तु गौण पात्र ही इतिहास के होते हैं, मुख्य पात्र कल्पित होते हैं, केवल नामकरण आदि द्वारा उन पर ऐतिहासिकता का आरोप किया जाता है।

(३) वे, जहाँ पात्र तथा वस्तु दोनों काल्पनिक होते हैं, वातावरण ऐतिहासिक होता है और वस्तु तथा पात्र का ऐतिहासीकरण किया जाता है।

(४) वे, जहाँ प्राचीन ऐतिहासिक पात्रों के नामों के आधार पर कथा गढ़ के ऐतिहासिक वातावरण द्वारा ऐतिहासिक जामा पहनाया जाता है।

(५) वे, जहाँ विशृङ्खल-इवर-उवर फैनी हुई अतीत की घटनाओं को कल्पना द्वारा संयुक्त कर नाट्यविवाह किया जाता है।

(६) वे, जहाँ पौराणिक पात्रों तथा कथा को सुपरिचित ऐतिहासिक वांसा-वरण में रखकर विव्यास किया जाय, किन्तु ऐसे नाटकों में प्रायः अत्युक्तिपूर्ण तथा अतिमानवी चित्रण को स्थान नहीं दिया जाता।

(७) वे, जहाँ किवदन्तियों से तथा धार्मिक परम्परा से पात्र और घटना को सँजोकर ऐतिहासिक वातावरण द्वारा ऐतिहासिकता से समावृत कर दिया जाता है।

(८) वे, जहाँ धार्मिक संत आदि के चरित पर ऐतिहासिकता का प्रक्षेप

## ७६ सम्भूत के ऐतिहासिक नाटक

करते हुए नाटक निर्माण कर दिया जाता है।

(६) इसी प्रकार, कुछ वैदिक व पौराणिक वस्तु एवं पात्र को इतिहास में ढालकर लिखे नाटकों को भी ऐतिहासिक नाटक मानते हैं।

ऐतिहासिक नाटक के उपर्युक्त सभी हप सफल ऐतिहासिक नाटकों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। यह सत्य है कि सेतक समस्त रूपों से किसी न किसी रूप में ऐतिहासिक वा ऐतिहासिक वातावरण उड़ेलने की चेष्टा करता है, तथापि हम उन्हें ऐतिहासिक व्यक्तिकार नहीं कर सकते। मर्वंप्रथम, हमन वैदिक, पूर्व वैदिक, पौराणिक, धार्मिक, या इतिहासिक वस्तु को ऐतिहासिक नहीं माना है। अतएव इतिहास की स्परेसा देते हुए इन्हें प्रागंतिहासिक तथा पौराणिक कहा है। जैसा कि हमने इतिहास की मान्यता व्यक्तिकार की है, उसके अनुसार ऐतिहासिक नाटक में मुख्यतः व्याचार-वस्तु स्थान शामिल विश्वस्त तथा विशुद्धप्राय होनी आवश्यक है, सभावित या अनुमानित नहीं। इसी प्रकार कुछ पात्र भी स्थान इतिहास के होने चाहिए।

अत दन्तकथा, धार्मिक आस्थान आदि को हमन ऐतिहासिक नहीं माना है, अत ऐसे वृत्त पर आधारित नाटकों को हम यहीं ऐतिहासिक मानना उचित नहीं समझते। इसी प्रकार चरित-प्रधान सामाजिक तथा प्रतीकात्मक नाटकों को भी हम ऐतिहासिक नहीं मानते, भले ही उनमें यत्न-तत्र ऐतिहासिक महत्व के स्थल और गूचना ही प्राप्त कयो न हो। मध्यवर्ती है बुद्ध समय बाद उन्हें भी ऐतिहासिक मान लिया जाय। सद्योप में, जहाँ वस्तु में कम थोड़ी वहृत ऐतिहासिक वस्तु या १-२ प्रमुख ऐतिहासिक पात्रों का विनियोग किया गया है, उन्हीं नाटकों को हमन ऐतिहासिक नाटक के अध्ययन के लिए चुना है। (इनमें भी राजनीतिक-पक्ष को ही हमने प्रमुखता दी है।) इस प्रकार के नाटक प्रणाल-प्रधान, सास्कृतिक या विशुद्ध राजनीतिक आदि भी प्रकार के हैं।

## संस्कृत के ऐतिहासिक नाटक तथा उनका वर्गीकरण

संस्कृत के ऐतिहासिक नाटकों के सम्बन्ध में, यद्यपि ऐतिहासिक नाटकों के स्वरूप तथा गिल्प आदि के प्रसंग में यथावसर संक्षेप तथा विस्तार से विचार प्रकट करते आये हैं, तथापि, क्योंकि ये ही हमारे विवेच्ये हैं, अतः इनके समालोचन से पूर्व पृथक रूप से इन पर प्रकाश डालना आवश्यक है। हमने मुख्यतः प्रचलित दृष्टिकोण के अनुसार ऐतिहासिक नाटकों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से प्रकाश डाला है, किन्तु संस्कृत के ऐतिहासिक नाटकों की कुछ अपनी निजी विशेषताएँ हैं तथा ये अन्य भाषाओं के ऐतिहासिक नाटकों से भिन्न हैं। इनके लिखने का प्रयोजन तथा गिल्पविधान आदि भी अपना निजी है। अतः इनसे अन्य भाषाओं के नाटकों के समान रूप, शिल्प तथा उपलब्धि आदि की आशा करना तथा उसी कोण से इनका अनुशीलन परिणीतन करना उचित नहीं है। संस्कृत के ऐतिहासिक नाटकों में प्रायः देश-काल तथा कालक्रम की संगति का अन्वेषण कठिन कार्य है। इसके अतिरिक्त (प्राचीन एवं मध्यकालीन) संस्कृत के ऐतिहासिक नाटक मुख्यतः रंजक तथा रसाश्रयी शैली में रचित हैं। अतः इतिहास पर आधारित संस्कृति-प्रधान तथा रोमांसप्रधान (प्रणयप्रधान) नाटकों को भी हम ऐतिहासिक नाटकों में परिगणित करते हैं। इसी प्रकार संस्कृत के ये नाटक इतिहास ग्रन्थों पर आधारित नहीं हैं, अपितु इतिहास के स्रोत हैं; अतः इनके अध्ययन के लिए कुछ व्यापक तथा भिन्न दृष्टि रखना आवश्यक है। किन्तु, इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं कि इनका नाट्यसाहित्य में महत्व नहीं है या ऐतिहासिक दृष्टि से ये महत्वहीन हैं। वल्कि, वास्तविकता यह है कि न केवल नाट्यसाहित्य में, अपितु भारतीय वाङ्मय में इनका अपना विशेष महत्व है।

### संस्कृत के ऐतिहासिक नाटकों का महत्व

सामान्यतः हम संस्कृत के ऐतिहासिक नाटकों का स्थूल रूप में त्रिविध महत्व मानते हैं:—

(१) साहित्यिक महत्व—सस्कृत के ऐतिहासिक नाटकों का प्राय ममृत वे मूर्खन्य तथा प्राचीन नाटककारा न सृजन किया है। अत नाट्यसाहित्य में इनका प्राचीनता तथा साहित्यिक समुपलब्धि आदि की हृष्टि से ममविक महत्व है।

(२) ऐतिहासिक महत्व—सस्कृत वे ऐतिहासिक नाटकों से भारत के प्राचीन इतिहास पर, पर्याप्त प्रवाश पड़ता है। अत भारत जैसे देश के लिए, जिसका कि बहुत सा प्राचीन इतिहास प्राचीन घण्डहरों तथा क्रिवदत्तियों के साथ्य के आधार पर ही लिखा गया है, इन नाटकों का अत्यधिक महत्व है। यही बारण है कि इतिहासकारा न भास, वालिदास तथा विशाखदत्त वे नाटकों के आधार पर प्राचीन इतिहास के अनेक विस्मृत घट्याया को स्पष्ट दिया है तथा सस्कार परिष्कार किया है। प्राचीन ही नहीं, अपितु मध्यकालीन हृष्मीर मदमदन आदि अनेक नाटक ने भी इतिहास निर्माण म अत्यधिक सहायता दी है।

(३) सास्कृतिक महत्व सास्कृतिक हृष्टि से भी य नाटक अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। अन्य माहित्यिक विधाग्रा की अपेक्षा उपन्यास तथा नाटक ही मुख्यतः सास्कृतिक स्वर दन वाने होते हैं। यही नहीं किन्तु सस्कृति तथा इतिहास से समुक्त होने के बारण हम इन ही वास्तविक इतिहास कहना अधिक उचित समझते हैं। और जब कि भारत में प्राचीन ऐतिहासिक उपन्यासों का अभाव है, तो सस्कृत के प्राचीन ऐतिहासिक नाटकों का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है।

### सस्कृत के ऐतिहासिक नाटकों की परम्परा

यदि हम भारत की प्राचीन परम्परा के ग्रनुसार 'इतिहास' शब्द को व्यापक अर्थ में ग्रहण करें तो सस्कृत के ऐतिहासिक नाटकों की परम्परा का समारभ अत्यन्त प्राचीनकाल से ही माना जा सकता है। इस हृष्टि से यदि देखें तो वैदिक माहित्य के मवाद मूकन, जिन्ह नाथ्योद्भव का बीज माना जाता है, भी ऐतिहासिक ठहरते हैं। जैसे पुरुषा-उर्वशी सवाद, जहाँ से वालिदास न प्रेरणा ग्रहण करके 'विक्रमोर्वशीयम्' नाटक लिखा, ऐतिहासिक है। इमो प्रवार नाट्यशास्त्र तथा महाभाष्य के उत्तरेषों की परम्परा के प्रतिरिक्त, भास, वालिदास आदि न भी इस परम्परा को समृद्ध किया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि इतिहास को व्यापक अर्थ में ग्रहण करने पर ऐतिहासिक नाटक ही नाट्य-साहित्य आदि के निदर्शन तथा उनकी परम्परा अति समृद्ध मानी जा सकती है। किन्तु, इतिहास का 'ज्ञात' इतिहास से ही तात्पर्य ग्रहण करने पर ऐतिहासिक नाटकों की परम्परा को समृद्ध नहीं माना जा सकता।

यद्यपि ज्ञात तथा स्थात इतिहास को ही इतिहास मानने पर भी, जैसा कि

हमने भी स्वीकार किया है,<sup>१</sup> भास, कालिदास, विजावदत्त तथा शूद्रक आदि भाचीन नाटककारों की रचनाएँ हमें ऐतिहासिक नाटकों के रूप में प्राप्त होती हैं। यही नहीं, वल्कि इनसे भी पूर्व के “वामवदत्ता नाट्यवारा” नामक प्राचीन ऐतिहासिक नाटक के उपर्युक्त भी प्राप्त हैं, जिन्हें कि कुछ विद्वान् मौर्यकालीन मुख्यन्वय की रचना मानते हैं।<sup>२</sup> इससे भी संस्कृत के ऐतिहासिक नाटकों की परम्परा की प्राचीनता स्पष्ट होती है, तथापि इसे परिमाण की दृष्टि से विशेष समृद्ध नहीं माना जा सकता।

### संस्कृत के ऐतिहासिक नाटकों को न्यूनता एवं उसके कारण

संस्कृत साहित्य में प्राचीन ऐतिहासिक नाटक बहुत अधिक नहीं हैं। मुख्यतया इस न्यूनता का कारण यह है कि भारतीय जन-जीवन निसर्गतः धार्मिक भवना से ओतप्रोत है। अतएव भारतीयों का धार्मिक तथा नैतिक आदर्श के प्रति ही अधिक आग्रह रहा है। यही नहीं, वल्कि नाट्यशास्त्र में भी नायक के आदर्श के ऊपर विशेष वल दिया गया है तथा रसवाद और सुखान्त भावना नाट्य शिल्प की मूल आधार मानी गई है। नाट्य के क्षेत्र में ही नहीं, अपिरुप्त सावारण जीवन में भी संस्कृति तथा सम्यता के रूप में उपर्युक्त विशेषताएँ परिव्याप्त रही हैं। यही कारण है कि प्रारम्भ से भारतीय नाटककारों ने भी रामायण, महाभारत तथा पुराणों के इतिवृत्त को ही अधिकतर संजोया है और इसीलिए धार्मिक तथा नैतिक आदर्श की अधिकाधिक अपेक्षा के कारण वह ऐतिहासिक इतिवृत्त तथा लोकवृत्त के उपयोग से प्रायः विमुख रहा है। यद्युपि कारण है कि समस्त विशाल संस्कृत नाट्य साहित्य में धार्मिक तथा पौराणिक नाटकों की संख्या ही अधिक है। संक्षेप में, इस न्यूनता के कारणों को इस प्रकार लिखा जा सकता है:—

- (१) भारतीय जीवन में धार्मिक भावना की प्रमुखता।
- (२) धार्मिक तथा नैतिक आदर्श के प्रति आग्रह की अधिकता।
- (३) भारतीय साहित्य के पौराणिक धार्मिक ग्रन्थों में उच्चादर्शों की उच्च मर्यादा का आविष्य।
- (४) सुखान्त की भावना तथा साहित्य में आनन्दवाद की स्वीकृति।
- (५) वस्तु की अपेक्षा नायक के आदर्श की आकांक्षा।
- (६) आत्मभूत रस की नियामकता।

१. देखिये, इसी प्रबन्ध का इतिहास—द्वि० अध्याय।

२. „ इसी प्रबन्ध में उद्यन कथा सम्बन्धी अन्य नाटक।

- (७) नाट्य शास्त्रीय नियमों का परिपालन।
- (८) सासारिक चरित्र का काव्य का आधार बनाने के प्रति धोर अर्थात्।
- (९) ग्राम्य सास्कृतिक मान्यताएँ पारलोकिक हृष्टि, काव्य की रजक-धार्मिकता तथा रस के प्रति प्रतिवद्धता आदि।

हम यहाँ इन कारणों के विशेष विस्तार में नहीं जाना चाहते। किन्तु इतना स्पष्ट है कि उपर्युक्त कारणों से ही सस्तुत का नाटककार इतिवृत्त के रूप में इतिहास के प्रयोग में वचित रह कर गतानुगतिश्च रूप से प्रसिद्ध पौराणिक वस्तु का ही पौन पुन्यन विष्टपेपण करता रहता है। उसे स्थानन्द अभिव्यजना तथा नवीन प्रयोगों की अभिव्यक्ति का अवमरणी नहीं मिल सका तथा परिगाम-स्वरूप 'इतिहास और राजनीति' के विषयों को लब्ध रचना करने की प्रवृत्ति का उदय ही नहीं हुआ। अन्त म, समस्त सम्भूत-नाट्य-साहित्य के पयदेशण करने के पश्चात् यह भलामाति स्पष्ट हो जाना है कि अविकाश सस्तुत नाटकों की रचना का उद्देश्य यथार्थ जीवन का प्रतिविम्बन तथा युगीण माहित्य का निर्माण नहीं रहा है। अन उनम् यथावमर कही-कही युगीण तत्त्वों तथा सास्कृतिक विशेषताओं का समावण अवश्य हो गया है परन्तु यथार्थतः सस्तुत म प्राचीन परम्परागत पौराणिक नाटकों की सम्भ्या ही अधिक है, ऐनिहासिक नाटकों की नहीं।

इसके अतिरिक्त, जबवि हम यह स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत म इतिहास के प्रति वास्तविक रूप का अभाव रहा है तथा इतिहास का स्वरूप एक सृजन प्रवृत्ति भी भिन्न रही है, तो यहा उसी के अनुरूप नाटकों की रचना होना भी अस्वाभाविक नहीं है। यही कारण है कि सस्तुत म आधुनिक प्रकार के ऐनिहासिक नाटकों का अभाव है। इसके अतिरिक्त यहाँ जो कुछ माहित्यिक प्रयास के रूप म निखे भी गय हैं उनम् निकट-अतीत तथा समकालीन रचनाओं का ही प्राचुर्य है और इनकी भी अपनी कुछ वंशकालिक विशेषताएँ हैं।

### सस्तुत के ऐतिहासिक नाटकों की विशेषताएँ

सस्तुत-नाट्य माहित्य में नाट्य रचना न तो वस्तु को हृष्टि में रख कर होनी है, न पात्र पा चरित्र को, अपिनु 'रस हा एकमात्र उम्बा लद्य होता है। वस्तु, नेता, रस इन तीनों तत्त्वों म उद्देश्य की हृष्टि में क्रमशः एक व बाद एवं का महत्व अधिक माना जाता रहा है। इसी मायता के कारण 'वस्तु' का महत्व अन्य तत्त्वों की अपेक्षा गीण हो गया है। यही कारण है कि सस्तुत नाटकों म न तो वस्तु की विविधता तथा वस्तु-संघटना की अनेकरूपता ही हृष्टिगोचर होती है और न वस्तु की चमत्कृति आदि ही। यहाँ तर ति इनम् आत्मभूत रस की अभिव्यजना

में इतना अधिक आग्रह दिखलाया गया है कि वस्तुतत्व उभर तक नहीं सका है और वस्तुगत स्वाभाविक विशेषताएँ भी दबी रह गई हैं।

भारतीय मत के अनुसार वस्तु का विनियोग नायक तत्व के लिए होता है और नायक का रस के लिए। स्पष्ट है कि वस्तु का विनियोग आनुपंगिक आधारमात्र माना गया है। अतएव वस्तु-चयन नायक के आदर्श तथा रसपेशलता की सम्भावना को हृष्टि में रख कर ही किया गया है। सामान्यतः इस हृष्टि से उपयुक्त होने पर ही प्रसंगवश यदाकदा ऐतिहासिक कथानक का भी प्रयोग हुआ है, किन्तु उसमें भी 'रसप्रक्षेप' ही नाटककार का मुख्य उद्देश्य रहा है, ऐतिहासिकता की उद्भावना नहीं। यही कारण है कि ऐतिहासिक वृत्त पर आधारित संस्कृत के इन रस-प्रधान नाटकों में अन्य भाषाओं के यथार्थवादी ऐतिहासिक नाटकों के समान अन्तर्दृष्टि के दर्जन नहीं होते, और इस अन्तर्दृष्टि के अभाव के कारण ही उनमें इतिहास-रस का आस्वाद नहीं हो पाता, फलतः वे संघर्षहीन शिथिल काव्यमात्र से प्रतीत होते हैं।

यद्यपि संस्कृत के ऐतिहासिक नाटकों में सैद्धान्तिक रूप से कल्पना तथा इतिहास दोनों का प्रयोग हुआ है, किन्तु कुछ प्राचीन नाटकों को छोड़कर अन्य में प्रायः कल्पना की अपेक्षा इतिहास गीण तथा न्यून ही रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि कल्पना-तत्व कहीं-कहीं इतना प्रमुख हो गया है कि उसने इतिहास को विलुप्त दबा दिया है। संस्कृत के ऐतिहासिक नाटककारों ने मुख्य-मुख्य नाम तो अवश्य ऐतिहासिक ही प्रयुक्त किये हैं, किन्तु गीणमात्र, बल्कि मुख्य तथा गीण घटनाएँ तथा प्रधान पात्रों के चरित्र तक को कल्पना के आधार पर ही गढ़ लिया है। अतएव बहुत से नाटकों में केवल कुछ नाम ही ऐतिहासिक हैं तथा कुछ नाटक सर्वतः काल्पनिक से ही प्रतीत होते हैं। मुख्यतः वाद के नाटककारों ने कल्पना को विशेष स्थान दिया है। अतएव उनके ऐतिहासिक नाटक नाममात्र को ऐतिहासिक रह गए हैं।

इसके अतिरिक्त, संस्कृत नाटकों में काव्य तत्व की प्रचुरता होती है और वाद के नाटकों में यह काव्यात्मकता और अधिक बढ़ गई है। यही कारण है कि कुछेक नाटकों को छोड़ कर अधिकांश संस्कृत नाटकों में काव्यात्मकता ने नाटकीयता को दबा दिया है और अतएव संस्कृत के ऐतिहासिक नाटकों में भी प्रायः गत्यात्मकता, नाटकीयता, कोतूहलता तथा नाट्यमुलभ स्वाभाविकता का अभाव है। यद्यपि संस्कृत के प्रतिनिधि ऐतिहासिक नाटक स्वप्नवासवदत्तम्, प्रतिज्ञायीगन्वरायण, मृच्छकटिक तथा मुद्राराक्षस आदि में समस्त संस्कृत नाटकों की अपेक्षा नाटकीयता तथा गत्यात्मकता अधिक है तथा इनमें काव्यतत्व दोष के रूप

में प्रयुक्त नहीं हुआ है, तथापि अधिकाश नाटकों में धातप्रतिधात की सृष्टि न होने से ऐतिहासिकता का आस्वाद नहीं होता।

यही नहीं, अपिनु इन नाटकों में आत्मभूत "रस" की प्रतिष्ठा के साथ-साथ, अधिकाश में शृंगार रस के प्रति अत्यधिक आग्रह भी है। भारतीय परम्परा के अनुमार नाटक पर शृंगार और बीर रस का अपील्प में सम्प्रयोग उचित माना गया है। सम्भृत भवीर रस के नाटक बहुत बहुत बहुत हैं, अधिकाश में रसराज के रूप में प्रतिष्ठित शृंगार को ही स्पायित किया गया है। यही कारण है कि सम्भृत के ऐतिहासिक नाटकों में भी प्रणय-प्रधान व्यानका की अधिकता है तथा इनमें शृंगारिक वाचावरण को सृष्टि हुई है, ऐतिहासिक की नहीं, और वे भी प्राय राजनीतिक प्रभाव से अदूते रहे हैं।

अन्त में, सस्कृत के ऐतिहासिक नाटक मुख्यत बुद्ध विशेष प्रयोगन में रचित होने के बारण भी बुद्ध विशेष प्रकार के होते हैं। सामान्यत अन्य भाषाओं के ऐतिहासिक नाटकों वे समान इनका उद्देश्य राष्ट्रीय, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक तथा समस्या का समावान भादि नहीं है, अपिनु रसरेगल नाट्यकृति का निर्माण करता है। अधिकाश सस्कृत के नाटककार ऐतिहासिक नाटकों के अभिभूतन में साहित्यिक उद्देश्य से ही प्रेरित हुए हैं। अतएव भरम नाट्यकृति के निर्माण में ही अपनी नाट्यकला की इमता समझते रहे हैं। इसके अतिरिक्त वाद के अधिकाश नाटक या तो परम्परा के रूप में रचित है या प्रशम्नियों के रूप में। अन उनमें न तो नाटकीयता का निर्वाह हुआ है, न ऐतिहासिकता का ही।

उपर्युक्त विवेचन में स्पष्ट है कि सम्भृत के ऐतिहासिक नाटकों में सामान्यत पात्र तथा वस्तु के रूप में न्यूनाधिक मात्रा में इनिहास का प्रयोग अवश्य हुआ है, विन्तु अधिक नाटकों में इनिहास तथा अन्पना के सन्तुष्टित निर्वाह का प्रभाव है, इसके अतिरिक्त इसके अभिभूतन में रचयिता का दृष्टिकोण प्राय राजनीतिक न रह कर बुद्ध भिन्न रहा है। यही नहीं, बल्कि इनमें से अधिक नाटकों में भिन्न भिन्न दृष्टिकोण ही साध्य तथा प्रभुत्व रहे हैं, ऐतिहासिक तथा राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं। सामान्यत वंशयित्र प्रभुत्वका के आधार पर हम इन्हें तीन प्रकार का पाने हैं—

(१) राजनीतिक, (२) सामाजिक तथा (३) रोमाटिक।

इनमें से भी एक-एक प्रकार में कई-कई दृष्टिकोणों की मरुस्ता है। चंद्राहरण वे निए राजनीतिक-पथ प्रवान ऐतिहासिक नाटकों में ऐनिहासिकता से समृक्त नाटक बहुत स्वल्प है। इनमें मुख्यत वाद के राष्ट्रीय-चरित्र-प्रग्राम तथा समकालीन प्रशम्निपरवत्त नाटकों का ही बहुल्य है। अत इन यहाँ उनकी सूधम

विशेषताओं के आधार पर पृथक्-पृथक् परिचय देना उचित समझते हैं:—

## १. राजनैतिक :

(अ) राजनैतिक वातावरण से युक्त संघर्ष प्रधान ऐतिहासिक नाटक:— संस्कृत में ऐसे नाटक, जिनकी रचना मुख्यतः राजनैतिक वातावरण में हुई है, बहुत कम हैं। इनमें वीर-रम-प्रधान होने से अनजाने ही राजनैतिक पक्ष की प्रधानता हों गई है। फलतः इनमें ऐतिहासिकता का भी अच्छा निर्वाह हुआ है। यहाँ तक कि वीर रस की उद्भावना के कारण इनमें स्त्री पात्रों का भी सर्वथा अभाव है। इनमें राजनैतिक जोड़-तोड़, परिस्फुट अन्तर्दृष्टि, घात-प्रतिघात, कूटनीतिक चालें तथा युद्ध सम्बन्धी एवं वौद्धिक संघर्ष की प्रधानता के कारण इतिहास-रस का संचार होने से ये सरस तथा जजीव बन पड़े हैं। किन्तु इनमें मुद्रागाक्षर, आदि कुछ गिनेचुने नाटक हैं। अर्वाचीन समालोचकों के अनुमार ये ही सफलतम ऐतिहासिक नाटक हैं।

(ब) समकालीन राजाओं के वर्णन प्रधान ऐतिहासिक नाटक:— संस्कृत के पाश्चाद्वर्ती ऐतिहासिक नाटकों में ऐसे भी बहुत से नाटक हैं जिनकी रचना आधित राजाओं या निकट भूत के समकालीन प्रायः राजवृत्तान्तों को आवार बनाकर हुई है। किन्तु, इनमें ऐतिहासिकता से संपृक्त नाटक बहुत कम हैं, इनमें से कुछ नाटकों में रुढ़ ढंग से नाटक का ढांचा भर खड़ा कर दिया गया है तथा सवादों के माध्यम से अपने मन्त्रव्य को प्रकट भर कर दिया है। इनमें प्रायः राजनैतिक घात-प्रतिघात तथा ऐतिहासिकता की अभिव्यञ्जना नहीं हुई है। मुख्यतया इनमें राजवृत्तान्तों तथा राजनैतिक क्रिया-कलाप का वर्णन ही किया गया है। हम्मीरमद्दमदन, प्रताप रुद्रकल्याण आदि इसी प्रकार के नाटक हैं।

(स) परचाद्वर्ती-राष्ट्रीय चरित्र प्रधान नाटक:— अर्वाचीन श्रेष्ठकों ने परम्परा के रूप में प्रताप, शिवाजी आदि के चरित्रों तथा उनसे सम्बन्धित घटनाओं को संजोकर भी अनेक नाटक लिखे हैं। इनमें विश्रुत घटना तथा चरित्र को अभिनवकृति के रूप में नाट्यवृद्धि किया गया है। इनमें से कुछ नाटकों में ऐतिहासिकता का भी मुन्दर सन्निवेश हुआ है, किन्तु अन्य आवृत्तिक भाषाओं के ऐतिहासिक नाटकों के समान ये उतने सफल नहीं हैं। भेवाड़ प्रताप, वंगीय प्रताप, संयोगिता-स्वयम्बर आदि इसी प्रकार के नाटक हैं।

## २. सामाजिक-पक्ष-प्रधान नाटक :

संस्कृत में ऐसे भी कुछ नाटक हैं जिनमें सामाजिक-पक्ष-प्रधान है, तथा राजनैतिक घटना का आनुपंगिक रूप से विनियोग हुआ है। यद्यपि ये नाटक मुख्यतः सामाजिक या संस्कृति प्रधान हैं, तथापि इनकी आनुपंगिक ऐतिहासिक

क्या एव प्राचीन मास्ट्रिति व पक्ष के कारण इनका पर्याप्त ऐतिहासिक महत्व है। मृच्छकटिक ऐसा ही नाटक है।

### ३. शृंगारिक वातावरण से संपूर्वत रोमाटिक नाटक :

सस्कृत के ऐसे नाटकों में मुख्य-व्यया के स्थान में लोक-व्यया या समाजीलीन ऐतिहासिक इतिवृत्त से प्रएष व्यया को संजोकर तथा प्रासादिक घटना एव पात्रों की परिवर्तना करके नाट्यग्रन्थ कर दिया गया है। ये नाटक न बेवल शृंगार की पृष्ठभूमि भ रचित हैं, अपितु इनमें शृंगार के प्रति अतिशय आग्रह होने के कारण इनकी ऐतिहासिकता राजा-रानिया के पारम्परिक पड़यत्र तथा राजनीतिक दावपेंच के स्थान में मुख्यत अन्न पुर की प्राचीर तक ही सीमित रही है। ऐसे अधिकांश नाटकों में नायिका-उपनायिकाओं के क्रियावलाप, मान-मानीप्रल, अनुराग-निरस्कार, ईर्ष्या-द्वेष आदि के प्रमुख होने के कारण राजनीतिक तथा राष्ट्रीय तत्त्व लिरोहित प्राय हो गया है। फलत सधर्य, अन्तर्दृढ़ आदि के अभाव के कारण य सामान्य कालपनिक नाटक से प्रतीत होते हैं। इनमें एक प्रकार से राजाओं के गृहस्थ-जीवन के चित्रण होने के कारण वैवाहिक आदि तत्त्व ही प्रधान हैं। इसके अनिरिक्त इनमें कल्पना का स्वच्छन्द प्रयोग हुआ है तथा रस-सृष्टि के लिए वस्तु तत्त्व की उपेक्षा की गई है। तथापि इस प्रकार के कुछ नाटकों में प्रसगत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का भी प्रक्षेप हो गया है। सस्कृत के अन्य नाटक तथा मुख्यत नाटिकाएँ इसी प्रकार वी हैं—सामान्यत इनमें एक नायक, दो स तीन तक नायिकाएँ, विदूपक तथा एक दो परिवारिका आदि पात्रों का विनियोग हुआ है। मालविकाग्निमित्र, रत्नावली, प्रियदर्शिका आदि इसी प्रकार की कृतियाँ हैं।

उपर्युक्त सर्वेक्षण से स्पष्ट है कि सम्भृत के ऐतिहासिक नाटकों में यद्यपि इतिहास तथा कल्पना दोनों तत्त्वों का प्रयोग हुआ है, तब भी कल्पना की अधिकता तथा राजनीतिक वातावरण से अद्यते होने के कारण अधिकांश नाटकों में राजनीतिक मध्ये तथा ऐतिहासिकता के स्वर मुग्धर नहीं हो पाय हैं। जहाँ तक ऐतिहासिक वातावरण का सम्बन्ध है, इनमें आन्तरिक तथा वाह्य वातावरण की सृष्टि सामान्यत स्वाभाविक रूप से हुई है, नाटककार ने अपनी ओर से इसके लिए विशेष कुछ प्रयत्न नहीं किया है। इसके अनिरिक्त सम्भृत स्वयं प्राचीन भाषा है। प्राचीन होने के साथ-साथ यह प्राचीनता की दोतरी भी है तथा सम्भृत नाटकों का रचना-प्रकार एव शिल्प-विधान भी ऐसा होता है कि जिसमें नाटककार को अपनी ओर से विशेष प्रदर्शन करना अपेक्षित नहीं होता। वस्तु के स्वाभाविक चित्रण द्वारा स्वत् ऐतिहासिक वातावरण-भा अभियन्त्र होने

लगता है। यही कारण है कि संस्कृत के ऐतिहासिक नाटकों में—ग्रन्थ भाषाओं के नाटकों के समान रचयिता द्वारा निखी हुई लम्बी-लम्बी भूमिकाओं तथा वस्तु की ऐतिहासिकता की व्याख्या तथा शोब-श्रवृति का अभाव है। वेश-मूर्ता आदि के सम्बन्ध में भी कोई संकेत नहीं दिये जाते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि संस्कृत के ऐतिहासिक नाटक अपने निजी प्रकार के हैं। अतः उन्हें आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखना तथा आधुनिक ऐतिहासिक नाट्य-मिद्रान्त के कोण से उनका समीक्षण परीक्षण तथा मूल्यांकन करना उचित नहीं होगा। इसी प्रकार ये प्राचीन भाषा के, प्राचीन जैली में भिन ढहे श्य से विशेष परिस्थितियों में रचित हैं। अतएव हम यह मानते आये हैं कि उनमें आधुनिक भाषाओं के ऐतिहासिक नाटकों के समान ऐतिहासिकता की आगा रखना भी उचित न होगा। तब भी, संस्कृत के ऐतिहासिक नाटक ऐतिहासिक हैं। उनकी वस्तु तथा पात्र न्यूनाधिक रूप से ऐतिहासिक हैं। अतः उनका ऐतिहासिक दृष्टि से भी समधिक महत्व है। इसके अतिरिक्त इनकी सर्वाधिक विशेषता यह है कि इनमें अधिकांशत इतिहास ग्रन्थों से वस्तु का संकलन नहीं किया गया है, प्रत्युत् इनकी ऐतिहासिक वस्तु ने स्वयं इतिहास के निर्माण में सहयोग दिया है तथा अब भी ये पर्याप्त मात्रा में ऐसी ऐतिहासिक सामग्री से समृद्ध हैं जिससे इतिहास में अनेकों अव्याय जोड़े जा सकते हैं तथा संस्कार, परिप्रकार किया जा सकता है। अतः संस्कृत के ऐतिहासिक नाटक ऐतिहासिक दृष्टि से भी अन्य भाषाओं के नाटकों की अपक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त जहाँ तक साहित्यिकता का सम्बन्ध है, इनमें मुख्यतः संस्कृत के प्राचीन ऐतिहासिक नाटकों का महत्व निर्विवाद है।

### संस्कृत के ऐतिहासिक नाटकों का वर्गीकरण

संस्कृत के ऐतिहासिक नाटकों के विषय में अनेक प्रकार से पर्याप्त प्रकाश डालने के उपरान्त अब उनका वर्गीकरण करना भी उचित होगा। हम वतला चुके हैं कि ऐतिहासिक नाटक के दो मूलतत्त्व होते हैं—इतिहास तथा नाट्यकला। नाट्य-कला व्योक्ति मुख्यतः कल्पना से संश्लिष्ट होती है अतः इसका हमने कल्पना या कलात्मकता के नाम से भी निर्देश किया है। हम यह भी लिख चुके हैं कि इतिहास तथा नाट्यकला के युगमरुप से संतुलित विनियोजन द्वारा ही ऐतिहासिक नाटक का निर्माण होता है। अतः संस्कृत के ऐतिहासिक नाटकों का वर्गीकरण करते समय, दोनों तत्त्वों को दृष्टि में रखते हुए ऐसा वर्गीकरण करना अधिक उचित होगा, जिससे दोनों तत्त्वों का सम्बन्ध प्रतिफलित हो सके तथा उनका उचित मूल्यांकन भी। यद्यपि इन दोनों तत्त्वों के प्रयोग, मात्रा तथा स्वरूप के आधार पर नाटकों के अनेक भेद हो सकते हैं, किन्तु हम यहाँ विशेष विस्तार में न जाकर इनके रचनात्मक आधार पर निमित कुछ स्थूल वर्गों में ही संस्कृत के समस्त ऐतिहासिक नाटकों का समाहित करना चाहेंगे।

## ८६ : सस्कृत के ऐतिहासिक नाटक

सम्बूद्ध के ऐतिहासिक नाटक सर्वप्रथम नाटक हैं, वाद में ऐतिहासिक। अत प्रथम ग्रावण्यकरता उनकी साहित्यिकता एवं नाटकीयता है, ऐतिहासिकता वाद वी। इससे यह तो निश्चित है कि ये किसी न किसी रूप में नाटक तो होगे ही, किन्तु इनमें ऐतिहासिकता वा प्रधोप किस सीमा तक हूँगा है, तथा उससे नाट्यकला पर क्या प्रभाव पड़ा है, यही प्रश्न विशेष महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक नाटक के लिखते भवय नाटककार ने इतिहास का प्रयोग किस हास्तिकोण से किया है तथा उसमें ऐतिहासिक सत्य की अभिव्यजना किस सीमा तक हुई है आदि प्रश्न भी कम महत्व के नहीं हैं। हम इन्हीं में पहलुओं को सम्मुख रूप कर सस्कृत के ऐतिहासिक नाटकों के निम्न भेद कर सकते हैं—

(१) विशुद्ध ऐतिहासिक—(२) सतुलित सफन ऐतिहासिक, (३) सफन ऐतिहासिक, (४) ऐतिहासिक, (५) सतुलित ऐतिहासिक।

(२) इतिहास प्रधान ऐतिहासिक—(६) घटना प्रधान, (७) चरित्रप्रधान, (८) प्रशस्तिपरक।

(३) कल्पना प्रधान ऐतिहासिक—(९) कात्पनिक ऐतिहासिक, (१०) कल्पना-प्रधान ऐतिहासिक।

### १. विशुद्ध ऐतिहासिक नाटक :

नाटककार जब नाट्यरचना के लिए विश्रुत, ज्ञान एवं प्रामाणिक इतिहास से वस्तु तथा पात्र भेंजोरर उनसे सम्बन्धित घटना तथा चरित्र वी नाट्यरूप में रूपायित करता है तब वह विशुद्ध ऐतिहासिक नाटक वी थेगी भी आता है। इनमें मुख्य क्यानक तमा पात्र विशुद्ध ऐतिहासिक होते हैं। यद्यपि इनमें प्रासांगिक घटना तथा गौण पात्रों को परिकल्पना तथा इतिहासीकरण करके भी उपच्यस्त किया जा सकता है तथापि समग्र रूप में ये प्रामाणिक होने हैं तथा समुचित ऐतिहासिक कात्पनिक वातावरण वी यृष्टि द्वारा ऐतिहासिकता तथा इतिहास-रस से ओनप्रोन होते हैं।

इनमें भी जब नाटक में कल्पना या नाटकीय पक्ष का समुचित सामग्रस्य होता है तथा सतुलित एवं समनुपातिक ढग से दोनों तर्त्तों के निर्वाह में ऐतिहासिकता तथा नाटकीयता के सम्बन्धण के साथ-साथ कला के स्वर मुख्य हो उठते हैं और इतिहास प्राणकान होकर माकार हो उठना है, तब उस सतुलित ऐतिहासिक नाटक बहते हैं। किन्तु, द्वारा थोर कल्पना, इतिहास तथा वानावरण सभी के नियमों द्वारा होन पर भी नाटक में तालमेल नहीं बैठता तथा विशुद्ध-सल से होने में नाट्यकला निष्प्राण और इतिहास-रस की सहज अनुभूति नहीं हो पाती है, उन्हें ऐतिहासिक नाटक ही माना जा सकता है, प्रतिनिधि नहीं।

इसके अतिरिक्त इनमें जब नाटकीय पक्ष तथा इतिहास के सतुलित विनियाग

के साथ-साथ दृष्टिकोण भी ऐतिहासिक होता है अर्थात् जिस प्रकार का इतिहास में नायक का स्वरूप तथा स्थान है, उसी प्रकार का यदि नाटक में चिन्तित हो तो उसे हम सफल संतुलित ऐतिहासिक नाटक कहना उचित समझेंगे। उदाहरण के लिए मुद्राराथस तथा भास के ऐतिहासिक नाटक इसी प्रकार के हैं। इसके अतिरिक्त जब कथानक ऐतिहासिक अवश्य हो, किन्तु उसका दृष्टिकोण ऐतिहासिक न हो, तथापि यथासम्भव इतिहास के अनुसार ही चरित्र आदि का नाटक में समावेश किया गया हो, और सम्भव-कलग्ना भी की गई हो, तब उसे हम सफल ऐतिहासिक कहना ही उचित समझते हैं।

## २. इतिहास-प्रधान ऐतिहासिक नाटक :

जब नाट्यरचना में इतिहास तत्त्व तो इतना प्रबल हो जाता है कि कल्पना पक्ष या नाटकीयता का समुचित निर्वाह नहीं हो पाता, अथवा जब इतिहास अधिक उभर आता है तथा वह कल्पना को समान्दारित-सा कर लेता है, तब हम उसे इतिहास-प्रधान ऐतिहासिक नाटक की श्रेणी में रखना उचित समझते हैं। सामान्यतः ऐसे नाटकों में कभी-कभी इतिहास की संवादात्मक रूप में हीं प्रस्तुत कर दिया जाता है तथा कल्पना का समुचित सामंजस्य न होने से ऐतिहासिकता तथा इतिहास-रस की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती। यही नहीं, बल्कि ऐसे नाटकों में साहित्यिक-रस का भी परिपाक नहीं होता है। अतः ऐसे नाटक मुख्यतः संवादात्मक इतिहास से प्रतीत होते हैं। हम्मीरमदमर्दन, राजविजय नाटक, प्रतापरुद्र-कल्याण आदि इसी प्रकार के नाटक हैं। इनमें भी मुख्यतः कुछ नाटक विशुद्ध ऐतिहासिक घटना-प्रधान हैं तो कुछ केवल चरित-प्रधान तथा कुछ में केवल आश्रित राजाओं की प्रगस्ति मात्र उपलब्ध होती है।

## ३. कल्पना-प्रधान ऐतिहासिक नाटक :

कल्पना-प्रधान ऐतिहासिक नाटक वे होते हैं, जहाँ कल्पना इतिहास को अभिभूत कर लेती है। ऐसे नाटकों में वातावरण तथा कुछ पात्रों के नाम भर ऐतिहासिक होते हैं, किन्तु पात्रों का चरित्र तथा अन्य घटनाएँ इतिहास से न संजोकर संभाव्यता के आधार पर अनुमानित रूप से गढ़ती जाती हैं। या, कहीं प्रामाणिक इतिहास की वस्तु तथा पात्र होने पर भी इतने निर्वल रूप से विन्यस्त होते हैं कि उनका इतिहास-पक्ष तिरोहितप्रायः हो जाता है और वे काल्पनिक नाटक से प्रतीत होते हैं। सामान्यतः संस्कृत की नाटिकाएँ तथा कौमुदी-महोत्सव आदि नाटक इसी प्रकार के हैं। कल्पना-प्रयोग के आधार पर इनको भी दो प्रकारों में विभक्त कर सकते हैं:—(१) काल्पनिक—ये वे नाटक होते हैं जहाँ वस्तु तथा पात्र की कल्पना करके इतिहास पर आरोप कर लिया जाता है तथा इतिहासीकरण द्वारा उसमें ऐतिहासिकता का प्रक्षेप किया जाता है। यद्यपि इनमें पर्याप्त अनैतिहासिक

## ८८ सस्तुत के ऐतिहासिक नाटक

तत्त्व होन हैं तथा प्राय वस्तु तथा पात्र उत्पाद हीने पर भी एवं दो विश्रृत पात्र होना आवश्यक होता है, चाहे वे वस्तु से असम्बद्ध हो या अनेतिहासिक हो । (२) वल्पनाप्रधान, जहाँ ऐतिहासिक घटना तथा पात्र स्वल्प एवं गोल हों तथा कल्पित पात्र और घटना मुख्य रूप में विश्रित की गई हो, उन्ह हम वल्पना-प्रधान ऐतिहासिक नाटक कह सकते हैं । इनमें कभी-कभी वस्तु तथा पात्र लोकनाथा या विवदनियों से लेकर इतिहासीकरण भी कर लिया जाता है । इनमें भी पात्र तथा वस्तु में कोई न कोई तत्त्व निमी न किसी अश में विश्रृत इतिहास का होना आवश्यक होता है ।

उपर्युक्त वर्गीकरण मुख्यत हमने सस्तुत के ऐतिहासिक नाटकों के स्वरूप तथा रचनात्मक की दृष्टि में किया है । अत सामान्यत इसमें सस्तुत के प्राय समस्त ऐतिहासिक नाटक आमत हैं । कुछ उदाहरणों का हमने वहीं निर्देश भी किया है, विन्तु विशेष रूप से नाटकों के समालोचन के प्रमाण में ही इनका निर्देश किया जायगा ।

हमने यह वर्गीकरण सामान्यत मस्तुत के ऐतिहासिक नाटकों के स्वरूप के अनुसार किया है, किन्तु उपर्युक्त वर्गीकरण के अनुसार ही उनका यही अध्ययन करना उचित तथा सम्भव न होगा । अन हम प्रस्तुत अध्ययन वस्तु में सस्तुत के ऐतिहासिक नाटकों को उनकी प्राचीनता, उपर्योगिता, महत्व तथा अध्ययन की आवश्यकता के आधार पर दो भागों भवित्व के बावजूद यथावसर संक्षेप तथा विस्तार में ही समालोचन करना उचित समझते हैं । इसलिए हमने उहें निम्ननिर्मित भागों में विभक्त किया है ।

### (१) संस्कृतिक के प्राचीन ऐतिहासिक नाटक

सर्वप्रथम हमें सस्तुत के प्राचीन ऐतिहासिक नाटकों का अध्ययन आगीप्त है । इन प्राचीन नाटकों में हम मस्तुत के प्रमुख ५ ऐतिहासिक नाटककारों की रचनाओं का इस रूप से अध्ययन करेंगे—

- (क) भास का स्वप्नवासवदत्ता तथा प्रतिज्ञा योगन्वरायण ।
- (ख) वालिदाम का मालविकामिनिमित्र ।
- (ग) शूद्रव का मृच्युकटिक ।
- (घ) हर्ष की प्रियदर्शिका तथा रत्नावली एवं उदयन सवधी अन्य नाटक ।
- (ङ) विशाखदत्त का मुद्राराधास तथा देवीबन्दगुप्तम् ।

सस्तुत साहित्य के उपर्युक्त महत्वपूर्ण नाटकों का उनके महत्व के अनुमार संक्षेप तथा विस्तार से सर्वांगीण सास्तुतिक अध्ययन करते समय सर्वप्रथम नाटककारों

के समय पर संक्षेप में प्रकाश डालेंगे। नाटककारों के समय पर प्रकाश डालना इसलिए आवश्यक हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य संस्कृत के ऐतिहासिक नाटकों का ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक अध्ययन भी करना है। यद्यपि ऐतिहासिक नाटकों में सांस्कृतिक चित्रण वस्तु से सम्बन्धित देश काल का ही होना आवश्यक है तथापि व्यवहारातः प्रायः ऐसा होता नहीं है। विशेषतः संस्कृत के ऐतिहासिक नाटकों के सांस्कृतिक चित्रण को वस्तु के देशकाल का मानना अस्वाभाविक प्रतीत होता है। अतएव हमारा विश्वास है कि संस्कृत के नाटकों में अधिकांशतः लेखकों ने अपने देश काल के अनुमार ही सांस्कृतिक चित्रण किया है। इसी सांस्कृतिक दाय के तथा अन्य ऐतिहासिक निष्कर्षों के उचित मूल्यांकन के लिए नाटककार के समय का निर्धारण आवश्यक है। इसके अतिरिक्त संस्कृत के नाटककारों का समय प्रायः विवादास्पद है। अतः नाटकों के सर्वांगीण अध्ययन की टृष्णि से भी उनका समय निर्धारण करना उचित प्रतीत होता है। इसके अनन्तर क्रमणः नाटकों की ऐतिहासिक, साहित्यिक तथा सांस्कृतिक समृद्धि का संक्षिप्त समालोचन तथा अध्ययन करेंगे। ऐतिहासिक विवेचन में वस्तु तथा पात्रों की ऐतिहासिकता तथा कल्पना-प्रयोग आदि का विश्लेषण करना हमें अभीष्ट होगा। साहित्यिक समालोचन में नाट्यकला के परिप्रेक्ष्य में वस्तु, नेता तथा रस को सामने रखकर संक्षिप्त समीक्षण तथा मूल्यांकन करना उचित समझते हैं। इसी तरह सांस्कृतिक-चित्रण में मुख्यतः नाटकों के आधार पर ही उस उपलब्धि पर प्रकाश डालेंगे।

## २ संस्कृत के मध्यकालोन तथा अर्वाचीन ऐतिहासिक नाटक

इस दूसरे भाग में सर्वप्रथम संस्कृत के मध्यकालीन सुप्रसिद्ध तथा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक नाटक—हम्मीरमदमर्दन, कौमुदीमहोत्सव, ललित-विग्रहराज प्रभृति का संक्षिप्त अध्ययन सर्वेक्षण के रूप में करेंगे। इनमें भी नाटक यान नाटककार का समय निर्धारण और ऐतिहासिक तथा साहित्यिक समालोचन ही हमें अभीष्ट होगा। इसी भाग के अन्त में अर्वाचीन नाटककारों की ऐतिहासिक कृतियों का संक्षिप्ततम परिचय देना भी उचित समझेंगे।

## द्वितीय खण्ड

संस्कृत के  
प्राचीन ऐतिहासिक  
नाटक

## स्वप्नवासवदत्तम्' एवं प्रतिज्ञायौगन्धरायण

भास, संस्कृत के प्रथम नाटकार होने के कारण निःसन्देह भारत के “प्रथम नाटककार”<sup>२</sup> तो हैं ही, किन्तु इसके साथ ही स्वप्नवासवदत्तम् तथा प्रतिज्ञायौगन्धरायण के रचयिता होने के कारण उन्हें संस्कृत का प्रथम ऐतिहासिक नाटकार होने का भी गौरव प्राप्त है। यही कारण है कि हम भास को न केवल संस्कृतनाटकों का पिता, अपितु भारतीय नाटकों का पिता तथा “संस्कृत के ऐतिहासिक नाटकों का प्रवर्तक” कहना अधिक उचित समझते हैं। आज से लगभग ६० वर्ष पूर्व तक केवल सूक्ष्मियों या उद्धरणों के रूप में ही भास के कृतित्व का परिचय प्राप्त था, कोई कृति उपलब्ध न थी। सर्वप्रथम मैसूर की पुरातत्व-ज्योध के मर्वेश्वरण के प्रसंग में पं० आनन्दलवर को भस का सर्वोत्कृष्ट नाटक “स्वप्नवासवदत्तम्” प्राप्त हुआ। उनके पश्चात् सन् ११२-१३ लगभग श्री टी० गणपति शास्त्री ने भास के १३ नाटकों को खोजकर विवेन्द्रम् की अनन्त-शयनम् ग्रन्थमाला से प्रकाशित कराया, तभी से इन १३ नाटकों के रचयिता के रूप में भास के व्यक्तित्व तथा कृतित्व का प्रनुशीलन, परिशीलन होता रहा है। सामान्यतः इतिवृत्त के आधार पर ये नाटक चार वर्गों में विभक्त किए गये हैं—(१) रामायण नाटक, (२) महाभारत नाटक, (३) उदयन—नाटक, (४) कल्पित नाटक। इनमें उदयननाटक स्वप्न० तथा प्रतिज्ञा० ऐतिहासिक हैं।

### प्रथितयशस् भास

भास, संस्कृत साहित्य के न केवल प्राचीनतम नाटकार हैं, अपितु सर्वाधिक

१. सामान्यतः संस्कृत के स्वप्नवासवदत्तम्, को कुछ विद्वानों ने हिन्दी में स्वप्न-वासवदत्त तथा कुछ ने स्वप्नवासवदत्तम् भी लिखा है, हम भी स्वप्न-वासवदत्तम् या दत्ता ही लिखना उचित समझते हैं। संक्षेप में इसको प्रायः स्वप्न० के रूप में उल्लेख किया है। तथा प्रतिज्ञा यौगन्धरायण को प्रतिज्ञा०।
२. भासः ए० एस० पी०, अच्यर, पृ० ३

“यशस्वी” भी है। कालिदास ने स्पष्टत उन्हें “प्रथितयशम्” स्वीकार किया है।<sup>१</sup> इसके अन्तरिक्त कलिदास में लेफर १२वीं संशो तक के बालु, राजसेवर, वाक्मनि-राज जगदेव आदि लब्ध प्रतिष्ठ कवियों, तथा दडी, भास्मह, वामन, अभिनवगुण, मोज, सर्वानन्द, गारदातनय आदि काव्यशास्त्रियों ने किसी न किसी रूप में भास का उल्लेख किया है, प्रशसा की है तथा आनी प्राप्ती निकप पर कहा है। इससे स्पष्ट होता है कि नाटककार भास तथा उनकी कृतियाँ प्राचीनकाल में किसी से द्युर्गी नहीं रही हैं। प्राचीनकाल से ही कवियों तथा काव्य-मर्मज्ञों ने उनके महत्व को सम्पर्क निरखा-परखा दें। परम्परागत उल्लेखों से यद्यपि भास के महत्वीय कृतित्व का निसदिग्द साधन हो जाता है, तथापि अद्वितीय समलोचकों ने ममन नाटकचक्र के स्वरूप तथा शिल्प आदि के अन्तर के कारण अन्त वाह्य-मध्य के आघार पर पौन पुण्यत उनका समीकरण पतेशए किया है। फलत भास का कृतित्व एक समस्या के रूप में बनकर रह गया है और भाज भी भास के कृतित्व की प्रामाणिकता अपेक्षोन्मुखी है।

### भास के कृतित्व की प्रामाणिकता

भास के १३ नाटकों की समुपलव्यि से निश्चित रूप से संस्कृत साहित्य, विशेषत नाट्यसाहित्य के कोण की अभिवृद्धि हुई है। किन्तु इनके प्रकाशन ने समालोचक जगत में एक अमूर्तपूर्व हलचल सा भवा दी, जिससे सभी वो एक कदम आगे सोचते को याद रहता रहा। परिणामव्यवहर भास के प्राप्ति नाटकों की प्रामाणिकता-प्रामाणिकता के सम्बन्ध में प्रांत वैदिक सबर्ण के पञ्चान्त विद्वानों ने अपने-अपने पृथक् मत स्थापित किए हैं, उनमें को हम सङ्गेऽम नीरावांगि में विमर्श कर सकते हैं।

(i) प्रथम वर्ग में—वे विद्वान् हैं जिन्होंने प्रकाशित नाटकों को निसदिग्द रूप से भास का व्वीकार किया है। इनका नेतृत्व श्री टी० गणेशनि शास्त्री करते हैं।

(ii) हिन्दीय वर्ग में—पूर्णत विरोधी हैं तथा ये शिवेदम् से प्रकाशित नाटकों को भास की वृत्ति स्वीकार नहीं करते। इनमें प्रो० सिलवानिको, पी० वी० काले, मट्टनाथशास्त्री, डा० वार्नेट, वृषभानिशरोदी-रामाणिशरोदी, रामावतार शास्त्री तथा कुल्यु स्वामी जैसे विद्वान् हैं। इन विद्वानों ने अधिकाश में काव्यशास्त्रों एवं कवियों के उल्लेखों से प्राप्त नाटकों का सूझम विनान तथा सामजिक्य करके प्रकाशित नाटकों में

१. पारिपारिवर्कः—“प्रथितपरातां भाससीमित्त-कविपुत्रादीनाप्रद-धातिकम्प यत्मानकवेः कालिदासस्य किवायां कर्यं बहुमान्।” सालविकारिनमित्र, प्रस्तावना ११-२

तत्तद् स्थलों पर कुछ अभावों के कारण भास के कर्तृत्व में सन्देह व्यक्त किया है, या किर कुछ अन्य नाटकों की समानताओं के आधार पर नाटकचक्र को कन्पित भास की रचना मानकर बहुत वाद का माना है। अतः ये विरोधी अभाववादी या परिवर्तन वादी हैं। जहाँ तक काव्यशास्त्रों में प्राप्त उल्लेखों के अभाव का प्रश्न है, यह विरोध का कोई सुदृढ़ तर्क नहीं है। प्रतिलिपि, स्वरूपण तथा सक्षिप्तीकरण में भी ये अभाव संभव है। अनेक विद्वानों ने भी इन विरोधों का समाधान किया है<sup>१</sup>। इसके अतिरिक्त मत्तविलास जैसी कृति के साम्य के आधार पर भास के कर्तृत्व का संडर्न करना भी निर्णयात्मक नहीं माना जा सकता।<sup>२</sup> वानेट ने भास के कर्तृत्व के सम्बन्ध में जितनी भी आपत्तियाँ उठायी हैं तथा जो-जो तर्क रखे हैं उनका विन्टनिट्ज जैसे समर्थ समालोचकों ने खड़न कर दिया है<sup>३</sup> तथा वानेट के ७-दर्दों ग्रन्दी में नाटकों को मानने के आधारभूत तर्कों को चुनौती दी है।<sup>४</sup> सारांशतः विरोधी मत की इतनी अधिक द्वीद्वालेदर हो चुकी है कि यह मत अधिकांश में निर्मूल-प्रायः हो गया है।

(iii) तृतीय वर्ग—उनका है जो कि सूष्म अध्ययन के आधार पर समन्वयवादी, तटस्थ या मध्यम मार्ग स्वीकार करते हैं। इनमें मुख्यतः डा० मुकुयान्कर तथा प्रो० विन्टनिट्ज आदि हैं। ये प्रकाशित समग्र नाटकों को उसी रूप में भास की मौलिक कृति स्वीकार नहीं करते।<sup>५</sup> एक और ये इन्हें भास की स्वीकार करते हैं

१. प्रो० सितवालेवी, रामावतारशास्त्री तथा देवघर आदि ने नाटक-पूर्ण, नाटक-लक्षण-रत्नकोश तथा धद्यात्मकटीका आदि में प्राप्त उल्लेखों तथा सूक्लिग्रंथों में प्राप्त उद्घरणों के आधार पर सभी नाटकों को भास का नहीं माना है। उनके समाधान के लिये देखिये: काले की स्वप्न० की मूमिका, अग्न्यर का भास, पृ० २०-३८ तथा विन्टनिट्ज का 'सम प्रावृत्तस्स आफ इंडियन लिटरेचर' आदिग्रंथ ।
२. संस्कृत छामाः कीय, पृ० ६३,
३. सम प्रावृत्तस्स आफ इंडियन लिटरेचर: विन्टनिट्ज, पृ० ११५-१२६,
४. वही, पृ० १२२,
५. एम. विन्टनिट्ज ने समस्त नाटकों को तीन वर्गों में विभक्त करके सभी का साहित्यिक, भाषागत, शैलीगत तथा नाम-दर्शन-शिल्प आदि के साम्य के आधार पर स्वप्न० को सुनिहित रूप से भास का स्वीकार करते हुए अन्य को भी भास की कृति माना है। वही, पृ० १२२त्वा १६,

## ६६ सस्तृत के ऐतिहासिक नाटक

तो दूसरी ओर इन्हे परिवर्तित तथा मक्षिण भी। इसमें ऐसे अनेक उपस्थित हैं<sup>१</sup> जो कुद्र को भास की स्वीकार करते हैं कुद्र को नहीं।<sup>२</sup> तथापि किसी न किसी रूप में निरंयात्मक रूप में ये भास के कर्तृत्व के समर्थक ही हैं तथा इसी समर्थन में एवं विरोधियों के मत के खड़न में ही इन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग किया है। अतः हम इन्हें निष्क्रियांत भास के कर्तृत्व के महोगी ही स्वीकार करते हैं।

बहुलत ग्राजकल प्रथम मत उनका है जो कि विवेद्यम् में प्रकाशित नाटकों को भास का स्वीकार कहते हैं। इस मत के समर्थकों ने प्राय नाटक के समुदर्दर्ता श्री टी० गणेशनि शास्त्री की ही मान्यताग्रो द्वो स्वीकार किया है। इसमें मुख्यत ढा० पुनश्चर, एम०एम० पराजये, कीय, थोमस, बाले, अध्यर, डॉ० व्यास, ढा० भागवत तथा श्री उग्राध्याय आदि विद्वान हैं जिन्होंने श्री शास्त्री द्वारा प्रस्तुत नाटकचक्र की उन २ विद्येषनाश्रों के समर्थन के अतिरिक्त ग्रन्थ भी प्रक्त बाहु साक्षरों तथा साम्यों के अन्वयण द्वारा समस्त नाटकचक्र को भास का मिद बरने का प्रयास किया है। निष्क्रिय रूप में इनकी मान्यताएँ हैं कि—

(१) प्राय भास के ममम्म नाटक “नान्यन्ते तत प्रविगति सूक्षधार” से प्राप्त होते हैं। अन वाए के “सूक्षधारकृतारम्भ” ... ... ... इत्यादि उल्लेख में इनकी पुष्टि होती है। बाद के नाटकों में ऐसा नहीं भिलता है।

(२) प्राय प्रस्तावना के स्थान पर स्थापना शब्द का प्रयोग है।

(३) ‘म्यापना’ में भी प्रस्तावना की परम्परा के अनुसार “नाटक तथा नाटककार” के नाम आदि का उल्लेख नहीं किया गया है।

(४) प्राय प्रत्येक नाटक भरत-वाक्य के “इसा सागरस्वर्णता” ... ... इत्यादि वाक्य से समाप्त होता है।

(५) कुद्र नाटकों के प्रारम्भ में “मुद्रालंकार” का भी प्रयोग प्राप्त है।

(६) वाक्यनिराज के द्वारा निर्दिष्ट “ज्वननमित्र” की नाटकों में मार्यन्ता है, विशेषत स्वप्न० में तो इसका स्पष्ट बरण है।

(७) राजशेषर ने निरिचित रूप से भास इति स्वप्न० का उल्लेख तथा उसके संविधान वा उत्तरपटना का निर्देश किया है। भास के प्राप्त स्वप्न० से उसका इतिवृत्त तथा सघटना का साम्य है।

१. देखिये, हि० सं० लि० : दासगुप्ता भाग १, पृ० १०६-८,

२. श्रो० जागीरदार ने इन नाटकों को ३ वर्गों में बांटा है। उनमें प्रतिता० प्रतिमा० स्वप्न०, पंचरात्र को भाचीन तथा भास का ही स्वीकार किया है, विशेष हृष्टव्यः द्रामाज इन सस्तृत लिटरेचर, पृ० ७५,

(८) प्राचीन (पूर्वोक्त) आलंकार ग्रन्थों में उद्धृत उद्धरणों, वृत्त निदेशों तथा नामोल्लेख आदि का प्राप्त नाटकों से अधिकांश में साम्य है।

(९) इनमें अनेक अपारिणीय प्रयोग मिलते हैं, जिनसे प्राचीनता स्पष्ट है तथा इनकी प्राकृत एवं संस्कृत कालिदास से पूर्व की हैं सभी की शैली सरल तथा प्रांजल है।

(१०) इनमें नाट्यशास्त्रीय सिद्धान्तों का पूरणतया पालन नहीं किया गया है।

(११) त्रिवेन्द्रम् से प्रकाशित नाटकों में भाव, भाषा, शब्द, पात्र, नाम, मुहावरे, वर्णन तथा शिल्प साम्य है। यही नहीं, अपितु कल्पना, शैली तथा अभिव्यक्ति के अतिरिक्त वाक्य और पंक्ति तक समान हैं।

(१२) जयदेव के “भासो हासः” के अनुसार इसमें प्रायः सुरुचिपूरणं हास्य भी मिलता है।

(१३) अनेक नाटकों में “पताका स्थानक” की विशेषता है।

(१४) इनकी मान्यता है कि जब कि राजशेखर आदि के उल्लेख के आधार पर स्वप्न० निःसन्देह रूप से भास का है, तो अन्य भी स्वप्न० से साम्य रखने के कारण भास के ही प्रतीत होते हैं।

उपर्युक्त समस्त विशेषताओं के परिप्रेक्ष्य में भास के नाटकों का अध्ययन करके, विद्वानों ने विरोधी मतों का समाधान करते हुए सभी नाटकों को भास की कृति स्वीकार किया है, और आपाततः सत्य प्रतीत होने के कारण यही मान्यता सामान्यतः प्रचलित भी है, <sup>१</sup> किन्तु इन नाटकों का सूक्ष्म अध्ययन करने पर ये मान्यता निस्सार प्रतीत होती है। समर्यक पक्ष के विद्वानों ने मुख्यतः समानताओं के आधार पर ही अध्ययन किया है, विभिन्नताओं के आधार पर नहीं। यद्यपि विभिन्नताओं का विवेचन यहाँ हमें अभीष्ट नहीं है, तथापि हम यह मानते हैं कि एक स्थान-विशेष में समुदाय विशेष के द्वारा सम्पादित होने के कारण ही इन नाटकों में परस्पर समानताएँ हैं। अतः केवल समानताओं के आधार पर कोई निष्कर्ष निकालना विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं माना जा सकता। यदि समानताओं के समान विभिन्नताओं का अध्ययन भी किया जाय तो निष्कर्ष भी भिन्न रूप में ही निकलने की संभावना है।

यही क्यों, वल्कि तथाकायित मान्य समानताएँ या विशेषताएँ भी समस्त नाटकों में प्राप्त नहीं होती हैं। भास के कृतिम्ब के समर्यकों के अग्रगामी श्री टी०

गणयति शास्त्री ने जिन ६-७ प्रमुख विशेषताओं का निर्देश दिया है, वे सभी मे नहीं, अपितु कुछ मे ही उपलब्ध हैं, और वे भी सधूरुएँ रूप मे नहीं। अनेक नाटकों मे मगत इतोक नहीं हैं, स्थापना के स्थान पर प्रस्तावना भी है तथा भाषा, शंसो अदि भी पर्याप्त भिन्न हैं।<sup>१</sup> इसके अतिरिक्त इन नाटकों का चरित्र-चित्रण, भाषा, शिल्प, विषय आदि की इटिंग से सूक्ष्म अध्ययन करने पर भी उनमे अनेक विषमताएँ हृष्टिगत होनी हैं। जान पड़ता है कि उपर्युक्त समस्त रचनाएँ न एक काल की हैं, न एक लेखनी की।<sup>२</sup> अत बम्नुत आज इस बात का विषेष महत्व नहीं है कि उनक नाटकों को भास की कृति कहा जाए या अन्य किसी अन्नात कवि की। अपिनु विचारणीय तो यह है कि उन सबको एक ही व्यक्ति की कहा जाए या नहीं।<sup>३</sup> यहाँ हम अप्राप्तिगत होने मे समस्त नाटकों के सूक्ष्म पर्यावरण मे नहीं उलझना चाहते। हम पूर्ववर्ती पक्ष विषय के समस्त मर्तों के तथा नाटकों के अनुशीलन के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि विवेन्द्रम् से प्रकाशित समस्त नाटक भौलिक रूप मे भास नहीं हैं।

स्वप्न० तथा प्रतिज्ञा० के अतिरिक्त इसी अन्य नाटक के सबध मे इडता मे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तथापि विश्वास है कि इन सभी नाटकों के समय-समय पर सकारणों के कारण परिवर्तन, रूपान्तरण तथा सक्षिप्तीकरण आदि अवश्य हुए हैं।<sup>४</sup> भास के कर्तृत्व के समर्थक कीय भी इसमे महगत हैं तथा वह यह भी स्वीकार करते हैं कि इस (रूपान्तर) का उत्तरदायित्व केरल के अभिनेताओं का है।<sup>५</sup> विन्टरनिट्ज राजगोवर वे उल्लेख वे आधार पर स्वप्न० को नि सदिग्द स्वप्न से भास की रचना मानते हैं और उसी के ही आधार पर अन्य नाटकों के कर्तृत्व का निर्णय करने की चेष्टा की है।<sup>६</sup> अध्यर वा अनुमान है कि भास ने अप्वन्न० तथा प्रतिज्ञा० लिये होंगे। शेष अन्य उसके शिष्यों तथा सहयोगियों ने पूर्ण लिये होंगे। उनके बेवज्ञ कुछ अश-मात्र भले ही भास ने लिये हो, निन्तु समस्त नाटक शेषमविधर के नाटकों के समान भास के नाम से चला दिए गए हैं।<sup>७</sup> जो भी हो, हम अन्य समस्त नाटकों के भास के कर्तृत्व के विवाद म यहाँ नहीं

१. देखिये, द्वामाज इन सस्कृत लि. रेचर, जामीरदार, पृ० ७५-७६,
२. वहाँ, पृ० ५६,
३. स० सा० इति० कीय (हिन्दी) प्राक्कथन, पृ० ६,
४. भास, अध्यर, पृ० ४४,
५. स०सा०इति (हिन्दी) : कीय, प्राक्कथन, पृ० १३,
६. सम प्रावलम्ब आँफ इ डियन लिटरेचर : विन्टरनिट्ज, पृ० १२१,
७. भास : अध्यर, पृ० ३३,

पड़ना चाहते। पर, हम यह ग्रन्थ मानते हैं कि समरत नाटकचक्र भास रचित नहीं हैं। उदाहरण के लिए हम चारुदत्त जैसे नाटक वो भास की रचना कदापि नहीं मानते,<sup>१</sup> किन्तु हमारा विश्वास है कि हमारे विवेच्य ऐतिहासिक नाटक स्वप्न० तथा प्रतिज्ञा० निश्चित रूप से भास-प्रणीत है।

### भास के असंदिग्ध नाटक : स्वप्नवासदत्ता तथा प्रतिज्ञायीगन्धरायण

भास के ऐतिहासिक नाटक स्वप्न० का राजशेखर ने नाम्ना भास की कृति के रूप में उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त अन्य अनेक कवियों तथा अलंकार-शास्त्रियों ने भी स्वप्न० का अनेक प्रकार से उल्लेख किया है, अतः स्वप्न० को निःसंदिग्ध रूप से भास का माना जाता है। किन्तु, भास के उपलब्ध स्वप्न० में अभिनवगुप्त द्वारा उद्भूत श्लोक, नाटक-लक्षण-रत्नकोष में वर्णित उद्घरण तथा शारदातनय के उद्भूत कथासार ने पूर्णतः साम्य न होने के कारण प्रो० देवधर इसे राजशेखर द्वारा उल्लिखित भास का मौलिक नाटक स्वीकार नहीं करते,<sup>२</sup> किन्तु उन्होंने स्वप्न० का भास की कृति के रूप में अस्वीकार नहीं किया है। प्रो० देवधर ने स्वप्न० को यद्यपि भास का स्वीकार किया है तथा उदयन कथा पर आन्वित दोनों नाटकों की समानता तथा सम्बन्धों की भी स्वीकृति दी है,<sup>३</sup> किन्तु उपलब्ध नाटक को निष्कर्षतः उन्होंने भास की उत्कृष्ट मौलिक कृति न मानकर रंगमचीय रूपान्तर ही माना है।<sup>४</sup> हमारी भी यद्यपि यही मान्यता है कि भास के ये नाटक मौलिक रूप में नहीं, अपितु संस्करण तथा रूपान्तर आवि के रूप में ही प्राप्त है। नाटकों में अभाव तथा भिन्नता भी उनके अनेक संस्करण, अनुलेखन, प्रतिलेखन तथा रूपान्तरण की पुष्टि करती है, किन्तु स्वप्न० के सम्बन्ध में अमौलिकता का सन्देह करना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। यद्यपि स्वप्न० में अनेक अभाव तथा त्रुटियों की ओर विद्वानों ने संकेत किया है। तथापि विशेष महत्त्वपूर्ण तो यह है कि अधिकांश काव्यशास्त्रों में उल्लिखित उद्घरण तथा संस्करण वर्तमान स्वप्न० से मेल खाते हैं। राजशेखर के

नाम

१. देखिये, इसी प्रबन्ध में 'मृच्छकटिक' के अध्यात्र में चारुदत्त की परिवर्तिता।
२. दि प्लेज एस्काइब्ड टु भास, देअर ओयेन्टिस्टी एण्ड मैरिट्सः :
- सी. आर. देवधर, पृ० ६१-६२, काले ने स्वप्न० के अपने संस्करण में इसी एक अभाव को दूर करने की चेष्टा की है।
३. दि प्लेज एस्काइब्ड टु भास, देअर ओयेन्टिस्टी एण्ड मैरिट्सः सी. आर. देवधर, पृ० १८,
४. वही, पृ० १८ तथा भास नाटकचक्र की भूमिका, पूना, पृ० १०,

गन्दो में भी भास का स्वप्न ० ही आलोचकों की अग्नि में सफल मिल हुआ है । प्रवाचीन समालोचकों ने भी विरोधी मतों का सम्बन्ध तथा जिज्ञासायों का समाधान करने स्वप्न को नि भद्रिघ रूप से भास का स्वीकार किया है ।<sup>१</sup> यह प्रबन्ध है कि इस मुदीर्घकाल में अनन्त अभिनन्तायों तथा मस्तकायों के हाथ में पड़ने के कारण स्वप्न ० में भी कुछ परिवर्तन तथा मधिष्ठीकरण हुआ है, किन्तु हमारा विश्वास है कि इसमें भास की मौलिकता अपिकाश में सुरक्षित है । अत इस स्वप्नवासवदत्ता को भास का अपेक्षाकृत प्रधिक मौलिक नाटक स्वीकार करते हैं ।

दूसरा ऐतिहासिक नाटक प्रतिज्ञायोगन्यरायग स्वप्न ० का ही पूरक है । कथानक पात्र आदि की हट्टि से दोनों परस्पर सम्बन्धित हैं । शिल्प आदि की हट्टि से भी भिन्न भिन्न नहीं है । इन दोनों के अन्त सम्बन्ध इनन् धनिष्ठ है कि विद्वान् दोनों का मूल रूप में एव ही नाटक तक स्वीकार करते हैं । हम भी इन् प्रत्यक्ष,<sup>२</sup> मानकर निश्चित रूप से भास की ही दृति स्वीकार करते हैं । भासह आदि के साधया के आधार पर भी इसकी पुष्टि होती है ।<sup>३</sup> अत विरोधी भी किसी न किसी रूप में प्रतिज्ञा ० तथा स्वप्न ० दोनों को भास का ही स्वीकार करते हैं ।<sup>४</sup> निष्पत्त हमारे विवच्य दोनों नाटक प्रतिज्ञा ० तथा स्वप्नवासवदत्ता निष्पत्त हृष से भास प्रगतीत हैं । इसके अतिरिक्त हमारी यह भी मान्यता है कि भास की ये दोनों दृतियाँ प्राचीन समय से ही अति प्रसिद्ध थीं तथा इनका इतिवृत्त, स्थात था । अन् मन्मथन इनमें किसी ने ग्रन्थिकाश में परिवर्तन परिवर्तन बरत का साहम नहीं किया है ।

### भास का समय

भास के समय का सम्बन्ध में भी वर्तृत्व के समान ही पर्याप्त मतभेद है । मामान्यतया विद्वानों के मत इस्वी पूर्व पांचवीं सदी से, ईम्बी वी पांचवीं सदी तक अथात् १००० वर्ष के बीच में विख्यात हुा है किन्तु पूर्वोंवत् कालिदास प्रभृति कवियों तथा दण्डी भासह आदि काव्यशास्त्रिया का उद्भरणों एव उल्लङ्घा से इतना सुम्पष्ट है कि भास उनमें पूर्व हुए हैं । अत भास का समय-निर्धारण में यह बाह्यसाक्ष भी प्रमुख आधार है । मन्मथम हम दक्षत हैं कि १२वीं मदी में लेखर कालिदास तक

। ५

१. सस्तृत द्रामा । वीय, १६५६, पृ० ६२-६३, तथा, सम प्राचीनम् धार्मक इण्डियन लिटरेचर विन्टनिट्ज, पृ० १२१-१२२,
२. हमारा अग्रिम विवेचन देखो,
३. भासहालकार ४। ३६-४२
४. दिप्लेज एस्प्राइब्ड टु भास ० देवघर, १६२७, पृ० १८,

प्रायः अनेक कवियों ने भास तथा उनकी कृतियों का उल्लेख किया, परन्तु उनमें कालिदास का उल्लेख मन्त्रसे पहला है, अतः भास के समय की प्रथम सीमा कालिदास है। दूसरी ओर, भास के सुप्रसिद्ध तथा विश्वस्त नाटक स्वप्न० में “दण्क” का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उल्लेख है।<sup>१</sup> अतः निश्चित रूप से भास दर्शक के पश्चात् हुए होंगे। हमें इन दोनों सीमाओं के मध्य ही भास का समय खोजने का प्रयास करना है।

कुछ विद्वानों ने भास को कल्पित तथा वास्तविक, दो व्यक्ति मानकर त्रिवेद्म् से प्रकाशित नाटकों का रचयिता केरल के कवि कल्पितभास को बहुत वाद में (सप्तम सदी में) मानने की चेष्टा की है, किन्तु इनका अनेक प्रकार से पर्याप्त खंडन हो चुका है।<sup>२</sup> कम से कम स्वप्न० तथा प्रतिज्ञा० के सम्बन्ध में कल्पितभास की कल्पना तो सर्वथा उपहासास्पद ही है। क्योंकि मूलतः ये दोनों नाटक निःसंदेह (प्राचीन) भास की ही रचनाएँ हैं।

### बाह्य साक्ष्य

कालिदास ने “मालविकाग्निमित्र” नाटक में भास का उल्लेख किया है।<sup>३</sup> इसके अतिरिक्त भास के नाटकों तथा कालिदास की कृतियों के तुलनात्मक अध्ययन से भी भास कालिदास से प्राचीन प्रमाणित होते हैं। नाटक की भाषा, शैली, शिल्प, छंद, अलंकार तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि आदि सभी प्रश्नार से भास की प्राचीनता स्पष्ट है। कीय भी भास को कालिदास से पूर्ववर्ती मानते हैं।<sup>४</sup> अतः इन बाह्य तथा अन्तः साक्ष्यों के आधार पर सामान्यतया भास को प्राकलीक्रिक-संस्कृत युगीन माना जाता है। डा० लेस्नी तथा वेनर्जी शास्त्री ने भाषा-शास्त्र के आधार पर प्राकृतप्रयोग का सूक्ष्म तुलनात्मक अध्ययन करके भास को कालिदास से पूर्व का प्रमाणित किया है। अतः कालिदास का समय ही भास की पूर्व सीमा ढहरता है। यद्यपि कालिदास का समय भी स्वयं विवादास्पद है, किन्तु हम अर्वाचीन शोध के आधार पर यह स्वीकार करते हैं कि कालिदास निश्चित रूप से इस्वी पूर्व प्रथम-

१. देखिये, दि डेट आँफ भासः यूनीवर्सिटी आँफ राज० स्टडीजः पी. एल. भार्गव, पृ० ४६ तथा इसी अध्याय में स्वप्न० का ऐतिहासिक विवेचन।
२. भरतवाक्य के “राजसिंह” का तर्क आजकल व्यर्थ हो गया है। सं० सा० इति० कीथ, प्राक्कथन, (हिन्दी) पृ० १०, भास० अध्ययर पृ० २३-२१, सम प्राक्तस्म आफ इंडियन लिट०: विन्टर्निट॒ज, पृ० १२४ आदि,
३. देखो मालविका० को प्रस्तावना,
४. सं० सा० इति० : कीथ, प्राक्कथ, (हिन्दी), पृ० १०

गतव के ही हैं,<sup>१</sup> और जब कि वालिदाम ने भास का उल्लेख किया है, तो स्पष्ट है कि भास का समय वालिदास मे पूर्वं अर्थात् इस्वी पूर्व में होना चाहिए। अन अब बेवल इनी समस्या शेष है कि भास वालिदास से अर्थात् इस्वी पूर्वं प्रथम सदी ते विनते पूर्वं के हैं।

ब्राह्मणाक्षय के आधार पर यह प्रकट है कि भास ईस्वी पूर्वं म होन से सस्कृत साहित्य के प्राचीन नाटकवार हैं,<sup>२</sup> विन्तु विद्वानो ने ऐतिहासिक सूक्ष्मों के आधार पर इस सम्बन्ध मे अपने-अपने भिन्न-भिन्न मत दिय हैं। कुछ विद्वान् वर्णकालीन मानते हैं,<sup>३</sup> तो कुछ मनु के पीछे तथा वात्यायन और भरत से पूर्वं,<sup>४</sup> जबकि जयचन्द्र विद्यालवार सातवाहन वाल मे मानते हैं। विन्तु ये सभी मत एकाग्री हैं तथा इनमे से अधिकांश वा मठन भी हो चुका है। वास्तविकता यही है कि भास वालिदाम के साक्ष्य के आधार पर ईसा से मुदूर पूर्वं म हुए थे।

वालिदाम न भास के लिए “प्रथितशस्” कहा है तथा भास के वाद सौमित्र तथा विपुल का उल्लेख किया है।<sup>५</sup> प्रत प्रतीत होता है कि वालिदास और भास के दीन म सौमित्र तथा विपुल हुए होंगे, अर्थात् भास और वालिदास के मध्य पर्याप्त अन्तर रहा है। इसी का सकेत वालिदाम ने अपने मालविकानिमित्र म ‘पुराणमित्यव न साधु सवम्’ कह कर दिया है। यहाँ “पुराण” शब्द भास की रचनाओं की ओर इग्निं करता है। किसी चीज को पुराना होने के लिए पर्याप्त समय अपवित्र होता है। इसके अतिरिक्त एक नाटक-चक्र की रचना करके प्रथितशस् होने के लिए भी वम समय नहीं चाहिए। इसके अनावा वालिदाम द्वारा उत्तिवित “दर्तमानम्” शब्द का भी बड़ा स्वारम्भ है। उसकी मार्यकता भी भास की सुदूरपूर्व स्थिति की ओर निर्देश भरती है। इसके माध्य ही वालिदाम जैसे कवि द्वारा अद्वाव्यक्ति भी लम्बी दूरी की पोषक है। अद्वा एक दिन म पैदा नहीं होती। इन सभी सार्थक उल्लेखों के आधार पर भास को कालिदाम से वम मे रम एक ढेड शान्त पूर्व

१. देखिये, इसी प्रबन्ध मे वालिदास का समय तथा देखिये विक्रमादित्य डा० राजवली पाठ्य, भा० इति० की स्परेक्षा; जयचन्द्र विद्यालकार, भाग २, पृ० ७८४-७८;

२. द्वामात्र इन सस्कृत लिटरेचर, जागीरदार, पृ ७६,

३. भा० इति० स्परेक्षा, भाग २, जयचन्द्र विद्यालकार, पृ० ६१८-६१६,

४. यही,

५. यही,

६. मालविकानिमित्र. प्रस्तावना ११-२,

मानना अपेक्षित है। यह अनुमान संभवतः उन विद्वानों के भी अनुरूप है, जो कालिदास को गुप्तकाल में रखकर भास द्वितीय तथा तृतीय ई० में मानते थे। इस अनुमान पर भास को लगभग ईस्वी पूर्व तृतीय में रखना उचित होगा।

### अन्तःसाक्ष्य

उपर्युक्त अनुमान की पुष्टि भास के अन्यः अन्तःसाक्ष्यों से भी होती है। जैसा कि हम स्पष्ट करेंगे, भास के उदयन नाटकों का उपजीव्य वृहत्कथा<sup>१</sup> नहीं है, वल्कि जनजीवन में प्रवाहित तरल सोकथा है। दोनों के तुलनात्मक पर्यवेक्षण से स्पष्ट होता है कि दोनों में (अर्थात् भास की कथा तथा वृहत्कथा में) निश्चित रूप से भास उदयन-कथा अर्थात् उदयन की घटनाओं से विशेष सुपरिचित, अतः उदयन के अधिक निकट रहा है। अतएव भास वृहत्कथा अर्थात् गुणाद्य से भी पूर्व अर्थात् ईस्वी पूर्व से भी पूर्व का ही ठहरता है।<sup>२</sup> परन्तु मुख्य प्रश्न यह है कि भास को ईस्वी पूर्व में या ईस्वी पूर्व तृतीय में ही माना जाय अथवा और भी पूर्व।

भास के नाटकों के आविष्करणी ई० गणपति शास्त्री ने भास को पाणिनि तथा चाराक्य से भी पूर्व का स्वीकार किया है।<sup>३</sup> उन्होंने आधारभूत एक प्रमुख प्रमाण की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। अर्थात् व्याप्ति में कौटिल्य ने “अपीह श्लोकी भवतः” कहकर एक श्लोक का उल्लेख किया है<sup>४</sup> जो कि भास के प्रतिज्ञा० में भी उपलब्ध<sup>५</sup> है। इससे स्पष्ट होता है कि भास निश्चित रूप से कौटिल्य से पूर्व में हुए होंगे। यद्यपि कुछ विद्वानों का अनुमान है कि संभवतः यह श्लोक कौटिल्य से ही प्रतिज्ञा० में उद्भूत किया गया है किन्तु ऐसा मानना उचित प्रतीत नहीं होता।

१. हमारा विवेचन इसी प्रबन्ध में देखिये
२. वही
३. विट्टन्टिद्ज आदि भी इनके भौतिक तर्कों का खंडन नहीं कर सके हैं। उन्होंने केवल नकारात्मक अस्वीकृति दी है, किन्तु ये अस्वीकृति विना तर्कों के अग्राह्य हैं।
४. “तुल्यवेतनोऽस्मि अनुश्रूयते—समाप्तदक्षिणां यज्ञानामृथेषु सा ते गतिर्याशराणामि” ति अपीह श्लोकी भवतः—  
“यान् यज्ञासिद्दे” स्वप्नसा च…………परित्यजन्तः।  
“नवं शराब सलिलस्य पूर्णं…………कृते न युध्येत्।”  
इति मन्त्रि पुरोहिताभ्यामुत्साहयेद् योधान्।” अर्थशास्त्र अधिकरण, १०,  
अध्याय ३,
५. प्रतिज्ञा० ४१२,

अर्थगति में “श्रीहश्लोकौ” कह कर उल्लेख करने से स्पष्ट है कि मूलत यह उनका नहीं है। और, जबकि वह प्रतिज्ञा० म प्राप्त है, तो हमे मूलत उसे प्रतिज्ञा० का ही स्वीकार करना चाहिए।

कुछ यह भी मानते हैं कि सम्भवत ये दो श्लोक सुभाषित वर्षों के रूप में विद्यु-भाषाज में रुद्ध रहे हैं। अतः न उनको कौटिल्य के भास से निया है, न भास ने कौटिल्य में। उनका तर्क है कि क्यों कौटिल्य हमेशा जिनके वचनों या मर्तों को लेते हैं उनका नाम जल्द देते हैं।<sup>१</sup> इसी कारण यह भास को कौटिल्य से उत्तरकालीन भी मानते हैं। बिन्दु यह मत भी ठीक नहीं है।<sup>२</sup> क्योंकि भास एक विद्या, भौतिक नाटक रच रहा था। वह उद्धरण देकर अपनी भौतिकता को कलनित न करता, वह नवीन रचना भी बर सकता था। बिन्दु कौटिल्य कोई विद्या न था, शास्त्रकार था। उसका ग्रन्थ भी विषय-विजेता का ग्रास्त्रीय ग्रन्थ है। अत इसमें उद्धरण का सबलन सर्वथा सम्भव भी है। कौटिल्य में उद्धृत श्लोक की स्थिति से भी ऐसा ही प्रतीत होता है। इस टैटि से भास को कौटिल्य से पूर्व माना जाना ही उपयुक्त प्रतीत होता है।<sup>३</sup> इसके अतिरिक्त श्री दीक्षितार ने भास तथा कौटिल्य के ग्रन्थों के भाषागत साम्य का विष्टार से अध्ययन करते हुए शब्द तथा अर्थ के साम्य के घाषार पर भी भास को पूर्ववर्ती प्रमाणित किया है।<sup>४</sup> अत भास को परवर्ती मानना सर्वथा आमन है।

बिन्दु, किसी के वाय्य को उद्धरण योग्यता प्राप्त करने के लिए वर्ष में कम २५ वर्ष में अधिक समय ही अपेक्षित है। अत भास चाराक्य से वय से कम २५-३० वर्ष पूर्व ही रहा होगा। अर्थात् कौटिल्य का समय चन्द्रगुप्त मौर्य के मन्त्री होने में ३२१ ई० पू० निश्चित प्राय है तो भास को भी इन्हीं पूर्व चतुर्थ के उत्तरार्ध में ही मानना होगा। इस सम्बन्ध में श्री अध्यमर का अनुमान ध्यान देन योग्य है। उनका वर्णन है कि भास निश्चित रूप से कौटिल्य के ज्येष्ठ समकालीन थे, जैसे टंगोर गौधी ने।

१. प्रा० भा० शा० पढ्वति० डा० अलतेकरः द्वि० स० पृ० १०,

२. यदि यह मान भी लिया जाय कि भास तथा कौटिल्य ने सुभाषित के रूप में इसका सप्रह किया था, बिन्दु इससे यह नहीं माना जा सकता कि भास कौटिल्य के बाद में हुए थे। इस मान्यता से हमारे मत पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है।

३. देलिये, भास, अध्यमर, पृ० ४, ४४,

४. ए वाल्युम ओक स्टडीज इन इंडियानी १६४१, पृ० १२५-६,

अतः यह मौर्यकाल में अर्थात् ६० पू० चतुर्थशतक में थे ।<sup>१</sup> अतः निश्चित रूप से भास को ६० पू० चतुर्थ शतक से बाद का नहीं, पहिले का ही माना ठीक होगा ।

उपर्युक्त भास के समय की पुष्टि भास के ग्रन्थ-साक्ष्यों से भी होती हैं । भास ने प्रतिमा नाटक के एक स्थल पर माहेश्वर “प्राचेतस्” जैसे प्राचीन व्यक्तियों के साथ वृहस्पति के अर्थशास्त्र का उल्लेख किया है,<sup>२</sup> न कि चारणक्य के अर्थशास्त्र का । वृहस्पति चारणक्य के पूर्ववर्ती थे, इनका परिचय चारणक्य को भी था, अतः उसने एक अर्थशास्त्री के रूप में उसका उल्लेख किया है । महाभारत तथा कामसूत्र में भी वृहस्पति का एक अर्थशास्त्री के रूप में उल्लेख होने से प्राचीनता निःसंदिग्ध है ।<sup>३</sup> अगर भास, इतिहास के प्रवाह को मोड़ देने वाले, महान् अर्थशास्त्री कौटिल्य के बाद हुआ होता तो उसका उल्लेख अवश्य करता । किन्तु स्थिति ठीक विपरीत है । भास चारणक्य के द्वारा प्रमाणित एवं उद्भृत होने की योग्यता रखता है, जबकि चारणक्य भास द्वारा नहीं । स्पष्ट है कि भास निश्चित रूप से चारणक्य से पूर्व हुए, इसमें संदेह को स्थान नहीं है ।

उपर्युक्त मत की पुष्टि में एरु और अन्य प्रबल अन्तःसाक्ष्य भी उपन्यस्त किया जा सकता है । भास के ऐतिहासिक नाटक स्वप्न ० तथा प्रतिज्ञा ० में ३ प्रमिद्ध राजाओं की घटनाओं का उल्लेख हुआ है : वत्सराज उदयन, उज्जैनी का प्रद्योत तथा राजगृह या मगध का दर्शक । प्रद्योत तथा उदयन की ऐतिहासिकता तथा समकालीनता निःसंदिग्ध है,<sup>४</sup> किन्तु दर्शक का उल्लेख बीच साहित्य में नहीं हुआ है । तथापि पुराण और स्वप्नवासवदत्ता के उल्लेख के आधार पर दर्शक की ऐतिहासिकता प्रकट है ।<sup>५</sup>

<sup>१</sup> Bhasa was evidently a senior contemporary of Kautilya, some thing like Tagore being a senior contomporary of Gandhi and belonged to the fourth century B. C. and lived in the days of Chandra Gupta Maura : Bhasa', A. S P. Ayyar, P. 5,

<sup>२</sup>. भौः । काश्यपयोगोऽस्मि सांगोपांगवेदमधीये मानवीयं धर्म-शास्त्रं माहेश्वरं योगशास्त्रं वाहूस्पत्यमर्थशास्त्रं, मेधातिथेन्यायशास्त्रं प्राचेतसं श्राद्धकल्पं च । “प्रतिमा नाटक ५।८-६,

<sup>३.</sup> सं० सा० इति०: वाचस्पति गेरोला, पृ० ५२६,

<sup>४.</sup> देखिये, पातिटिकल हिस्ट्री आफ एन्शन्ट इंडिया: रायचौधरी, पृ० २०४,

<sup>५.</sup> वहीं, पृ० २१६, तथा अर्ली हिस्ट्री आफ एन्शन्ट इंडिया, पृ० ३८-३६, प्रा० भा० इति०: त्रिपाठी, पृ० ८४,

यद्यपि दर्शक का पिता ग्रजातश्रु निसदिग्ध हृष से प्रद्योत तथा उदयन का समवालीन था<sup>१</sup> किन्तु स्वप्नवासवदत्ता के अनुसार प्रद्योत, उदयन तथा दर्शक वो समवालीनता भी प्रकट होती है।<sup>२</sup> ग्रजातश्रु के बाद दर्शक गढ़ी पर बैठा। दर्शक का समय ४६६-४५५ ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है।<sup>३</sup> अत प्रद्योत, उदयन तथा दर्शक में दर्शक सबसे बाद का ठहरना है। नाटक म दर्शक का उत्तेषण होने के बारण स्पष्ट है कि भास दर्शक के बाद हुआ। भास के नाटकों के ऐतिहासिक विशेषण से यह जान पड़ता है कि दर्शक के राज्यामीन होने के कुछ समय बाद म ही नाटक की रचना हुई। अत हमारा अनुमान है कि भास के ऐतिहासिक नाटकों के आधार पर भास का समय लगभग इसा पूर्व चतुर्थ के उत्तराध म ही मानना अनिवार्य उचित है।

उपर्युक्त तथ्य की पुष्टि के लिए नाटको में धन्य भी साक्षमिल जाते हैं, जैसे भाषा म आर्य और अपाणीय प्रयोग एक और उनकी प्राचीनता बतलाते हैं, वहीं यह भी स्पष्ट होता है कि वह तब हुए जब पाणिनि व्याकरण का सम्बन्ध प्रचार नहीं हो पाया था। शैली की सरलता तथा नाट्यविद्यास की स्वामानिकता भी प्राचीनता सिद्ध करती है। इसके अतिरिक्त नाटको का सामाजिक तथा मानविकी, चित्रण, विशेषत शाहृण धर्म का पुनरुत्थान, लोप होती हुई थमणस्थृति की ओरां प्रादि विशेषताए निश्चित हृष से चारणव्य के युग की ओर निर्देश करती हैं। प्रतिज्ञा-पौराणवरामण तथा अविमारक म बौद्धों के प्रति धूणा यही स्पष्ट करती है कि उनकी रचना बौद्ध-जैन युग तथा मौर्य युग के बीच में तब हुई जबकि बौद्ध धर्म राजधर्म नहीं रह गया था। इसी प्रकार स्वप्न-वासवदत्ता का भरता-वाक्य भी मौर्यकालीन भारत की ओर निर्देश करता है। अन्यान्य अनेक विद्वानों ने और भी एसी बहुत सी विशेषताओं को खोजा है जिनसे भास की प्राचीनता स्पष्टत प्रकट होती है। अत भास को चतुर्थ शतक<sup>४</sup> ई० पू० के उत्तराध म मानना सर्वथा उचित है।

१. बुद्धिर इडिया राइज डिविड्ज, पू० ३,

२. वैखिये हमारा अधिम ऐतिहासिक विवेचन,

३. किन्तु विसेन्ट स्निथ के घनुसार ग्रजात<sup>०</sup> का देहान्त ४७५ ई० पू० में तथा उदयन का राज्यकाल ४५० ई० पू० है। अत स्निथ दर्शक का राज्यकाल ४७५-४५० ई० पू० मानते हैं।

४. पुरस्कार जैसे कुछ यिदान् भास को महापद्मनन्द के समर्थ में भी मानते हैं किन्तु वह उचित नहीं है। अप्यर का मत है 'कि संभवते भास महा पद्मनन्द ने उत्तराध मे हुए हों तर्या नाटक मौर्यकाल मे हो रखे हों। देखो । भासः अप्यर पू० ६-७,

## कुछ विरोधी तर्क तथा उनका समाधान

कुछ विरोधी विद्वानों के अनुसार उपर्युक्त संभावित भास की तिथि के सम्बन्ध में कुछ आशंकाएँ हो सकती हैं, किन्तु यदि उन पर भी पूर्वापर विचार किया जाय तो वे आशंकाएँ सारहीन प्रतीत होती हैं। उदाहरण के लिए प्रमुख रूप से—

(१) प्रतिमा नाटक में मेधातिथि शब्द के प्रयोग<sup>१</sup> को लेकर कुछ विद्वानों ने कहा है कि मेधातिथि व्योंकि मनुस्मृति के टीकाकार थे, तथा वे लगभग ईस्वी की १०वीं सदी में हुए अतः इनका उल्लेखकर्ता भास निश्चित रूप से बहुत बाद में हुआ है। किन्तु यह कथन सर्वथा निर्मूल है। भास द्वारा उल्लिखित “मेधातिथि” वास्तव में मनुस्मृति के टीकाकार न होकर एक वैदिक पुरुष हैं। दूसरे, नाटक में प्राचीनतम महेश्वर, वृहस्पति आदि के साथ उल्लेख होने से उन्होंके समान उनकी प्राचीनता स्पष्ट होती है। तीसरे, जैसा कि डा० सुक्यानकर ये सुझाया है निश्चित रूप से मेधातिथि का स्वतन्त्र न्याय-शास्त्र ग्रन्थ होना चाहिए। भास ने न्याय-शास्त्र-कार का ही उल्लेख किया है, न कि मनुस्मृति की टीकाकार था। चीथे, यह रावण की गवोंक्ति है। रावण यही अर्थशास्त्र, योगशास्त्र आदि के ज्ञान का विद्वान करता है। अतः इसमें मनुस्मृति के टीकाकार उल्लेख मानना कुछ भी शोचित्व नहीं रखता। इसके अतिरिक्त कालिदास से लेकर १२वीं सदी के प्रयोगों में उल्लिखित भास का समय इतने बाद में मानना कोई भी महत्व नहीं रखता है। अतः मेधातिथि से संबंधित आशंका सर्वथा व्यर्थ हो जाती है।

(२) कुछ विद्वान् प्रतिमा नाटक के ही “मानव धर्मशास्त्र” शब्द को लेकर भी भास की तिथि को पीछे धकेलना चाहते हैं। वैसे तो मनु तथा मनुस्मृति का समय ही विवादास्पद है, तब भी व्योंकि डाकटर पुश्लकर ने मनुस्मृति को ईसा पूर्व १०० से ईसा १०० के बीच माना है<sup>२</sup> तथा डा० जायस्वाल ने १५० ई० पूर्व से १२० ईसा यूर्व के बीच<sup>३</sup>। अतः कुछ विद्वानों की भाव्यता है कि मानव धर्म के उल्लेख में मनु का ही निर्देश है, इसलिये मनु के बाद भास होने से ईसा पूर्व में कदापि नहीं हो सकते। यह मत भी सर्वथा भ्रामक है। वास्तव में भास के द्वारा उल्लिखित मनु एक प्राचीन कृषि हैं। “मनु का नाम अत्यन्त प्राचीन काल से कई रूपों में मिलता है। ये मानव जाति के आदि पुरुष, राजसंस्था के प्रथमकर्ता और धर्म के प्रथम व्यवस्थापक हैं। तैत्तिरीय और मैत्रायिणी संहिताओं (२१२१०२, १११५,) में और छान्दोग्य०

- 
१. देखिए प्रतिमा नाटक : ५।८-६,
  २. देखिये : सं०सा० इवि : गैरोला, पृ० ७४३,
  ३. वही,

(८।५) में उन्हें वंदिक ऋषि और तांड्य ब्राह्मण में धर्म का विधान करने वाला कहा गया है। यास्क (७००ई०पू०) ने निष्ठवत (३।१।४,) में मनु वा एक इलोक प्रमाण रूप में उद्दृत किया है। दौधायन (४।१।१४, ३।१६,) और शापस्तम्ब (२।१।६।१,) के धर्म कर्ता के रूप में मनु का प्रमाण दिया गया है।<sup>१</sup> "अत इष्ट्य है कि मनु के वचन अति प्राचीन हैं।" "महाभारत, एव कौटित्य के अर्थशास्त्र में भी प्राचीन ऋषि के रूप में मनु का उल्लेख है।<sup>२</sup> मानव धर्म शास्त्र के कुछ अश प्राचीन-तम ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं। सप्रति प्राप्त मनु-स्मृति से मानव धर्मशास्त्र के प्राप्ताश बिलकुल भी मेल नहीं खाते<sup>३</sup>। अत मानव-धर्म शास्त्र से वर्तमान मनुस्मृति वा साम्य मानकर भास को मनु के बाद का बतलाना सर्वथा निराधार है।

(३) ही, एक आशका "राम के अवतार" को लेकर उठाइ गई है। यह कुछ महत्वपूर्ण भी है। प्रो० "विन्टनिट्ज" ने निर्देश किया है कि राम के अवतार के रूप में भाव्यता ईस्वी की प्रथम सदी के पूर्व के विसी शिलानिश्च में नहीं दीख पड़ती<sup>४</sup> अमरकोश में भी अन्य अवतारों के साथ बृद्धावतार का उल्लेख है, राम का नहीं है। अत जयचन्द्र विद्यालयार भी रामावतार की बत्पना को ईस्वी पूर्व प्रथम सदी के बाद की मानते हैं।<sup>५</sup> रामकथा के भर्मन विद्वान् कामिल बुल्के का भी यही मत है<sup>६</sup> किन्तु भास के अभियेक नाटक में राम का अवतार के रूप में चित्रण है। अत भास ईस्वी पूर्व के कथापि नहीं बढ़ते। कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि भेगस्थनीज ने मौर्यकाल में कृष्ण-पूजा का तो उल्लेख किया है, परं रामपूजा का नहीं। इसके अतिरिक्त ईस्वी पूर्व प्रथम शतक से पूर्व जहाँ कहीं राम-कृष्ण का उल्लेख हुआ है वहाँ "राम" शब्द बलराम के लिए ही प्रयुक्त है। अत भास को ईस्वी पूर्व चतुर्थ वे अन्त में मानना उचित नहीं है। किन्तु यह सन्देह भी निमूल है।

हम व्यक्त वर चुके हैं कि नाटक-चक्र के समस्त नाटक भास के प्रतीत नहीं होते हैं। अत हमारा मत है कि अभियेक भी चारदत्त के समान भास की रचना नहीं है। हमने "चारदत्त की अमौलिकता, तथा परिवर्तिता" पर विस्तार से प्रकाश

१. हिन्दू सध्यता : ए० के० मुकर्जी : (हिन्दी) पृ० १५६-१५६,
२. भा० इति० इपरेशा जयचन्द्र विद्यालयार : पृ० ६११,
३. स० सा० इति० गंगोला, पृ० ७३६,
४. सम प्राल्मस ग्रॉफ दि इडियन लिट० : विन्टनिट्ज पृ० १२३,
५. भा० इति० इपरेशा, जयचन्द्र विद्यालयार, पृ ६२२,
६. रामकथा. कामिल बुल्के पृ० १४६-इनका मत है कि सभवत ई० पृ० से ही रामावतार की भावना प्रचलित हुई।

डालते हुए चारुदत्त को भास की रचना न होने का संकेत किया है।<sup>१</sup> अभियेक के सम्बन्ध में भी हमारा यही अनुमान है कि यह भास की रचना नहीं है। जागीरदार ने भी शिल्प, भाषा, चरित्रचित्रण तथा छन्द आदि के आधार पर अभियेक को भास की रचना स्वीकार नहीं किया है<sup>२</sup>। इसके अतिरिक्त अभियेक में राम का अवतार के रूप में चित्रण है, जबकि भास के (अधिक संभावित) प्रतिमा० में राम का आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में है। इससे भी यही प्रकट होता है कि अभियेक० प्रतिमा० के नेतृत्व की रचना नहीं है।<sup>३</sup> अतः अभियेक के रामावतार चित्रण के आधार पर भास की प्राचीनता को भुठलाना न्याय नहीं है।

इसके अतिरिक्त कुछ विद्वानों का यह भी आक्षेप संभव है कि यदि भास शुंगों से भी पूर्व में थे तो महाभाष्य में पंतजलि ने अन्य काव्य एवं नाटकों के उल्लेख के समान भास या भास की किसी कृति का उल्लेख क्यों नहीं किया? किन्तु यह आक्षेप भी व्यर्थ, तथा स्वयं उनके ही प्रतिकूल ठहरता है। श्री अश्वर ने अनुमान किया है कि भाष्य में वालचरित का कस्तवध के रूप में निर्देश दिया है।<sup>४</sup> वास्तविकता यही है कि वालचरित में भी कस्तवध का संदर्भ है और हम मानते हैं कि भास के नाटकों के अनुलेखन, प्रतिलेखन तथा संस्करण हुए हैं। अतः हमारा विश्वास है कि संस्कर्ता या अभिनेताओं ने कस्तवध का संपादन करते समय भक्तिपरक रुचिकर नाम वालचरित रख लिया है। जिस तरह कि हमने आगे स्पष्ट किया है कि शूद्रक के मृच्छकटिक के मौलिक कृति का नाम संभवतः “दरिद्र चारुदत्त” आदि कुछ था, किन्तु किसी संपादक ने “मृच्छकटिक” नाम रखा तो किसी ने चारुदत्त; तो क्या यह संभव नहीं है कि कस्तवध का ही रंग-मंच की हृषि से बेडोल सा वालचरित संस्करण कर दिया हो। यदि वालचरित भास की रचना है, तो निसंदिग्ध रूप में कस्तवध रूपान्तर प्रतीत होता है, अन्यथा यह स्वप्नवासवदत्ता के रचयिता भास की रचना कदापि नहीं मानी जा सकती। और, इसीलिए हमारा विश्वास है कि भाष्य में इसी के सम्बन्ध में उल्लेख है। इससे पुनः यही प्रमाणित होता है कि भास का समय भाष्य के रचयिता पंतजलि से पूर्व है।

कुछ विद्वानों ने उपर्युक्त कुछ आशंकाओं के आधार पर तथा प्रतिमा नाटक में प्रतिमा प्रयोग तथा अन्य अनेक नाटकों में चित्रित स्मृतिकालीन संस्कृति-सम्यता की

१. देखिये, इसी प्रवत्थ का मृच्छकटिक अध्याय

२. ड्रामाज इन संस्कृत लिट० : जागीरदार, पृ० ७५,

३. वही,

४. भास : अश्वर, पृ० ४३,

च्छाया आदि देवकर भास को "कागवाल" "शुगकान" तथा 'सानवाहन काल' में रखने वा प्रस्ताव किया है। किन्तु यह मत भी मर्वंया निर्मल तथा अप्राह्य मिथु हो चुका है। वास्तविकता तो यह है कि स्वप्न० तथा प्रतिज्ञा० के अतिरिक्त अन्य उपलब्ध भास के तथाकरित नाटकों के आधार पर भास के सम्बन्ध में मान्यता स्थापित करना अस्वाभाविक है। जागीरदार के शब्दों में वे प्राचीन अवश्य हैं, जिन्हें विभिन्न समय भ तथा विभिन्न व्यक्तियों की लेखनी से सपादित प्रतीत होती है।<sup>१</sup> अत उनके कुछ स्थलों वा आश्रय लेकर भास के समय को पीछे छोड़ने का प्रयास मर्वंया अनुचित है। यहाँ अन्य नाटकों के विषय में विचार करने का न अवसर है न प्रसंग है।

अन्त म निष्कर्ष स्पष्ट म हम कह सकते हैं कि हमारे विवेच्य प्रतिज्ञा० तथा स्वप्न० निश्चित एव नि सदिग्य स्पष्ट से भास वी रखना है। उनम हमे ऐसा बोई सकेत उपलब्ध नहीं होता, जिसक आधार पर भास को बाद का माना जाय। अत भास की प्रमाणिक कृति स्वप्न० तथा प्रतिज्ञा० के आधार पर भास का समय चतुर्थ शतक ईस्वी पूर्व के अन्त म ही मानना सवधा उचित है।

### प्रतिज्ञा-योगन्धरायण एव स्वप्नवासवदत्ता परस्पर पूरक

प्रतिज्ञा० और स्वप्न० दोनों एक दूसर के पूरक नाटक हैं। दोनों को सम्मिलित करके एक विशालकाय नाटक भी बन सकता है। यद्यपि स्पष्टत दोना एका कार हृति नहीं है। पृथक्-पृथक् दो हृति हैं, किन्तु इतना निश्चित है कि लेखक वी हृष्टि म, दोनों को लिखने समय, एव ही कृत्यानक रहा होगा, जिसे भासनी मुद्रिधानुसार उसने पृथक्-पृथक् दो हृतियों के रूप म कुछ समय के अन्तर स नाट्यबद्ध किया है। यद्यपि दोना ही नाटक ग्राप्तने अपन स्पष्ट की परिधि में पूर्ण है तथापि दोना को सयुक्त कर दन पर एक मुन्द्रर कथानक तंपार हो सकता है। इसके अतिरिक्त दोना इसलिए भी परस्पर पूरक है कि एव के विना द्वासरे को सहज ही ममभा नहीं जा सकता। किन्तु हमारे सम्मुख य दोनों रूपों म पृथक्-पृथक् दो नाटक हैं। इन दोना वी घटना की एकस्पता तथा अमवदता में कुछ मध्यान्तराय एव जैकी म भी अ तर है। अत रपट होता है कि इन दोना के लिखने म समय का कुछ व्यवधान अवश्य रहा है।

अमवदता वी हृष्टि से दोना का अनुशीलन करने पर यह प्रवाट हो जाता है कि न केवल प्रतिज्ञा० का कथानक ही स्वप्न० से पहल का है अपितु निश्चित स्पष्ट से प्रतिज्ञा० को रचना स्वप्न० के पहिले हुई है। स्वप्न० भास की प्रोड रखना है,

१. ड्रामाज इन सम्बृद्ध लिटरेचर, जानेरदार, पृ० ७६,

प्रतिज्ञा० नहीं। इन दोनों नाटकों में और भी अनेक असमानताएँ हैं—एक ओर प्रतिज्ञा० जहाँ पृथ्वप्रधान, पीरुप्रधान एवं नीति तथा वीररस पूर्ण है, वहाँ स्वप्न० स्त्रीप्रधान, प्रे-म-प्रधान तथा शृंगार प्रधान है। एक में युद्ध कूटनीति, पड़यंत्र, घात-प्रतिधात प्रतिज्ञा०, प्रतिशोघ की प्रमुखता है, तो दूसरे में सवेदनशीलता, सीहादं, सहानुभूति, पश्चात्ताप, परहितैषिता, तथा प्रणय प्रधान है। एक में युगीण राजनीति का है सकल चित्रण है, तो दूसरे में राजपरिवारों के अन्त पुरीय वातावरण का। एक में योगन्धरायण जैसे भ्रमात्य (तथा राजपरिजन) के कर्तव्य और बलिदान का आदर्श तो दूसरे में वासवदत्ता जैसी प्रतिनिधि नारी की भावुकता और कर्तव्य का उदात्त आदर्श है। प्रतिज्ञा० में समस्त नाथ्य-विधान पर कूटनीतिज्ञ योगन्धरायण का एकाधिकार रहने से सदा सर्वदा उसी का ही स्वर सुनने तथा क्रियाकलाप देखने पर भी वत्सराज नायक है, जबकि स्वप्न० में नायक उदयन सदा मंच पर दीख पड़ने पर भी निष्क्रिय सांही प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त एक प्रकरण है तो दूसरा नाटक। इस प्रकार अन्य भी अनेक अन्तर हैं।

इन विभिन्न अन्तरों के होते हुए भी दोनों में कुछ मूलभूत समानताएँ भी हैं। यही क्यों, हमें यह भी स्वीकार करना पड़ता है कि दोनों नाटकों की असमानताओं में भी समानता निहित है। और सबसे प्रमुख समानता यह है कि भासु ने प्रतिज्ञा० में मूलभूत रोमांटिक कथा की पृष्ठभूमि में राजनीतिक घटनाओं का प्रस्तार किया है, जबकि स्वप्न० में (आरुणि के आक्रमण की) राजनीतिक घटना की पृष्ठभूमि में रोमांटिक (प्रणायात्मक) घटनाओं का संभार किया है। यही इन नाटकों की विशेषता है तथा इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि दोनों ही नाटकों का राजनीतिक या ऐतिहासिक वृष्टि से समान महत्व है। इसके अतिरिक्त अन्य समानताएँ भी हैं। उनमें सर्वप्रमुख हैं—कथानक की समानता, जिसके आधार पर हम यह निश्चित करते हैं कि दोनों परस्पर पूरक हैं। इन दोनों नाटकों में कथावस्तु प्रकट रूप से उदयनकथा होने से आधारभूत समानता है। मुख्य पात्र भी समान हैं। नायक नायिकों के सम्बन्ध में दोनों में ही एक भ्रम सांदीख पड़ता है, क्योंकि इनका सचालन योगन्धरायण करता है। इसके अतिरिक्त दोनों में कुछ स्थल भी परस्पर संबंधित हैं, जिससे दोनों परस्पर पूरक प्रतीत होते हैं। जैसे—

(१) स्वप्न० के प्रारंभ में जब योगन्धरायण वासवदत्ता को तापसी के यहाँ न्यास रूप में रख देता है, तब उसका यह कथन कि “पद्मावती राजा की रानी होगी, जिन्होंने पहले (राजा की) विपत्ति वत्तलायी थी, वह हम देख चुके हैं। इसी विश्वास

से हमने ऐसा (अर्थात् वासवदत्ता वा पद्मावती के यास विद्यास) किया है।  
इस उक्ति म “पहली विपत्ति म स्पष्टत प्रतिज्ञा० की घटनाओं का निर्देश है।

(२) स्वप्न० के अन्त म उदयन के निकट धात्री तथा बालुकीय जब महामेन का समाचार लकर जाते हैं तब राजा कहता है कि ‘उनकी कन्या वा अपहरण में किया, किन्तु उसकी रक्षा न कर सका। अत वह वया वहग इसको विचार कर मेरा हृदय आशक्ति हो रहा है३।’ इस कथन स प्रवट रूप मे प्रतिज्ञा० म किय गये वासवदत्ता के अपहरण का सकेत है।

(३) स्वप्न० के पठ श्रौक के लगभग अन्त म धात्री की उक्ति है कि “इसी निमित्ता से उज्जयनी लाए गए थे। विना प्रगति के साक्षी के ही बीणा के व्यपदेश मे तुम्हें (वासवदत्ता) दे दी गयी थी।” और हमने तुम्हारी तथा वासवदत्ता की प्रतिकृति चित्रफलक पर चित्रित कर विवाह कार्य सपादन कर लिया था ।  
१३ इससे स्पष्टत प्रतिज्ञा० की घटनाओं का ही अनुस्मरण कराया गया है।

(४) स्वप्न० के विल्कुन अन्त म ही सभी के सम्मिलन के पश्चात् राजा और भी प्रकट शब्दा मे प्रतिज्ञा० म किए धीगन्धरायण के कार्यों का निर्देश करता हुआ प्रशसा करता है—कि घरे धीगन्धरायण आप वस्तुत मिथ्योन्माद, युद्ध एव शास्त्रनुदूल मधरण आदि के आपके यत्नों न हम दूखते हुआ का उद्धार कर दिया है४।”

(५) यही कथा पचम अब म स्वय राजा क मुख से ‘महान् सत्त्वार्थ-धीगन्ध रायणस्य प्रतिज्ञाभारो ५ वहलाकर प्रतिज्ञा० का अप्रत्यक्ष रूप के नामा निर्देश किया गया है। इसी प्रकार और भी वहुत मे उदाहरण खोजे जा सकत हैं। इनसे स्पष्ट है कि स्वप्न० की रचना करते हुए भास के मस्तिष्क म प्रतिज्ञा०, रहा है। इसी वारण स्थान स्थान पर उसकी घटनाओं का सकेत दते हुए स्वप्न० का कथाविद्यास किया है। किन्तु इन सकेतों मे यह भी प्रकट है कि विना प्रतिज्ञा० को आत्ममाल विए स्वप्न० को समझ पाना कठिन है। प्रतिज्ञा० के कथासुत्र की ही स्वप्न० म बढ़ाया गया है। इस प्रकार कथावस्तु ममग्र रूप म एक म ही गुथी हुई है तथा परस्पर सम्बद्ध है।

१. स्वप्न० १११,
२. वही, स्वप्न० ६४,
३. स्वप्न० ६११-१२,
४. वही, ६१८,
५. वही, ६१६-७,

ग्रन्थ में, हम कह सकते हैं कि दोनों नाटकों के कथासूत्र का मुख्य सूत्रधार यौगन्धरायण ही है, जो दोनों नाटकों में समान रूप से अपनी बुद्धि द्वारा कथावितान तथा विच्यास करता है। इनमें एक ही कथा तथा समान पात्रों का विनियोग करके दोनों का कथापट एक ही तानवाने से बुना गया है। इसके अतिरिक्त दोनों एक ही कलाकार की कृति हैं। अतः इनका एक साथ ही अध्ययन करना सुविधाजनक तथा उचित होगा। इस समधिक श्रौतित्य के कारण ही हम दोनों को संयुक्त करके अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं।

## नाटकों का कथानक

**पूर्वकथानक**—प्रद्योत उदयन का पड़ोसी राजा था। वह अपनी कन्या “वासवदत्ता” के अनुरूप वर की खोज में था। उसकी आँखें उदयन पर लगी थीं। किन्तु उदयन अपनी प्राचीन कुलीनता तथा शीर्यं के कारण स्वाभिमानी होने से उसके प्रति उदासीन था। प्रद्योत को इसके स्वाभिमान से चिढ़ थी। इसी कारण वह इसे नीचा दिखाने के उचित अवसर की तलाश में रहता था। इसी बीच जब प्रद्योत को हाथियों के आखेट के लिये नागवन की ओर उदयन के प्रस्थान करने का समाचार मिला तब उसने उसे पकड़ने का पड़यन्त्र रचा।

**प्रतिज्ञायौगन्धरायण**—प्रतिज्ञा० में यौगन्धरायण और सालक के वार्तालाप से ज्ञात होता है कि कौशास्मी से बहुत सुहूर वेणुवन स्थित नागवन की ओर मृगया के लिये उदयन कल प्रस्थान करने वाला है। किन्तु, क्योंकि यौगन्धरायण को प्रद्योत के प्रयोग की सूचना प्राप्त हो चुकी है। अतः वह रक्षासूत्र तथा पत्र के साथ अनुचर सालक को सन्देश वाहक बनाकर भेजने ही जा रहा है कि बत्सराज आ अंगरक्षक हंसक आकर उदयन के कल ही चले जाने तथा प्रद्योत के द्वारा बंदी बना लिये जाने की सूचना देता है। हंसक यहीं घलप्रयोग के सम्बन्ध में विस्तार से बतलाता है। यौगन्धरायण इस सुरक्षाप्रयोग की असफलता को अपनी बहुत बड़ी बोद्धिक तथा कूटनीतिक पराजय मानता है। हंसक बतलाता है कि युद्ध-स्थल में घायल उदयन को बंदी पाकर शत्रु-सैनिक प्रतिशोध स्वरूप वध करना ही चाहते थे, किन्तु मत्री शालंकायन उदयन को मुक्त करके उज्ज्यवनी ले गया और हंसक को सूचना देने के लिये कौशास्मी भेज दिया है। उदयन ने भी हंसक को अशुपूर्ण तेत्रों से केवल यौगन्धरायण से मिलने का संदेश दिया है। हंसक द्वारा स्वामी के सन्देश को पाकर यौगन्धरायण उसका अर्थ समझ लेता है और किसी न किसी रूप में उदयन के निकट पहुँचने का निश्चय करता है। तभी राजमाता के सन्देश एवं प्रार्थना को सुनकर यौगन्धरायण उदयन की मुक्त कराने का प्रतिज्ञा भी करता है।

उज्जयनी में दूसरी ओर (दूसरे अक में) वाचुकीय प्रधोत तथा प्रद्योत का समस्त परिजन वासवदत्ता के निये भेजे गये दूत तथा उपयुक्त वर में सवधित विचार में व्यस्त है। प्रधोत भी उदयन के दून न आने से व्यग्र है। इसी बीच प्रद्योत की वत्सराज के बदी होने का सन्देश प्राप्त होता है। किन्तु यौगन्धरायण को कौशाम्बी म जानकर उदयन के बदी होने म भी उसे विष्वास नहीं होता। पर बाद म स्वयं शालकायन द्वारा नाया जानकर प्रसन्न होना है। इसे वह अपनी बहुत बड़ी विजय समझता है और सच्चे अर्थ म अपने को आज महासेन अनुभव करता है तथा उदयन का 'बुमारविधि' म सत्कार का आदेश देता है। तभी उदयन की प्रिय घोषवती बीणा लायी जाती है। प्रद्योत उसे गन्धव विद्यानुरागिनी वासवदत्ता के पास भेज देता है तथा उदयन को अत्यधिक धायल होन से एक सम्बन्धी के समान ही समुचित उपचार और सत्कार का आदेश देता है। तृतीत एव चतुर्थ अक में यौगन्धरायण नयच्छल वे द्वारा प्रधोत के छलप्रयोग का प्रतिकार करता है। यौगन्धरायण स्वयं उन्मत्तवं का, रूमण्वान श्रमणक का तथा वसन्तवं डिप्टिक का वेष बनाकर उज्जयनी में ही रहते हुए पड़यथ का सचालन करते हैं। वही राजा वो वासवदत्ता पर आसक्त जानकर स्वामिभवित वे कारण वह घोषवती नलगिरी तथा वासवदत्ता के सहित उदयन को कौशाम्बी ले जाने की दूसरी प्रतिज्ञा करता है। योजनावद्ध पड़यथ के द्वारा वत्सराज नलगिरी के साथ भद्रावती पर वासवदत्ता को विठाकर भाग निकलन में सफल होता है। किन्तु प्रद्योत की सेना यौगन्धरायण तथा उसके साथी गुप्तचरों को बढ़ी बना लती है। भरतरोहक कारागार म पहुँचकर उम अपमानित करता हुआ उसकी प्रीति की लालोचना करता है। प्रत्युत्तर में यौगन्धरायण भी भरतरोहक के छत्र की आलोचना करता हुआ कहता है कि भरतवशी वत्सराज विना स्त्री बनाय किसी को उपदेश नहीं दे सकता। इस वाण्युद्ध के बीच म भरतरोहक यह भी सर्वेत द दत्ता है वधाईं वत्सराज का (जान बूझकर) किसी विशेष प्रयोजन से ही सत्कार दिया गया है। तभी प्रद्योत द्वारा भेजा हुआ वाचुकीय सवध मूचक शृंगार उपहार लाता है। अन्त में, चित्रफलक सिधन उदयन तथा वासवदत्ता वे विवाह के साथ नाटक समाप्त हो जाता है।

**अन्तकथा**—इससे पश्चात् जवङ्कि समस्त राज्यकार्य मन्त्रिया पर छोड़कर उदयन वासवदत्ता वे साथ प्रमरण म छूटा रहता है। आरूपिणि वत्स के बूँदन से भाग को हथिया लेता है। यौगन्धरायण इसी अपहृत राज्य को बुद्धिवल स पुन आप्त करने के लिए दांक की महाथता प्राप्त करने की योजना बनाता है।

**स्वप्नवासवदत्ता**—हम प्रारम्भ मे ही यह ज्ञात होता है कि मिद्दो ने यह भविष्यवाणी की थी कि उदयन पर एक विपत्ति आवेगी और मगध राज दर्शक की बहिन पद्मावती उदयन की राजमहिपी बनेगी। प्रयम विपत्ति ह्यो भविष्यवाणी

सत्य हुई है, अतः यौगन्धरायण दूसरी भविष्यवाणी की सत्यता के प्रति आश्वस्त होतर पद्मावती के विवाह के द्वारा मगधराज की सहायता प्राप्त करना चाहता है। किन्तु उदयन वासवदत्ता पर इतना अनुरक्त है कि वह उसके रहते दूसरा विवाह नहीं कर सकता। अतः यौगन्धरायण वासवदत्ता की सहमति के अनुसार उदयन के मृत्या के लिए चले जाने पर कौशम्बी केनिकटस्थ लावाणक ग्राम का दाह करवाकर यह प्रवाद फैलवा देता है कि ग्रामदाह में वासवदत्ता तथा यौगन्धरायण जल गये हैं। और वह स्वयं परिद्राजक के वेश में वासवदत्ता को अवन्तिका-वेश्यारिणी प्रोपित-पति का वहिन के रूप में साथ लेकर तपोवन में वहाँ पहुँचता है जहाँ कि पद्मावती राजमाता के पास आई हुई है। नाटक यहीं से प्रारम्भ होता है।

तपोवन में जब पद्मावती ग्राश्रमवासियों को स्वेच्छितवस्तु प्रदान करने की घोषणा करवाती है, तभी अवसर का लाभ उठाकर यौगन्धरायण वासवदत्ता को कुछ दिनों के लिए पद्मावती के पास न्यासरूप में रख देता है। तभी लावाणक से एक अहून्नारी आकर वासवदत्ता के अग्निदाह से दुखी राजा के प्राण-त्याग आदि के प्रयास तथा मत्रियों द्वारा उसकी सुरक्षा प्रयत्नों के सम्बन्ध में वतलाता है। यहीं ज्ञात होता है कि पद्मावती भी उदयन को ही चाहती है। प्रसंगवेश जब उदयन राजगृह आता है तब पद्मावती का उसके साथ विवाह सम्पन्न होता है। उदयन वसत्तक के साथ राजगृह में ही रह कर पद्मावती के साथ कुछ दिन व्यतीत करता है। एक दिन पद्मावती की शिरोवेदना की सूचना मिलने पर उदयन स्वयं समुद्रगृह में जाता है। किन्तु तब तक पद्मावती के वर्हा न पहुँच पाने के कारण प्रतीक्षा करता हुआ वहीं निद्राभिसूत हो जाता है। तभी वासवदत्ता भी पद्मावती की शिरोवेदना का समाचार पाकर वर्हा जाती है, और पद्मावती को सोया हुआ समझ कर उसी शय्या पर लेट जाती है। बाद में स्वप्न में प्रलाप करते हुए स्वामी को पहिचान कर उठ खड़ी होती है और स्वामी के प्रश्नों का उत्तर भी देती है। तदनन्तर वह जब जाना चाहती है तब स्वामी के लटकते हुए हाथ को ज्यों ही ऊपर रखती है कि राजा जाग जाता है। किन्तु जैसे ही तन्द्राभिसूत उदयन उसे पकड़ या देख पाये कि वह उससे पूर्व ही औभल हो जाती है। तथापि उदयन को उसके जीवित होने का विश्वास-सा हो जाता है। तभी कांचुकीय रूपण्वान द्वारा आरूणि पर चढ़ाई की सूचना देता है; और राजा भी सन्नद्ध होकर चला जाता है।

अन्तिम अंक में ज्ञात होता है कि दर्शक की सहायता से उदयन ने अपने शत्रु आरूणि को पराजित कर वत्स को प्राप्त कर लिया है। उसी विजय-समाचार को पा कर महासेन तथा उनकी महिली भी अपना सन्देश तथा वासवदत्ता और उदयन का चित्रफलक कांचुकीय तथा धात्री वसुन्धरा के द्वारा भेजते हैं। उदयन उस चित्र-

फलक को देख ही रहा है कि पद्मावती उसमे चित्रित वासवदत्ता को पहिचान कर कहती है कि इसी तरह की एक यहाँ भी रहती है, जिसे एक ब्रह्माणा ने पोपित-प्रतिका बहिन के रूप मे न्यास रखा है। वासवदत्ता को बुलाया जाता है, तभी यौगन्धरायण भी न्यास लेने पहुँचता है। राजा, मन्त्री, तथा रानी आदि सभी परस्पर पहिचान जाते हैं और यौगन्धरायण की कूटनीति की सफलता के फलस्वरूप मुखमय सम्मिलन के साथ नाटक समाप्त होता है।

### उदयन-कथा की लोकप्रियता

उदयन कथा प्राचीन बाल से ही अत्यधिक लोकप्रिय रही है। कालिदास की मूकित “प्राप्यावन्तीनुदयनकथाकोविदप्रामवृद्धान्” से प्रतीत होता है कि उदयन के लोकोत्तर रूप, गुण, शील तथा चरित्र ने न केवल अवन्ती को अमरता प्रदान की, अपितु आबालवृद्धों का बष्टहार बन कर मर्य होते हुए भी वह अमर बन गया है। यही कारण है कि सभवत भगवान राम तथा श्रीकृष्ण के बाद उदयन-कथा को छोड़कर अन्य कोई ऐसा चरित्र नहीं दीख पड़ता जिसने न केवल साधारण जनों को अपितु साहित्यकारों तथा कलाकारों को भी अभिभूत और आकर्षित किया हो। इस अत्यधिक लोकप्रियता का ही यह परिणाम है कि अनुश्रुतियों के रूप मे प्रवाहित तरन कथा के समान इसमे अतिरजनात्मकता बढ़ती गयी, दंबों तत्त्वों का आरोप होता गया, और अन्त मे यह काल्पनिक रोमांटिक कथा मात्र बन कर रह गयी। अधिकांश साहित्यकारों न भी अपनी कल्पना के उच्छृंखल प्रयोग द्वारा इसे अप्ट करने मे पूरा-पूरा योग दिया, जिसमे इतकी रही-सही ऐतिहासिकता एव प्रामाणिकता भी तिरोहित हो गयी और इस अप्ट अतिरजित कथा को ही प्रमाण माने जाना लगा। यदि इसमे कोई बचा तो वह केवल भ स था जो अधिकाश मे अनिरजना तथा दंबों तत्त्वों के प्रयोग से मुक्त रहा। उसने जैसा देखा सुना वैसा ही यथार्थ-चित्रण अपने नाटको म किया है। यही कारण है कि भास उदयन-चरित्र की ऐतिहासिकता के अधिक निकट है।

आज हम अनेक साहित्यिक नाटकों, कथाओं, काव्यों आदि के रूप मे उदयन-कथा प्राप्त हाती है। मनोरमावत्सराज, तापमवत्सराज, उदयन-चरित, रत्नावली, श्रीकाश्मीपूर, कीरणपालकदत्त, आदि नामक छातियों के अतिरिक्त बरण तथा कालिदास आदि ने भी यथा-प्रसग इसका उत्तेज किया है। यही नहीं, घल्क अर्थ श स्त्री दीटिल्य तक न इसका उल्लेख किया है। स्पष्ट है कि उदयन कथा उदयन के समय से ही बहुजनप्रिय तथा प्रेमकथा के रूप मे लोक का मनोविनोद करती रही होगी। बाद मे सभवत श्रीनान्नों की कुतूहलवृद्धि के अभिप्राय से तथा नवीनता लाने के लिये लोगों ने अपनी-अपनी कल्पना के अनुसार परिवर्तन, परिवर्धन किये हैं। यही

फारण है कि हमें उसकी एकरूपता नहीं मिलती और उसकी सत्यता एवं विश्वसनीयता के सम्बन्ध में अनेक भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। किन्तु उदयन-कथा को इतिहासकारों ने अनुश्रुतियों के आधार पर ऐतिहासिक माना है। यद्यपि यह निश्चित है कि उदयन से सम्बन्धित पुरातत्व सामग्री का नितान्त अभाव है, तथापि साहित्यिक साक्ष्य उदयन को एक वर से ऐतिहासिक प्रमाणित करता है। यतएव इतिहासकारों ने भी उदयन-कथा को मूलतः ऐतिहासिक स्वीकार किया है।

### भास की उदयन-कथा का स्रोत तथा उपजीव्य

उदयन-कथा से संबन्धित काव्य नाटकों के अतिरिक्त और भी कुछ प्राचीन ग्रन्थाचीन स्रोत-सामग्री भी है। मुख्यतः उसमें बौद्ध ग्रन्थ, जैन ग्रन्थ तथा द्वाहृण ग्रन्थ आते हैं।<sup>१</sup> यद्यपि इन तीनों प्रकार की सामग्री के आधार पर उदयन-कथा की प्रमाणिकता का समीक्षण तथा मूल्यांकन किया जा सकता है किन्तु ये भास के उदयन नाटकों की उपजीव्यभूत रही होगी—ऐसा मानना नितान्त अनुचित होगा।

(१) बौद्ध ग्रन्थ—बौद्ध सामग्री में यद्यपि कुछ बहुत प्राचीन अर्थात् ३० पूर्व धर्म वंचम शतक तक के ग्रन्थ भी हैं जैसे दीर्घनिकाय, तथा जातक आदि। किन्तु ये भी भास के उपजीव्य नहीं रहे हैं। हम देख चुके हैं कि भास भी लगभग उसी समय के हैं जिस समय के ये थे। दूसरे, इन ग्रन्थों में उदयन-कथा का पारिवारिक रूप प्राप्त नहीं है, धर्म-प्रसंगों में कहीं कुछ सम्बन्धित कथामात्र दे दी गयी है। तीसरे, इनमें धर्म-विशेष के ग्रन्थ होने के कारण उदयन-चरित्र के प्रति न्यायपूर्ण तटस्थ हृष्टिकोण न रख कर, धार्मिक पक्षपात-पूर्वक उदयन के चरित्र को प्रायः निष्ठकोटि का ही प्रदर्शित किया है। अतः स्पष्ट है कि भास ने इन्हें उपजीव्य नहीं बनाया होगा। इतना अवश्य सम्भव है कि भास ने जिस समाज से प्रत्यक्षतः संजोकर इसे यथात्थ्य स्वाभाविक संजीव रूप दिया है, वौद्ध लेखकों ने भी वहीं से चुना हो। वाद के बौद्ध ग्रन्थों में उदयन-कथा का और भी स्वतन्त्रतापूर्वक चित्रण है। कुल मिलाकर यदि देखें तो बौद्ध-कथाओं तथा भास की कथा में पर्याप्त अन्तर दीख पड़ता है। उदाहरण के लिए, बौद्ध ग्रन्थों में उदयन को तापसकुमार का पुत्र बतलाना, उज्जयनी में स्त्रीविश में आना, प्रद्योतपत्नी तारा से मिलना, और्गूठी चुराना, वासवदत्ता को पर्दे के पीछे से पढ़ाना, यौगन्धरायण द्वारा अपनी वहित कांचनमाला के सहयोग से उदयन को मुक्त कराना, विवाहोपरान्त भी उदयन का प्रद्योत के शत्रु के रूप में चित्रण करना और यहाँ तक कि प्रद्योत के सम्मान के लिये वासवदत्ता द्वारा उदयन की हत्या, आदि

१. स्रोतो आदि को विशेष देखें, प्रतिज्ञा० भूमिका, सं० वामनगोपाल अध्वरेष, १-६,

## ११८ सस्तुत के ऐतिहासिक नाटक

घटनाएँ भास की उदयन-कथा से लेश-मात्र भी मेल नहीं खानी है।<sup>१</sup> मही नहीं, बल्कि बौद्ध कथाओं में उदयन की पत्ती वासवदत्ता आदि का चित्रण भी भास में पूर्ण भिन्न है। उदयन का भी चरित्र उसमें भिन्न रूप से चित्रित है। अर्जुन के वशज पुरुषगी उदयन को धार्मिक भेद-भाव के कारण ही हीन-चरित्र का बतलाया गया है। इन सबमें स्पष्टत यह प्रमाणित होता है कि बौद्ध कथाएँ भास की उपजीव्य नहीं रही हींगी।

(२) जैन ग्रन्थ—जहाँ तक जैन ग्रन्थों का सम्बन्ध है, इन्हें भी भास का आधार नहीं माना जा सकता। जैन ग्रन्थों की उदयन-कथा तथा भास की उदयन-कथा का भी परस्पर कोई सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता है। इनमें भी पर्दे के पीछे बैठी हुई वासवदत्ता को उदयन द्वारा शिक्षा देना, परस्पर में कुवडी तथा कोढ़ी वताया जाना, वासवदत्ता के गलत पाठ पढ़ाने पर उसे कुवडी तथा मोटे ओठों वाली कहना, वासवदत्ता द्वारा उदयन को कोढ़ी कहना तथा सन्देह होने पर परस्पर देमना और प्रीति होना आदि प्रनेक ग्रन्थ मिलते हैं। इसके अतिरिक्त जैन ग्रन्थ भास के समय के बाद की रचना है। अत जैन ग्रन्थों को आधार नहीं माना जा सकता। ये भी भास घर्मनिष्ठ ब्राह्मण था। अत जैन बौद्ध ग्रन्थों से कथा संजोने का प्रसंग असम्भव है। अन्त में, जबकि उदयन-कथा की लोकप्रियता का आधार उसकी प्रेम कथा तथा उसका साहसरवृत्त है, किन्तु विशेषकर जैन बौद्ध ग्रन्थों में उदयन-कथा का यह रूप वही नहीं भलकरता; बल्कि इसके ठीक प्रतिकूल कहीं-कहीं उदयन का चरित्र बड़ा हैय-सा प्रतीत होता है। ऐसे ही अनेक कारणों से हम उन्हें भास का आधार नहीं मान सकते।

(३) ब्राह्मण ग्रन्थ—ब्राह्मण ग्रन्थ के सम्बन्ध में भास की उपजीव्यता के हिट्टिकोण से विचार करने पर वे भी आधार नहीं माने जा सकते। पुराणों में उदयन का नामा उल्लेख है, कथा नहीं दी गई है। मामान्यतमा वृहत्कथा को भास का उपजीव्य माना जाता है,<sup>२</sup> किन्तु वास्तविकता यही है कि वह भी भास की उपजीव्य नहीं है।

बृहत्कथा—भास गुणाद्य से बहुत पूर्व हुए थे। मानवाहन के ममकालीन गुणाद्य ने बृहत्कथा की रचना पंशाची में प्रथम भत्तक में की थी, जबकि भास की रचना वा समय इससे बहुत पूर्व का है। यद्यपि पंशाची में रचित बृहत्कथा मूलरूप

१. देखो प्रतिज्ञा, परिशिष्ट : वही, पृ० १२-२५,

२. देखिये, स्वप्न भूमिका : स० देवधर, तथा भासनाटकब्रक्षम् भूमिका

पृ० १, स० द्रामा कीय, पृ० १०२-३, सं० क० दर्शनः व्यास, पृ० २३४  
तथा सम प्रासादस्य ग्रांफ इंडियन लिट०, पृ० ११३ आदि।

में उपलब्ध नहीं है, तब भी वृहत्कथा के प्राप्त सभी संस्करणों तथा वाचनाओं के पूर्वापिर पर्यालोचन द्वारा भी वृहत्कथा को उपजीव्य मानने की धारणा नि सार सिद्ध होती है। वृहत्कथा के समस्त संस्करणों में कथा सरित्सागर ही मूलरूप के अधिक निकट माना जाता है, जैसा कि स्वयं सोमदेव ने लिखा है— “यथामूलं तर्थंवेतन्नमनागप्यतिक्रमः ।”<sup>१</sup> अतः कथा० की उदयनकथा तथा भास की उदयन-कथा का तुलनात्मक हिट से पर्यवेक्षण करें तो दोनों में अग्रांकित पर्याप्त अन्तर पाते हैं।

(१) कथा०-सरित्सागर में चंडमहारोन वासवदत्ता के विवाह की इच्छा से उदयन को दीणा सिखाने आने के लिए स्नेहपूर्ण सन्देश भेजता है किन्तु उदयन वासवदत्ता को चाहते हुए भी अवहेलनात्मक प्रतिसन्देश देता है तथा वासवदत्ता को स्वीकार करने एवं प्रद्योत की मित्रता से संवंधित मन्त्रियों के परामर्श को भी नहीं मानता।<sup>२</sup> ऐसा प्रतिज्ञायौगन्धरायण में निर्देश नहीं है, बल्कि वहीं तो भगवती यक्षिणी के दर्शन को जाती हुई वासवदत्ता के प्रति उदयन की नेत्रप्रीति प्रदर्शित की गयी है।

(२) कथा सरित्सागर में उदयन वंदी होने पर यौगन्धरायण के लिए कोई भी व्यक्तिगत सन्देश नहीं भेजता और न यहाँ यौगन्धरायण की प्रतिज्ञा का ही उल्लेख है। जैसा कि भास के प्रतिज्ञा० में है।

(३) कथा सरित्सागर में यौगन्धरायण पढ़ोसी उग्र-कर्मा भहासेन को विशेष महत्त्व देता है अतएव वारंवार उदयन से उसके साथ मैत्री करने का आग्रह करता है,<sup>३</sup> भास की रचना में ऐसा नहीं है।

(४) कथा सरित्सागर में यौगन्धरायण को एक जादूगर जैसा निश्चित किया है, जो सिद्धियों का प्रयोग करता है, अदृश्य हो जाता है<sup>४</sup> आदि। जबकि भास ने एक कूटनीतिज मंत्री के समान स्वाभाविक चिन्हण किया है।

(५) कथा सरित्सागर में वासवदत्ता की सहमति से अपहरण को योजना बनती<sup>५</sup> तथा उसकी सखी कांचनमाला का भी उसके साथ अपहरण किया जाता है,<sup>६</sup> पर ऐसा कोई निर्देश भास ने नहीं दिया है।

१. कथा० ११११०,

२. कथा० २१३।७ १७-३०, ७८-८२, तथा २।४।२-५,

३. वही २।३।८।१-८२,

४. वही २।४।४।७-७७,

५. कथा० २।५।१।३-१५,

६. कथा० २।५।२।२,

(६) कथा सरित्सागर में वत्सराज की भुवित ने पश्चान् योगन्धरायण कौशाम्बी उसके माथ साथ जाता है,<sup>१</sup> जब कि भास के नाटक में वत्सराजको छुड़ाने जाता है, तथा स्वयं बदी हो जाता है।

(७) कथा सरित्सागर के प्रनुसार योगन्धरायण को ही यह चिन्ता होती है कि इम पाडववशी वत्सेश न कुलक्रमागत सारी पृथ्वी को अविजित ही छोड़ दिया है। और यह स्त्री, मध्य तथा मृगया भ आमक्त रहता है। सारे राज्य का भार हम पर छोड़ दिया है। अत हमें ही इसके लिए समस्त पृथ्वी के राज्य-प्राप्ति का यत्न करना चाहिए।<sup>२</sup> किन्तु, वह क्योंकि पड़ीमी मगधेश्वर प्रद्योत को राज्यवृद्धि में वाधक समझते हैं,<sup>३</sup> अनेक उससे कन्या रत्न की याचना करते हैं,<sup>४</sup> परन्तु वामवदत्ता में अधिकनर प्रनुरक्त रहने से प्रद्योत प्रपनी पुत्री पद्मावती को उदयन को देने से अनिच्छा व्यक्त कर चुका है,<sup>५</sup> अत योगन्धरायण वामवदत्ता को द्विपाने के लिए सावागक दाह में जलने का पठ्यन रचता है<sup>६</sup>। नावाणकदाह के इम कूटनीतिक प्रयोग के आयोजन का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि इम पठ्यन के फलस्वरूप उदयन-पद्मावती के विवाह होने पर इसमें प्रद्योत के प्रतिरोध को वाधा भी मिट जाती है तथा उसमें सहायता प्राप्त करने में भी मफल हो जाते हैं<sup>७</sup>। इसी प्रयोग के सम्बन्ध में वह गोपालक से परामर्श करता है, तत्पश्चान् ही उसे कार्यान्वित करता है,<sup>८</sup> किन्तु स्वप्न नाटक में ऐसा नहीं है।

भास की उदयन कथा के अनुसार राज्यवृद्धि या अखिल पृथ्वी पर राज्य करने की इच्छा<sup>९</sup> से नावाणकदाह का पठ्यन नहीं करते, अपितु आरम्भिक द्वारा अपहृत यन्मराज्य को प्राप्त करने की इष्टि से पद्मावती से सम्बन्ध स्थापित करने मगध से सहायता प्राप्त करते हैं। उसमें गोपाल परामर्श का भी उल्लेख नहीं है। भास की कथा में उदयन का, विशेष रूप से पद्मावती को और ध्यान आकृष्ट करने के लिए

१. कथा ३१५।४१,

२. कथा ३।२।४।६,

३. वही, ३।१।१६,

४. वही, ३।१।२०,

५. वही, ३।१।२२-२३,

६. वही, ३।१।२१-२४,

७. वही, ३।१।२४, २५, २६,

८. वही, ३।१।०४-११७,

९. वाप्यामोऽलिङ्गं भूम्, समपृथ्वीराज्यम्,"

तेषां मगधराज के मन से दो पत्नियों की आशंका को दूर करने के लिए ही लावाक-दाह का पठयंत्र किया जाता है।

(८) इसके अतिरिक्त कथा सरित्सागर में (जात) इतिहास के विरुद्ध प्रद्योत को मगधेश्वर कहकर पदमावती को प्रद्योत-पुत्री बतलाया है, जबकि भास की कथा में इतिहास के अनुकूल मगधेश्वर दर्शक का उल्लेख कर उसकी बहिन पदमावती को बतलाया गया है<sup>१</sup>।

(९) कथा सरित्सागर में लावाणकदाह की योजना को सफल करने के लिए घासवदत्ता को ब्राह्मण पुत्री, वसन्तक को काणवटुक एवं योगन्धरायण को स्थावर घार्हण के रूप में चिह्नित किया गया है<sup>२</sup>। इसके अतिरिक्त कथा० के अनुसार घासवदत्ता तथा योगन्धरायण मगध में वसन्तक के साथ साथ मगध में जाते हैं,<sup>३</sup> जबकि भास की कथा में वसन्तक नहीं जाता। कथा० में काणवटु को वासवदता का भाई बतलाकर रखा जाता है।<sup>४</sup> जबकि स्वप्न० में वह राजा के पास ही रह जाता है। कथा० में वासवदत्ता को एक पुत्री के रूप में योगन्धरायण मगध रखता है।<sup>५</sup> जबकि भास के स्वप्न० में योगन्धरायण की बहिन के रूप में। कथा० में योगन्धरायण घासवदत्ता को लेकर मगधराज के नगर में जाता है, तथा पद्मावती को उद्यान में देखता है,<sup>६</sup> जबकि स्वप्न० में तपोवन में।

(१०) कथा सरित्सागर में जब राजा आखेट से आकर घासवदत्ता के दाह के वृत्तान्त को सुनकर मूर्खित हो जाता है, पर जब पुनः लघ्बसंज्ञ होता है तब उसे पूर्वोक्त नारद के बचन याद आते हैं कि तुम कामदेव के अंशभूत विद्याधराधिप चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करोगे।<sup>७</sup> तथा कुछ समय तुम्हें दुःख भी भोगना होगा। इन बचनों को सत्य मानकर तथा योगन्धरायण एवं गोपालक श्रादि को दुःखशोक रहित देखकर वह भी घासवदत्ता को जीवित ही समझता है।<sup>८</sup> तथा ग्रामदाह को केवल मंत्रियों का नीति-प्रयोग ही मानता है, जबकि भास के नाटक में ऐसा नहीं है।

१. कथा० ३।१।१६-२३, तथा हमारा ऐतिहासिक विवेचन, इसी प्रबन्ध में।
२. कथा० ३।२।१०-१२,
३. वही, ३।२।१९,
४. वही, ३।२।२३,
५. वही, ३।२।२१,
६. वही, ३।२।१४,
७. वही, ३।२।५०-५२,
८. वही, ३।२।५३-५५,

(११) कथा सरित्सागर म आमदाह के प्रसग में वसन्तक के साथ बासवदत्ता की मृत्यु का प्रवाद फैलाया गया है।<sup>१</sup> तथा योगन्धरायण राजा के पास ही पहुँच जाता है, जबकि भास के नाटक म योगन्धरायण के साथ ही देवी की मृत्यु का उल्लेख है।

(१२) कथा सरित्सागर में पशावनी म विवाह हो जाने पर योगन्धरायण मन्त्रभेद के युलने के भय से शोध ही उदयन को यिदा करान का आग्रह मन्त्रेश्वर से करता है।<sup>२</sup> तथा यिदा कराने पर, साथ में मना के पीछे पीछे गुत्त स्प से वासवदत्ता तथा वमन्तक को भी ले आता है और उसे गोपालक के घर रखता है।<sup>३</sup> जबकि भास के वथानक म उदयन बहुत समय तक पशावनी के माध्यमाय मगथ म ही रहता है।

(१३) कथा सरित्सागर में वासवदत्ता तथा राजा के मिलन की कथा अन्य स्प में चर्चित है। राजा जब पशावनी के मालानिलक को देवकर पूछता है कि यहिसने दिये, तभी पशावनी अवन्तिका के सम्बन्ध में चतुरानी है। इसके पश्चात् राजा गोपालक के घर म वासवदत्ता, वसन्तक तथा दोनों भत्रियों को देखता है, जबकि भास के नाटक में चित्र-दर्शन द्वारा बड़े ही मार्मिक ढग स मिलन कराया गया है।

(१४) कथा सरित्सागर में योगन्धरायण वासवदत्ता की शुद्धता प्रदर्शित करने के लिए अग्नि म प्रवेश करता है,<sup>४</sup> जबकि स्वप्न में स्वयं पशावनी ही इसका साक्ष्य बनती है।

(१५) कथा सरित्सागर में उदयन को शतानीक का नामा, 'महानीक-मुत्र' लिखा है।<sup>५</sup> जो कि भाग के सर्वथा विपरीत है।

इसी प्रकार और भी अनेक अन्तर हैं इन्हें स्थानाभाव होन से यहाँ मक्षेष म कुछ ही म्यूल विभिन्नताओं की और गवेत किया है। इसके अनिरिक्त दोनों कथाओं के परिसीरन से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि ग्रपकाशृत भास की कथावस्तु ही अधिक भयान्क, स्वाभाविक, तथ्यपूर्ण एव मूलकथा के निकट भी है। अत डा० भण्डारकर वा कथा ठीक है कि उदयन मध्यस्थी सामग्री कथा सरित्सागर म प्रचुर है, पर

१ वही, ३।२।४८,

२. कथा०, ३।२।८७-८८,

३. वही, ३।२।६१-६४,

४. वही, ३।२।११२-१२०,

५. वही, ३।१।११-२८,

अधिकांश अविश्वसनीय है<sup>१</sup> जहाँ तक भास की कथावस्तु के आधार का प्रश्न है, वह (वृहत्कथा०) कथा० को नहीं माना जा सकता। सामान्यतः वृहत्कथा को आधार मानने की मान्यता उनकी है जो भास को ई० की दूसरी सदी में मानते हैं। किन्तु जबकि हमारे अनुसार भास का समय ई०पू० के वहुत-पूर्व निश्चित हो चुका है, तो वाद की कृति वृहत्कथा को भास का आधार कैसे माना जा सकता है। वास्तव में भास का आधार वृहत्कथा आदि नहीं, अपितु तत्कालीन लोक कथा ही रही होगी, और वहीं से वृहत्कथाकार ने भी संभवतः कथासंग्रह किया है।

अन्त में उपर्युक्त समीक्षण तथा ऐतिहासिक परीक्षण के आधार पर निःसंदिग्ध रूप से कह सकते हैं कि भास उदयन-कथा के इतने निकट हैं कि भासों उन्होंने यह घटना अपनी आखों से देखी हो या तत्कालीन अभिज्ञ दृष्टाओं से तभी-तभी सुनी हो। भास ने उदयन के समय से प्रचलित लोकप्रियता के कारण ही इस प्रणायकथा को अपने नाटकों के लिए चुना। संभवतः इसी प्रकार वृहत्कथाकार ने भी चुना होगा। अतः वृहत्कथा जो कि ई० की प्रथम सदी में लिखी गयी, किसी भी प्रकार से भास की कथा का स्रोत नहीं हो सकती। वस्तुतः संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम भास ने ही उदयन की ऐतिहासिक कथा को लोक-कथा से संग्रह करके तथा नाटकीयरूप देकर अपनी उर्वरकनामा का परिचय दिया है, तथा सर्वाधिक रूप से सर्वाधिक सफल हुए हैं। अतः लोक से उदयन-कथा को चुनकर नाटक के रूप में प्रस्तुत करना भास का अपना व्यक्तिगत प्रयोग है।<sup>२</sup>

### भास की उदयन-कथा की ऐतिहासिकता

हम यह स्पष्ट कर चुके हैं कि भास ने उदयन-कथा को लोक-प्रचलित प्रव्यात वस्तु के रूप में चयन करके नाटकों में प्रयोग किया है। किन्तु क्योंकि भास एक

१. कालमाइल लैक्चर, पृ० ५८,

२. कुछ विद्वान यह कह सकते हैं कि वृ०क० या कथा० की वस्तु में अन्तर होना तो नाटककार की मौतिकता मात्र है। अतः अन्तर के आधार पर उसे स्रोत न मानना गलत है। किन्तु यह सम्भावना पूर्णतः भ्रामक है। यद्यपि नाटक-कार को कथा के परिवर्तन तथा परिवर्धन का अधिकार है पर तथ्यों को तोड़-मोड़ कर मनमाने रूप में प्रस्तुत करने का तथा इतिहास को झटक करने का अधिकार नहीं है। यदि वृ०कथा भास का आधार होती तो स्पष्टतः भास में भी वृ०कथा के समान ही ऐतिहासिक त्रुटियाँ होनी चाहिए थी। तथा वृ०कथा को इतिहास के निकट होना चाहिए था। जबकि भास की कथा इतिहाससम्मत, यथार्थ तथा स्वाभाविक अधिक है। अतः निश्चित रूप से यह भ्रामक तथा मौतिक है।

नाटककार के रूप में अपनी हृति प्रस्तुत करने जा रहे थे। अत श्वामविक है कि उन्होंने कथाविन्यास में कलाकारोचित कल्पना का भी समुचित प्रयोग किया होगा। भास ने अपने ऐतिहासिक नाटकों में ऐतिहासिक कथावस्तु का किम रूप में प्रयोग किया है। ऐतिहासिकता का कहाँ तक निवाह किया है, तथा कल्पना द्वारा कहाँ-कहाँ किस रूप में नवीन उद्भावनाएँ की हैं, आदि प्रश्नों को लेकर अन्त बाह्य साक्ष्य के पाठ्यार पर भास के ऐतिहासिक नाटकों की कथावस्तु का विवेचन ही हमें यही प्रभीष्ट है।

### (१) उदयन का ऐतिहासिक व्यक्तित्व

बत्तमराज उदयन बीढ़कालीन इतिहास वा एक महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्तिया, जिसने अपने विवाह सम्बन्धों तथा साहसिक-विजयों द्वारा प्रत्यधिक लोकप्रियता अंजित की थी। इस लोकप्रियता के कारण ही प्राचीनकाल से उदयन-कथा ने लोक-वृश्य का रूप ले लिया तथा इसमें कल्पना का भी स्वच्छन्द प्रयोग हुआ। यही कारण है कि उदयन के सम्बन्ध में अनेक भान्तियाँ फैली हुई हैं जिनसे उदयन का व्यक्तिगत परिचय तथा जीवन चरित्र धूमिल तथा भ्रष्ट सा प्रतीत होता है। यही नहीं, प्रगितु यहाँ तक कि उदयन को भी सोककथाओं वा काल्पनिक पात्र तथा उसके चरित्र को अल्पित चरित्र-मा माना जाता रहा है। वास्तविकता यही है कि उदयन के सम्बन्ध में यद्यपि ऐतिहासिक तथा पुरातत्व-साक्षों का अभाव अवश्य है, तथापि प्रशुर साहित्य सामग्री तथा साहित्यिक अनुश्रुतियों के प्राधार पर उदयन का व्यक्तित्व नि सन्देह ऐतिहासिक है।

विन्नु उदयन वा व्यक्तित्व विशुद्ध ऐतिहासिक होने पर भी इतिहासियों का-सा प्रतीत होता है।<sup>१</sup> इसके बाग, पिना आदि के सम्बन्ध में भी विभिन्न मान्यताएँ प्रचलित हैं। भास ने उदयन को सहस्रानीक का नप्ता, शतानीक का पुत्र<sup>२</sup> तथा वैदेहियुत्र<sup>३</sup> लिखा है। इतिहासकार भी यही मानते हैं कि उदयन का वितामह सहस्रानीक, पिना शतानीक तथा माता नोई वैदेही या विदेह-राज्य की रही होगी।<sup>४</sup> बीढ़-पन्थों में उदयन को “उदेन” लिखा है तथा उसका परतप-पुत्र के रूप में उल्लेख किया है। कुछ इतिहासकारों ने बीढ़-साक्षों के प्राधार पर प्राप्त उसे परंतप-पुत्र

१. पॉलिटोकल हिन्दू घोफ एन्जान्ट इंडिया, पृ० २०३,

२. “उदेन—शतानीकपुत्र.—सहस्रानीकनप्ता,” प्रतिका० २।८-८,

३. शान्तकीयः—सदूशमेतद् वैदेहियुत्रस्य। स्वप्न वारावदत्ता, ६।६-७,

४. देशो, पॉलिटोकल हिन्दू घोफ इंडिया, राय औषरो, पृ० १३२,

माना है ।<sup>१</sup> किन्तु "परंतप" ही वास्तव में उदयन का पिता था, इसमें हमें सन्देह है । अनुभानतः परंतप नामकरण उसकी कुछ विशेषताओं के कारण हुआ होगा । अतः यह प्रसिद्धि के अनुसार "उपाधि" ही प्रतीत होती है ।<sup>२</sup> बीद्र साहित्य में भी उदयन को परंतप का और सुन नहीं कहा है, अपितु किसी ऋषिकुमार का पुत्र कहा है । भतः बोद्ध-साक्ष्य के अनुसार भास के उल्लेख को द्रुटिपूर्ण नहीं माना जा सकता ।

विष्णुपुराण के अनुसार "उदयन" ग्रपर शतानीक का ही पुत्र था ।<sup>३</sup> मंजुश्री-भूलकल्प, प्रबन्धकोश तथा ललितविस्तर के अनुसार भी वह शतानीक-पुत्र ही प्रमाणित होता है ।<sup>४</sup> किन्तु कथासरित्सागर<sup>५</sup> तथा वृहत्कथा-मंजरी<sup>६</sup> में उदयन को सहस्रानीक-पुत्र तथा शतानीक-पुत्र कहा है । इन ग्रन्थों के अनुसार सहस्रानीक द्वारा अयोध्या के राजा कृतवर्मा की कन्या मृगावती से उदयन उत्पन्न हुआ । उपर्युक्त ग्रन्थों में परस्पर जो विपरीत उल्लेख हुआ है, उसका कारण लेखकों की भ्रान्ति रही है । उपर्युक्त ग्रन्थों के भ्रान्तिपूर्ण उल्लेख उन्हीं ग्रन्थों के अन्तः साक्ष्य से स्पष्ट हो जाते हैं । कथा०<sup>७</sup> से यह स्पष्ट है कि सहस्रानीक पत्नी सहित हिमगिरि को चला गया था तब उदयन की माता ही घर पर रह गयी थी । उदयन के बाल्यकाल में ही शतानीक की मृत्यु हो गयी थी । भास के उल्लेख से स्पष्ट है कि उदयन की माँ तो थी पर पिता न था ।<sup>८</sup> यह भी स्पष्ट है कि तब उदयन की किशोरावस्था थी ।<sup>९</sup> इससे यह अनुभान किया जा सकता है कि शतानीक की मृत्यु बहुत शीघ्र, सहस्रानीक के सामने ही हो गयी थी । अतः भ्रमवश सहस्रानीक को ही पिता तथा इसका सम्बन्ध नाम्ना साम्य होने के कारण प्रथम शतानीक से जोड़ कर उसे पितामह कह दिया गया है । इस भ्रमपूर्ण उल्लेख का पता इससे भी चलता है कि जबकि कथा० में शतानीक

१. हिन्दूसम्यता: मुकर्जी, पृ० १८०, केम्ब्रिजहिस्ट्री आँफ एन्शान्ट इंडिया बाल्पूम १, पृ० १६६ आदि ।
२. बुद्धिस्ट इंडिया : राइज़ एविड्ज, पृ० ३,
३. ततोऽपरशतानीकस्तस्माच्चोदयनः विष्णुपुराण, ४।२।१।४।१५,
४. देविये, प० ८० भगवद्वत् का भारतवर्ष का वृहद इतिहास, पृ० २४८-४६,
५. कथा० २।१।६, ७, ११, २८,
६. वृह० क० मं० २।१।६-१८,
७. कथा० २। १७,
८. प्रतिज्ञा० १।५-१६,
९. स्वप्न० २।१०-११,

बो जनमेजयन्पुत्र तथा नवा परीक्षिन पौत्र कहा है।<sup>१</sup> पर विष्णुपुराण में स्पष्ट शतानीक बो जनमेजय का पुत्र तो कहा है<sup>२</sup> किन्तु उदयन के पिता वा पूर्वोत्त मनानीक के बीम उत्तराभिवारियों के अनन्तर "अपग्नशतानीक" के नाम से उल्लेख है जिसम वह पंदा हुआ।<sup>३</sup> अन कथा सरित्मागर वा उल्लेख भास्म है।

बीढ़ ग्रन्थों म परतप-पुत्र का उल्लेख मन्मधत उपाधि के स्प भ हुआ है। हमारा अनुमान है कि महामेन के समान ही सहस्रानीक के आधार पर उदयन के पिता वा शतानीक नामकरण किया गया है, तथा चण्डप्रदात के साहश्य के समान ही परतप नामकरण हुआ है। किन्तु उदयन के पिता "शतानीक" का जैन, बीढ़, ब्राह्मण आदि सभों मे साध्य उपलब्ध है। अत प्रतीत होता है कि उदयन वस्तुत शतानीक (परतप) का पुत्र था। इतिहासकारा न भी उदयन बो जनमेजय की परम्परा मे उल्पन्न शतानीक का पुत्र माना है।<sup>४</sup> इसनिए भास का उल्लेख इतिहास के निकट है।

किन्तु "शतानीक" नामक दो व्यक्तियों का उल्लेख प्राप्त है, और प्रथम शतानीक पुत्र मानन से व्रम परम्परा म त्रुटि होती है। अन हमन उदयन को अपर-शतानीक का पुत्र माना है। विन्तु प्रथम शतानीक-पुत्र मानन पर भास के वैदेहीपुत्र व उल्लेख म सन्दर्भ उल्पन्न होता है। कथा<sup>५</sup> तथा वृहत्-स्थामजरी<sup>६</sup> म शतानीक की पत्नी मृगावती का उल्लंघन है। इनक अनुमार वह अयोध्या नरण वृत्तवामा की पुत्री थी। प्रवन्धकोश के अनुमार शतानीक-पत्नी मृगावती चेटकराज की कथा थी।<sup>७</sup> इससे इसे इतना स्पष्ट है कि शतानीक की पत्नी मृगावती थी और उदयन मृगावती का पुत्र था। किन्तु इसमे वह वैदेही-पुत्र प्रमाणित नहीं होता है। इसका समाधान इम प्रतार किया जा सकता है कि प्रवन्धकोश द्वारा निर्दिष्ट चेटकराज जैन-साध्य क ग्राम र पर वैशाली का राजा था,<sup>८</sup> और वैशाली निरहो मे परिगणित होती है, अनएव उसे वैदेही पुत्र कहा है। दा० राय चौधरी न भी उदयन

१. कथा० २।१।६,

२. जनमेजयस्मापि शतानीको ४।२।१।३,

३. विष्णु० ४।२।१।४, १५,

४ दि वैदिक एज, वात्पु १, पृ० ३२०-२१,

५. कथा० २।१।२७-२६, ४२, ६७,

६. वृहत्-कथा मंजरी, २।१।३८,

७. प्रवन्धकोश, १६वा पारच्छेद, पृ० ८६,

८. देविये, ना० प्र० ८० भाग ११, अक १, पृ० ८६,

को सहस्रानीक-भौत्र तथा परंतप नाम से प्रसिद्ध शतानीक द्वितीय का वैदेहिपुत्र माना है।<sup>१</sup> अतः भास का उल्लेख इतिहास सम्मत प्रमाणित होता है।

कुछ इतिहासकार नहस्त्रानीक का सम्बन्ध पुराणों में डिलिपित “वसुदान” से भी जोड़ते हैं<sup>२</sup> सम्भव है वसुदान ही हजारों सेनाओं के कारण सहस्रानीक कहलाया हो। किन्तु नहस्त्रानीक की अनुष्टुप्ता पर शतानीक नाम ही ग्रन्थिक प्रामाणिक जात होता है। आधुनिक इतिहासकार ग्रन्थिकांश में शतानीक तथा परंतप दोनों को ही एक मानने लगे हैं।<sup>३</sup> किन्तु भास के उल्लेख से यह निश्चित होता है कि सर्व-प्रथम भास के समय में वह शतानीक के नाम से ही प्रख्यात रहा होगा, अतः इसे ही ऐतिहासिक नाम मानना अधिक सगत है।

भास ने उदयन को कई स्थानों पर “भारत” अर्थात् भरतवंशी कहा है।<sup>४</sup> भरत-वंश में पैदा होने से इसे कुलीनता का स्वाभिमान भी था। अतएव यह राजपि भी कहलाता था। किन्तु बीद्र साहित्य के अनुसार परंतप का क्षेत्रज-भौत्र होने से इसकी कुलीनता ही प्रकट नहीं होती। अतः बीद्र उल्लेख विष्वसनीय नहीं। पुराणों में इसे पौरव-राजवंशी तथा भरतवंशी दोनों कहा है। कथा० में पांडववंशी कहा है।<sup>५</sup> मत्स्यपुराण में लिखा है कि भगवंश के अन्त में वत्सराज होगा।<sup>६</sup> पौराणिक अनुश्रूतियों के अनुसार चन्द्रवंशी पुरु की परम्परा में भरत के होने के पश्चात् पौरववंश “भारतवंश” कहलाने लगा।<sup>७</sup> अतः स्पष्ट है कि उदयन पौरववंशी एवं भरतवंशी था। राय-चौधरी ने भी यही स्वीकार किया है। स्पष्टतः भास का यह उल्लेख भी इतिहास सम्मत है।

उदयन के काल-निर्णय तथा राज्य-काल पर अनेक विद्वानों ने विचार किया है तथा सामान्यतः ईस्वी पूर्व षष्ठ शतक के उत्तरार्द्ध से ई० पू० पंचम के पूर्वार्द्ध के

१. पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एन्शान्ट इंडिया, राय चौधरी, पृ० १३२,

२. देखिये, वही, पृ० १३२ तथा भा०ब०इति० भगवद्गत, पृ० २४६,

३. देखिये, वैदिक एज, पृ० ३२० तथा पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एन्शान्ट इंडिया पृ० १३२,

४. स्वप्न० ६।१६, प्रतिज्ञा० १।१०-१।, तथा ४।१७,

५. कथा० २।१६,

६. “तत्तो भरतवंशात्ते मूत्वावत्सनृपात्मजः” मत्स्य० ४, १६

७. भा०प्रा०इति० सत्यकेतु, पृ० १०६,

बीच म ही इतिहासवारो ने पृथक्-पृथक् मान्यताएँ दी हैं।<sup>१</sup> किन्तु जबकि बीदों के अनुमार ग्रजातशत्रु का सिहासनारोहण युद्ध के निर्वाण के आठवें वर्ष में हुआ और युद्ध का निर्वाणान प्राय चीन के बैन्टन नगर के बिन्दुचिह्नित ग्रालेय की प्रामाणिक मानकर ४८६ ईस्वी पूर्व म माना जाता है तो ग्रजातशत्रु का समय ४८४ ईस्वी पूर्व म घटहरता है और दर्शक ४८६ ईस्वी पूर्व । उदयन इन दोनों के समय म थे, वह ग्रजातशत्रु से द्योषे तथा दर्शक से बढ़े थे । अत हम उनका समय ईस्वी पूर्व पचम का मध्य मान सकते हैं । निष्पर्यंत उदयन के समय के मम्बन्ध में थोड़ा बहुत मतभेद भले ही हो, किन्तु उसके ऐतिहासिक व्यक्तित्व के सम्बन्ध म इसी भी इतिहासकार को सन्देह नहीं है ।

उदयन के विवाह से सम्बन्धित अनेक प्रणय और युद्ध की आश्चर्यपूरण अनुश्रुतियाँ भारतीय वाह्य म इत्स्तत फैली हुई हैं ।<sup>२</sup> उदयन ने अनक वैवाहिक सम्बन्धों की थीं । इन्हीं वैवाहिक सम्बन्धों के बारण ही वस्तराज्य का इतिहास मे महत्व है ।<sup>३</sup> उदयन की लोकप्रियता तथा उपजीव्यता भी इन्हीं वैवाहिक प्रणय-घटनाओं पर आधारित हैं । भास ने भी अपन नाटकों की रचना इन्हीं घटनाओं की आधार बनाकर की हैं । वैसे तो उदयन की अनक पत्निया का उल्लेख है ।<sup>४</sup> जिनके सम्बन्ध म अभी निश्चित धारणा नहीं है कि व समस्त उदयन की पत्नियाँ ही थीं, तथापि इनना निश्चित है कि उदयन क कई पत्नियाँ थीं । भास ने प्रतिज्ञा० म बामवदत्ता० एव स्वप्न० म पत्नावती क विवाह का उल्लेख विया है । हप न प्रिय-दण्डिका० म अग्ननरेण इडन्वर्मन् बी पुत्री स, तथा रत्नावली० म सागरिका० से प्रेम-परिणय का उल्लेख विया है । जैन, बोद्ध साहित्य म वासुलदत्ता० सामवनी० (जिस

१. सर्वप्रथम ढा० प्रधान ने उदयन के कालपर ऐतिहासिक प्रकाश ढालते हुए उनका राज्यकाल ५०० ई० पू० ४६० ई० पू० माना है, किन्तु ढा० एन० एन० घोष ने प्रधान के काल निण्य के प्रति असन्तोष व्यक्त करते हुए, विशेषत पाली तथा बौद्ध प्रण्यों के आधार पर उदयन का जन्म ई० पू० ५६३, राज्यारोहण ई० पू० ५४४ स्वीकार किया है । देखिये—प्रोसीडिङ्ग्स अंगैक दी एड्य अर्गेंश्यन्टल कालकेन्स, मेस्कुट, १६३५ मृ०५७७,
२. देखिए—प्रा०भा०इति० ग्रिपाठी, पृ०६०—६१, भा०प्रा०इति० सत्यवेतु, पृ० २३२ तथा वामनगोपाल कव्यरेपे द्वारा सपादित प्रतिज्ञायोगन्धरायण १६३८, परिशिष्ट ए. बी. सी. डी.,
३. एन्सन्ट इंडिया, मुक्कों, पृ०६८,
४. देखो, पॉलिटिकल हिस्ट्री अंगैक एन्सन्ट इंडिया, राप चौधरी, पृ०२०३,

दिव्यवदान के माकन्दिकावदान में अनुपमा कहा है) और मागन्धिया नाम की तीन पत्नियों का उल्लेख किया है।<sup>१</sup> वासवदत्ता को ही बीद्र जैन ग्रन्थों में वासुलदत्ता कहा है। सम्भवः भास की पद्मावती का जैन बीद्र ग्रन्थों में सामवती के रूप में उल्लेख किया है। अनेक विद्वान् भी ऐसा ही मानते हैं। अतः भास की दोनों रानियाँ ऐतिहासिक पात्र हैं। इन दोनों रानियों के विवाह की घटना के आधार पर ही दोनों नाटकों की रचना की गई है।

## (२) पात्रों की ऐतिहासिकता

प्रतिज्ञा० तथा स्वप्न० वासवदत्ता तथा पद्मावती के विवाह-घटनाओं को लेकर रचित नाटक होने पर भी इनमें तत्कालीन कुछ प्रमुख ऐतिहासिक पात्रों का तथा घटनाओं का प्रयोग हुआ है। इन नाटकों में उस समय की राजनीति तथा शासन-व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत हुआ है। यहाँ महामात्य यौगन्धरायण, रूमण्डान् नामक दो प्रमुख पात्रों का प्रयोग है, दोनों ही ऐतिहासिक हैं। कथा० आदि में दोनों का प्रयोग हुआ है। यौगन्धरायण को “युगन्वर” का पुत्र बतलाया है<sup>२</sup> तथा रूमण्डान् को सुप्रतीक का पुत्र कहा है।<sup>३</sup> किन्तु भास ने रूमण्डान् को एक मंत्री के रूप में चित्रित किया है जबकि कथा० में उसे सेनापति के रूप में निर्दिष्ट किया है।<sup>४</sup> किन्तु भास के मन्दभूमि से भी ग्रप्रत्यक्षतः रूमण्डान् सेनापति ही ज्ञात होता है। स्वप्न० में ग्राहणि पर आकरण के सन्य रूमण्डान् ही सेनापतित्व करता चित्रित किया है।<sup>५</sup> इसी प्रकार एक अन्य पात्र हंसक को प्रतिज्ञा० में दूत या चर के रूप में प्रयोग किया है जबकि बीणा-वासवदत्ता में उसे उदयन का उपाध्याय बतलाया है।<sup>६</sup> यद्यपि प्राचीनकाल में उपाध्याय भी दूत होते थे, परन्तु जिस रूप में हंसक दौत्य करता है उससे उपका उपाध्यायत्व स्पष्ट नहीं होता। निश्चित रूप रूप से इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, तब भी यह नाम्ना ऐतिहासिक अवश्य प्रतीत होता है। इसी प्रकार अन्य साधारण पात्रों की भास ने कल्पना अवश्य की है, पर प्रमुख पात्र ऐतिहासिक ही है।

१. मिलिन्द पह्नों में एक और कृषकमुत्री का उल्लेख है—देखो रायचौधरी की पॉलिटिकल हिस्ट्री आफ एन्ड इंडिया, पृ० २०३,

२. कथा० २।।।४३,

३. वही २।।।४४,

४. वही० ३।।।४,

५. स्वप्न०वा० ५।।२,

६. बीणावासवदत्ता, पृ० ४४,

## (३) प्रतिज्ञा योगन्धरायण के वथानक की ऐतिहासिकता

वासवदत्ता की वैवाहिक घटना प्रतिज्ञा० की मुख्य बात है। वत्सराज के पूर्व में मण्ड तथा पश्चिम में भ्रवन्ति-राज्य थ। तीनों राज्यों की सीमाएँ आपस मिली होने से परस्पर सन्धि विप्रह होते रहते थे। मण्ड तथा भ्रवन्ति-राज्य अपेक्षा-कृत प्रबल थे, तथा वत्सराज पर अपनी कुटूटि लगाए रहते थे। नाटक के अनुसार उदयन, अपनी कुलीनता, इनप्रियता तथा धीरता आदि के कारण वह प्रसिद्ध तथा स्वाभिमानी था।<sup>१</sup> प्रद्योत उमके यश तथा प्रशसा में ईर्पा करता था।<sup>२</sup> प्रद्योत नाटक में स्पष्ट कहता है कि तृण मसूह म फौरी हुई आग के भयान सारी पृथ्वी को जलाता हुआ भेरा शामन इसके देश में नहीं चलता।<sup>३</sup> इतिहासकार भी यही मानते हैं कि उदयन तथा प्रद्योत दोनों परस्पर कटूर प्रतिष्ठर्थी थे।<sup>४</sup> प्रद्योत जिनना महत्वाकांक्षी था उतना ही स्वाभिमानी। अनुसानन अपनी कुलीनता आदि विशेषताओं के कारण अपनी और से उदयन ने पड़ीमी भ्रवन्तिराज प्रद्योत से कोई सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास नहीं किया था।<sup>५</sup> सम्भवत राज्य पर बैठने समय उदयन निरा युवक ही था।<sup>६</sup> अतएव उमने प्रद्योत के सम्बन्ध का उतना महत्व न समझा।

किन्तु प्रद्योत जिनका भास ने महामेन के हृष में उल्लेख किया है, वौद्ध तथा पौराणिक साहित्य में वडे ही क्लूर तथा महत्वाकांक्षी रूप में चित्रित है। पाली झन्यो में इसे “चण्डपञ्जोति” कहा है।<sup>७</sup> विद्वानों के अनुसार इसने अपन प्रताप के कारण ही चड उपाधि भारण की थी।<sup>८</sup> भास ने इसको प्रद्योत वे अनिरिक्त प्राय महासेन शब्द ही प्रयोग किया है। इन दोनों शब्दों से इसना प्रचड पराक्रम तथा भैना की विशालता प्रवर्ण होती है। अपने समय में यह इतना प्रबल पराक्रमी था कि मण्ड जैसा राज्य भी इसमें डरता था। प्रद्योत की पत्नी शृंगारबती थी।<sup>९</sup> कथा-

१. प्रतिज्ञा० च४३,

२. यही, २१६-१३,

३. वही, २११,

४. देलो-दि एज ऑफ इम्प्रियल यूनिटी : ची शी ला. पृ० ६,

५. प्रतिज्ञा० २११-१२,

६. यही०

७. पॉन्टिकन हिस्ट्री ऑफ एन्सान्ट इडिपा, : रायचौधरी, पृ० २०४,

८. एन्सान्ट इंडिपा, मुकुर्मी, पृ० ६८,

९. प्रतिज्ञा० ४ २३-२८,

में इसका उल्लेख है ।<sup>१</sup> इस ही पुढ़ी वासवदत्ता के अतिरिक्त गोपाल तथा पालक नाम के दो पुत्रों का भी भास ने उल्लेख किया है ।<sup>२</sup> नाटक के अनुसार प्रधोन उदयन के गुणों पर मुख्य था, अतः वह उसे वासवदत्ता के प्रार्थी के रूप में देखना चाहता था ।<sup>३</sup> किन्तु उदयन अत्यधिक स्वाभिमानी तथा बीरमानी था । अतएव उसने शिक्षक वनने के प्रधोत के सन्देश की अवहेलना करदी थी ।<sup>४</sup> कथा० के अनुसार भी इस तथ्य की पुष्टि होती है ।<sup>५</sup> प्रधोत के ही शब्दों में उदयन उसे कुछ नहीं गिनता था ।<sup>६</sup> सम्भवतः उदयन के नीतिनिपुण मंत्रिमण्डल के सामने उसकी एक न चलती थी, इसीलिए उसने उसे बन्दी बनाने के लिए छल का आश्रय लिया । नाटक से जान पड़ता है कि छल प्रयोग में उसे मंत्रियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त था,<sup>७</sup> किन्तु महासेन होते हुए भी सम्भवतः सेना के सहयोग से वंचित था,<sup>८</sup> अतएव उसने उदयन पर सीधा आक्रमण न करके छल का आश्रय लिया । उदैनवत्यु धम्मपद अट्टकथा आदि से भी इस छल प्रयोग का पता चलता है ।<sup>९</sup> कोमुदी महोत्सव,<sup>१०</sup> बीरणावासवदत्ता<sup>११</sup> तथा हर्षचरित<sup>१२</sup> आदि से भी नागवन की यात्रा एवं उदयन के बन्दी होने की पुष्टि होती है । दशरूपक<sup>१३</sup> आदि अलकार ग्रन्थों में भी इस वृत्तान्त का उल्लेख हुआ है । यहाँ तक कि कौटिल्य ने भी उदयन की इस यात्रा का निर्देश किया है ।<sup>१४</sup> अतः उदयन के बंदी बनाने की समस्त घटना ऐतिहासिक प्रतीत होती है । इस ऐतिहासिक घटना को भास ने जिस रूप में विवरणित किया है । यद्यपि उसमें कल्पना का भी पूरा-पूरा आश्रय लिया है, तथापि इससे उस समय में यौगन्धरायण की कूटनीतिक

१. कथा० २।३।७४-७५,
२. प्रतिज्ञा० २।१३, तथा स्वप्न० ६।११-१२,
३. वही, २।१-५, ६-११,
४. वही, ४।१७,
५. कथा० २।३।७, १७-३०,
६. प्रतिज्ञा० २।१०-११,
७. कथा० २।३।१५, तथा प्रतिज्ञा० २।१३-१४,
८. वही, १।४,
९. देखो, प्रा०भा० इति०: सत्यकेतु, पृ०७०
१०. को० भ० १।११,
११. बीरणा० २।५-७
१२. “निर्गताः नहासेन-सैनिका-वत्सर्पति न्यसंसिपुः” पठ उच्छ्वास,
१३. दशरूपक, २।५०, की अवलोक देखो,
१४. हृष्टवा च ‘……’ सुयात्रोदयनान्याम् ।

ऐतिहासिकता प्रवर्ट होती है। निष्पर्पत वदी बनाने की घटना प्रियुद्ध ऐतिहासिक है। भल इतिहासकारों ने भी इसे तद्रूप में स्वीकार किया है।<sup>१</sup>

नाटक की दूसरी घटना में वदी उदयन का शत्रु मैनिक वध करना चाहते हैं, पर शालकायन उमे बचा लेता है।<sup>२</sup> यह घटना निरीक्षात्मक तथा कुछ असम्बद्ध प्रतीत होती है। वशोकि प्रद्योत तो उमे वन्दी बनाकर पुनर्जना चाहता था, न कि वेवल जीतना या वध करना। नाटक के अनक स्थलों<sup>३</sup> तथा कथाओं में भी इसकी पुष्टि हो जाती है।<sup>४</sup> परन्तु इस घटना की सम्भाव्यता इस तरह ही सजूती है कि सम्भवत प्रत्येक मैनिक को वदी बनाने कारण जात नहीं था, केवल मत्री जैसे उचाधिकारियों को ही जात था। अतएव शालकायन न उन्हें इस निष्पट कार्य में रोका।

इसी प्रकार हसक द्वारा सन्देश वी घटना का भी कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। वीणावासवदत्ता में हसक का उल्लेख अवश्य है<sup>५</sup> किन्तु वहाँ उमे उदयन का उपाध्याय कहा है, किन्तु प्रतिज्ञाओं में वह दूसरा या ग्रग्रक आदि ही प्रतीत होता है। जो भी हो, हसक का व्यक्तित्व ऐतिहासिक अवश्य प्रतीत होता है। भास ने हसक द्वारा सन्देश वी घटना को जिस प्रकार उपन्यस्त किया है, उसका प्रयोजन केवल योगन्धरायण के महस्त्र वो बढ़ाना मात्र है। तत्वत स्वाभाविक रूप से चित्रित होने पर भी इसमें कोई विश्वसनीयता नहीं है। इसी प्रसंग में उदयन के वदी होने पर उसकी माँ का सन्देश देना सारगमित है। सभव है कि उदयन के वदी होने पर निराश्रित माँ ने योग्यमत्री योगन्धरायण को सन्देश अवश्य भेजा हो। एक और इसके द्वारा भास ने एक मातृ-हृदय की भनव दी है, तो दूसरी और उस समय को राज्य-अवस्था का भी निर्देश दिया है। डा० अनतेकर ने इसी से निष्पर्पत तिकाला है, कि उस समय राजा के नावालिंग होने पर (या राजा के अभाव में) एक प्रणासक मडल शासन करता था, जिसकी अध्यक्ष राजमाता होती थी।<sup>६</sup> उनका कथन है कि प्रतिज्ञाओं की घटना से स्पष्ट है कि उदयन के वदी होने पर उसकी माता ने शासन वा सचालन किया था।<sup>७</sup> इसी की पुष्टि में उन्होंने जातक आदि का प्रमाण भी दिया है।

१. दि एज ऑफ इम्पीरियल यूनिटी बो सो सा पृ० ६, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंग्लियन्ट इडिया, रायचौधुरी, पृ० २०४, प्रा० भा० इति० विपाठे पृ० ७०, भा०प्रा० इति० सत्यकेतु, पृ० २३०।

२. प्रतिज्ञा० १८-१८,

३. वही०, २१३-६, ८-१०, ८१७-२०,

४. कथा० २१६।२-३,

५. वीणावासवदत्ता, -१५-१४

६. प्रा०भा० शा० पद्मति, डा० अलतेकर, पृ० ३१,

७. वही फुटनोट,

योगन्धरायण की प्रतिज्ञा की संगेजना वडी मार्मिक है। लोक-कथाओं में उपर्युक्त दोनों घटनाओं का उल्लेख नहीं है, यह भास की निजी उद्भावना होने पर भी वडी अवाभाविक है।<sup>१</sup>

दूसरे अंक की घटनाओं का पूर्व भाग भी सम्भाव्यता के आधार पर ही विव्यस्त है। पुत्री वासवदत्ता के विवाह का परामर्ज पत्नी तथा परिजन ने करना स्वाभाविक है। यह भी मंभव है कि तत्कालीन परम्पराओं के अनुसार तथा चण्ड प्रद्योत की प्रचण्डता एवं महासेन की मम्बन्ध-जन्य सहायता का लाभ उठाने को अन्य पड़ोसी राजाओं ने भी चेष्टा की हो। अतः अपने-अपने दूत भेजे हाँ, किन्तु नाटक से ज्ञात होना है कि महासेन उसकी पत्नी तथा मंत्री—सभी उदयन के सम्बन्ध को सचेष्ट थे। प्रतिज्ञा० के एक इनोक से यह भी ध्वनित होना है कि सम्भवतः महासेन ने वासवदत्ता को वीणा निवाने के लिए उदयन के पास सन्देश भेजा था,<sup>२</sup> किन्तु उदयन ने इसका प्रतिमन्देश देकर अवहेलना की। अतः निश्चित है कि छल-प्रयोग की सफलता से महासेन प्रसन्न हुआ होगा तथा उसने उससे एक सम्बन्धी जैसा व्यवहार किया होगा<sup>३</sup>। ये सभी घटनाएँ सम्भाव्यता के आधार पर सत्य प्रतीत होती हैं।

तृतीय एवं चतुर्थ अंक में योगन्धरायण की कूटनीति अवन्ति पर द्वा जाती है। यह एक सम्भावित सत्य घटना है। यद्यपि कथा० अदि में योगन्धरायण को एक जादूगर के रूप में चित्रित करके अप्राकृत सा बना दिया है<sup>४</sup>। पर भास द्वारा चित्रित योगन्धरायण एवं उसके सभी प्रयोग व्यवहारिक प्रतीत होते हैं। न यहाँ योगन्धरायण को अवास्तविक स्वप्न में प्रदर्शित किया है और न वसन्तक का रूप बदला है। यहाँ उदयन के बंदी बनाए जाने पर योगन्धरायण तथा भरतरोहक के गुप्तचरों के पड़यन्त्र नयच्छ्वल, भेदनीति तथा मन्त्रोपद का राजनीतिक पड़यन्त्रों में प्रयोग आदि तत्कालीन राजनीति के अनुकूल किया गया है। कौटिल्य के प्रायोगिक-विधानों तथा कूटनीतिक-प्रयोगों से इसका अतिशय साम्य होने के कारण घटना न केवल सम्भाव्य, अपितु सत्य प्रायः प्रतीत होती है।

इन्हीं अंकों में भास द्वारा चित्रित वासवदत्ता पर वत्सराज की अनुरक्षित तथा आमत्तु की घटना रूपान्तर से अत्युक्तिपूर्ण बर्णित है। यह तो इतिहास भी मानता

१. कुछ विद्वान् दो प्रतिज्ञा मानते हैं कुछ तीन।

२. भारतानां कुले जातो वत्सानामूर्जितः पतिः, अकृत्वा दारनिदेश मुपदेशं करिष्यति, प्रतिज्ञा० ४।१७,

३. प्रतिज्ञा० २।८-१०, १३-१४, ४।१६,

४. कथासरित्सागर २।३।४७-७७,

है कि उदयन बीणा निपुण अत्यन्त मुन्द्र तथा हस्ति पकड़ने में बुशल था । किन्तु विवाह के उद्देश्य में उम बन्दी बनाने तथा उसे बीणा-शिक्षक नियुक्त करने के सम्बन्ध में मतभेद है । क्या<sup>१</sup> के अनुसार उदयन भव वासवदत्ता पर अनुरक्त था<sup>२</sup> तथा वह वासवदत्ता का गान्धर्व विद्या का शिक्षक भी नियुक्त हुमा था<sup>३</sup> । इनी गिक्षण के बीच दोनों प्रेम सम्बन्ध में वंघ गय,<sup>४</sup> तभी बाद में भाग निभले ।

जैन तथा बौद्ध कथाओं में बन्दी उदयन को वासवदत्ता के सर्वीत शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है, तथा पदे के पीछे वैड कर पढ़ाने की व्यवस्था की जाती है । दोनों को परस्पर नोडी और कुबड़ी बताया जाना है, जिससे कि प्रेम न हो जाय । किन्तु सहसा एक दिन परस्पर सन्देह होने पर आपस में देख बैठते हैं और प्रेम हो जाता है<sup>५</sup> । इस क्या से भी निष्पत्ति यही निकलना है कि उदयन को वासवदत्ता का शिक्षक नियुक्त किया गया तभी दोनों में परस्पर प्रेम हुआ<sup>६</sup> । कथा का अर्थ अग्र नि सार है । वस्तुत देखा जाय तो स्वप्न<sup>७</sup> नथा प्रतिज्ञा<sup>८</sup> के बुद्ध स्थलों से यह स्पष्ट अनित होता है कि राजा को उज्जयनी में लाने का उद्देश्य विवाह करना ही था । प्रतिज्ञा<sup>९</sup> में काचुरीय द्वारा कहने पर कि महासेन को छाड़कर ये सब गुण-मम्पत्ति एक स्थान पर नहीं दीक्षा पड़ती है<sup>१०</sup> । प्रद्यान का यह कहना कि इसीलिए तो सीव रह है कि पिता को कन्या के लिए वर-मम्पत्ति भी ही प्रयत्न करना चाहिए<sup>११</sup> तथा विवाह योग्य वासवदत्ता को आचार्य की बोई आवश्यकता नहीं है परन्तु ही इन मिवादगान<sup>१२</sup> । इसके अतिरिक्त उदयन के बदी बनाकर लान पर प्रद्योत वा यह कहना कि धाज से मेरे पास गुप्त रूप से दूत भेजने वाले राजा नि शक हो जावेंगे<sup>१३</sup> तथा उसरा कुमार विधि से सत्कार करना, वत्सराज के बन्दी होने पर घोषवती वासवदत्ता दो दिन, आदि ऐसे ही अन्य अनेक स्थल हैं जिनसे सक्षित होता है कि हो न हो प्रद्योत एवं

१ स्वप्न २।३।६-७,

२ वही २।१।३७-४६,

३ वही २।४-३०,

४ देविये प्रो॰ वामनगोपाल ऊर्ध्वरेवे द्वारा सवादित प्रतिज्ञाप्रीताधरादण २६३ परिशास्त्र सीझी १२-१२ एनालन २०-२१, बालपू २, गुलाई, पृ० ३१-३५,

५ दि एज आफ हम्पोरियन प्रूनिटी पृ०, ६-१०,

६ प्रतिज्ञा २।३-४,

७ वही, २।५,

८ वही, २।६-७,

९ वही, २।६-१०,

अंगारवती ने उदयन तथा वासवदत्ता को परस्पर प्रेम-रज्जु में बांधने के लिए तथा उसे विशेषतः वासवदत्ता की ओर आकृष्ट करने के लिए अवश्य शिक्षक के रूप में नियुक्त किया होगा। यही क्यों, वल्कि स्वप्न० में वासवदत्ता के उपरत होने पर 'उदयन "प्रियगिर्ज्या"' आदि कहकर सम्बोदना व्यक्त करता<sup>१</sup> है, और अंगारवती के मन्देश में धात्री स्पष्ट कहनी है कि वीणा सिंघाने के ब्याज से तुम्हें दे दी गयी थी,<sup>२</sup> इसमें स्पष्ट है कि उदयन को वीणा-शिक्षक के रूप में विवाह के उद्देश्य से अवश्य रखा होगा। प्रतिज्ञा० से यह स्पष्ट है कि महासेन की पुत्री (शिर्पा) वासवदत्ता को विना अग्निसंस्कार के उदयन भगा लाया था, और अपनी चपलता से मंगलमय विवाह-स्स्कार भी नहीं होने दिया था<sup>३</sup>। अतः यही ऐतिहासिक सत्य प्रतीत होता है कि उनका परस्पर प्रेम वीणा-शिक्षण के माध्यम से ही हुआ हो।

किन्तु भास ने इस नाटक में नेत्र-प्रीति द्वारा परस्पर प्रणय का संकेत किया है।<sup>४</sup> नाटक का यह प्रसंग काल्पनिक तथा अस्वाभाविक है। जबकि समस्त प्रतिज्ञा० से यह स्पष्ट है कि बन्दी होने के बाद उदयन को एक सम्बन्धी कुमार के समान प्रद्योत ने रखा, बन्धन-मुक्त कर दिया तथा सभी प्रकार के सुख-साधन जुटाए गए, तब फिर उदयन को कारागार में दिखाकर कारागृह के सामने से गुजरती हुई वासवदत्ता को कुछ क्षण देख कर अनुरक्षित का वर्णन अस्वाभाविक है। वास्तव में स्वप्न० में उदयन के इन शब्दों में पर्याप्त सत्य है कि उज्जयनी जाने पर और खूब देखने पर कामदेव ने पांचों वारण भेरे ऊपर गिराये।<sup>५</sup> स्पष्ट है कि दोनों की परस्पर नेत्र प्रीति शिक्षण के माध्यम से ही हुई होगी। किन्तु जैन तथा बौद्ध कथाओं में मुक्ति की इच्छा से विनियम के रूप में वीणा-शिक्षण आदि का उल्लेख अस्वाभाविक, अनुचित तथा अनेतिहासिक प्रतीत होता है।<sup>६</sup> इस दृष्टि से भास का वर्णन अधिक स्वाभाविक है। भास की विशेषता यह है कि उसने नाट्यकला को दृष्टि में रखकर इस घटना को प्रदर्शित न करके संकेत भाव दिया है, किन्तु कारागृह के सामने से जाती हुई वासवदत्ता के प्रति नेत्र प्रीति की भास की योजना विशेष उचित नहीं प्रतीत होती।

१. स्वप्न० ११२-१३, ६।११ आदि

२. वही ६। १-१२,

३. प्रतिज्ञा० ४।१७ १६,

४. वही, ३।५-६,

५. कामेनोज्जयिनों 'गते मयि तदा कामप्यवस्थां' गते

पञ्चशुर्मदनो यदा कथमयं पष्ठः शरः पातितः ॥ स्वप्न० ४।१,

६. बौद्ध कथाओं में प्रद्योत पत्नी तारा का सम्बन्ध भी इसी घटना से जोड़ा गया है तथा उदयन द्वारा प्रद्योत की मृत्यु का भी इसमें उल्लेख है।

प्रतिज्ञा० में निर्दिष्ट योगन्वरायण की दूसरी प्रतिज्ञा काल्पनिक है। किन्तु मेघदूत के अनुसार प्रद्योत-पुत्री का वत्सराज ने अपहरण किया था।<sup>१</sup> मृच्छाइक के अनुसार उदयन के परिमोक्षण में योगन्वरायण का सक्रिय हाथ था।<sup>२</sup> पादताडितक भाणु के अनुसार उदयन ने वासवदत्ता का अपहरण एक हस्ति के द्वारा किया था।<sup>३</sup> अत स्पष्ट है कि भास द्वारा चित्रित वासवदत्ता के अपहरण की घटना न वेचल स्वाभाविक है, अपिनु मूलत इतिहास के निष्ठ भी प्रतीत होती है।

इस अपहरण के पश्चात् योगन्वरायण के दबी होने तथा भरतगोहक के वाक्युद की घटना का हमें कही भी उल्लंघन नहीं मिलता। कथा० के अनुसार योगन्वरायण उदयन की मुक्ति के पश्चात् उसके सायन्माथ कौशाम्बी जाता है,<sup>४</sup> परन्तु यह अस्वाभाविक है। भास की घटना इससे अविक्ष स्वाभाविक है। उदयन के भागन पर अवलिंग म विद्रोह होता, अपन स्वल्प माधियों के साथ प्रद्योत का मुकाबला न कर पाने के कारण योगन्वरायण का पकड़ा जाना तथा योगन्वरायण को भी शोध ही मुक्त करक वासवदत्ता तथा उदयन के विवाह को स्वीकृति देना<sup>५</sup> आदि घटनाएँ सम्भव्यता के आधार पर अत्यन्त स्वाभाविक, अत ऐतिहासिक प्रतीत होती हैं। किन्तु मत्रियों के वाक्युद की घटना जिस रूप म विन्यस्त है, वह राल्पनिक है। प्रद्योत द्वारा 'भृगार' उपहार भेजना तथा चिनपलव द्वारा विवाह की उद्घोषणा काल्पनिक होने पर भी स्वाभाविक है। कथा० म स्वयं गोपाल जाकर वैग्निक काम सम्पादन करता है।<sup>६</sup> नाटक म ऐसा नहीं है। जो भी हो, इतना स्पष्ट है कि प्रद्योत न अपहरण को अहचिकर होन पर भी स्वीकार कर लिया था तथा भग्नव है कि चित्रफलक द्वारा विवाहविधि सम्मत कराके इसे क्षात्रधर्मसम्मत रूप दे दिया हो।<sup>७</sup> भास द्वारा निर्दिष्ट इस घटना के मूल में पर्याप्त सत्य है कि वासवदत्ता का हरण करने के बाद प्रद्योत तथा अगारखनी न दबे दिल में विवाह की अवश्य स्वीकृति प्रदान कर दी होगी। मालती-माधव में निर्देश है कि प्रद्योत न विजित गजा उदयन के लिए स्वयं वासवदत्ता को समर्पित कर दिया था।<sup>८</sup> कथा० में भी स्पष्ट है कि

१ प्रद्योतस्य प्रिय दुहितर वरसराजोऽथ जहो॥" मेघ० इलोक ३४

२ देसो उत्तेजयानि सुहृद परिमोक्षणाय" मृच्छ० ४।२६

३. कान्ताहरति करेण्वा वासवदत्तानिवोदयन० पादताडितक १०७, पृ० ८०,

४ कथा० २।५-४।

५ देसो भा० प्रा० इति० सत्यवेतु, पृ० २३२,

६ कथा० २।६-६,

७ प्रतिज्ञा० ४।२३-२४ तथा स्वल्प० ६।११-१२,

८. वासवदत्ता च पित्रा सजपाय राते दत्तमात्मानमुव यनाय मालती-माधव, २।७,

प्रद्योत ने वासवदत्ता के अपहरण को भी घर्मं-सम्मत रूप देकर स्वीकृति प्रदान करदी थी।<sup>१</sup> लेकिन नाटक के अनुसार प्रद्योत ने यथापि इसे स्वीकार अवश्य कर लिया था, किन्तु स्त्री-जन इस कांड से सन्तुष्ट न था। यही कारण है कि भास को अंगारक्ती की आत्महत्या के प्रयास की उद्भावना करनी पड़ी<sup>२</sup>। निष्कर्पतः इतना स्पष्ट है कि वासवदत्ता तथा उदयन का विवाह ऐसी ही परिस्थितियों में हुआ था, तथा नाटक की घटनाओं से परिलक्षित योगन्धरायण की नीति की सफलता भी इतिहास-सम्मत प्रतीत होती है।

वासवदत्ता के परिणाय के बाद स्वाभाविक है कि उदयन रागरंग में डूब गया हो तथा प्रेयसी की अनुरक्ति में राज्य-कार्य तथा कर्तव्यों को भुला दैठा हो। राज्य का संचालन यथापि द्यौगन्धरायण जैसा चाराक्ष मंत्री कर रहा था तथा अवन्ति जैसे पराक्रमी राज्य से वत्स का सम्बन्ध स्थापित हो चुका था, तथापि अवन्ति तथा वत्स का आन्तरिक मनोमालिन्य और राज्य की ओर से उदयन की उपेक्षा के कारण आरुणि ने आक्रमण करके वत्स का भाग हड्डप लिया। तापस-वत्सराज नाटक के अनुसार विषयों में डूब जाने पर राज्य के प्रति अनवधानता के कारण ही पांचाल आरुणि ने वत्स का बहूत-सा भाग हस्तगत कर लिया था<sup>३</sup>। स्वप्न० में केवल आरुणि के नाम का उल्लेख है। सत्यकेतु विद्यालंकार इसे काशी का राजा मानते हैं<sup>४</sup>। उनकी मान्यता है कि काशी का राजा अहूदत था, सम्भवतः इसी को भास ने आरुणि और तिव्वती साहित्य में आदनेमि लिखा है।<sup>५</sup> नाटक से इतना ही ज्ञात होता है कि आरुणि ने राज्य का अपहरण किया, अतः उसके प्रतिकार के लिए मगध की सहायता से रुमण्वान के सेनापतित्व में उदयन ने उस पर आक्रमण किया,<sup>६</sup> तथा उसे वापिस लौटा लिया था<sup>७</sup>। तापस-वत्सराज<sup>८</sup> तथा वीरणा वासवदत्ता<sup>९</sup> के साक्ष्य द्वारा उसे पांचाल का राजा भी माना जा सकता है किन्तु वह पांचाल-राज था या काशी-राज इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कहना कठिन है। तथापि नाटकों का उल्लेख सगत प्रतीत होता है।

१. कथा० २।६।२-६,

२. प्रतिज्ञा० ४।२३-२४,

३. तापसवत्सराजः १।२,

४. सत्यकेतु० भा०प्रा० इति० पू० २३३,

५. वही, पू० २३४,

६. वही, ५।१२,

७. स्वप्न० ६।५-८,

८. तापसवत्सराज १।२,

९. वीरणा० ३।१३-१४,

पाचाल आशुनिक रहेनमह को माना जाता है। इसके दो भाग थे उत्तर पाचाल और इक्षिण पाचाल। उत्तर पाचाल की राजधानी अटिक्ष्यन थी, दक्षिण की राजधानी कापिन्य। क्योंकि पड़ोसी राजा प्राय उस समय एक दूसरे को किसी प्रभाव इव्वते की ताक में ही रहा करते थे। अत अधिक सम्भव यही है कि वासवदत्ता के साथ उदयन वा विवाह होने के पश्चात् राज्य समालत ही वस्तु के अधिक भाग के हाथ से निकल जाने से वह घोटा सा रह गया हो। वृत्तिक्या-श्तोक-सप्त्रह में इसी बारगा "मनाजनपद" लिखा है।<sup>१</sup> इस मनाजनपद होते का कारण आरणि का आक्रमण ही था। तापसवत्सराज म भी आरणि को समीप म ही आक्रमण के सन्तुष्ट निखा है।<sup>२</sup> शीतावासवदत्ता के अनुसार यह आरणि उदयन का ममान-सम्बन्ध-वंशी था।<sup>३</sup> निश्चित रूप से यद्यपि आरणि के सम्बन्ध म बुद्ध भी नहीं कहा जा सकता, तथानि दण्डुक्त साध्यों के आधार पर भास वा यह उत्तेज ऐनिहासिक प्रतीत होता है।

स्वप्नवासवदना के व्यानक की ऐतिहासिकता — न्यून० के अनुसार स्वप्न के मध्यन के मध्यन्ध में मिठो ने दो भविष्यवाणियाँ की थीं, उनमें मे एक उदयन की विपत्ति बाली मत्य हो गयी। इसी की मत्यता मे आश्वस्त हीकर तथा दूसरी भविष्यवाणी के प्रति आशान्विन हीकर योगन्धरायण पद्मावती के माथ विवाह द्वारा दण्डक की सहायता से अपहृत राज्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। तत्यालोन इनिहास से यह तो अपृष्ठ है कि उस समय जहाँ पड़ोसी राज्यों मे परम्पर समर्प होते रहते थे, वहाँ परम्पर स्वार्थ-पूर्ति के लिए तथा राजनीतिक नींव को गहरा करने के लिए वैदिक गठबन्धन भी हुआ करते थे। किन्तु नाटक म निर्दिष्ट मिठो की भविष्य-वाणी का निर्देश कल्पित है। यद्यपि वया० मे नारद जैसे मिठो की भविष्यवाणी का उल्लेख अवश्य है, पर यह ऐतिहासिक नहीं है। यह निर्देश पौराणिकता तथा शाचीत जनविश्वासों से सम्बन्धित है। इसी से ममुक्त दूसरी घटना इनिहास के भनुकूल है। बहुत न्यायाविक है कि महामात्य योगन्धरायण ने हमण्डान आदि मत्रिया के परामर्श के अनुसार अपहृत राज्य को लौटाने के लिए दण्डक के माहाय्य को प्राप्त किया होगा।

विन्तु यहाँ एक अश्वन उठ सकता है, जबकि उस समय उत्तरी भारत म भगव तथा ब्रजपति द्वेषों प्रभल राज्यों मे और उत्तराज का प्रदोत (भवन्तिराज) से सम्बन्ध स्थापित हो चुका था, तो वया कारण है कि प्रदोत की उपेक्षा करके एक

१. छ० क० इतो० सं० ४१५,

२. शापसवत्सराज १।६-८,

३. शीता वासवदत्ता० ३।१२-१३,

मुनियोजित पड़यन्त्र द्वारा मगध से सहायता ली गई। हम उपर्युक्त प्रसग में स्पष्ट कर चुके हैं कि प्रद्योत तथा उसकी पत्नी अंगारवती उदयन के अपहरण स्थान से पूर्णतः भन्तुष्ट न थे। उन्होंने केवल लोक-ब्यवहार पालन के लिए ही क्षात्र-धर्म-सम्मत मान लिया था। उधर उदयन भी स्वाभिमानी था तथा उसने प्रद्योत-पुत्री का उनकी इच्छा के विरुद्ध अपहरण किया था, अतः वह कैसे सहायता की याचना कर सकता था। स्वप्न० से यह भी स्पष्ट है कि तब तक उनमें साधारण सम्बन्ध स्थापित नहीं हुए थे।<sup>१</sup> इतना अवश्य माना जा सकता है कि वत्स को अवन्ति से यदि सहायता की आप्ता न थी, तो कोई भय भी न था। किन्तु आरुणि को पराजित करने के लिए मगध से सम्बन्ध स्थापित करना आवश्यक था, अतएव उन्हें मगध से सहायता प्राप्त करने का पड़यन्त्र करना पड़ा। अनुमानतः योगन्धरायण ने दर्शक की वहिन प्रमाणी के विवाह के लिए भी प्रस्ताव भेजा था, किन्तु दर्शक ने वासवदत्ता पर उदयन की अत्यधिक अनुरक्षित के कारण उसे प्रस्तोकार कर दिया। परन्तु मगध के सम्बन्ध के बिना वत्स का भविष्य अन्धकारमय था, अतएव उसने प्रमाणी से विवाह के लिए ग्रामदाह का कूटनीतिक प्रयोग किया।

कथा० में इस घटना का अत्यन्त अप्राकृत ढंग से उल्लेख है। वहाँ उदयन को स्त्री, मद्य एवं मृगया में लिप्त तथा राज्य-कार्य से उदासीन बतलाया गया है। उसने क्योंकि समस्त राज्य-भार मंत्रियों पर थोड़ दिया है अतः मंत्री अपने उत्तर-दायित्व के अनुसार वत्सराज के परम्परागत गौरव को पुनः स्थापित करना चाहते थे। कथा० के अनुसार इनका उद्देश्य समस्त पृथ्वी पर राज्य प्राप्त करना था।<sup>२</sup> उसके अनुसार उसका राज्य अब केवल छोटे से वत्स प्रदेश मात्र में रह गया था।<sup>३</sup> अतः वे साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के अनुसार राज्य बढ़ाने की योजना बनाते हैं। किन्तु संभाव्यता के आधार पर यह अस्वाभाविक है अतः ऐतिहासिक नहीं प्रतीत होता। भास का वर्णन अपेक्षाकृत अधिक स्वाभाविक है। भास के अनुसार “कौशाम्बी-मात्र परिपालन” ही योगन्धरायण की कूटनीति का उद्देश्य है।<sup>४</sup> यही ऐतिहासिक भी प्रतीत होता है। सम्भवतः वत्सराज्य का अधिकार भाग के हरण हो गया था अतः स्वाभाविक है कि राजधानी कौशाम्बी या उसके आसपास के प्रदेश को ही पुनः हस्तगत करने का प्रयत्न किया हो, अथवा इससे यह भी व्यनित होता है कि केवल मात्र कौशाम्बी

१. देखिये स्वप्न० ६,४,५,८,११-१२ आदि

२. कथा० ३।१।४-६

३. कथा० ३।१।-७,

४. राजा—“देव्यपनये का छुता ते चुद्धिः ।

योगन्ध०—कौशाम्बी-मात्रं परिपालयामीति । स्वप्न० ६।१८-१९,

अर्थात् वत्सराज्य वो हस्तगत करना ही उमका उद्देश्य रहा होगा। इन्तु क्योंकि प्रतिज्ञा० में उदयन को कौशाम्बीश शब्द प्रयुक्त है, अत यहाँ भी कौशाम्बी से वत्सराज्य का ग्रथ लेना अधिक ठीक होगा। हमारा अनुमान है कि स्वप्न० में कौशाम्बी मात्र परिपालन की उचित से यही घटनित होता है कि योगन्धरायण का अभिप्राय यही है कि हम दूसरे का राज्य नहीं लेना चाहते, अपितु घपना अपहृत राज्य ही पूर्ण प्राप्त करना हमारा उद्देश्य है। इसी कारण वह कौशाम्बी मात्र परिपालन की वात कहता है, इसका अभिप्राय यह नहीं है कि कौशाम्बी का भी अपहरण ही मर्या था, अन्यथा राजघानी के अपहरण होने पर तो समस्त राज्य ही चला जाना चाहिए था। स्पष्ट है कि भास का उल्लेख स्वाभाविक है।

कथा० का यह भी प्रबंध गलत उल्लेख है कि पद्मावती भगवेश्वर दर्शक की पुत्री थी।<sup>१</sup> क्यासरित्मागर के उपर्युक्त भ्रमपूर्ण उल्लेख के आधार पर कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने मनुमान किया है कि प्रदोत चण्ड महामेन का पूत्र था। इस तरह उन्हान भास के अवति-नरेण से कथा० के चण्ड महामेन का सम्बन्ध स्वापित करने की देखा भी है जो कि नितान्त अस्वाभाविक है। वास्तविकता यही है कि प्रदोत अवति-राज का वास्तविक नाम था। “चण्ड,” “महासन,” राजकीय विश्व या प्रचलित विशेषण था। ये दोनों विश्व त्रमण उप्र प्रताप तथा मना की विशालता के कारण प्रचलित हुए थे।<sup>२</sup> वस्तुत भास इतिहास के अधिक निकट है। भास के अनुसार भगवेश्वर दर्शक की वहन पद्मावती को प्राप्ति के लिए ही उसन वासवदत्ता को छिपाने वो लावाणक दाह का प्रयोग किया।<sup>३</sup> उसन यह निश्चित किया कि वासवदत्ता के देहान्त का प्रवाद यदि फैला दिया जाय तो दर्शक भी पद्मावती का विवाह करने वो तैयार हो जायगा और उदयन भी पुनर्विवाह वो तैयार हो जावेगा, इसीलिए उसन लावाणकदाह की घटना को प्रायोगिक रूप दिया। भास द्वारा वर्णित यह प्रयोग बहुत स्वाभाविक है। योगन्धरायण ने इस प्रयोग का कार्यान्वयन द्वीप सफलता से किया। भास ने नाटक में गोपालक की सक्रियता को हटाकर लोकवाद्या के दोष को दूर कर यथार्थता ला दी है। कथा० के अनुसार वसन्तक वे माथ वासवदत्ता की मृत्यु का प्रवाद फैलाया जाता है तथा वहीं योगन्धरायण राजा के भास ही पहुँच जाता है<sup>४</sup> जबकि स्वप्न० में योगन्धरायण के साथ देवी के मरण का

१ “ततश्च महामेन प्रदोतौ पितरो द्यो—” कथा०

२ देविये-प्रमण एनान्ट इ दिया। भार० के० मुकनी० पृ० ६८, स्वप्न० भ० २,  
वासवदत्ता की उत्ति, पृ० १४,

३. स्वप्न० १५-७, तथा १०-११,

४ कथा० ३।२।५६,

उल्लेख है।<sup>१</sup> संभाव्यता के श्राधार पर यही स्वाभाविक है कि वासवदत्ता के जलने के प्रवाद के बाद योगन्धरायण राजा से द्वार रहकर पड़यंत्र में संलग्न रहा होगा। अतएव भास ने ऐसी उद्भावना की है।

वासवदत्ता को तपोवन में पदमावती के पास छोड़ने की घटना अधिक स्वाभाविक प्रतीत होती है, किन्तु इतिहास इस विषय में मीन है। यह तो निश्चित है कि मगध की राजमाता उस समय जीवित रही होंगी। क्योंकि उस समय दर्शक युक्त था तथा तभी अजातशत्रु की मृत्यु हुई थी। अतः राजमाता की उपस्थिति असंभव नहीं है। भास के नाटक के अनुसार तपोवन में पदमावती के पास वासवदत्ता को न्यास रूप में रखा,<sup>२</sup> जबकि कथा० के अनुसार मागध के उपवन में।<sup>३</sup> उपवन की अपेक्षा तपोवन की कल्पना अधिक उचित, अतः सम्भाव्य है; तथापि इस समस्त घटना में काल्पनिकता अधिक है।

लावाणक-दाह तथा वासवदत्ता का मृत्यु की घटना भी ऐतिहासिक है। कथा० में भी इसका निर्देश है।<sup>४</sup> इसकी व्यवहारिकता तथा सम्भाव्यता भी स्पष्ट है, क्योंकि विना ऐसा प्रवाद फैलाये संभवतः दर्शक पदमावती का विवाह न करता और न उदयन को ही अन्य पत्नी के प्रति ध्यान देने का अवसर मिलता। इस घटना की योजना द्वारा जहाँ एक और वासवदत्ता के प्रति उदयन की अनुरक्ति-रूप विप्रतिपत्ति के दूर होने पर उसे दर्शक अपनी वहन को देने को प्रस्तुत हो जाता है, वहाँ उदयन के सामने भी अन्य पत्नी की ओर ध्यान देने का प्रसंग आ उपस्थित होता है। अतः भास इस घटना के विचास में इतिहास के अधिक निकट प्रतीत होता है। जबकि कथा० में वरणित घटना अप्राकृत सी प्रतीत होती है। भास ने इस घटना को स्वाभाविक रूप में प्रयुक्त कर उदयन के बहुपत्नीत्व को दोष के भी मिटा दिया है।

कथा० के अनुसार योगन्धरायण वासवदत्ता के पुत्री के रूप में तथा वसन्तक का "काणवटु" नामकरण करके वासवदत्ता के भाई के रूप में उसके साथ पदमावती के यहाँ विन्यस्त करता है।<sup>५</sup> जबकि भास द्वारा निर्दिष्ट घटना में वसन्तक नहीं आता।

१. स्वप्न० ११२-१३,

२. प्रतिज्ञा० १३, ६-८,

३. देखिये-भास को उदयन कथा की उपजीव्यता तथा कथा० ३।२।१५-२३,

४. कथा० ३।२।१४-१५,

५. देखिये-इसी प्रबन्ध में सांस्कृतिक दशा में बहुपत्नीत्व पर,

६. कथा० ३।२।१०-१२, १६, २३,

भाम के अनुसार योगन्धरायण वासवदत्ता को बहिन बनाता है<sup>१</sup> जबकि वथा० में पुत्री<sup>२</sup>। यद्यपि इनिहास इस विषय में भी मौन है, तथापि भाम की उपर्युक्त योजना बहुत ही स्वाभाविक है, अतश्च ऐतिहासिक भी प्रतीत होती है। एक मत्री के द्वारा राजपत्नी वो पुत्री की अपेक्षा बहिन के रूप में प्रयोग करना अधिक संगत प्रतीत होता है। पदमावती व यहाँ ही वासवदत्ता का न्यास और भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि पदमावती को ही उदयन के लिए पत्नीत्व रूप म पाना अभीष्ट है। अत दोनों के पास रहने में परस्पर परिचय तथा वामवदत्ता के पातिव्रत की पवित्रता तथा सुरक्षा एवं प्रवल-साध्य भी यहाँ सहज ही प्रस्तुत हो जाता है। भाम ने वासवदत्ता के भाई के रूप में बसन्तक का वासवदत्ता के साथ न्यासीकरण न करके, जैसा कि क्या मे है,<sup>३</sup> घटना के अचित्य को और भी बढ़ा दिया है। अन्यथा बसन्तक का भाई के रूप में न्यास करने पर पड़यश्च खुलने की अधिक समावना रहती। इसके अतिरिक्त वयस्क भाई के साथ बहिन वो न्यास रूप में रखना उचित प्रतीत नहीं होता, चाहे वह प्रोपित-पति-का भी बयो न हो। अतएव भास एकाकी प्रोपित-पतिका बहिन के रूप में वासवदत्ता का न्यास रखता है और इसी कारण भास ने योगन्धरायण की परिद्वाजक भाई के रूप म उद्भावना की है। नि सन्देह भास की कल्पना अधिक तर्कमंगत एवं स्वाभाविक है।

परिस्थितियों के मिलने पर उदयन का विवाह दर्शक की बहिन पदमावती से होता है। उदयन, क्योंकि राजहीन, मत्रिहीन तथा प्रियतमा-वियोग-परितप्त है, अत अधिक सभव है कि वह विवाहोपरान्त कुछ समय मगध ही रहा हो। स्वप्न० में भास के द्वारा चिनित स्वप्नदर्शन की महत्वपूर्ण घटना पूर्णतया काल्पनिक है, किन्तु इस नाटकीय घटना की स्वाभाविकता भी अनूठी है। पदमावती के विवाहोपरान्त दर्शक से महायता प्राप्त होने पर रमण्वान आदि मत्रियों से प्रोत्साहित होकर उदयन ने भारती पर चढ़ाई की। यह घटना ऐतिहासिक प्रतीत होती है। उदयन ने अन्त में राज्य भी प्राप्त कर लिया। नाटक के अन्त में चिन्द्रदर्शन द्वारा सम्मिलन तथा प्रद्योत, और अगारवती द्वारा सन्देश एवं उपहार भेजने प्रादि की घटना कल्पित है। इन घटनाओं के द्वारा नाटककार का उद्देश्य सुखान्त रूप देने के साथ-साथ सभी का सम्मिलन बराना था। अतः इसे और भी अधिक मान्मिक बनाने के लिए इस घटना को गढ़ा है। यदि इसमें कुछ भी सत्याश सभव है तो केवल इतना ही कि उन्होंने

१ स्वप्न ११६, ११४,

२ कथा० ३१२।२१,

३. कथा० ३।२।२१,

व्यवहारिक दृष्टि से उदयन की आरुणि पर विजय के उपलक्ष्य में विजय-सन्देश भेजा हो तथा उपहार भी। इसी प्रकार कथा० में वर्णित चरित्र-शुद्धि के लिए अग्नि-प्रवेश तथा श्राकाशवाणी आदि जैसी घटनाओं का नाटक में विनियोग न करके नाट्य-सौन्दर्य को और भी बढ़ा दिया है। कथा०-सरित-सागर में अधिकांश चित्रण अत्युक्तिमुण्ड या अस्वाभाविक प्रतीत होते हैं। जबकि भास का वास्तविक स्वाभाविक तथा ऐतिहासिक। उपर्युक्त विश्लेषण के पश्चात् हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि भास ने लोक कथा के लोकतत्व को परित्याग करके अपनी उद्भावनाओं द्वारा घटनाओं को अधिक स्वाभाविक तथा यथार्थ रूप दिया है। भास की उदयन कथा स्वाभाविक होने से ऐतिहासिक प्रतीत होती है और नाटककार ने इसमें नाटकीयता का विनियोग करके और भी अधिक सजीव, मांसल तथा प्रभावपूर्ण बना दिया है।

**दर्शक की ऐतिहासिकता—पदमावती दर्शक की वहिन थी ऐसा हम भ्रभी-प्रभी कह चुके हैं, किन्तु दर्शक की ऐतिहासिकता तथा पदमावती के दर्शक की वहिन होने के सम्बन्ध में विवाद है। कथा० में पदमावती को मगधेश्वर की पुत्री कहा है। किन्तु वहाँ मगधेश्वर प्रदोत को बताया है। यही कथा० की महावृ ऐतिहासिक त्रुटि है। हमारे विचार में पदमावती अजात-पुत्र मगधेश्वर दर्शक की वहिन थी, किन्तु इतिहासकारों ने अजातशत्रु के उत्तराधिकारी के रूप में दर्शक का उल्लेख नहीं किया है, और न मगध की राजवंशावली में ही कहीं इसका स्थान है। इसी कारण दर्शक का अस्तित्व विवादास्पद रहा है।<sup>१</sup> भास ने अपने स्वप्न० में मगधेश्वर के रूप में दर्शक का उल्लेख किया है।<sup>२</sup> बौद्ध-ग्रन्थों के अनुसार मगध का कोई दर्शक नाम का राजा नहीं हुआ। बौद्ध ग्रन्थों में मगधेश्वर अजातशत्रु तथा उसके पुत्र उदायिन्द्र (उदयाश्व) का ही उल्लेख है।<sup>३</sup> अधिकांश इतिहास-लेखक भी अजातशत्रु की उदयन तथा प्रदोत का समकालीन तथा उदायिन्द्र को अजातशत्रु का पुत्र मानते हैं।<sup>४</sup> पुराणों में इसका दर्शक, वर्षक दर्शक के रूप में उल्लेख अवश्य प्राप्त है। पुराणों में दर्शक को अजातशत्रु**

१. कथा० ३।१।१६-२०

२. पौलिटिकल हिस्ट्री आफ एन्शन्ट इंडिया, राय चौधरी, पृ० २१५,

३. स्वप्न० १।५-६, ५।११-१२,

४. कैम्बिज हिस्ट्री आफ एन्शन्ट इंडिया, वाल्यूम १, रैप्सन: पृ० १६४, पानि-टिकल हिस्ट्री आफ एन्शन्ट इंडिया, पृ० २१६, दि एज़ आफ इम्पीरियल पूनिटी, पृ० २६, आदि

५. अहीं, तथा दि वैदिक एज वाल्यूम १, पृ० ३२१, तथा दि मगधाज इन एन्शेन्ट इंडिया, पृ० १२,

का उत्तराधिकारी कहा है।<sup>१</sup> सभवत कथा० मे दर्शक का सिंह वर्मा के नाम से उल्लेख किया है।<sup>२</sup> वयोंकि वहाँ पदमावती का भाई दर्शक न लिख कर सिंह वर्मा निबाहा है जिन्तु कथा० मे वासवदत्ता तथा पदमावती का क्रमशः पिता चडमहासेन तथा मगधनरेश प्रद्योत को वहा है।<sup>३</sup> जबकि बस्तुत प्रद्योत ही अवन्तिराज है। यह कथा० की महान् ऐतिहासिक भूल है। महावश मे एक नागदासक राजा का उल्लेख है।<sup>४</sup> कुछ इतिहासकार नागदासक से, जिसका समय ४६७-४७१ ई० पू० माना जाता है, पुराणा तथा भास के नाटकों मे उल्लिखित दर्शक भी साम्य स्वीकार करते हैं।<sup>५</sup> किन्तु बौद्धों के साध्य के आधार पर पुराणों के साध्य की अवहेलना नहीं की जा सकती। बौद्ध साहित्य मे भी अनेक विषयंष्य हैं जो कि पुराणों मे ठीक मिलते हैं। जैसे अशोक के पौत्र दशरथ का बौद्ध साहित्य मे उल्लेख नहीं है। यद्यपि बायु० तथा मायस्य पुराण से अशोक के पौत्र दशरथ का पता चलता था, तथापि प्राय विद्वान् बौद्ध साध्य के अभाव के कारण पुराणों के साध्य की अवहेलना करते थे, किन्तु नागार्जुनी गुफान्तेख से दशरथ के अन्तित्व तथा ऐतिहासिकता की पुष्टि हुई है और विद्वान् अब दशरथ को ऐतिहासिक मानने लगे हैं। अत केवल बौद्ध साहित्य के आधार पर पुराणों के साध्य को निरस्तृत तथा अस्वीकृत करना उचित प्रतीत नहीं होता है। और जब कि पुराणों के दर्शक की पुष्टि मे भास का साध्य उपलब्ध हो गया है, किन्तु नागदासक की पुष्टि का कोई अन्यत्र उल्लेख नहीं है, तब दर्शक की ऐतिहासिकता मे सदैह करना सर्वथा अस्वाभाविक है।

भास के दर्शक के उल्लेख के आधार पर पौराणिक राजवशावली का अनुसंधान करने वे बाद आधुनिक इतिहासकारों का मत बदला है और स्वप्न० के साध्य प्राप्त होने पर वह मानने लगे हैं कि दर्शक ऐतिहासिक व्यक्ति है।<sup>६</sup> इस प्रकार दर्शक

१. पुराण टैक्सट आफ दि डायनेस्टीज आफ कलि-एज० पाजिंटर पू० ६७-६,

२. कथा० ३१५५८

३. ३१११६-२०, ६१५६६

४. देखिए, प्रा०भा० इति०, त्रिपाटी पू० ८४, भा०ब० इति०, भगवद्गत पू० २५३,

५. घही, तथा एन्सोन्ट इ डिया, मुकज्जी पू० १०५, दि एज आफ इन्पोरियल यूनिटो,

६. पू० २६, तथा दि भगवाज इन एन्सोन्ट इ डिया, पू० १२

७. यद्यपि प्राय दर्शक की ऐतिहासिकता को माना जाने लगा है तथापि कुछ विद्वान् दर्शक को अजात० का उत्तराधिकारी होने में सन्देह करते हैं। डा० सत्यकेन्द्र विद्यालंकार बडा लड़का दर्शक तथा छोटा भजातशनु मानते हैं। देखिये, भा० प्रा० इति सत्यकेन्द्र पू० २२१-१२३,

की ऐतिहासिकता प्रमाणित करने वाला अन्यतम साक्ष्य भास का स्वप्न० नाटक है । इसी के आधार पर विद्वानों की शोध को बल मिला है तथा इसी आधार पर उसे ऐतिहासिक मान लिया गया है । प्रसिद्ध इतिहासकार रायचौधरी दर्शक को ऐतिहासिक अवश्य मानते हैं किन्तु उसे मांडलिक राजा मानते हैं ।<sup>१</sup> डॉक्टर भार्गव ने पौराणिक शोध के आधार पर प्राचीन भारत की वंशावलियों का संशोधन करते हुए दर्शक को अजात का उत्तराधिकारी स्वीकार किया है ।<sup>२</sup> विसेन्टस्मिथ ने भी “गीगर” तथा “याकोबी” की दर्शक-विरोधी धारणाओं को भान्त ठहराते हुए दर्शक को ही अजात का उत्तराधिकारी स्वीकार किया है ।<sup>३</sup> वास्तव में भास के साक्ष्य ने दर्शक की ऐतिहासिकता तथा स्थान क्रम को प्रामाणिकता प्रदान कर इतिहास की अगुद्ध परम्परा का संशोधन किया है । भास के साक्ष्य के आधार पर ही स्मिथ ने पौराणिक उल्लेख प्राप्त दर्शक को अजातशत्रु का उत्तराधिकारी मानकर बोद्ध वंशावली को गलत सिद्ध किया है ।<sup>४</sup>

किन्तु भास के साक्ष्य ने दर्शक की ऐतिहासिकता को ही प्रमाणित नहीं किया, अपितु अजात, प्रद्योत तथा उदयन की समकालीनता के सम्बन्ध में चली आ रही परम्परा में भी संशोधन किया है और अब भास के साक्ष्य के आधार पर प्रद्योत, उदयन तथा दर्शक की भी समकालीनता प्रमाणित हो गई है । मामान्यतः चीन के कैटन नगर के विन्दू चिन्हित आलेख को प्रामाणिक मानकर बोद्ध निर्वाण ४८६ ईस्वी पूर्व में माना जाता है ।<sup>५</sup> बुद्ध निर्वाण अजात के राज्यारोहण के द वर्ष बाद हुआ । भ्रतः अजात का समय ४६६-४६६ ईस्वी पूर्व हुआ ।<sup>६</sup> पुराणों के अनुसार अजात ने

१. पॉलिटीकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, रायचौधरी, पृ० २१६,
२. इंडिया इन दि वैदिक ऐज, डा० पी.एल. भार्गव, पृ० १२६,
३. अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्मिथ पृ० ३८-३६,
४. वही,
५. विद्वानों में बोद्ध निर्वाण के सम्बन्ध में मतभेद है । पतीऽ तथा जाहूगर ४८३ ई० पू० मानते हैं ( भा० प्रा० इति० पृ० ३१६ ) स्मिथ ४४३ ई० पू० ४८३ मानते हैं । विशेष देखो प्रा० लि० माला, पृ० १६४, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पृ० ४६-५० आदि,
६. इन तियियों के सम्बन्ध में भी इतिहासकारों में मतभेद है—स्मिथ विम्बसार का समय ५८१ ई० पू०, अजात का ५४४ ई० पू० तथा दर्शक का ५२७ ई० पू० मानते हैं ( अर्ली हिंदू इंडिया, पृ० ४८, ५१ ), त्रिपात्री विम्बसार का ५४३ ई० पू०, अजात का ४६१ ई० पू० उल्लेख करते हैं ( प्रा० भा० इति० पृ० ३४ ) सत्यकेतु, ४८८ ई० पू०-४५६ मानते हैं ( भा० प्रा० इति० पृ० २२८ )

२६ वर्षे राज्य किया, बाद मे दशंक राज्य पर बैठा और उसने २४ वर्षे राज्य किया। अत इन इतिहासकारों के अनुसार दशंक का समय ४६६ ईस्वी पूर्वे—४४४ ईस्वी पूर्वे था।

अन्त मे, भास के नाटकों के ग्रनुशीलन से यह धारणा मगत प्रतीत होती है कि नाटककार ने अपनी नाट्यकला को जनप्रिय लोककथा आदि से चुना है। उपर्युक्त ऐतिहासिक समीक्षण से यह भी प्रकट हो जाता है कि भास की उदयन-कथा निरी लोककथा (गल्पमात्र) ही नहीं है अगतु उसकी लोककथा वा ऐतिहासिक आधार है। भास ने अपने नाटकों मे ऐतिहासिकता का पूरा-पूरा निर्वाह किया है। यतनन नाट्यकला की दृष्टि से उदयन का विनियोग तथा उद्धीन उद्भासनां भी की है, विन्तु वे भी पूर्णतः स्वाभाविक तथा सम्भान्यता के आधार पर विन्यस्त हैं। भास की उदयन कथा सबधी कुछ भी निवारक सूक्ष्म निर्देशों की ऐतिहासिकता मे यह भी उपष्ट होता है कि निश्चित रूप से भास उदयन-कथा का बहुज्ञ तथा उदयन के अनिवार्य रहा होगा।

**भास के ऐतिहासिक नाटकों की नाट्यकला**—भास नि मन्देह एक उत्कृष्ट काटककार थे। उन्होन नाट्य-ग्रन्ति वर्षते हुए वस्तु-चयन तथा नाट्यजिल्प द्वी प्रविष्टा तथा विद्याधीता द्वारा सौलिक प्रतिभा का परिचय दिया है। यद्यपि भास के सभी नाटक अपनी अपनी विशेषता रखते हैं, तथापि उनमे समस्त नाटकों मे ग्रालोभ्य ऐतिहासिक नाटको प्रतिज्ञा० तथा स्वप्न० का घोषकाङ्क्षा घधिक महत्व है। संस्कृत नाट्य जगत मे भास की भमधिक प्रतिष्ठा के दारण मुख्यत उनके स्वप्न० तथा प्रतिज्ञा० ही है। इन दोनों मे भास ने जिस नाट्यकृणना वा परिचय दिया है वह अन्यथ उपलब्ध नहीं है। उदयन सम्बन्धी इन दोनों नाटकों मे कथा-विन्याम, नाट्य-गिल्प, काव्य-सौन्दर्य तथा रमनिर्वाह आदि की दृष्टि से भास की प्रतिभा पूर्ण रूप मे अभिन्नता हो उठी है। सगल तथा सीधी सादी लोक-कथा को यही सजा सेवार कर मानव जीवन की युग्मीता सहज अनुभूतियों को संजोकर, अन्यधिक सफलता के गाय नाट्यरूप मे अभिन्नजित किया है। यही बारगृह है कि प्राच्य पारंधार्य सभी सभासौचको ने एक स्वर से दोनों प्रतिज्ञा० एव स्वप्न० दो भास की सफलतम तथा सर्वश्रेष्ठ रचना स्वीकार किया है।

**प्रतिज्ञायीगन्धरायण की वस्तु-प्रोजना तथा घरित्र-चित्रण** :—प्रतिज्ञा० का कथानक उदयन-कथा के एक विशेष प्रकार के राजनीतिक पक्ष को लेकर अभिमृष्ट हुआ है। इसमे योगन्धरायण के युद्ध-नीशल से उदयन के द्वारा वासवदत्ता के अपहरण की घटना वर्णित है। नाटक के नाम से जैसा कि स्पष्ट है, समस्त घटनाओं का सचालन योगन्धरायण ही करता है। वही महारेण के बन्दीगृह से उदयन को

मुक्त करने तथा साथ में वासवदत्ता के अपहरण की प्रतिक्रिया की पूर्ति के लिए प्रारम्भ से अन्त तक सर्वाधिक सक्रिय रहता है। नाटक के मुन्य पात्र उदयन तथा वासवदत्ता का नाटक में सर्वंत्र केवल नाम ही सुनाई पड़ना है, मंच पर दर्शन तक नहीं होते। इसी कारण कुछ विद्वानों ने भास की आलोचना भी की है। आपाततः यह भास की त्रुटि ग्रवण्य प्रतीत होती है, किन्तु गभीरता से यदि विचार करें तो यह दोष नहीं, अपितु भास की विशेष नाट्यकुशलता का ही सूचक है। वास्तव में भास ने इस प्रकार वीर वस्तुयोजना करके एक प्रकार से “नाट्यद्वन्द्व” का सफल प्रयोग किया है। न्योंकि भास ने उदयन तथा वासवदत्ता को मंच पर न प्रदर्शित करके भी अपनी नाट्यकुशलता द्वारा दर्शकों को कभी भी दोनों के अभाव का आभास नहीं होने दिया है, अपितु दर्शक अपने को सदैव उदयन तथा वासवदत्ता के निकट ही पाता है। यौगन्धरायण की सक्रियता नाटक पर इतनी छा गयी है कि दर्शकों को अन्य छोटी-छोटी त्रुटियों का ध्यान तक नहीं रहता।

नाटक की समस्त संयोजना तथा कार्यान्वयिति इस प्रकार की है कि प्रत्येक चरित्र अपने आप उभरते चले गए हैं। समस्त घटनाचक्र पर यौगन्धरायण का ही एकाधिकार है। उदयन तथा वासवदत्ता का चरित्र अप्रत्यक्ष रूप में ही चित्रित है। भरतरोहक का चरित्र भी उसके सामने फीका है। महासेन का चरित्र अरेक्षाकृत कुछ निखरा हुआ है। महासेन के चरित्र में उदारता, गुणज्ञता, आदि के अतिरिक्त ईर्प्या, प्रतिद्वेष, स्वार्थपरता आदि मानवसुलभ भावनाओं का भी सुन्दर चित्रण किया है। सामान्यतः भास पुरुष तथा स्त्री वर्ग के व्यष्टिगत मनोवैगों तथा चित्रवृत्ति के चित्रण में पदु है। स्त्री-पुरुष के चरित्र के सूक्ष्म पारखी भास ने प्रसंगतः मानवगत सभी गुण-दोषों का यथास्थान चित्रण किया है, तथापि प्रतिज्ञा० एक राजनीतिक एवं पुरुष प्रधान नाटक है, और उन सबमें यौगन्धरायण ही एक प्रमुख पात्र है। वह सभी चरित्रों का अतिक्रमण कर गया है। नाटक में यौगन्धरायण की नीति तथा बुद्धिकुशलता ही प्रत्येक कार्यकलाप में प्रकट होती है। वह अपनी चतुरता द्वारा उदयन को महासेन के बंदीगृह से मुक्त कराने तथा वासवदत्ता के परिणाय कराने में सफल होता है। प्रतिज्ञा० में चित्रित यौगन्धरायण का चरित्र अत्यधिक प्रभावशाली तथा व्यक्तिगत आकर्षक है।<sup>१</sup> विशेषतः यौगन्धरायण की स्वामिभक्ति, साहस, कर्तव्यपरायण का चित्रण भास ने अत्यधिक सफलता से किया है। नाटक में चित्रित यौगन्धरायण अपनी चारित्रिक उत्कृष्टताओं के कारण आदर्श-मन्त्री के रूप में सामने आता है, जो कि अपने स्वामी के लिए सर्वस्व वलिदान करने तक को सदैव उदयत रहता है। यही नहीं, बल्कि यौगन्धरायण एक सेवक की इष्टि से स्वामी के

लिए जोवन भर कर्ट सहना ही थे यस्कर मानता है।<sup>१</sup> योगन्धरायण का चरित्र भास ने इतना ऊंचा उठा दिया है कि प्रतिपक्षी भरतरोहक को भी उसमी नीति की प्रशंसा करनी पड़ती है।<sup>२</sup> भरतरोहक ने शब्दों में वह "राज्य व्यवहार का साधारणता"<sup>३</sup> है।<sup>४</sup> न केवल नीति ही, बल्कि वीरता, साहसा, पुष्पार्थ आदि सभी गुण उसके चरित्र में पूर्णत रूपे हुए हैं। वर्णव्य के लिए वह जो कुछ भवित है सभी कुछ करता है।। यही कारण है कि स्वामी जो भी उसके प्रति उत्तम होना पड़ा है।<sup>५</sup> जिस सेवक के प्रति स्वामी भी कृतज्ञ हो वह सेवक नि सन्देह महान् है।

प्रतिज्ञा० में मुद्राराक्षस के समान ही नायक की समस्या उठ सकती है। किन्तु, प्रतिज्ञा० में मुद्राराक्षस के चन्द्रगुप्त के समान उदयन का चरित्र अपना स्वतंत्र रूप तथा अस्तित्व लेकर नहीं जाता है। प्रतिज्ञा० में वास्तव में ऐसा योई प्रबल कारण नहीं दीख पड़ता जिसके कारण उदयन को नायक माना जा सके। स्पष्टत प्रतिज्ञा० का नायक योगन्धरायण है। यही कारण है कि समस्त नाटक का अध्ययन इसी हृष्टि से करना पड़ता है।

भास ने प्रतिज्ञा० वा नाट्यविधान भौलिक रूप से किया है। समस्त नाटकीय घटना का विकास भवियों के बीच होता है। मुख्यत इसमें दो भवियों का नीति युद्ध ही मुख्य घटना है जिसको बेन्द्र मानव र सप्तिष्ठ रूप से अन्य घटनाओं का विन्यास हुआ है। इस हृष्टि से प्रतिज्ञा० एवं राजनीतिक नाटक है। किन्तु यह राजनीतिक वातावरण से ओन-प्रोत होते हुए भी मुद्राराक्षस के समान विशुद्ध राजनीतिक नहीं है। डा० व्यास के शब्दों में यह प्रणायन्कथा पर आधारित रत्नवासी के रोमानी वातावरण में अभिमृष्ट ऐसा नाटक है, जिसका समस्त घटना-विन्यास रोमानी तथा राजनीतिक तात्त्वेवानों से हुआ है,<sup>६</sup> किन्तु हमारी मान्यता है कि यहाँ प्रणायन्कथा वा विनियोग केवल सूत्र रूप में या रेखा-चित्र बनाने के लिए हुआ है। उम रेखा-चित्र में रंग भरने वा काम तथा नाटक की सूत्रात्मक घटनाओं की मासलता का आविभाव वास्तव में राजनीतिक कथा के द्वारा ही हुआ है। यहाँ प्रणायन्कथा तो केवल पृष्ठभूमि के रूप में ही है, इसमें अधिक अवसर उसे यहाँ नहीं है। यही कारण है कि नाटक में मुख्य रस चीर है, अत शुगार और हास्य के प्रधोप से वह किंचित्

१ प्रतिज्ञा० ३।७-८,

२ वही, ४।१४-१६,

३ वही ४।१८-१९,

४. स्वप्न० ६।१८,

५. स० छ० दानं, डा० व्यास, पृ० २४०,

धुंधला ही पड़ गया है। वैसे भी नाटक में गति है, नाट्यप्रभाव है तथा वीरता के सर्वं दर्शन होते हैं।<sup>१</sup> अविकांश में अन्य रसों का प्रासादिक विनियोग सुहचिपूर्ण है। सुन्दर हास्य, व्यंग का पुट अपनी विशेषता रखता है। विशेष रूप से तृतीय तथा चतुर्थ अंकों में जहाँ उन्मत्तक, अमण्डक, गाव्रसेवक आदि के माध्यम से सुन्दर हास्य की सृष्टि की है, कीय ने उसकी भूर्ति-भूर्ति प्रशंसा की है।<sup>२</sup>

विद्वान् समालोचक-कीय ने चतुर्थ अंक के सुरागीत<sup>३</sup> को भी सराहा है।<sup>४</sup> इसी प्रकार प्रतिज्ञा० के अंत में अंगारवती के आत्महत्या के प्रयास का दृश्य मनोवैज्ञानिकता तथा यथार्थवादिता की दृष्टि से प्रशंसनीय है। ये दृश्य कीय जैसे पाश्चात्यों को विशेष प्रिय है।<sup>५</sup>

प्रतिज्ञा० के प्रारम्भ में भास ने स्थापना की योजना करते हुए इसे प्रकरण कहा है “वयमपि प्रकरणमारभामहे”। प्रतिज्ञा० की समाप्ति पर नाटिका का उल्लेख है—“इति प्रतिज्ञा नाटिकावसिता”। इन दोनों उल्लेखों से इतना तो स्पष्ट है कि भास ने प्रतिज्ञा० का सृजन नाटक के रूप में नहीं किया है। किन्तु, इन दो भिन्न-भिन्न उल्लेखों के कारण यह भी निश्चय करना आवश्यक है कि वास्तव में यह नाटिका है या प्रकरण ?

दश-रूपक के अनुसार नाटिका के लिए सामान्यतः कथावस्तु प्रकरण के समान कविकल्पित तथा लोकसंश्रित होती है। नायक नाटक के समान प्रख्यातवंशी, पर धीरलित, अंगीरस-शृंगार, स्त्री पात्रों की प्रधानता तथा अंक चार होते हैं।<sup>६</sup> प्रतिज्ञा० में ४ अंकों के अतिरिक्त नाटिका का एक भी लक्षण घटित नहीं होता है, न स्त्री पात्रों की प्रधानता है, न अंगीरस शृंगार है, न नायक प्रख्यात-वंशी धीर-लित है, वल्कि यह पुरुष-प्रधान, वीरस का नायक है जिसका नाटक यौगन्धरायण है। अतः इसे नाटिका कथमपि नहीं कहा जा सकता है।

**वस्तुतः** भास ने प्रतिज्ञा० की रचना प्रकरण मानकर की है न कि नाटिका के रूप में। दशरूपक के अनुसार प्रकरण के लिए यह आवश्यक है कि उसका इति-वृत्त उत्पाद तथा लोक-संश्रय हो। नायक ज्ञाहण्या या वैश्य, जो कि धीर-प्रशान्त,

१. संस्कृत ड्रामा : कीय, पृ० १०७,
२. संस्कृत ड्रामा, पृ० १०८,
३. प्रतिज्ञा० ४।१.
४. संस्कृत ड्रामा, पृ० १०८,
५. वही, पृ० १११,
६. दशरूपक, ३।४३-४७,

विघ्नसकुल, धर्मार्थ काम में तत्पर हो। अन्य विद्यान नाटक के ही अनुसार होता है<sup>१</sup>। प्रतिज्ञा० का नायक योगन्धरायण है जो कि प्रकरण के लक्षण के अनुसार धीर-प्रशान्त, विघ्नसकुल तथा स्वधर्म में तत्पर है। अत यह निश्चित रूप से प्रकरण ही ग्रात होता है। चार अक होने के कारण कुछ लोग भ्रवश्य नाटिका के पथ का समर्थन करते बीचेष्टा कर सकते हैं, किन्तु अ कादि का विधान धार्य वस्तु है, अत उसका इतना महत्व नहीं जितना नायक का। नायक की हटिट से ही मुख्यत रूपकी का विश्वनयण किया जाता है। भास के प्रतिज्ञा० में नायक प्रकरण लक्षण-सम्मत है। अत इस प्रकरण मानने में विचिकित्सा नहीं होनी चाहिए।

इसने अनिरिक्त स्थापना नाटक के बलेवर वा ही अश होता है। भास ने स्थापना में प्रतिज्ञा० को प्रकरण कहा है, जबकि प्रतिज्ञा० के अंत में समाप्ति पर नाटिका लिय दिया है। अत प्रतिज्ञा० के अन्त का उल्लेख भास का न होकर सभवत विसी लिपिचार आदि का है, जबकि स्थापना का उल्लेख स्वयं भास का। इससे भी स्पष्ट है कि भास की मान्यता के अनुसार भी प्रतिज्ञायोगन्धरायण प्रकरण है।

श्री बनर्जी शास्त्री ने प्रतिज्ञा० को ईहामृग स्वीकार किया है।<sup>२</sup> दग्धरूपक के अनुसार ईहामृग में भिश्रित कथावस्तु, तीन सधियों से मुक्त ४ अक, नर नायक तथा देवता प्रतिनायक होता है। ये दोनों क्रमशः इतिहास प्रसिद्ध तथा धीरोदात होते हैं। प्रतिनायक दिव्य-स्त्री की इच्छा के विरुद्ध अपहरण करने वाला होता है। शुगार रम का चित्रण होता है। नायक-प्रतिनायक म युद्ध की परिस्थिति पैदा करके भी विसी व्याज से निवारण किया जाता है। वध की परिस्थिति होने पर भी वध नहीं कराया जाता।<sup>३</sup> यदि दग्धरूपकोत्त इन लक्षणों को प्रतिज्ञा० में घटित करें तो चार अक का अस्तित्व ही ईहामृग के पथ में आता है अन्य कोई भी लक्षण प्रतिज्ञा० में अटित नहीं होता है। अत हम प्रतिज्ञा० को ईहामृग नहीं मान सकते।

वास्तविकता यही है कि भास ने ब्राह्मण भ्रती योगन्धरायण के नायक के रूप में अवतारणा करके प्रकरण के रूप में अभिसृष्ट किया है, और उसी अपने नाट्य-विधान के समारम्भ की योजना के अनुस्पष्ट प्रारम्भ में प्रकरण के रूप में सकेत भी दिया है। अत प्रतिज्ञा० को प्रकरण ही मानना उचित है नकि नाटिका या ईहामृग कादि।

१. दशरूपक, ३।३६-४२,

२. देखो : दि एक्सेज एस्क्रिप्ट टू भास०, पृ० ४८, तथा जे. पी. श्री भार. एस. मार्च १९२३, पृ० ४४-११३,

३. दशरूपक ३।७२-७३,

प्रतिज्ञा० का रूप-विधान मौलिक होने पर भी नाट्यकला की दृष्टि से पूर्ण सफल है। भास के प्रतिज्ञा० की सर्वाधिक विशेषता उसकी नाटकीयता, प्रभावात्मकता तथा अन्तर्दृढ़ का सम्यक्-निर्वाह है जो कि अन्य नाटकों में नहीं मिलता। प्रतिज्ञा० ही भास की एक मात्र ऐसी नाट्यकृति है, जिसमें कार्यान्विति की अपूर्व सफलता के कारण वस्तु संयोजना में किंचिदपि शिथिलता नहीं आ पाई है। इसकी दूसरी प्रमुख विशेषता है—तत्कालीन राजकीय समाज के यथार्थ चित्रण की चेष्टा। यह नाटक केवन-मात्र आदर्शों की भावना पर आधारित न होकर पूर्णतः यथार्थवादी है। समाज की कमजोरियों का भी इसमें यथास्थान चित्रण है। वास्तविकता तो यह है कि राजनीतिक तथा वीर रस की दृष्टि से एक और यह मुद्राराक्षस जैसे नाटकों का प्रेरक रहा है तो दूसरी ओर समाज के यथार्थ चित्रण की दृष्टि से मृच्छकटिक को भी इससे अवश्य प्रेरणा मिली है। समग्र-रूप में प्रतिज्ञा० में मुद्राराक्षस तथा मृच्छकटिक दोनों की विशेषताएं एकत्र उपलब्ध होती हैं। इन सबके साथ न तो यह मुद्राराक्षस के समान जटिल है, न मृच्छकटिक के समान विस्तृत ही। रंग-मंचीयता इसका प्रधान गुण है। न तो इसमें कहीं वस्तु की जटिलता ही है और न विस्तार (फैलाव) ही। वर्णन तथा काव्यात्मकता का भी प्राचुर्य नहीं है। छोटे-छोटे वाक्यों द्वारा कथानक को गतिशील बनाया गया है। भाषा चुस्त तथा संवाद मार्यिक हैं। पात्रों के अनुसार ही भाषा प्रयोग निया है। तृतीय चतुर्थ अंक इसी बात के साक्षी हैं कि भास में विविधता के निर्वाह की विद्यगता है। निष्कर्षतः अभिनय-कला की दृष्टि से प्रतिज्ञा० पूर्णतः सफल नाट्यकृति है।

यद्यपि यह स्पष्ट है कि प्रतिज्ञा० में वस्तु-योजना, चरित्र-चित्रण तथा नाट्यकला की दृष्टि से अनेक विशेषताएँ हैं, तथापि त्रुटियों का पूर्णतः अभाव हो तथा यह निर्दोष कृति हो—ऐसी बात नहीं है। भासह ने प्रतिज्ञा० में कृत्रिम हाथी के छल से वत्सराज के निग्रह की योजना को दोषपूर्ण माना है।<sup>१</sup> वत्सराज जबकि हस्तिविद्या में कुशल था, तो कृत्रिम हाथी के छल से बन्दी बनाने की कल्पना को स्वाभाविक नहीं कहा जा सकता है। इसी प्रकार वंदी हो जाने पर पहले तो महासेन द्वारा आदराभिव्यक्ति, (आदर की भावना), किन्तु बाद में निष्कारण ही शूलवालवद्ध दिखलाना भी दोषपूर्ण माना गया है।<sup>२</sup> किन्तु वास्तविकता यही है कि ये दोष भी आपाततः एवं दोष प्रतीत होते हैं। उदयन हस्तिविद्या में निपुण अवश्य था किन्तु उसे तो कृत्रिम हस्ति में संस्थापित सैनिकों द्वारा पकड़ा गया था। अतः नाटक की इस घटना पर दोषारोपण सर्वथा निराधार है। वास्तविकता तो यह हैं कि भास का

१. भासहालंकार, ४। ३५-४१,

२. सं० क० दर्शन, पृ० २४०,

हृषिम-हस्ति का हृथ नाटक में अपनी उत्कृष्टता रखता है। इसी कारण विद्वानों ने इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है। किन्तु नाटक में उदयन वा कुमार-विधि से सत्त्वार वा आदेश<sup>१</sup> वर्ण प्रतिकर्मसंपादन<sup>२</sup> तथा जिक्षाव के रूप में नियुक्ति आदि से उपर्युक्त है कि उसे समादर गूबंड मुक्त कर दिया था; तथापि वार्त में अकारण ही बन्धनस्थ दिलाना<sup>३</sup> कुछ अस्वाभाविक प्रतीत होता है। यद्यपि नाटक में अन्त तक उदयन वो शब्द रूप में ही चित्रित किया है,<sup>४</sup> अत बहुत सम्भव है कि उसे नज़रबदी के रूप में ही मुक्त किया हो। अतएव नाटक में बन्धनस्थ रूप में तो निर्देश है किन्तु शब्दत शूलावद वही नहीं लिखा है।<sup>५</sup> इसके अतिरिक्त लोकव्याप्ति में ऐसा प्रचलित होगा, अत इसे दोष-पक्ष में नहीं मानना चाहिए।<sup>६</sup>

स्वप्नबासवदत्ता की वस्तुयोजना तथा चरित्र-चित्रण—स्वप्न<sup>०</sup> प्रतिज्ञा<sup>०</sup> से भी अधिक उत्कृष्ट तथा सफल नाटक है। यह विशुद्ध रूप से प्रेमकथा पर आधारित है, इसमें लोकप्रिय स्थात वथानक को मौलिक आधार पर प्रदर्शित किया गया है। इसमें वामवदत्ता की मृत्यु का प्रवाद फैलाकर पद्मावती के विवाह द्वारा मगध की सहायता से अपहृत-राज्य की प्राप्ति का कथानक है। स्वप्न<sup>०</sup> का समग्र वस्तुविधान बहुत ही स्वाभाविक है तथापि इसकी सर्वप्रमुख विशेषता चरित्र-चित्रण की है। भास ने इसमें नाटकीयता, कार्यों की प्रभावात्मकता, घटनाओं की कार्यान्विति तथा व्यापार-ग्निति वा सफल निर्वाह किया है। समस्त नाटक एक प्रकार की भावावेशन से परिपूर्ण है। स्वप्न<sup>०</sup> में भास की अभिव्यजना शक्ति सर्वाधिक मुग्रर हो उठी है।

उदयन तथा वासवदत्ता का चरित्र अत्यधिक भावनापूर्ण है। उदयन यही अन्य उदयन नाटकों के समान ललित ही नहीं हैं, प्रतिनु दक्षिण तथा धीरोदत्त नायन है। यह रोमान्टिक प्रेमी है पर शूर भी है। प्रद्योत के दो शब्दों में वह दीर-मानी है।<sup>७</sup> स्वप्न<sup>०</sup> का उदयन एक ऐसा आदर्श पति है जो मृत वासवदत्ता को भी मुना नहीं पाता। ब्रह्मचारी की उक्ति से तथा घोषवती के प्रति प्रेमाभिव्यक्ति से

१. प्रतिज्ञा० २१६-१०,
२. वही, २११३-१४,
३. वही, ५१५-९,
४. वही, २१६-१०, में दो बार शब्द कहा है।
५. वही, ३१६ में निगदस्वन शब्द अवश्य है, पर प्रत्यक्षत बन्धनस्थ वही नहीं लिखा है।
६. स० क० दर्शन, पृ० २४०,
७. प्रतिज्ञा० २११३-१४,

स्पष्ट है कि उदयन एक सहृदय गुणज्ञ-पति है। वासवदत्ता के अभाव में वह पदमावती को स्वीकार अवश्य करता है किन्तु वासवदत्ता के प्रेम से उसका हृदय अभिभूत है, तथापि पदमावती को भी अपना सहज स्नेह देता है। वह समानधर्मी है। पदमावती को कभी भी मनोव्यवहा का अनुभव नहीं होने देता। यहाँ तक कि विदूपक के पूछने पर भी व्यक्त नहीं करता। पदमावती को भी उसके गुरुणों पर अनुरक्ति है। वासवदत्ता के प्रति उदयन के प्रेम की वह स्वयं प्रशंसा करती है।<sup>१</sup> उदयन के चरित्र से तथा व्यवहार से दोनों ही पदमावती तथा वासवदत्ता सतुष्ट है। यही उसके चरित्र की विशेषता है। वासवदत्ता आदर्श में उदयन से भी आगे बढ़ गयी है। पति के लिए वह स्वयं जलने के वहाने दूर हो जाती है और यहाँ तक कि दूसरे विवाह की स्वीकृति दे देती है। यही नहीं, अपितु वह पदमावती के साथ कभी कभी ईर्ष्यालुता-पूरण सप्तनी का व्यवहार नहीं करती। भास ने वासवदत्ता की महरी उदारता, अपूर्वत्याग, अनन्य-पति-परायणता, तथा कर्तव्यपरायणता का जैसा आदर्श रूप चिह्नित किया है, समस्त संस्कृत साहित्य में अपनी प्रकार का वह केवल एक ही है। वासवदत्ता के चरित्र से नाटक अत्यधिक भावना प्रधान, बन गया है। वास्तविकता यह है कि नाटक के आदि से अन्त तक उदयन ही केवल वासवदत्ता को नहीं भूला पाता, अपितु पाठक तथा दर्शक भी एक बार वासवदत्ता के सम्पर्क में आने पर उसे भूलने में समर्थ नहीं होते।

पदमावती का चरित्र भी अपने प्रकार का एक है। विदूपक के शब्दों में पदमावती तरली, दर्शनीया, अकोपना, अनहंकारा, मधुरवाक्, सदाक्षिण्या तथा परिजनश्लाघ्या हैं।<sup>२</sup> वह इतनी विनम्र भी है कि अन्त में वासवदत्ता से क्षमा तक माँगती है।<sup>३</sup> निःसन्देह पदमावती तथा वासवदत्ता दोनों का चरित्र अपने-अपने क्षेत्र में इतना आदर्श तथा उत्कृष्ट है कि यह निर्णय करना कठिन है कि दोनों में कौन उत्कृष्टतर है। एक और उदयन पदमावती के रूप, सौन्दर्य तथा गुणवत्ता का वर्णन करता नहीं अधाता<sup>४</sup> और उसके रूप, शील, माधुर्य को मान भी देता है, तथापि उसका मन वासवदत्ता में ही बंधा हुआ है।<sup>५</sup> वह दोनों को मान देता है पर एक के प्रति भी उदासीन नहीं होता है।<sup>६</sup> इसी तरह विदूपक भी दोनों में से एक को

१. स्वप्न० ४१४-५,

२. वही, ४१४-५,

३. वही, ६।१८-१६,

४. वही, पंचम का प्रवेशक

५. वही, ४१४,

६. वही, ४१४-५,

उत्थिष्ठ बनाने म भवेया असमर्य है। दोनों का चरित्र अपने-अपने प्रकार का अद्भुत चरित्र है। विद्रूपक का चरित्र भी अन्य नाटकों मे सर्वथा भिन्न तथा रूपि से उठकर, सहज बुद्धिमान पात्र के रूप म चिह्नित किया है।

स्वप्न वामवदत्ता घटना-विन्यास तथा नाट्यगिन्त की हृष्टि मे भी उन्हृष्टि रखना है। विशेष रूप म भीय न द्रष्टव्याचारी क प्रयाग को सराहा है।<sup>१</sup> भास न इस योजना द्वारा उदयन के त्रियोग वी मार्भिक अभिवृजना की है। वामवदत्ता द्वारा माला गू थन के प्रसग म जिस घटना का विन्यास किया गया है वह भी कला की हृष्टि से उत्थिष्ठ उदाहरण है।<sup>२</sup> इस योजना द्वारा भावनाओं का महज प्रतिविम्बन किया गया है। स्वप्न० का स्वप्न-दृश्य भी अत्यधिक प्रशसनीय है। ऐसी कोई भी घटना नहीं जो अस्वामाविक प्रतीत होनी हो। सभी का आपना अपना महत्व है।

कला की हृष्टि से भास क समग्र नाटकों म स्वप्न० सर्वश्रेष्ठ रखना है। भीष के शब्दों म कानिदाम को छाड़कर वह किसी भी अन्य नाटककार मे मफल है।<sup>३</sup> कवित्व नाटकीयता का भृत्यर बनकर ही आया है।<sup>४</sup> भाषा-गैंडी प्राजल तथा प्रसादगुण समझन है। नाटक रमानुभूति म सर्वथा मफल है। शृंगार की प्रधानता मे हास्य, वीर प्रादि का प्रक्षप अनुठावन पढ़ा है। भिन्न-भिन्न रसों की मफल अभिव्यजना है। हथयन्दिवान भी भास का आपना है। ढाँचा व्यास न स्वप्न० के नाटकीय सविधान को जियिन माना है।<sup>५</sup> यह मन्य है कि प्रतिज्ञा० म जैसी गत्यात्मकता है उसका स्वप्न० म अभाव है। जान पड़ता है भास स्वप्न० को आदर्श-भूत क्लात्मक रूप देने के प्रयत्न मे गत्यात्मकता की भुता बैठे हैं। इसी कारण स्वप्न० म नाटकीय सविधान कुद्द शियिल तथा प्रभावात्मकता का अभाव प्रतीत होता है। किन्तु, गम्भीरता से देखा जाय तो यह भी आपानन एव दोष प्रतीत होता है। वामविक्रीता यह है कि स्वप्न० की कथावस्तु बहुत ही आदर्श रूप मे शालीनता से अप्रमर होनी है। इस शालीनता को दोष मानना उचित नहीं है। भास न नाटक मे वामवदत्ता के न मरते का सवेत प्रारम्भ मे ही दे दिया है। यह भी नाटकीय उत्त्युकना तथा जिज्ञासा मे वाधक अवश्य होता है। ढाँचा व्यास न इसे नाटकीय अपेक्षा माना<sup>६</sup> है।

१. सस्त्रत द्रामा, पृ० ११३,

२. वही, पृ० ११६,

३. सं०सा० इति हिन्दी प्रावदयन, पृ० १११,

४. स०क० दर्शन, पृ० २४२,

५. वही, पृ० २४१,

६. स० क० दर्शन, व्यास पृ० २४१,

भास के उपर्युक्त दोनों ही ऐतिहासिक नाटक अपने-अपने प्रकार के श्रेष्ठ निर्दर्शन हैं। इन दोनों भावना-प्रधान नाट्य-कृतियों में नाट्यकला की हृष्टि से प्रभावात्मकता, कोतूहल वृत्ति तथा व्यापारान्विति आदि का समुचित निर्वाह हुआ है। इन दोनों ही नाट्यकृतियों में भास की मफलता का कारण उमड़ी संवादात्मकता है जिससे भावात्मकता तथा नाटकीय गत्यात्मकता अक्षुण्ण रही है। वास्तव छोटे-छोटे तथा सार्थक हैं। कथावस्तु का कहाँ भी न अनुचित फैलाव है न पात्रों की ही भरमार घटनाओं की अन्विति से कथा में प्रवाह है। कार्यान्विति तथा व्यापारान्विति का भी स्वाभाविक निर्वाह हुआ है। घटनाविन्यास सन्तुलित है। व्यर्थ की घटनाओं का अभ्यार नहीं है। नाटकों में पात्र सख्ता १६-१६ होने पर भी सन्तुलन नहीं विगड़ा है। सभी पात्र सजीव तथा व्यक्तित्व प्रधान हैं। उदयन, वासवदत्ता, प्रमावती तथा यौगन्धरायण का चरित्र बहुत ही प्रभावपूर्ण है।

नाटक में उदयन को बहुपत्नीवान् के रूप में दिखलाने के कारण कुछ विद्वान् भास तथा भासकालीन सम्भवा पर कीचड़ उद्यानते हैं। किन्तु वास्तव में प्राचीन भारत में बहुपत्नीत्व में कोई दोष नहीं माना जाता था। विशेषतः उच्च वर्ग तथा राजाओं के यहाँ अनेक पत्नियाँ रहती थीं।<sup>१</sup> प्राचीन इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं जिनमें एकाधिक पत्नियों का उल्लेख है। किन्तु यदि इसे दोष भी मानें तो भी भास के नायक में यह दोष नहीं है। भास के उदयन ने मंत्रियों के लावाणकदाह के पड़यन्त्र के फलस्वरूप अनिच्छा से अनजाने में दूसरा विवाह किया है इसके अतिरिक्त दो पत्नियों के होने पर भी उदयन के चरित्र में दाक्षिण्य तथा समान-पति-धर्मी का रूप इनना उत्कृष्ट है कि कहीं बहुपत्नीत्व की बूतक नहीं आती। भास का उदयन समाज का जीता जागता पात्र है। उसका चरित्र निर्दोष है, पर मानव-सुलभ दुर्बलताएँ भी हैं। भास का उदयन सभी को प्यार करता है तथा प्यार किया भी जाता है। वह कला-प्रिय तथा प्रणथी होने पर भी स्वेच्छा नहीं है, अपितु योद्धा है, वीर पुरुषार्थी है जो अन्तःपुर की चहारदीवारी में ही नहीं रहता, युद्ध स्थल में भी जाता है। वह लोक-कथाओं के नायक से सर्वथा भिन्न है। वह सदैव कर्तव्यपालन के प्रति उद्यत रहता है। दोष की हृष्टि से वह अधीर, कलाविलासी आदि भी है। इन दोनों का नाट्य-शिल्प-विधान 'दृश्य' तत्त्व को सम्मुख रखकर किया गया है। वस्तु का प्रवाह है। शैली सरल है। कथनोपकथन संक्षिप्त, भावना-प्रधान तथा व्यक्तित्व के अनुरूप है। वासवदत्ता तथा यौगन्धरायण के चरित्रों में सजीवता तथा स्थान-स्थान पर मनोवैज्ञानिकता का मंजुल प्रयोग है।

१. कालिदास के दृश्यन्त के बहुपत्नियाँ थी, किन्तु कथा ने उसको आलोचना नहीं की। भास ने महासेन को भी घोडघान्तःपुर शब्द लिखा है।  
स्वप्न ६।६,

भास वास्तव में मनोदशा के विश्रण में चतुर है। भारतीयनाट्य कला के अनुसार भास के ये दोनों नाटक रमानुभूति करने में सफल हैं। स्वप्न० का शृंगार अशीर्णता से ग्रहूता एवं विशुद्ध प्रेम का प्रतीक है। वह प्रेम, वलिदान, तपस्या तथा वर्तन्य पर टिका हुआ है इसके साथ ही अन्त वास्तु उमयन अन्तर्दृढ़ का भी अभ व नहीं है।

वैसे तो भास के सभी नाटक अभिनेय हैं तथा अपने-अपने रूप में सफल हैं, तथापि स्वप्न० भ भास की कला सर्वाधिक रूप से प्रीड-रूप से आविभूत हुई है। अभिनयता इनका प्रमुख गुण है। रागमच की इटि से कृष्ण दृश्यों में भले ही परिवर्तन करना पड़े तथापि इनकी अभिनेयता असंदिग्ध है। भास न अपने नाटकों में तत्कालीन समाज विशेषत राज-परिवार का मयार्थ चित्र प्रस्तुत किया है। सभव है ।६-२०वीं सदी की यथा व्यादिता के सिद्धान्त पर यह खरे न उतरे, तथापि इनमें प्राचीन सम्यता समृद्धि का यथाय चित्रण है। प्राचीन काल से ही राजशेषर, वामन, अभिनव गुप्त आदि ने स्वप्न० को अपनी कमीटी पर कमा है और इसे भास की उत्कृष्टतम रचना स्वीकार किया है। अर्वाचीन समाजोचक भी स्वप्न० को भास की उत्कृष्ट तथा भग्नीय प्रभावशाली रचना स्वीकार करते हैं।<sup>१</sup> कीथ के अनुसार भी यह भास की सबंधेष्ठ रचना है।<sup>२</sup> राजशेषर के शब्दों में स्वप्न० ही भास की एक ऐसी अन्यतम रचना है जो कि आलोचना की अग्नि पर विशुद्ध वाचन मिल हुई है।<sup>३</sup> भास की नाट्य-कला की सफलता के मूल्य कारण है—दृश्य योजना (हृतिम हाथी का एव स्वप्न का दृश्य आदि) भवादात्मकना, नरित-चित्रण मृदुशनता, तथा मानव भावों का सहज चित्रण आदि। वास्तव में भास अपनी नाट्यनला की इटि से मादेमौम विशेषनाया के वारण महान् है।<sup>४</sup> सस्कृत साहित्य पर विशेषत, सस्कृत नाट्य-साहित्य पर इसका छहण अद्भुतगा है। भास न अनेक प्रकार का दाय दिया है तथा उनका अनेक ने अनुसरण किया है।<sup>५</sup>

१. विष्णेश एस्काइड टु भास० देवघर पृ० ६४, समप्रावलम्ब आँक इडियन लिट० विटनिट्ज पृ० ११३, भास;
२. सस्कृत ड्रामा, पृ० १०३,
३. भासनाटकक्रेडिपि च्छ्यकेः किञ्चेष्वरीशितुम् ।  
स्वप्नवासवदत्तस्य दाहकोऽमूल्यन्पावकः ॥
४. भास अम्यर पृ० ३४४,
५. वही, पृ० ३४७,

## सांस्कृतिक चित्रण

### राजनैतिक तथा भौगोलिक :

**वत्सः**—भास के ऐतिहासिक नाटक प्रतिज्ञा<sup>१</sup> तथा स्वप्न<sup>०</sup> का कथानक प्राचीन भारत के तीन प्रमुख राज्य वत्स, मगध, अवन्ति से सम्बन्धित हैं। भास के नाटकों से हमें “वत्स”, राज्य का अच्छा ज्ञान होता है।<sup>२</sup> दोनों ही नाटकों का मुख्य घटनाचक्र “वत्स”, तथा उसके राजा उदयन से सम्बन्धित है। बौद्ध-कालीन मुत्रसिद्ध १६ राज्यों में “वत्स”, भी प्रमुख राज्य था।<sup>३</sup> प्रगुत्तर निकाय तथा महावस्तु में उल्लिखित पोडश महाजनपदों में वत्स का उल्लेख हुआ है।<sup>४</sup> पाली के बौद्ध-ग्रन्थों में इसकी “वंस” शब्द प्रयुक्त हुआ है तथा कहीं-कहीं वंग पाठ भी देखा जाता है।<sup>५</sup> कथा० में भी “वत्स” देश का उल्लेख है।<sup>६</sup> भास ने वत्स का ही उल्लेख किया है। यही शुद्ध प्रतीत होता है। वंग तथा वंस इसके तद्भव रूप हैं।

**कौशाम्बी:**—वत्स की स्थिति कौशल के दक्षिण तथा काशी के पश्चिम में मानी जाती है। मगथ तथा अवन्ति इसी के पड़ोसी थे। नाटक में कौशाम्बी का वत्स की राजधानी के रूप में उल्लेख हुआ है।<sup>७</sup> कथा० में कौशाम्बी को वत्स के मध्य में स्थित समृद्ध नगरी तथा भूमि की कर्णिका कहा है।<sup>८</sup> कौशाम्बी प्राचीन भारत की १६ मुख्यतम नगरियों में से एक मानी जाती है।<sup>९</sup> रायचौबरी के अनुसार वत्स गंगा के दक्षिण में स्थित था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, जो कि यमुना किनारे इलाहाबाद के निकट (उत्तर में ३५ मील दूर) “कौसम” नाम से आज भी प्रसिद्ध है।<sup>१०</sup> पुराणों के अनुसार इसे जनमेजय के नप्ता निचक्षु ने वसाया था। कौशाम्बी के नामकरण के सम्बन्ध में बौद्ध ग्रन्थों में वत्तलाया हैं कि कृष्ण कुसुम्ब कुसुम्ब के आश्रम में या उसके पास वसाने के कारण इसे कौशाम्बी कहा जाता था। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि विशालकाय कौसम के वृक्ष इस नगर के

१. स्वप्न० ६।८ तथा ५।१२,

२. बुद्धिस्त इंडिया, पृ० २३,

३. हिन्दू सम्पत्ता : मुकर्जी, पृ० १७६,

४. वही, फुटनोट,

५. कथा० २।१४,

६. स्वप्न० ६।१८-१९, आदि

७. कथा० २।१५,

८. पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एन्शान्ट इंडिया : पृ० १३१,

९. वही,

नारो और अधिक मात्रा में थे, इसलिए इसे कौशाम्बी कहा जाता रहा था।<sup>१</sup> पार्जिटर के अनुसार मगध के राजा वृहद्रथ के भाई कुशाम्ब के द्वारा वसायी जाने के कारण इसका नाम कौशाम्बी पड़ा। जो भी हो, इतना स्पष्ट है कि यह भारत की प्राचीन नगरी थी।

कौशाम्बी का सामृतिक महत्व भी बहुत अधिक है। मुकर्जी के अनुसार वर्तमान भिलसा के मुख्य मार्ग द्वारा यह उज्जयनी से जुड़ी हुई थी।<sup>२</sup> रैप्सन ने लिखा है कि कौशाम्बी उज्जयनी की सहक में ४०० मील दूर बनारस में २५० मील दूर ऊपर प्रमुख मार्गों की बेन्द्र थी। उज्जयनी से कौशाम्बी तक लम्बा मार्ग था। जल धल दोनों मार्गों में सम्बन्धित थी।<sup>३</sup> विनयपिटक के अनुसार भी कौशाम्बी दक्षिण और पश्चिम से आने वाले कौशल और मगध के यात्रियों का विश्राम स्थल थी। भास के सुप्रसिद्ध नाटक स्वप्न<sup>४</sup> तथा प्रतिज्ञा<sup>५</sup> के मुख्य-मुख्य दृश्य यहाँ में सम्बन्धित हैं। नाटक में सहवानी<sup>६</sup> के नप्ता, शतानी<sup>७</sup> पुत्र उदयन को राजा कहा है। यही ऐतिहासिक भी है।<sup>८</sup> नाटक में उदयन को वस्त्रराज के अनिरिक्त कौशाम्बीय भी कहा है।<sup>९</sup>

**लावाणकः** — दत्तम राज्य म ही लावाणक नामक ग्राम था। नाटक से ज्ञात होता है कि उदयन भमय-भमय पर इसी गाव में रहता था।<sup>१०</sup> अब सम्भव है कि इम गाँव में प्राहृतिक सौन्दर्य आदि की कुछ विशेषताएँ रही होंगी। नाटक के अनुसार यह भमवत मगध के निवट जमुना के दक्षिण में था। ब्रह्मचारी के समापण से यह स्पष्ट है कि लावाणक एवं प्रस्त्यात शिक्षा बेन्द्र भी था, जहाँ दूर-दूर से द्याव अध्ययनार्थी आने थे। ब्रह्मचारी भी राजगृह से वेद-अध्ययन के लिए लावाणक आया था।<sup>११</sup>

**मगध** — नाटक में तत्कालीन दूसरे प्रमुख राज्य मगध का भी ज्ञात होता है। यह भी १६ महाजन-पदों में प्रमुख था।<sup>१२</sup> मात्र के अनुसार उदयन के समय

१. प्र० ऐ० ना० जोशी, पृ० २४७,

२ हिन्दू सम्यता पृ० १८०,

३ बैन्द्रिज हिस्ट्री ऑफ एशन्ट इंडिया, पृ० १६६-६७,

४. इसी प्रबन्ध से इसी धर्माय का ऐतिहासिक विवेचन देखें,

५ प्रतिज्ञा० २।८-६,

६ स्वप्न० १।१२-१३,

७ वही,

८ हिन्दू सम्यता : मुकर्जी, पृ० १७६,

यहाँ दर्शक राज्य करता था।<sup>३</sup> जिसकी वहिन पदमावती<sup>४</sup> के साथ उदयन ने विवाह सम्बन्ध स्थापित किया था। उदयन के समय मगध अधिक शक्तिशाली था। अतएव वत्स के कुछ भाग के अपहरण होने पर उसकी सहायता प्राप्त की थी। अतएव नाटक में इसे महान् राजकुल कहा है जिससे स्पष्ट है कि यह ग्रवन्ति के ममान<sup>५</sup> ही महाव था। राइज डेविड के अनुसार मगध में बुद्ध के समय ८० हजार के लगभग गाँव थे।<sup>६</sup> इससे इसकी विशालता स्पष्ट हो जाती है। राय चौधरी गया पटना आदि विहार के जिलों को भी मगध में ही मानते हैं।<sup>७</sup> स्पष्टतः उस समय मगध भृत्यविक विशाल तथा एक प्रभुत्व सम्पन्न राज्य था।

**राजगृहः—**स्वप्न० में राजगृह का दो बार उल्लेख हुआ है।<sup>८</sup> नाटक में स्पष्टतः तपोवन में धर्माचरण के पश्चात् मदमावती तथा महाराजमाता का वहाँ जाने का उल्लेख है।<sup>९</sup> अतः प्रतीत होता है कि राजगृह उदयन के समय मगध की राजधानी थी तथा समस्त राजपरिजन वहाँ रहता था। इतिहासकारों के अनुसार पहिले तो मगध की राजधानी गिरिव्रज थी, किन्तु वाद में राजगृह हो गयी थी।<sup>१०</sup> बुद्ध के समय में हर्यंककुल के प्रसिद्ध राजा विम्बसार ने प्रारम्भ में गिरिव्रज में राजधानी रखी, किन्तु वाद में अपने नए राजप्रसाद के चतुर्दिक् राजधानी वसाकर उसका नाम “राजगृह” रख दिया।<sup>११</sup> यही “राजगृह” गिरिव्रज के वहिरीग में स्थित थी। आज भी आधुनिक राजगिरि में उसकी विशाल प्राचीरें प्राचीन भग्नावणिय के रूप में उपलब्ध हैं।<sup>१२</sup> राजगृह बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केन्द्र था। राइज-डेविड्स के अनुसार बौद्ध धर्म यहाँ जन्मा। गिरिव्रज तथा राजगृह के लिए प्राचीन साहित्य में वृहद्रथपुर, वसुमती, कुशाग्रपुर, विम्बसारयुरी, मगधपुर आदि नाम भी मिलते हैं।<sup>१३</sup>

१. स्वप्न० १५-६,
२. वही,
३. वही, १७-८,
४. बुद्धिस्ट इंडिया : राइज डेविड्ज पृ० १७ तथा देखो २६ भी,
५. पॉलिटिकल हिस्ट्री ओफ एन्शान्ट इंडिया : पृ० १११,
६. स्वप्न० १५-६, १२-१३,
७. स्वप्न० १५-६,
८. हिन्दू सम्पत्ता, पृ० १८२,
९. प्रा० भा० इति : त्रिपाठी, पृ० ७३,
१०. वही, फुटनोट,
११. पॉलिटिकल हिस्ट्री ओफ एन्शान्ट इंडिया, पृ० १११,

अवन्ति-उज्जयनी—बोद्ध-साहित्य में जिन प्रसिद्ध नगरों का उल्लेख है उनमें पूर्वोक्त कीशाम्बी, राजगृह आदि के ग्रलावा उज्जयनी भी अन्यतम नगर (अथवा निगम) था। बोद्ध ग्रन्थों में इसे उज्जंगनी कहा है।<sup>१</sup> स्वप्न० में उज्जयनी का एक राज्य के रूप में उल्लेख हुआ है।<sup>२</sup> यह उज्जयनी बोद्धवालीन सुप्रसिद्ध जनपद अवन्ति की राजधानी थी।<sup>३</sup> बोद्ध ग्रन्थों में (माहिस्मति) माहिस्मति का भी अवन्ति की राजधानी के रूप में उल्लेख हुआ।<sup>४</sup> किन्तु यह भी उज्जयनी का ही दूसरा नाम है। प्रसिद्धि के अनुसार यह शिग्रा के तट पर मालव प्रान्त की एक नगरी थी। नाटक में अवन्ति देश के राजा प्रद्योत की उज्जयनी का राजा लिखा है।<sup>५</sup>

उज्जयनी को भारत के इतिहास में सर्वाधिक सास्कृतिक महत्व प्राप्त है। वैसे तो उज्जयनी अवन्ति देश की राजधानी थी तथापि उज्जयनी तथा अवन्ति भा समान रूप से देश या राज्य के लिए प्रयोग हुआ है। भास को अवन्ति का परिचय तो था क्योंकि उससे वासवदत्ता का “अवन्तिका” नामकरण किया है, तथा उसे अवन्ति-राजपुत्री भी कहा।<sup>६</sup> तब भी प्रदेश के रूप में उज्जयनी प्रयोग किया है अवन्ति नहीं।

उज्जयनी का राजनीतिक तथा धार्मिक महत्व बहुत था। यह व्यापार का केन्द्र थी। यह वई बड़े सारों को जोड़ती थी। अत व्यापार एवं यातायात की हाइटि में महत्वपूर्ण स्थान हो गया था। यहाँ उदय-स्थान भी बहुत थे।<sup>७</sup> धार्मिक महत्व भी कम न था। यहाँ के सुप्रसिद्ध “महाकाल” के मंदिर के कारण इसे शिवपुरी भी कहते हैं। भारत की प्रसिद्ध सप्तपुरियों में इसकी परिगणना है। रुद्र चुराण के ग्रावन्यमण्ड में इसकी महिमा का विशेष वर्णन किया गया है। अवन्ति को प्राचीन माहित्य में अवन्तिशा, पद्मावती, कुशस्थली, भोगवती, हिरण्यवती, आकर्षती, विशाला आदि नामा के रूप में अनेकतर उल्लेख हुआ है, जिनसे इसका वैभव प्रकट

१ प्रा० भा० इति० त्रिपाठी, पृ० ८३,

२ स्वप्न० ११७-८, ३१४-५,

३ प्रा० भा० इति० त्रिपाठी, पृ० ७३,

४ हिन्दू सम्प्रता, पृ० १७३,

५ स्वप्न० ११७-८,

६ स्वप्न० ११२-१३, ६११२-१३,

७ वही, ३१४-५,

होता है। इसके सभी नामकरण सकारण हुए हैं<sup>१</sup>। अन्य पुराणों के अनुसार हैह्य वंश की अवन्ति शास्त्र के नाम पर इस प्रदेश का नाम पड़ा।

उज्जयनी एक प्रसिद्ध शिक्षाकेन्द्र भी थी। प्रसिद्धि के अनुमार कृष्ण सुदामा और वलराम ने यहीं सांदीपन से शिक्षा ग्रहण की थी। जैन, वौद्ध तथा ब्राह्मण धर्म की यह केन्द्र रही है। जैनों के अनुमार महावीर ने यहीं कहीं समाधि नी थी। वौद्धों का तो वह प्रसिद्ध केन्द्र था। डाक्टर राडज डेविड्ज का कथन है कि वैसे वौद्ध धर्म भगव में जन्मा किन्तु वास्तविक रूप में उसने अवन्ति में ही वमन धारण किए अर्थात् यहीं के प्राकृत में ग्रन्थ रचे गए<sup>२</sup>। ब्राह्मण-धर्म का यह न केवल प्राचीन भारत में अपितु आज भी सुप्रसिद्ध तीर्थ माना जाता है।

**कांपिल्य** :—नाटक में कांपिल्य नाम के नगर का भी उल्लेख हुआ है। नाटक में इसके राजा का नाम ब्रह्मदत्त लिखा है।<sup>३</sup> नामोल्लेख के अतिरिक्त इसके सम्बन्ध में विशेष कुछ ज्ञात नहीं होता। रायणरण के बाल काण्ड के सर्ग ३३ के अनुसार भी यहाँ ब्रह्मदत्त राज्य करता था।<sup>४</sup> अनेक प्राचीन ग्रन्थों में बनारस के राजा के रूप में ब्रह्मदत्त का उल्लेख अवश्य है। बायुपुरायण में पांचाल के ब्रह्मदत्त का भी उल्लेख है।<sup>५</sup> अतः भास का यह उल्लेख ऐतिहासिक है। इतिहासकारों के अनुसार यह नगर अतिप्राचीन था तथा यह पांचाल का एक ही भाग था। रायचौबरी के अनुसार पांचाल राज्य, रुहेलखण्ड तथा दोग्राव से बनता है। यह बत्स से पश्चिमोत्तर में था। महाभारत, जातक, दिव्यावदान आदि प्राचीन साहित्य में इसके दो भागों का निर्देश है। भागीरथी दोनों की विभाजन रेखा बनाती थी।<sup>६</sup> बतलाया गया है कि उत्तरी पांचाल की राजधानी द्वंद्रवती या अहिंच्छव थी, दक्षिण की कांपिल्य।<sup>७</sup> “कांपिल्य” भी अति प्राचीन नगर था इसका उल्लेख यजुर्वेद में भी प्राप्त होता है।

१. स्कन्द पुराण में अवन्ति के नामकरण के सम्बन्ध में बतलाया है कि यह नगरी प्रतिकल्प में देवतीर्थ औपधि आदि का अवन अर्थात् रक्षण करती थी अतः अवन्ति नाम पड़ा। इसी प्रकार उज्जैनी के सम्बन्ध में लिखा है कि शिवजी द्वारा त्रिपुरासुर के उज्जित करने पर इसका नाम उज्जयनी पड़ा।

२. देखो प्रा० भा० इति० त्रिपाठी पृ० ७२,

३. स्वप्न० ३।६-७,

४. रायायण बालकाण्ड ३।१६,

५. बायुपुरायण ६।१८,

६. पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एन्डर्सन इंडिया, पृ० १३४-५,

७. घटी,

इसका वेदिन रूप “वारीन”, पाली रूप “कापिल” या तथा शुद्ध साहित्यिक रूप कापिल है।<sup>१</sup> इसे कनिधम गगा के निफट फक्षमवादाद के समीप मानते हैं।<sup>२</sup> रायचौधुरी न इसे गगा तथा चम्बल के बीच भाना है।<sup>३</sup> पांचाल भी प्राचीन वाल के १६ जनपदों में से एक था।<sup>४</sup> इसके अन्य प्रमिद्ध नगर कान्यकुञ्ज आदि थे। उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूँ तथा फक्षमवादाद भादि इसकी सीमा में प्राप्ते थे।

नाटक में ग्राहणि नाम के राजा का उल्लेख है, जिसने उदयन के राज्य का अपहरण किया था।<sup>५</sup> नाटक के मन्दर्म से ज्ञात होता है कि ग्राहणि का राज्य त्रिपयगा के समीप था।<sup>६</sup> विशेष इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता।

उपर्युक्त राज्यों तथा नगरों के अतिरिक्त नाटक में वाशीराज, वग के राजा, सीराष्ट्र, पिथिला तथा शूरमेन के राजाओं का भी उल्लेख हुआ है।<sup>७</sup> इन्हुंने नाटक से इनके सम्बन्ध में अधिक कुछ ज्ञात नहीं होता।

भास के नाटकों से कुछ नदी तथा पहाड़ों के नाम आदि का भी ज्ञान होता है। त्रिपयगा<sup>८</sup> जिसका कि पहले उल्लेख हो चुका है, गगा के लिए प्रयुक्त हुआ है। नर्मदा<sup>९</sup> का भी नाटक में उल्लेख है। इसमें ज्ञात होता है कि नर्मदा भी वस्त्र की सीमा बनाती थी तथा वह प्रवन्ति और वस्त्र के मध्य थी। नाटक में मदगवीर<sup>१०</sup> का “मन्दर”,<sup>११</sup> हिमवत<sup>१२</sup> तथा विघ्न<sup>१३</sup> का भी उल्लेख है। इसी प्रकार इनमें कुछ विशेष बनाए सम्बन्ध में भी ज्ञान होता है। प्रतिज्ञा० के अनुसार कोशास्त्री से निकान्तकर नर्मदा को पारकर देगुबन पड़ता था।<sup>१४</sup> सभवत मह नाम वासों के आधिकद वे-

१. देखो वी० सी० ला० वालपूम० भाष० २, पृ० २३६-४२,

२. वही

३. पॉलिटिकल हिस्ट्री प्रॉफ एन्सन्ट इंडिया पृ० १३४-५,

४. बुद्धिस्ट इंडिया, पृ० २,

५. देखिये इसी प्रबन्ध का ऐति० विवेचन,

६. स्वन० १११-१३,

७. प्रतिज्ञा० २१८,

८. स्वन० ११२,

९. प्रतिज्ञा० ११६-७,

१०. वही, ११६-७,

११. वही, २१८,

१२. स्वन० ११६,

१३. प्रतिज्ञा० ३१५,

१४. प्रतिज्ञा० ११६-८,

कारण पड़ा है जो कौशम्भी के चारों ओर घिरा था। विम्बसार ने बोद्दसंघ को राजगृह का प्रसिद्ध वेगुवन दिया था।<sup>१</sup> दोनों में कितना साम्य है, कहा नहीं जा सकता। नाटक में नागवन का कई बार उल्लेख हुआ है।<sup>२</sup> नाटक से जात होता है कि यह वेगुवन के ही कुछ दूर या उसकी सीमा में था। इसके ग्रलावा शरवण तथा राज प्रासादों में कृतिम रूप से निर्मित दारू-पर्वत, सप्तच्छदवन आदि का भी प्रयोग हुआ है।

(१) सामाजिक-वर्णाश्रम व्यवस्था:—भास के प्रतिज्ञा० तथा स्वप्न० से न केवल प्राचीन भारत की राजनीतिक तथा भीगोलिक स्थिति पर ही प्रकाश पड़ता है, अपितु प्राचीन भारत के समाज, संस्कृति तथा सभ्यता का भी ज्ञान होता है नाटकों के अनुसार भास के समय में भारत में वर्णाश्रम व्यवस्था थी। वर्णव्यवस्था के रूप में जातिप्रधा का अस्तित्व था, ब्राह्मण आदि जातियाँ भी थीं।<sup>३</sup> विद्वानों के प्रनुसार उस समय समाज में ब्राह्मणों का सम्मान होता था। प्राचीन काल से ही वर्ण-व्यवस्था का ऊँचा स्थान था।<sup>४</sup> ब्राह्मण धार्मिक-कार्य तथा शान्ति-निर्मित भोजन भी करते थे।<sup>५</sup> किन्तु भास के समय में बौद्ध अपने उत्कर्ष पर थे, वे ब्राह्मणों को सम्भवतः कुछ हेय मानते थे।<sup>६</sup>

भास के समय में आश्रम व्यवस्था थी। आश्रमों के लिए पृथक्-पृथक् स्थान होते थे। तपोवन में वानप्रस्ती तथा सन्यासी रहते थे ब्रह्मचारी गुरु के साथ रहकर आश्रम में वेदाध्ययन करते थे। आश्रम से अध्ययन पूर्ण करके ही ब्रह्मचारी लौटता था।<sup>७</sup> अध्ययन की समाप्ति में गुरु-दक्षिणा भी दी जाती थी।<sup>८</sup> गृहस्थ भी अपने-अपने धर्म के अनुकूल आचरण करते थे। तपोवन में तापसी भी रहती थीं। बाहर की व्योवृद्ध स्त्रियाँ भी धर्म सेवन को आ सकती थीं किन्तु युवतियों को आश्रम में रहना नियम-विरुद्ध था।<sup>९</sup> आश्रमवासी सन्तुष्ट रहते थे।<sup>१०</sup> सभवतः कुछ लोग वृत्ति

- 
१. प्रा० भा० इति० श्रिपाठी, पृ० ७४,
  २. वही,
  ३. प्रतिज्ञा० ११६-१७, २१३ १४,
  ४. प्रा० भा० शा० पद्मति, पृ० ६३,
  ५. प्रतिज्ञा० ११६-१७,
  ६. प्रतिज्ञा० ३१-२,
  ७. स्वप्न० ११२-१३,
  ८. वही, ११८,
  ९. वही, ११२-१३,
  १०. वही, ११८-६,

के उद्देश्य में भी सन्यासी बन जाते थे<sup>१</sup>। तपोवन में रहने के लिए प्रलग-प्रलग व्यवस्था थी। परिवाजको की निश्चित देश-भूपा होनी<sup>२</sup> थी। गृहस्थी तथा राज-परिवार तपोवनों में आकर दान पुण्य करते थे तथा तपस्मियों द्वारा दान स्वीकार करने पर अपन को कृतार्थ समझते थे<sup>३</sup>। तपोवन बहुत ही शान्त, शाम्य वानावरण से दूर नदा नगर परिभ्रत में उन्मुक्त रौन थे<sup>४</sup>। नाटक में तपोवन का सुन्दर हय्य अत्यन्त प्राज्ञल स्वय में वर्णित है।<sup>५</sup> नाटक में इसे धीर तथा निष्ठृतो का आधम कहा है। तपोवन में प्राय धर्माचरण होता था। भास ने तपोवन को पीड़ा पहुँचाने वालों को अशर्मी तथा धर्मद्रोही कहा है।<sup>६</sup> राजाओं का धर्म तपोवन की रक्षा करना होता था। व धर्म दीडा में बचते थे।<sup>७</sup> नाटक से जान पड़ता है कि कोई भी यहीं तक कि राजा भी तपस्मियों न प्रति पह्य व्यवहार नहीं करता था। पर्गु पक्षी स्वच्छन्द थे, दया वा राज्य था। कृष्ण यज्ञ करते थे। तपोवनों में अतिथि सत्कार होता था। तपोवनों को अतिथियों वा रवगेह<sup>८</sup> तथा सर्वजन साधारण कहा है।<sup>९</sup> तपोवन म वानप्रस्थी भी रहते थे तथा सन्यासी एव परिवाजक भी। यहीं रहने वाले याचना नहीं करते थे—सत्युष्ट रहते थे। बाहर वा अतिथि ही मांगता था।<sup>१०</sup> उसकी भी अर्य, भोग वस्त्र आदि की इच्छा नहीं, अपितु केवल धर्मपालन तथा चरित्र-रक्षा के लिए ही प्रार्थना करता है।<sup>११</sup> स्पष्ट है कि उस समय नैतिकता तथा आदर्श का अधिक महत्व था। आधम व्यवस्था धर्म का प्रमुख अग थी। भास भी इसके पक्षपाती थे।

धर्म—ममाज में धर्म की प्रवृत्ता थी। देवता के रूप में यदिली की पूजा होती थी। नाटक म उसे भगवनी शब्द प्रयुक्त है तथा यदिली पूजा को देव कार्य

१. स्वप्न १६,
२. प्राचीन शाल मे दो प्रकार के साधु होते थे, सन्यासी तथा परिवाजक। सन्यासी स्थापी निवास भी करते थे, पर परिवाजक (परित्यज्य सदं, परितो वा द्रजतीति) धूमते फिरते रहते थे। योग-वरादण परिवाजक था।
३. स्वप्न १७-८,
४. वही, ११३-५, आदि,
५. वही, १११-७,
६. स्वप्न ११३-४,
७. वही, ११५,
८. वही, ११७-८,
९. वही, ११२-१३,
१०. वही, ११८-१९,
११. वही, ११६,

कहा है। विशेषतः कालाष्टमी को कुमारी लड़कियां यक्षिणी की पूजा करती थी।<sup>१</sup> ग्रन्ति की अवन्ति सुन्दरी यक्षिणी का उल्लेख है।<sup>२</sup> साधारणतः किसी भी कठिन काम से पूर्व देवताओं के स्मरण तथा प्रणाम करने की परम्परा थी। नाटक में राजा भी शिकार जाने से पूर्व देवताओं को प्रणाम करता है। देवताओं के मंदिर भी होते थे। इन्हें देवकुल-पीठिका कहते<sup>३</sup> थे। देवताओं में यक्षिणी के अलावा कातिकेय,<sup>४</sup> लोहितकात्यायनी गिव आदि प्रमुख थे।<sup>५</sup> राजा भी देव पूजा करते थे।<sup>६</sup> जात होता है कि विशेष विधि-विवान से विशेष पर्वों पर पूजा होती थी।<sup>७</sup> नाटक से तिथि पूजा के सम्बन्ध में भी जात होता है। भास ने राजा द्वारा चतुर्दशी पूजा का उल्लेख किया है।<sup>८</sup> नाटक में एक स्थान पर चतुष्पद विधि में कुत्तों की बनि देने का भी उल्लेख<sup>९</sup> है। नाटक से यज्ञीय क्रिया-कलाप का भी पता चलता है। इनमें पशु-वलि भी दी जाती थी। नाटक में पशु को यज्ञार्थ कहा है।<sup>१०</sup> इन उल्लेखों से भास के व्यक्तित्व तथा विचारों का भी ज्ञान होता है। संक्षेप में उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि भास ग्राहण धर्म में अनन्य निष्ठा रखता था तथा तंत्र शास्त्र, कर्मकाण्ड एवं हिन्दूधर्म-दर्जन का उन्हें सूक्ष्म ज्ञान था।

ग्राहण धर्म के अतिरिक्त नाटक से उस समय जैन, वौद्ध धर्म के सम्बन्ध में ज्ञान होता है। श्रमणों का नाटक में उल्लेख है। नाटक से उस समय में परिवृद्ध वौद्ध तथा ग्राहण धर्म की कटुता पर भी प्रकाश पड़ता है। श्रमणों को उपासक भी कहा गया है। इनकी इष्टि में ग्राहण होना पाप माना जाता था।<sup>११</sup> भास ने प्रसंगतः श्रमणक की चन्द्र से उपमा दी है।<sup>१२</sup> किन्तु, कुछ श्रमणक अशिष्ट भी होते थे।

१. प्रतिज्ञा० ३।५-६, पृ० ६२-६४,

२. वही, पृ० ६२-६४, त२० अंक,

३. प्रतिज्ञा० तृतीय अंक,

४. वही, २।२,

५. वही, देखो त२० अंक का प्रारंभ

६. वही, ३।३-४,

७. देखिये वही, ३।३-६,

८. वही, तंत्र-साहित्य में विस्तार से तिथि पूजा का विधान प्राप्त है।

९. वही, तृतीय का अन्त,

१०. वही, २।१०,

११. वही, त२० अंक का अन्त तथा ३।१-२,

१२. वही,

## १६६ सश्वत के ऐतिहासिक नाटक

प्रतिज्ञा० से उनके आचार-विचार का भी पता चलता है<sup>१</sup>। सभगत कुछ श्रमणक सुरा भी पीते थे<sup>२</sup>। ये अभिमानी तथा आत्म-प्रशंसक के रूप में चिह्नित हैं। एक स्थान पर श्रमणक शाप देता है तथा अनें जादुई प्रभाव दिखाने की सामर्थ्य का दर्शान करता है<sup>३</sup>। नाटक में उन्हें “भगवद्” शब्द प्रयुक्त हुआ है। अत ज्ञात होता है कि इस समय द्वीद्व घर्म का सम्मान होता था।

**विवाह सत्या—नाटक** से विवाह-सत्या के सम्बन्ध में नवीन जानकारी होती है। ज्ञात होता है कि विवाह कार्य धार्मिक प्रक्रिया के साथ सम्पन्न होता था। लड़ियों के विवाह के लिए उनके पिता आदि “दूत-मंगान” करते थे<sup>४</sup>। कन्या-पक्ष ही वर की नलाश करता था। वर तलाश बरने में कुल पर विशेष ध्यान दिया जाता था<sup>५</sup>। वर की विज्ञान दृष्टा आवश्यक होती थी। लड़की भी मुख्यत वर की सुन्दरता तथा अन्य गुणों की महत्त्व देती थी। वभी वर भी स्वयं वधू वा वरण कर लेता था<sup>६</sup>। कन्यादान की परम्परा थी<sup>७</sup>। राजाश्वी में कन्या की सुन्दरता तथा श्रेष्ठता आदि के ज्ञान होने पर कन्या की याचना के लिए भी दूत भेजे जाते थे<sup>८</sup>। कन्या-प्रदान के सम्बन्ध में गोत्र की अनुकूलता का ध्यान रखा जाता था<sup>९</sup>। वर के चुनाव में वर के गुण, कुल, चरित्र, रूप आदि की जांच की जाती थी।<sup>१०</sup> वभी-वर्षी अनुकूल कन्या देखने पर वर भी चरित्र गुण आदि से कन्या-पक्ष को लुभाते थे।<sup>११</sup> भास ने वर को सपत्नि लिखा है। कन्या के लिए सुन्दर वर सपत्नि गोजने को पिता आदि भभी सभव प्रयत्न करते थे।<sup>१२</sup> पुत्री के विवाह के विषय में पत्नी से विशेष स्वप्न से परामर्श भी किया जाता था।<sup>१३</sup> सामान्यत सभी परिजन को विवाह

१ वही,

२ वही,

३ वही,

४ स्वप्न ११७-८

५ वही,

६ देखिये स्वप्न का द्वि० अंक।

७ वही,

८ प्रतिज्ञा० २११ से पूर्व

९ वही,

१०. प्रतिज्ञा० २१३-४,

११ वही, २१३-८,

१२. वही, २१५-६

१३. वही,

के सम्बन्ध में राय देने का अधिकार था । नाटक में इसे सर्वसाधारण विविह कहा है<sup>१</sup> । वहु-विवाह की प्रथा अवश्य थी । वैसे ऋग्वेद काल से ही वहुविवाह प्रचलित था, पर वडे लोगों में ही । इसी प्रकार भास के समय भी वडे लोगों में यह प्रथा थी । भास ने भी महासेन के पोडपान्तःपुर का उल्लेख किया है<sup>२</sup> । किन्तु उस समय में वहुविवाह के प्रति धृणा पैदा हो रही थी तथा इसे अस्वाभाविक भी समझा जाता था । उस समय के राजनैतिक बातावरण से स्पष्ट है कि राजनैतिक उद्देश्य के लिए प्रायः वैवाहिक संविधान हुआ करती थीं तथापि भास इसे बुरा मानते हैं । इसी कारण उदयन का दूसरा विवाह कराने के लिए ग्रामदाह का छल-प्रयोग किया गया है । नाटक में उदयन भी स्यान-स्यान पर दूसरे विवाह के प्रति अनिच्छा तथा धृणा व्यक्त करता है । अतः उदयन को अनजाने में मंत्रियों के द्वारा से दूसरा विवाह करना पड़ा ।

उस समय वाल-विवाह नहीं होते थे । नाटक से स्पष्ट है कि पदावती का तदर्णी होने पर ही विवाह हुआ था<sup>३</sup> । संभवतः १६ वर्ष के पश्चात् ही कन्या का विवाहकाल माना जाता था । वह तभी श्वमुर-परिचरण में समर्थ होती थी और उसका विवाह कर दिया जाता था<sup>४</sup> । भास के समय में राक्षस-विवाह भी होते थे किन्तु परिस्थिति-वश इसे भी क्षात्र-वर्म-सम्मत मान लिया जाता था<sup>५</sup> । तथापि समाज में अदत्तापनयन बुरा माना जाता था । नाटक में इसे तस्कर-वृत्ति कहा<sup>६</sup> है । विवाह में अग्नि-साक्षी का महत्व था । राक्षस-विवाह के उपरान्त भी उसे वैध हृष देने के लिए कुछ प्रतीकात्मक संस्कार करने होते थे, जैसे नाटक में चित्रपट तथा वीणा-व्यवदेश का उल्लेख<sup>७</sup> है । विवाह के समय कुछ धार्मिक क्रिया भी की जाती थीं । नाटक में उल्लिखित “कौतुक मंगल” भी एक ऐसी ही क्रिया थी<sup>८</sup> । विवाह में नक्षत्रादि का ध्यान रखा जाता था । अच्छे नक्षत्र में ही विवाह किया जाता था ।

१. वही, २१३-४,

२. स्वप्न ० ६।६,

३. वही, ४।४-५,

४. प्रतिज्ञा० २।६-७,

५. वही, ४।२३-२४,

६. - वही, ४।१६-१७,

७. - स्वप्न० ६।११-१२; प्रतिज्ञा० ४।२३-२४,

८. - देखो स्वप्न० का द्विंश्मंक, कौतुक-विवाह-सूत्र को कहते थे, उसके बांधने का मंगल कृत्य ‘कौतुक मंगल’ कहलाता था ।

विवाह एक मगल-कार्य माना जाता था ।<sup>१</sup> इसी वैवाहिक मगल कृत्य में कौतुक-मगल नामक कृत्य के सम्पादन करने के लिए एक माला बनायी जाती थी, जिसे कौतुकमाला कहते थे<sup>२</sup> । कालिदास ने भी इसका रघुवश और कुमार-भव में कई जगह उल्लेख किया है । आजकल भी इसका प्रचलन विसी न रिसी रूप में होता है । इस माला में अनेक प्रकार की सौभाग्य-प्रद ग्रीष्मधि गू थीं जाती थीं ।<sup>३</sup> (अविघवा करने वाली तथा सपत्नी भर्दन करने वाली) । विघवा होना तथा सपत्नी होना दुरा माना जाता था<sup>४</sup> । विवाह मम्बार के प्रारम्भ में वर को स्नान कराया जाता था<sup>५</sup> । मुवामिनी (अविववा) ही जामाता को चतु शाला में ले जाती थीं तथा उन्ही के द्वारा कौतुक मगल सस्कार होता था<sup>६</sup> । विवाह के पश्चात् वर का मिश्रो से परिचय कराया जाता था जिसे नाटक में "मुहूजन दर्शन" "कहा है<sup>७</sup> । विवाह के अन्त में राजा उपहार भी देते थे । भू गर एक ऐसा ही उपहार था<sup>८</sup> ।

स्त्री-दशा—समाज में स्त्रियों का सम्मान था । वे समान रूप से कार्यों में राय भी देती थीं तथा समान आसन पर बैठती थीं ।<sup>९</sup> उन्हे शिक्षा का अधिकार था । पढ़ने लिखने के अनावा गान बजाने में तथा चित्रकला में, माला गूँथने आदि ललित कलाओं में निपुण होनी थीं । उदक-श्रीडा में भी रुचि होती थीं ।<sup>१०</sup> बला सिखाने वो शिक्षक रखे जाते थे, कन्या सीखने भी जाती थीं ।<sup>११</sup> विवाहितों वो उनके पति सिखाते<sup>१२</sup> थे विवाहित स्त्रियाँ पर्दा करती थीं<sup>१३</sup> तथा

१. स्वप्न० ६।११-१२,
२. स्वप्न० तृतीय का प्रारम्भ,
३. वही, तृतीय अंक,
४. वही,
५. वही,
६. वही,
७. स्वप्न० ४।८-६,
८. प्रतिज्ञा० ४।२१,
९. स्वप्न० ६।३-४,
१०. देखो स्वप्न० का चतुर्थ अंक,
११. प्रतिज्ञा० २।६-७,
१२. स्वप्न० ६।१६-१७, विन्टन्डज ने भास के घटनिका शब्द का अर्थ कारपैट माना है, पर्दा नहीं, सम० प्रा० ६० लि० पृ० ११८, किन्तु बारतविकास मही है कि यह शब्द अवगुण्ठन के लिए ही यहाँ प्रयुक्त है । इसके अतिरिक्त पर्दा को कचुक शब्द भी प्रयुक्त है । देखो स्वप्न० ३।५-६,

ग्रन्थ पुरुषों के सम्मुख नहीं जाती थीं। कन्या पर्दा नहीं करती थी। स्त्रियों की चरित्र-रक्षा पर विजेप ध्यान दिया जाता था।<sup>१</sup> पति की अनुपस्थिति में स्त्रियों की चरित्र-रक्षा के लिए उनके मरक्षक सावधान रहते थे। स्वयं स्त्रियाँ भी पर पुरुष सकीतन तथा दर्शन को दोप मानती थीं।<sup>२</sup> पति भी स्त्री के चरित्र-रक्षा को उत्तरदायी था। वे स्वयं भी चरित्र रक्षा को सचेष्ट रहती थीं। चरित्र-रक्षा के लिए विश्वामित्रों के पास “न्यास” भी किया गया है।<sup>३</sup> पुरुष भी विवाहित स्त्री-दर्शन में दोप मानते थे। पर कन्या-दर्शन दोप-युक्त न था।<sup>४</sup>

व्यवसाय में भी स्त्रियाँ भाग लेती थीं। नाटक में जौहिङारी के शराव वेचने का उल्लेख है। स्त्रियों को घृमने को प्रमदवन अलग से होता था। स्त्रियों का सर्वविध दायित्व पुरुष पर था। पुनर् स्त्रियों के दायित्व को भार भी मानता था।<sup>५</sup> कोई अरुचिकर घटना होते पर स्त्रियाँ आत्म-हत्या भी कर देंठती थीं। नाटक में अंगारवती के आत्महत्या के प्रयास का संकेत है।<sup>६</sup>

लोक विश्वास—भास के नाटकों से उस समय में प्रचलित कुछ लोकविश्वास तथा मान्यताओं का भी ज्ञान होता है। नाटकों से जात होता है कि समाज भाग्य-वादी अधिक था। कर्म करते हुए भी उसका परिणाम तथा फल अहृष्ट के आवीन माना जाता था। योगन्वरायण के शब्दों में कालक्रम के अनुसार चक्रार्पक्ति के समान (संसार की) भाग्य पक्ति भी बदलती रहती है।<sup>७</sup> भाग्य को ही दुःख-मुख एवं हृष्ण-विषाद का कारण माना जाता था।<sup>८</sup> यह भी एक धारणा थी कि भाग्य के अनुसार ही सब बनता विगड़ता है।<sup>९</sup> उस समय कर्म के आगे भी अहृष्ट शक्ति मानी जाती थी, जिसमें किसी का हस्तक्षेप संभव न था। अतएव विधि अनतिक्रमणीय माना गया है।<sup>१०</sup> संसार की समस्त घटनाएँ अंतिम रूप से दैव या भाग्य के द्वारा ही सम्पन्न मानी जाती थीं। कांचुकीय कन्या-प्रदान में अंतिम रूप से भाग्य को ही

१. स्वप्न ११६,

२. वही ११२-१३,

३. वही १६-१०,

४. प्रतिज्ञा० ३।५-६,

५. स्वप्न० ५।१,

६. प्रतिज्ञा० ४।२३-२४,

७. स्वप्न० १।४,

८. वही ६।५,

९. प्रतिज्ञा० १।३,

१०. स्वप्न० ४।५-६

## १७० संस्कृत के ऐतिहासिक नाटक

निर्णयिक मानवा है।<sup>१</sup> किन्तु भास ने स्वयं भाग्यवानी होने पर भी उत्साह को पर्याप्त महत्व दिया है।<sup>२</sup> तथापि अनिम स्वायत्तना भाष्य की ही मानी गई है।<sup>३</sup>

भासकालीन समाज में भविष्यवाणियों पर भी अधिक विश्वास किया जाता था। भविष्यवाणियों प्राय सिद्ध लोग किया करते थे। भविष्यवाणियों की पूर्वं परीक्षा करने पर ही इनके मत्य होने में विश्वास किया जाता था। यह भी मान्यता थी कि भाग्य भी मिद्दन्वाक्यों का उल्लंघन नहीं कर सकता।<sup>४</sup> मध्यवर्त भविष्यवक्ता येश्वर भी होते थे। नाटक में ऐसे लोगों को "आदेशिक" शब्द प्रयुक्त है।<sup>५</sup> माम ने पुणर भद्र आदि मिद्दों का उल्लेख भी किया है।<sup>६</sup> लोगों में आजकल भी भाँति शुद्ध विश्वाम भी घर कर गए थे। प्राय लक्षणों के शुभाशुभ पर ध्यान रखा जाता था। मनोधि म भट्टट विश्वास था। नाटक में अनेक स्थानों पर इनका उल्लेख है। विवाह आदि शुभ कार्यों में सुवासिनी (अविधवा) को ही शुभ मानते थे।<sup>७</sup> शाति आदि के उद्देश्य से धारणाएँ को भोवत करते जाते थे।<sup>८</sup> उन्हें दान भी दिया जाता था। ऐसी भी धारणा थी कि उदक स्नान में स्वप्न दीखते हैं।<sup>९</sup> स्वप्नों के शुभाशुभ फल में विश्वास किया जाता था।<sup>१०</sup> अशुभ कार्य के निवारण तथा शान्ति एव सुरक्षा के निमित्त रक्षान्मूल का प्रयोग भी करते थे। नाटक में इसे "प्रतिगरा" बहा है।<sup>११</sup> 'प्रतिसरा', वधूजन अर्थात् मौमायनी स्त्रियों द्वारा ही देनाया जाता था।

"श्रीष्ट-विनोद—श्रीनुहृषि विनोदप्रिय होने के साथ-साथ अनेक प्रकार के खेल भी खेलने थे। इन्हीं कुमारी अवस्था तक ही स्वच्छन्द रूप से खेल सकती थी। कन्दुक-श्रीढा उनका प्रिय खेल था।<sup>१२</sup> वे विवाहोपरात शवमुर-घर में नहीं खेल सकती

१. प्रतिज्ञा० २ १,

२. यही ११२८,

३. वही, २१५,

४. स्वप्न० ११११,

५. यही ११५-७,

६. यही,

७. स्वप्न० अंक ३,

८. प्रतिज्ञा० ११६-१७,

९. स्वप्न० ५१८-९

१०. प्रतिज्ञा० ११३-२

११. प्रतिज्ञा० ११३-३,

१२. स्वप्न० अंक ३,

थी ।<sup>१</sup> वे वीरणा बजाना भी सीखती थी ।<sup>२</sup> पुरुष भी वीरण-वाच्म में पढ़ होते थे । गान्धर्व-वेद भी एक वेद माना जाता था ।<sup>३</sup> श्रीर्ष-वेदना के लिए विनोद किया जाता था ।<sup>४</sup> परस्पर मनोरजन के लिए भी हास-परहात होते ।<sup>५</sup> हृष्टिविलोभन के लिए भजावट करते,<sup>६</sup> तथा कथा कहते थे ।<sup>७</sup> पुरुष मृगया के शौकिन होते थे । हस्तिविद्या में विशेष हृति होती थी । हस्ति पकड़ना भी एक विद्या थी ।<sup>८</sup> कुञ्जर-ज्ञान प्रायः हर एक को नहीं होना था, यही कारण है कि उस समय यह ज्ञान एक विशेष ग्रन्थिमान का कारण था ।<sup>९</sup> हस्ति को शिक्षा भी दी जाती थी ।<sup>१०</sup> नील-हन्ति ग्रादि इनकी विशेष श्रेणियाँ भी थीं ।

शिक्षा—शिक्षा अनेकांगी थी । आश्रमों में वेदाव्ययन होता था ।<sup>११</sup> अन्त में गुह-दक्षिणा भी दी जाती ।<sup>१२</sup> गान्धर्व विद्या भी वेद के रूप में उल्लिखित है ।<sup>१३</sup> हस्तिविद्या भी जानते थे । केवल वीरणा द्वारा हाथी वश में करता,<sup>१४</sup> मंत्रोपवि के प्रयोग द्वारा हस्ति पर नियंत्रण पाना,<sup>१५</sup> आदि इसी के अंग थे । इस समय इसके विशेषज्ञ भी होते थे । नोग गान-वाद भी सीखते थे । वीरणा लोकप्रिय वाद था । वीरणा-जिक्षणालय भी होते थे । नाटक में इसे “नारदीया” कहा है ।<sup>१६</sup> नाटक से अर्थशास्त्र, व्यायाम,<sup>१७</sup> मंत्र विद्या, <sup>१८</sup> नक्षत्रविद्या तथा ग्रहण आदि का भी ज्ञान

- 
१. प्रतिज्ञा० २।१३-१४,
  २. स्वप्न० ४।१ के पूर्वं,
  ३. प्रतिज्ञा० २।१०-११,
  ४. स्वप्न० अंक ५ का प्रवेशक,
  ५. स्वप्न० ४।३-५,
  ६. वही ५।४,
  ७. प्रतिज्ञा० १।६-७,
  ८. वही, २।३, तथा १०-११,
  ९. वही ४।१०,
  १०. स्वप्न० १।१२-१३,
  ११. वही १।८,
  १२. प्रतिज्ञा० २।१०-११,
  १३. वही २।१२,
  १४. वही ३।४-५,
  १५. प्रतिज्ञा० २।६-७,
  १६. वही २।१३,
  १७. वही २।१२,
  १८. प्रतिज्ञा० १।६,

होता है। लोग चिकित्सा-शास्त्र में अभिज्ञ होते थे। वातशोणित<sup>१</sup> क्षय<sup>२</sup> आदि रोगों का उल्लेख है। शीर्षाभिधात में प्रलेपौपषि प्रयोग होती।<sup>३</sup> लोग रोगियों की परिचर्या में चुम्बक होने। ग्रह-प्रतिकर्म के उल्लेख में शत्यचिकित्सा में अभिज्ञता वा ज्ञान होता है।<sup>४</sup> स्वप्न-विज्ञान भी लोगों को अपरिचित न था।<sup>५</sup>

लान-पान —नाटक से व्यान-पान आदि के सम्बन्ध में भी ज्ञान होता है। किन्तु साकेतिक स्वप्न से ही। शाकाहार में मोदक अतिप्रिय था। मास तथा मदिरा का भी प्रयोग होता था।<sup>६</sup> स्त्रियाँ सुरा देवती थीं तथा अपन घरों में विलाती थीं।<sup>७</sup> सुरा पीने के स्थान को पानागार कहते थे।<sup>८</sup> सुरापान प्राय निम्नलोग ही करते थे तथा वह इसे अच्छा भी समझते थे।<sup>९</sup> सुरापान को मोदक के समान मुरुर वताया गया है।<sup>१०</sup> श्रमणक भी सुरा पीते थे।<sup>११</sup> पर अपवाद के स्वप्न में। नाटक में यह भी प्रतीत होता है कि कोई-कोई स्त्रिया भी सुरापान करती थी। नाटक में “स्नुपा रज्यति पीता यदि” कहा है।<sup>१२</sup> इससे यह भी स्पष्ट होता है कि सुरापान चारित्रिक हीनता का वारण भी था। धी, मिच, नमक छारा माम पकाया जाता था, तथा मदिरा के साथ साधा जाता था।<sup>१३</sup>

बाहन —बाहन के स्वप्न में स्त्रियाँ शिविका का प्रयोग करती थीं।<sup>१४</sup> शिविका पुरुष दोने थे। हाथी भी लोकप्रिय तथा उपयुक्त बाहन था। सम्भवत रथ तथा अश्व का भी प्रचलन था।

१. स्वप्न० अंक ४ का प्रवेशक,

२. प्रतिज्ञा० ३।१-२,

३. स्वप्न० ३।१-४,

४. प्रतिज्ञा० २।१३-१४,

५. स्वप्न० ५।१०, तथा प्रतिज्ञा० १।१-८,

६. वही ३।१-३, तथा ५।१-२,

७. वही, चतुर्यं का प्रारम्भ,

८. वही,

९. वही,

१०. वही ३।१-२,

११. वही,

१२. चतुर्यं का प्रारम्भ

१३. वही,

१४. प्रतिज्ञा० ३।५-६,

न्यास तथा वन्धक आदि—भासकालीन समाज में न्यास-प्रथा भी थी। चारित्रिक मुरक्खा आदि के निमित्त स्त्रियों को भी न्यास रूप में रखा जाता था।<sup>१</sup> न्यास की सुरक्षा कठिन मानी जाती थी, अतएव न्यास रखने से लोग घबड़ते थे। भास के शब्दों में अन्य सभी काम करना सुकर है किन्तु न्यास की रक्षा करना दुःखावह होता है।<sup>२</sup> नियत समय के बाद न्यास लौटा लेते थे किन्तु साक्षी प्रस्तुत कर केही न्यास लौटाया जाता था।<sup>३</sup> इसे “अधिकरण” भी कहते थे। नाटक में वन्धक-प्रथा का भी सकेत मिलता है। ग्राम-सेवक ने भद्रावती हस्तिनी की माला आदि वन्धक रख दी थी।<sup>४</sup>

नाटक में मुद्रा के लिए “मापक” शब्द का प्रयोग हुआ है। मापक एक प्रकार की स्वर्ण मुद्रा थी।<sup>५</sup> नाटक से अन्य सामाजिक परंपराओं के सम्बन्ध में भी ज्ञान होता है। शिष्टाचार पालन का महत्व था। स्त्रियाँ गुरुजनों का अभिवादन करती थीं।<sup>६</sup> स्त्रियाँ परस्पर समुदाचार पालन का भी ध्यान रखती थीं।<sup>७</sup> लोक-व्यवहार में समुदाचार पालन आवश्यक-सा था। सभी इसका ध्यान रखते। स्त्रियाँ पर-पुरुष-संकीर्तन करना अशिष्टता समझती थीं।<sup>८</sup> कुशलता जानने को लेख का भी प्रयोग होता था।<sup>९</sup>

**वास्तुः**—भास के ऐतिहासिक नाटकों में वास्तु सम्बन्धी कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग हुआ है जिससे उस समय की शिल्पकला के सम्बन्ध में ज्ञान होता है। भास के समय (राजाओं की) स्त्रियाँ अन्तःपुरों में रहती थीं। अन्तःपुर कलात्मक रूप से बने होते थे। स्त्रियों के विशेष बाग होते जिन्हें प्रभदवन कहते। इनमें लता-मण्डप होते थे, बैठने को शिलापट होते थे। इनके पर्वत-तिलक आदि नाम होते थे।<sup>१०</sup> कृत्रिम रूप से भी पर्वत आदि का भी निर्माण होता था। भास ने एक “दारूपर्वत”

१. स्वप्न० ११८-११,
२. वही ११०,
३. वही ६।१६-१७,
४. प्रतिज्ञा० ४।१-२,
५. वही ३।१-२
६. स्वप्न०, ६।१२-१३,
७. वही ६।१८-१६,
८. स्वप्न अंक ४ का प्रारम्भ,
९. प्रतिज्ञा० १।१-३,
१०. स्वप्न० ४।१-२,

का उल्लेख किया है ।<sup>१</sup> स्नान करने के लिए श्रम्ण पुरो में दीधिका (तालाब पा बावडी) होती थी ।<sup>२</sup> राजाओं को रहने को प्रासाद होते थे । नाटक में वर्द्ध प्रकार के भवनों का उल्लेख है । सभवत जल-महल को वहाँ समुद्रगृह<sup>३</sup> कहा गया है । कुछ मकानों की रचना विशेष प्रकार की होती थी । नाटक में मधुरयस्ति मुख प्रासाद<sup>४</sup> तथा सूर्यमुख प्रासाद<sup>५</sup> का भी उल्लेख किया है । मवान कई मजिन के होते थे । भास ने बोच की मजिल वाले मकान को “मध्यम गृह” शब्द लिया है । प्रासादों का निर्माण कलात्मक होता था । कुछ में मणियाँ भी विछी होती थी—ऐसे स्थानों को “मणिभूमिका” शब्द प्रयुक्त है । नाटक से शान्तिगृह<sup>६</sup> तथा अग्निगृह<sup>७</sup> प्रादि का शान होता है । शान्तिगृह सभवत ग्राजकल के विश्वानित गृह के समान रहा होगा । अग्निगृह के चार द्वार भी होते थे ।<sup>८</sup> नगर में राजमार्ग होते, वहाँ नाली होती थी । भास ने इसको ‘प्रणाली’ शब्द लिया है ।<sup>९</sup> नगर की गलियों में चतुष्पथ भी होते थे ।<sup>१०</sup> नगरों में प्राकार तथा तोरण भी होते थे ।<sup>११</sup> कौशाम्बी में प्राकार एवं तौरण थे । राज-प्रासाद में प्रमुख द्वार होता था उसे “भद्र-द्वार” कहा है ।

१. स्वप्न० ४१-२,

२ वही अंक ४ का प्रवेशक,

३. वही, पंचम अंक का प्रवेशक,

४. प्रतिज्ञा० २।१३-१४, यह या तो मधुर के समान बना होता था या इसमें भूपूर्णे के बैठने के स्थान होते थे ।

५. स्वप्न०, यष्ठ अंक का विष्कम्भक, कुछ इसका पाठान्तर सूर्यमुख प्रासाद अर्थ करते हैं । गणपति शास्त्री के श्रुतुसार इस प्रासाद के सामने मगल सूचक “सूर्य” नामक विवाह देवता की, प्रतिमा होती थी, कुछ इसका अर्थ सूर्यभिमुख महल करते हैं तो कुछ सूर्य-नवोडा का महल श्री देवधर मुद्याभुनप्रासाद ठोक भानते थे, अर्थ है यमुना के सामने का महल । अन्य शाय्या-मुख-प्रासाद भी मानते हैं ।

६. प्रतिज्ञा० २।१३-१४,

७. वही, १।१७-१८,

८ वही, ३।१-३,

९ प्रतिज्ञा० ३।६-१०,

१०. वही, ३।५-६,

११ वही, ३।६ के बाब,

१२. वही, ४।४-५,

मकानों में प्रायः तोरण आदि होते थे, इन पर माला आदि भी लटकाते थे ।<sup>१</sup> कहीं-कहीं तोरण स्वर्ण की चित्रकारी से युक्त भी होते थे जिन्हें काँचन तोरण कहते थे ।<sup>२</sup>

## शासन व्यवस्था

भास के ऐतिहासिक नाटकों से तत्कालीन शासन-प्रवद्यत तथा रणनीति आदि के सम्बन्ध में ज्ञान होता है । भास के समय में गणतन्त्रों के समानान्तर राजतंत्र भी अपनी नींव गहरी कर चुके थे । साम्राज्यवादी प्रवृत्ति भी बढ़ती जा रही थी । भास के ऐतिहासिक नाटकों से उस समय में प्रथोग आने वाले राजनीतिक शब्दों का ज्ञान होता है । भास ने राजा को सामान्यतः “महाराज” तथा “राजा” शब्द प्रयुक्त किया है । इस समय उत्तरी भारत में शासक प्रायः धनुंयंगिक होते थे, तथा राजा पदवी का व्यवहार करते थे । राज्य के संचालन के लिए सचिवं-मण्डल होता था ।<sup>३</sup> नाटक में सचिव, मंत्री, तथा अमात्य शब्द सामान्यतः पर्याय के रूप में प्रयुक्त हुए हैं । नाटक में तत्त्व स्थल पर प्रयुक्त उन २ शब्दों से ज्ञात होता है कि मंत्री शब्द तो संभवतः सामान्य शब्द था जबकि सचिव तथा अमात्य शब्द विशेष अधिकार वाले व्यक्तियों को ही प्रयुक्त होता था । सचिव तथा अमात्य शब्द ही मुख्यतः योगन्धरायण तथा रुमण्डान को प्रयुक्त हुए हैं मंत्री शब्द बहुत कम । नाटक में प्रधान-मंत्री शब्द का प्रयोग नहीं है । जातकों में भी अमात्य शब्द प्रधान-मंत्री को प्रयुक्त है । कौटिल्य वे भी अमात्य शब्द का उल्लेख किया है । कालिदास ने भी अमात्य, मंत्री तथा सचिव शब्द का प्रयोग समान अर्थ में किया है । प्राचीन-काल की राज्य-व्यवस्था में मंत्रि-मण्डल अस्यन्त महत्त्वपूर्ण था ।<sup>४</sup> महाभारत, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति तथा शुक्रनीति आदि ग्रन्थों में भी मंत्रि-मण्डल की आवश्यकता बतलायी गयी है ।<sup>५</sup> ऐतिहासिक काल में मंत्रियों के लिए मंत्री, अमात्य तथा सचिव शब्द प्रयुक्त होता था ।<sup>६</sup> इनमें प्रधानमंत्री सबसे महत्त्वपूर्ण होता था तथा सर्वदर्शी होता था । सारी शासन-व्यवस्था इसी के अधिकृत होती थी<sup>७</sup> नाटक में योगन्धरायण के चैरित्र से स्पष्ट है कि वह

१. स्वप्न ३।२-३,

२. वही, पठ का विष्कम्भक,

३. प्रतिज्ञा १।१३-१४,

४. प्रा० भा० शा० पद्धति पृ० १३२,

५. वही,

६. वही, पृ० १३५,

७. वही, पृ० १४१,

निश्चित स्पष्ट से प्रधानमन्त्री था। रुमण्डान स्वप्न<sup>०</sup> में मेनापति प्रतीत होता है।<sup>१</sup> वैसे भी नाटक से स्पष्ट है कि ममस्त सचिव मण्डल में प्रधान ही सर्वप्रमुख होता था। इसी कारण वही उदयन सचिव मण्डल का अनिक्रिया करके योगन्धरायण को देखने की अभिलाषा व्यक्त करता है<sup>२</sup> प्रधानमन्त्री के बाद म युद्ध मन्त्री का स्थान होता था। शश के उसे सचिव नाम दिया है।<sup>३</sup> नाटक में भी सचिव शब्द रुमण्डान को प्रयुक्त है किन्तु यह सामान्य मन्त्री का पर्याय है। नाटक म उदयन वे इन दो मन्त्रियों का ही उल्लेख हूँगा है। इसी प्रकार महासेन व भरतरोहक प्रधान-मन्त्री तथा शालकायन सेनापति प्रतीत होते हैं।

नाटक से यह भी स्पष्ट है कि राजा मन्त्रियों विशेषत प्रधान अमात्य का अत्यधिक आदर करता था। नाटक म योगन्धरायण को वयस्य तथा आर्य भी वहाँ है। राजा व्यक्तिगत बायों में उसमें परामर्श भी लेता था। समस्त राजकार्य मन्त्री ही सचालित्र करते थे। राजा भी राजकार्य को अमात्या पर द्योह देते थे। मन्त्रियों की नीति ही सर्वेसर्वा होती है। योगन्धरायण वे कार्य-कलाप से स्पष्ट है कि राज्य के प्रति मन्त्री ही उत्तरदायी होता था। मन्त्री भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार सभी कृद्य करते थे। स्वामी के लिए कष्ट सहनी प्रशम्न माना जाता था<sup>४</sup>। प्राणों वो स्वामी के लिए सकट में भी ढाल देते थे<sup>५</sup>। प्रधान-मन्त्री युद्धादि म सक्रिय भाग लेता था तथा शास्त्र विद्या के साथ शास्त्र-विद्या में भी निपुण होता था<sup>६</sup>। राजा को अपन आधीन कर लेना मन्त्रिया की मफलता मानी जाती थी<sup>७</sup>। योगन्धरायण के शब्दों में राजमहिं के कारण विपत्ति में पड़ जाना भी अमात्य पद के लिए गोरख की बात होनी थी<sup>८</sup>। वह कहता है कि हम ससार से क्या प्रयोजन, हम तो स्वामी वो प्रसन्न करना है<sup>९</sup>। सामान्यत उदयन वा शासन सचिवायत्त था। नाटक से स्पष्ट है कि प्रधान मन्त्री कोई भी काम करने को म्वतन्त्र होता था। राजकाय में ही नहीं अपितु राजा के वैयक्तिक जीवन से सम्बन्धित कार्यों म भी हम्तक्षेप कर देता था।

१ स्वप्न ५। ११-१३,

२. प्रतिज्ञा १। १३-१४,

३ प्रा० भा० शा० पद्धति० पृ० १४२,

४. प्रतिज्ञा० ३। ७-८,

५ वही, १। १३-१४,

६ वही, ४। ५-६,

७ स्वप्न० १। १५,

८ प्रतिज्ञा० ४। ७,

९. वही, ३। ७-८,

यीगन्धरायण ने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वासवदत्ता को छिपा दिया था । यद्यपि उस समय राज्य सचिवायत्त था, तथापि मन्त्री मनमाना कार्य नहीं कर सकते थे । उन्हें सदैव राजा से भय तथा राज्य की रुप्तता की शंका रहती थी<sup>१</sup> । राजा न्यायप्रिय तथा धर्मप्रिय भी होता था । नाटक में राजा को धर्मोपदेष्टा कहा<sup>२</sup> है । राजा का भी बहुत सम्मान होता था । छोटे कर्मचारी उसकी ईश्वर की भाँति प्रदक्षिणा करना भी शिष्टाचार समझते थे<sup>३</sup> । उस समय राज्यों के उदय-अस्त होते रहते थे<sup>४</sup> । अनुत्साही, अशक्त, कामी राजाओं का अस्तित्व असंभव था । उत्साहशील राजा ही राज्यलक्ष्मी को भोगने में सफल होते थे<sup>५</sup> । न्याय कठोर था । राज्य में विद्रोह तथा वगावत करने वाले को मृत्यु-दंड दिया जाता था ।

सन्देश—विशेष-विशेष प्रयोजनों से सन्देश—हर सन्देश ले जाते थे । स्त्रियों को स्त्रीयां, पुरुष को पुरुष ही सन्देश सुनाते थे । राजा भी शिष्टाचार के साथ खड़े होकर सन्देश सुनता था । जाति-कुल से सम्बन्धित सन्देश पत्नी के साथ बैठकर सुनता था । राजनीतिक सन्देश एकाकी ही सुना जाता था ।

दौत्य — नाटक से दूत-प्रणाली के सम्बन्ध में भी ज्ञान होता है । दूत दो प्रकार के होते थे ।—एक, कुशल समाचार जानने को, जाति-कुल के पारस्परिक समाचार सुनाने को तथा विवाह के उद्देश्य से भी दूत-संपात होता था । दूसरे, राजनीतिक उद्देश्य के लिए भी दूत भेजे जाते थे । सामाजिक कार्यों में दौत्य कांचुकी, उपाध्याय तथा धात्री आदि परिजन के व्यक्ति ही करते थे । राजनीतिक उद्देश्य को विशेष व्यक्ति ही भेजा जाता था । दूतों को प्रतिहार पर ही रोक लिया जाता था । दूतों का सत्कार होता था । उनसे शिष्टता का व्यवहार किया जाता था ।

गुप्तचर “चर” शब्द का भी नाटक में उल्लेख है । वेष-परिवर्तन करके दूसरे राज्यों में फैल जाना, पड़यंत्रों का पता लगाना आदि उनके कार्य होते थे । इस दृष्टि से भास का राजनीतिक वातावरण कौटिल्य से मिलता जुलता है । गुप्तचर, पड़यंत्र, मंत्रीपथि-प्रयोग सभी उसी प्रकार होते थे । लेख भी राजनीतिक उद्देश्य के लिए भेजे जाते थे ।

१. स्वप्न ६।१५.

२. वही, ६।१६.

३. प्रतिज्ञा० १।१३-१४,

४. स्वप्न० ६।६,

५. वही, ६।७,

## १३६ : संस्कृत के ऐतिहासिक नाटक

**संन्य योजना**—नाटकों से रणनीति, तथा संन्द-व्यवस्था के सम्बन्ध में पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। उस समय राजा वडी-वडी सेनायें रखते थे। नाटक में सेना के लिए संन्य, वल आदि शब्द प्रयुक्त हुए हैं। वल शब्द छोटी सेनिस दुक्डियों के लिए प्रयुक्त प्रतीत होता है। जात होता है कि वभी-नभी सेना राजाओं म अनुरक्षा तथा राजा के प्रति बफादार नहीं होती थी। भास ने अनुरागहीन सेना को वलत्र (स्त्री) के समान बतलाया<sup>१</sup> है। नाटक में वलत्र शब्द सेनिसों की सुरक्षा दुक्डी को भी प्रयुक्त हुआ<sup>२</sup> है। राज्य में सेना का महत्व था। योग्यत को “एक परिवार” बताया है।<sup>३</sup> सेना स्नेह वर्तने वाली, राजा के भ्रम से बशीड़त, मढ़नती तथा अस्त्र-शस्त्र आदि के सचालन में चतुर होती थी तब भी कभी-कभी शत्रु धनादि के प्रलोभन द्वारा उसे वश में कर लेते थे। विजय का प्रमुख अग सेना ही होती थी। मुख्यत सेना का युद्ध में प्रयोग किया जाता था। वल (दुक्डियो) के रूप में, जिसमें पदाति घुडसवार आदि भी होते थे, आत्मसुरक्षा तथा शिकार के लिए भी प्रयोग होता था<sup>४</sup>।

नाटक में अक्षोहिणी सेना का भी उल्लेख है<sup>५</sup>। अक्षोहिणी वह सेना होनी थी जिसमें २१,८७० हाथी तथा रथ, ६५१० घोड़े तथा १०६,३५० पैदल होते थे। जान पड़ता है कि अक्षोहिणी शब्द नाटक में मात्र परम्परागत रूप में सेना की विश्वालना को ही प्रयुक्त हुआ है। वैसे, मेना में हम्ति, अश्व, रथ, पदाति आदि सभी होते थे। मेना में घुडसवारों का ज्यादा महत्व था। युद्ध में आने से पूर्व घोड़ों का नीराजन भी किया जाता था<sup>६</sup>। हस्तिसेना भी थी। भास ने गजाध्यक्ष को महामात्रोत्तरायुधीय लिखा है<sup>७</sup>। हाथियों की साज-सज्जा भी होती थी। नाटक में हाथी की माला का भी उल्लेख है<sup>८</sup>।

१. प्रतिज्ञा० १४,

२. वही, ११६-७,

३. वही,

४. वही,

५. वही, ११३-४,

६. वही, ११२, युद्ध में जाने से पूर्व अश्वों की विशेष पूजा की नीराजन बहती है। कालिदास ने रघुवश में इसे “वाजिनीराजन विधि” कहा है भास ने नीराजन कीतुक माल का उल्लेख किया है।

७. वही, ११६-७,

८. वही, ४११-२,

सेना की योजना शास्त्रोक्त प्रकार से व्यूह वद्ध होती थी। नाटक में पापर्णी शब्द का भी उल्लेख है<sup>१</sup>। पापर्णी सेना के पृष्ठभाग को कहते हैं। सेना नदी पार करने में समर्थ होती थी।

**आयुधागार—**भास ने शब्दतः आयुधागार का उल्लेख किया है।<sup>२</sup> स्पष्ट है कि विशेष रूप से आयुधों के भंडार भी होते थे। आयुधों में धनुष, वारण, तलवार, कुन्त आदि शास्त्र प्रमुख थे। सेना कवच से युक्त होती थी। भास ने कवच को सन्नाह शब्द प्रयुक्त किया है।<sup>३</sup>

### रणनीति

युद्ध में घोटे से बड़े तक सभी भाग लेते थे। राजा तथा प्रधानमंत्री भी सक्रिय रूप से युद्ध में भाग लेता था। नाटक से सैनिकों की वेशभूषा का भी ज्ञान होता है।<sup>४</sup> ये दस्ते आदि पहनते थे। युद्ध में हाथों से हाथी तथा घोड़े से घोड़े लड़ते थे।<sup>५</sup> निरस्त्र होने पर भी न तो समरण करते थे, न पीछे ही भागते थे।<sup>६</sup> उस समय मान्यता थी कि “जो स्वामी के अन्न के लिए युद्ध नहीं करते वह नरक-गामी होते हैं।”<sup>७</sup>

युद्ध में छल-बल सभी प्रयोग लाए जाते थे। नाटक में छल प्रयोग का कई स्थानों पर उल्लेख है। कूटनीतिक युद्ध में “नवच्छल” प्रमुख होता था।<sup>८</sup> नीति का प्रतिकार नीति से तथा छल का छल से किया जाता था। साम, दाम, दण्ड के अतिरिक्त भेद नीति का अधिक प्रयोग होता। भेद द्वारा ही शत्रु-सेना में फूट डाली जाती थी।<sup>९</sup> युद्धों में ओपघ तथा मत्रों का भी प्रयोग होता था।<sup>१०</sup> हारे हुए शत्रु को

१. स्वप्न ५।१२, पुरश्चपश्चाच्च यदासमर्यस्तदातियादान्महते फलाय।

पुरः प्रसर्वन्वियुद्धपृष्ठः प्राप्नोति तीव्रं खलु पापिण्येदम् ॥ कामन्वफ

२. प्रतिज्ञा० ४।१०-११,

३. वही २।६-१०,

४. वही ४।३,

५. वही ४।४,

६. वही,

७. देखो वही ४।२,

८. वही ४।१२-१४,

९. देखो स्वप्न ५।१२ तथा देखो प्रतिज्ञा० का तू० अंक।

१०. प्रतिज्ञा० ३।४-६,

मृत्यु दड़ दिया जाता था।<sup>१</sup> अन्त में नाटक (स्वप्न०) के भरन वाक्य से भारत के विशाल भव्य रूप की भाँड़ी भी मिलती है भास ने सागरपथन्त, हिमालय तथा दिव्य से सुशोभित भारतभूमि के एकचत्र शासन का मन्त्रित दिया है।

“इमा सागरपर्यन्ता हिमवद्विन्द्यकुण्डलाम् ।

महीमेश्वातपत्राका राजसिंह प्रशास्तु न ।”

दा० असतकर ने बताया है कि आसेतु हिमाचल एकचत्र शासन के रूप में समग्र भारतीय राज्य की आदर्श वल्पना ३० प० १००० से ही वर्तमान रही है।<sup>२</sup> सभव है भास के समय म भारत का यह आदर्श रूप न या तथापि यह आदर्श भारत को भूल भूत भौगोलिक एकता, धर्मिक और सास्त्रिक एकता के अनुभव का ही परिणाम था।<sup>३</sup> वास्तव में भारत में समग्र भारत भूमि पर एकचत्र शासन, ज्ञात इतिहास के अनुसार किसी का भी नहीं रहा है, तथापि यह आदर्श राज्य की वल्पना अवश्य रही है। दा० अलतेवर ने इमी सन्दर्भ में लिखा है कि प्राचीन भारत के आदर्श राज्य के रूप में ऐसे शक्तिशाली राज्य की वर्तना की गयी थी, जो समस्त देश को एक सूत्र म प्रसिद्ध करके एक केन्द्रीय शासन के अन्तर्गत सब राज्यों और सूबों के सहयोग से बाहरी शक्तियों के आक्रमण संदेश की रक्षा की व्यवस्था बरे और साथ ही स्थानीय राज्यों या शासनों को अपनी रीति रिवाज और परपरा का पालन करने की तथा अपनी सस्तुति और अपने आदर्शों के विचास की स्वतंत्रता दे।<sup>४</sup> यह आदर्श हमारे वर्तमान अखण्ड और मुहृष्ट भारत और पूर्णवायत्त प्रान्त के आदर्श है पूर्णतया मिलता है।<sup>५</sup> यही आदर्श-भावना भारत के पराक्रमी राजाओं की रही है तथा वर्तमान में भी यही आदर्श भावना मगलबारी है। विजेयकर लोकतत्र में सास्त्रिक एकता तथा भावनात्मक एकता का महत्व अत्यधिक है। देश की स्वाधीनता की सुरक्षा तथा प्रगति के लिए एवं लोक वत्याग के लिए प्राचीन ऐतिहासिक प्रशासन-व्यवस्था के उपर्योगी मूला को प्रहण करके वर्तमान एवं भविष्य दो सुरक्षित बनाया जा सकता है।

१ प्रतिज्ञा० ४२२,

२ प्रा० भा० शा० पढ़ति दा० अलतेकर, पृ० २५६,

३ वही पृ० ३४६ ३५०,

४ वही, पृ० ३५०,

## मालविकाग्निमित्र

महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार हैं। कालिदास ने सम्भृत साहित्य को, अनेक अमूल्य ग्रंथ-रत्नों के सृजन द्वारा समृद्ध किया है। नाटक महाकाव्य तथा खण्डकाव्य के रूप में कालिदास ने सर्वप्रथम संस्कृत साहित्य में एकाधिक माहित्य विवाचों की सृजन-परम्परा का प्रवर्तन किया है। हमें उनके तीन नाटक उपलब्ध हैं—

मालविकाग्निमित्र, विक्रमोवंशीय तथा अभिज्ञान शाकुन्तल। इन तीनों नाटकों में मालविकाग्निमित्र ही एकमात्र ऐतिहासिक नाटक है। अतः यहाँ कालिदास के नाटककार को मालविकाग्निमित्र के परिपार्श्व में निरखने परखने का प्रयत्न किया जायगा।

### कालिदास का समय :

संस्कृत साहित्य में कालिदास का स्थान जितना अधिक गौरवमय है उनका समय उतना ही दिवारांस्पद है। कालिदास के काव्यों की उत्कृष्टता, नहींौशता, तथा सर्वविविध सफलता के विषय में समस्त समालोचक प्रायः एक मत है, किन्तु उनके जीवनवृत्त तथा काल के संबंध में विद्वानों के अनेक मत हैं। बहुत समय से प्राच्य एव पाश्चात्य विद्वानों ने कालिदास के समय के संबंध में अन्तः वाह्य साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालने के अनेक अनेक प्रयत्न किए हैं, लेकिन अद्यावधि कोई सर्वसम्मत समय निश्चित नहीं हो सका है। फलतः आज भी विद्वानों में वैमत्य है।

कालिदास के समय के संबंध में दो स्पष्ट सकेत उपलब्ध हैं (१) मालविकाग्निमित्र में अग्निमित्र का ऐतिहासिक चरित्र तथा (२) वाणभट्ट के हर्षचरित एवं एहोड के शिलालेख में कालिदास का उल्लेख। कालिदास के मालविकाग्निमित्र नामक ऐतिहासिक नाटक का नायक शुंग वंशी राजा अग्निमित्र है। अग्निमित्र का समय इसा पूर्व द्वितीय शतक का उत्तरार्द्ध निश्चित है। अतः यह निश्चित है कि कालिदास अग्निमित्र अर्थात् इस्वी पूर्व द्वितीय शतक के पश्चान् ही हुए थे। दूसरी ओर, वाणभट्ट (६०६-६४४) के हर्षचरित की प्रस्तावना के श्लोकों में तथा दक्षिण भारत

## १८२ सस्त्रत के ऐतिहासिक नाटक

से प्राप्त ऐटोड के अभिलेख (६३४ ई०) मे कालिदास का उल्लेख हुआ है<sup>१</sup>। अत यह भी निश्चिन है कि कालिदाम सप्तम शतक के पूर्व उत्तर द्वारा ये। अतेर प्राच्य पाश्चात् विद्वानों ने भी ईस्वी पूर्व द्वितीय तथा सप्तम शतक के मध्य मे कालिदाम का समय मानकर अपने-ग्रन्थों मत उपन्यस्त किये हैं—(१) ईस्वी पूर्व द्वितीय शतक (२) ईस्वी पूर्व प्रथम शतक (३) गुप्तकाल तथा (४) पष्ठ शतक<sup>२</sup>। इनम ईस्वी पूर्व द्वितीय शतक म कालिदास का समय मानने वाले विद्वानों के तर्कों का डाक्टर कुन्दनराजा जैसे विद्वानों द्वारा खड़न बर देने के बारण यह मत पूर्णत निराकृत हो चुका है<sup>३</sup>। इसी प्रकार पष्ठ शतक मे भी कम्युन सन डाक्टर हार्नली तथा म० म० हरप्रसाद शास्त्री आदि कुछ विद्वान् मानते थे, किन्तु अब यह मत भी पूर्णतया सदित हो चुका है। आजकल मुख्यत दो ही मत प्रचलित हैं—(१) गुप्तकाल तथा (२) ई० पू० प्रथम शतक

(१) गुप्तकाल—गुप्तकाल मे कालिदास का स्थितिकाल मानने वाले विद्वानों मे भी अनेक मत हैं। (१) प्रोफेगर के बी. पाठा ने स्वन्दगुप्त विक्रमादित्य के समय मे कालिदास को माना है<sup>४</sup>। (२) विजयचन्द्र मजमदार ने कुमारगुप्त तथा स्कन्दगुप्त के समय मे माना है<sup>५</sup>। (३) किन्तु कीथ<sup>६</sup>, भडार्कर आदि अन्य अधिकाश विद्वान् चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय मे कालिदास का समय मानते हैं। गुप्तकाल मे कालिदास की स्थिति मानने वालों मे मुख्यतया यही मत अधिक मान्य है।

चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य—गुप्तकाल प कालिदास की स्थिति मानने वाले विद्वान् कालिदास के ग्रन्थों के अन्यों के अन्त साक्ष्य तथा प्रचलित परम्पराओं के आधार पर यह तो अवश्य मानते हैं कि कालिदाम विक्रमादित्य विद्वदधारी किसी राजा के आश्रित थे, किन्तु उनकी मान्यता है कि जात इतिहास मे वेवल चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ही ऐसा राजा है जिसके समय मे उनकी स्थिति मानी जा सकती है। क्योंकि इसके पूर्ववर्ती किसी अन्य विक्रमादित्य राजा के माध्यमे इतिहास मौन है। इस मत के समर्थकों ने अपने समर्थन मे मुख्यत निम्न तर्क उपन्यस्त किए हैं

१ स विजयता रविकीर्ति कविताश्रित कालिदासभारविकीर्ति,  
देखो स० द्विवदशन पृ० ८०,

२ कालिन्दम स्त्रियाली, पृ० ४,

३. स० कविदशन, पृ० ७८, स० सा० इतिहास, बलदेव उपाध्याय  
पृ० १४० ४।

४ सस्कृत द्रामा, कीय, पृ० १४३-४४, तथा स० सा० इतिहास कीय  
पृ० ६८-६९, इत्यादि।

५ स० सा० इतिहास, बलदेव उपाध्याय, पृ० १४२

६ वही, जे आर ए ऐस १६०६ पृ० ७३।

७ सस्कृत द्रामा, पृ० १४६ तथा स० सा० इतिहास (हिन्दी), पृ० १००,

(१) कालिदास के नाटक “विक्रमोद्योग” में विक्रम शब्द से पहले लक्षित होता है कि संभवतः इसकी रचना चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में की गयी है। इसके अतिरिक्त इसी नाटक में “अनुहतेकः खलु विक्रमालंकारः”<sup>१</sup> में भी विक्रम शब्द प्रयुक्त है। इससे स्पष्ट होता है कि कालिदास चन्द्रगुप्त (द्वितीय) विक्रमादित्य के समकालीन थे। इसी ने शर्कों को बाहर निकाल कर विक्रमादित्य विरुद्ध धारण किया था।

(२) कालिदास के रघुवंश में वर्णित रघुदिविजय में समुद्रगुप्त की दिव्विजय की द्याया ज्ञात होती है।

(३) मालविकार्मिनमित्र में निश्चिन्द्रन आश्रमे यज्ञ भी समुद्रगुप्त के अश्वमेव यज्ञ की ओर संकेत करता है।<sup>२</sup>

(४) कालिदास पर अश्वघोष (प्रथम शतक) का पर्याप्त प्रभाव है तथा अन्य अनेक अन्तर्रंग प्रभावों से सिद्ध है कि कालिदास अश्वघोष के परमर्थी थे<sup>३</sup>।

(५) कालिदास के “कुमार-संभव” में जामित्र शब्द का प्रयोग है, जो भारतीय ज्योतिष को यज्ञों की देन है<sup>४</sup>।

(६) अनुमानतः कुमारसम्भव की रचना कुमारगुप्त के जन्म पर की गई थी।

(७) कालिदास के ग्रन्थों में गुप्त धातु के प्रयोग की वहूलता से भी गुप्तों की ओर संकेत प्रतीत होता है।

(८) कालिदास ने मालविकार्मिनमित्र की प्रस्तावना में भास का उल्लेख किया है। भास का समय उनकी प्राप्ति के आधार पर तथा अन्य प्रमाणों के आधार पर इसधी की द्वितीय सदी है<sup>५</sup>। अतः कालिदास इसके बाद हुए।

(९) रघुवंश में वर्णित शान्ति, समृद्धि, आदर्श एवं उन्नत समाज तथा राजनीतिक दण्ड के चित्रण से यही प्रकट होता है कि वह गुप्तकालीन ‘म्दराणंकाल’ में हुए होने।

उपर्युक्त समस्त तर्कों में केवल दो ही मुख्य तर्क हैं—(१) इतिहास में चन्द्रगुप्त द्वितीय का विक्रमादित्य के रूप में उल्लेख (२) तथा अश्वघोष से

१. विक्रमोद्योगम् पृ० ३० ज्योतिष्ठाती चन्द्रमसौव रात्रिः, रघु० ६।२२, से भी चन्द्र नाम घवनित होता है।
२. संस्कृत ड्रामाः पृ० १४६, स० क० दर्शन पृ० ७६,
३. कालिदास, पिराशी पृ० ११-१७,
४. तिथो च जामित्रगुणान्वितायाम्, कुमार० ७।१, स० क० दर्शन पृ० ७६, तथा संस्कृत ड्रामा, पृ० १४६,
५. संस्कृत ड्रामा पृ० १४६, हम इस भूत का खण्डन कर चुके हैं। हृष्टव्य. इसी प्रबन्ध का पैचम अध्याय।

परवर्तिता । इन्हीं तकों पर इन विद्वानों न विशेष धन दिया है, अत्यं तक इन्हीं की पुष्टि को जुटाए गए हैं । किन्तु ये तकं भी महत्वपूर्ण नहीं हैं । अत हम यह मानते हैं कि कालिदास विक्रमादित्य के समय में हुए थे, किन्तु वह चन्द्रगुप्त द्वितीय न होकर सबत् प्रवर्तक, उज्जेनी का विक्रमादित्य था । अतश्च रघुवश तथा मालविकामिनिमित्र के दिग्बिजय-वरणं में समुद्रगुप्त की दिग्बिजय का प्रभाव मानना असाध है । रघुवश में यह वरणं कवित्वपूर्ण है । पुराण आदि ग्रन्थों में ऐसे घनक वरणं प्राप्त होते हैं, तथा मालविकामिनिमित्र का दिग्बिजय वरणं शुगो द्वारा कुछ पूर्व में किए गए अश्व-मेघ यज्ञ की सम्पादनीय रेतिहासिक घटना के स्वरूप में किया है । इसी प्रकार हम अश्वधीप की पूर्ववर्तिता के पक्ष में भी नहीं हैं । गुप्त धातु तथा अन्य त्रिमी शब्द विशेष के आगार पर कोई मत निरणीयक नहीं माना जा सकता । भास का समय भी द्वितीय सदी न मानकर हम मुद्रूर ईमड़ी पूर्व में मानते हैं । शान्ति तथा उन्नत-समाज आदि वे वरणं का जहाँ तक सम्बन्ध है, वह मुख्यों के समय म अवश्य था । किन्तु क्या शुगों के समय में या उससे पूर्व मौर्यकाल म उन्नत तथा शान्ति का मुग नहीं था ? कालिदास का काव्यों का सम्पूर्ण अव्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उनमें वर्णित राजनीतिक, धार्मिक, मामाजिक तथा सासृतिक वरणं गुप्तकाल में नहीं अपिनु शुगों के अनन्तर ईमड़ी पूर्व म ही था । वस्तुतः चन्द्रगुप्त (द्वितीय) के समय म मानन वालों के तक ईमा की प्रथम वदी में मानन वालों के तर्फ़ों म स्वतः घट्टन हो जाते हैं ।

इसी पूर्व प्रथम शतक—दूसरा प्रमुख मत यह है कि कालिदास ई० पूर्व प्रथम शतक में विश्वमादित्य राजा के आश्रित थे । प्र०० के० सी० चट्टोपाध्याय, सी० वी० वैद्य, आप्टे, शारदारजन गाय आदि धनक प्राच्य-पाश्चात्य विद्वान् इसी मत के समर्थक हैं । हमारी भी यही मान्यता है कि ईमी पूर्व प्रथम शतक म ही कालिदास हुए । इस मत का मानन वालों न निम्न तकं उपस्थित किए हैं —

(१) भारतीय प्राचीन परम्परा के अनुमार कालिदास विक्रमादित्य की राजसमा म प्रमुख तथा नवरत्नों म धन्यनम थे । रघुवश के पृष्ठ सर्गं म धवनिनाथ का वरणं करते समय उन्हीं के नाम “विक्रमादित्य” का सक्त किया है । मुख्यत इस वरणं से तथा मध्यदूत आदि के घनक उन्नर्नदा, और कालिदास का असत्य अपनित्प्रेम प्रकट होता है । इससे स्पष्ट होता है कि वह निश्चित स्वरूप से उज्जेनी के विक्रमादित्य राजा के ही आश्रित थे, जिसन विक्रम सबत् आ प्रवर्तन किया ।

यद्यपि विषयी विद्वान् भी कालिदास को विक्रमादित्य विरुद्धारी राजा के आश्रित मानते हैं, किन्तु उनकी मान्यता है कि इतिहास से इसा पूर्व प्रथम शतक में किसी विक्रमादित्य के अस्तित्व का ज्ञान नहीं होता<sup>१</sup>। ग्रतएव ये विद्वान् ईस्वी पूर्व में विक्रम-सवत्-प्रवर्त्तन में भी सन्देह करते हैं। किन्तु यह सन्देहवाद विक्रमादित्य तथा उनके संवत् की समस्या से सावद्ध प्रत्यक्ष अन्वेषण कार्य पर आधारित उत्तरा नहीं है, जितना कि १६वीं सदी के यूरोपीय प्राच्य-विजारदों द्वारा उठाये गए अनुभानों के आधार पर<sup>२</sup>। डा० राजवली पाण्डेय ने अपनी शोधपूर्ण पुस्तक विक्रमादित्य में विक्रमादित्य की ऐतिहासिकता प्रमाणित की है। उनकी मान्यता है कि विक्रमादित्य के विषय में प्रकाश डालने वाला स्पष्ट तथा ज्वलन्त्र प्रमाण उन्हीं के द्वारा प्रवर्तित विक्रम संवत् ही है<sup>३</sup>। डाक्टर पाण्डेय ने विक्रम संवत् से सम्बन्धित अनेक संभावित जंकारियों का समाधान करते हुए अनेक साक्ष्यों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि विक्रम सवत् के संस्थापक विक्रमादित्य प्रथम सदी ईसवी पूर्व में अवश्य हुए हैं<sup>४</sup>। ग्रत. विक्रम की ऐतिहासिकता में सन्देह करना निरर्थक है।

प्राचीन वाङ्मय के अनेक आनुश्रुतिक साक्ष्यों के आधार पर भी विक्रम की ऐतिहासिकता सुव्यक्त है। डा० पाण्डेय ने लोक-कथाओं, संस्कृत साहित्य की परंपराओं, पुराणों के प्रमाणों, जैनों की साहित्यिक अनुश्रुतियों तथा भारतीय पुरातत्व से सम्बन्धित साक्ष्यों का मूक्षम अध्ययन करके विक्रमादित्य की ऐतिहासिकता को प्रमाणित किया है। ये विक्रम निश्चित रूप से ईसवी पूर्व में हुए तथा इन्होंने ही संवत् प्रवर्तन किया था।<sup>५</sup> विक्रम की ऐतिहासिकता प्रमाणित हो जाने पर गुप्तकाल में कालिदास की स्थिति मानने वालों का मत स्वतः घ्वस्त हो जाता है एवं उनकी च-द्रगुप्त द्वितीय के साथ विक्रम तथा मालव संवत् के प्रवर्तन को जोड़ने की कल्पना अत्यन्त उपहासास्पद प्रतीत होती है। यह किसी भी तरह स्वाभाविक नहीं कि च-द्रगुप्त (द्वितीय) जैसा राजा पूर्व प्रचलित अपने पूर्वजों के गुप्त संवत् की अवहेलना करके पूर्व प्रचलित मालव संवत् को अपने नाम से प्रवर्तित करता। अर्वाचीन शोध के परिणामस्वरूप अधिकांश विद्वानों का मत बदलता जा रहा है। फ्लीट, स्मिथ, मिंफॉक्लिन, एजर्टन तथा डा० अल्टेकर आदि अनेक विद्वानों ने संवत् प्रवर्तक विक्रम

१. कालिदासः भिराशी पृ० ५-८, कालिदास का भारत. डा० भगवत शरण उपाध्याय, पृ० २०२,
२. विक्रमादित्यः डा० राजवली पाण्डेय, पृ० ३,
३. वही, पृ० ३,
४. वही पृ० ४-६,
५. विक्रमादित्यः डा० पाण्डेय, पृ० १-१०३,

को ऐतिहासिक स्वीमार किया है।<sup>१</sup> अब यही मानना उपयुक्त है कि उसके ग्राथय में ही कालिदास रहे थे।

(२) इस मन के समर्थकों की यह भी मान्यता है कि कालिदास अशवधोप के पूर्ववर्ती थे, और अशवधोप वा समष्ट जटकि ईसकी प्रथम मध्ये निश्चित है तो स्पष्ट है कि कालिदास ईसकी पूर्व प्रथम शतक में ही हुए होग।<sup>२</sup>

विपक्षी विद्वान् इस मन से भी असहमत हैं।<sup>३</sup> दोनों में प्रसग, शब्दार्थ, तथा शब्द, शब्दचक्राया आदि के आधार पर य विद्वान् यही मानते हैं कि कालिदास अशवधोप के परवर्ती थे, जिन्होंने इसी प्रकार कालिदास के वाचिकान, वर्णन, शैली, अलबार-विन्यास, उदययन, भाव तथा अर्थगमन्य आदि का प्रभाव अशवधोप पर भी खोजा है, जिनमें विपक्षियों के मन स्वत घटम्भ हो जात है तथापि इस साम्य के आधार पर कोई निर्णय लेना उचित नहीं प्रतीत होता।

यह प्रमिण है कि अशवधोप सुप्रसिद्ध वौद्ध दार्शनिक थे। उन्होंने वैदन धर्म प्रचार के साधन के रूप में कान्य सूजन किया था, अन्यथा उनमें कविता की अपेक्षा दार्शनिक प्रतिभा का उत्कर्ष ही अधिक था। यही कारण है कि अशवधोप के साथी में उनकी चाहता नहीं आ मरी किनकी कालिदास में है।<sup>४</sup> कालिदास के भाव-मीनदर्श की अपेक्षा काव्य में उत्तारसे में वह सवथा असमर्थ रहे हैं। उन्होंने कालिदास के भाव आदि को निरर सामान्य वर्दि के समान ही विन्यमन किया है। कान्य री हार्ट स उसमें मौलिकता तथा स्वाभाविकता वा अभाव है। दोनों कवियों की मूर्दम तुलना करने पर उनमें कालिदास की ग्राहीता निश्चित रूप में प्रकट हो जाती है।<sup>५</sup>

१ विश्वमार्दिय ढा० पाठ्डेप, पृ० २६-२४,

२ विदोप देसो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्टडीज बाल्यूम २, पृ० ७६-१३०, तथा कुप्त्यम्यानी काम० बाल्यूम पृ० १७-२४, मे के० चटोपाध्याय का लेख।

३ कालिदास मिरासी, पृ० ११-१७, कालिदास का भारत, उपाध्याय, पृ० २१०,

४ स० सा० इति० बलदेव उपाध्याय, पृ० १४४-४५,

५ ढा० सम्प्रेतु ने (भा० प्रा० इति० पृ० ३११) बतताया है कि ज्योति-भिदावग्रा के मध्यन्ध में कालिदास ने लिया है कि यह मैते ३०६८ बति सम्बन्ध में समाप्त किया 'अत. यह ३०६८ कलि सम्बत् ३४ हू० पू० के बर बर बैठता है।'

(३) रघुवंश के पाठ सर्ग में पाण्ड्य देश के राजा के वर्णन से भी यही माना जाता है कि कालिदास, इस्वी पूर्व प्रथम सदी में रहे थे।

(४) गुप्तवंशी राजा भागवत वैष्णव थे, किन्तु कालिदास की रचनाओं से प्रकट है कि वे परमशंख थे। इस कारण से भी कालिदास को मालवा के शैव राजा विक्रम के आधित मानना मंगत है।

(५) विद्वानों ने इस मत के समर्थन में पुरातत्व के साध्य के रूप में शुंग-कालीन भीटा के पदक को भी प्रस्तुत किया है। इस पदक पर दीड़ते हुए रथ तथा हरिण आदि का चित्र अंकित है। विद्वान इसका शाकुन्तल के मुप्रसिद्ध मृगया-दृश्य से साम्य मानते हैं। इसी आधार पर शारदारंजनराय आदि की मान्यता है कि कालिदास ई० पू० में ही रहे थे। विन्टनिट्ज आदि विपक्षी विद्वान भी इस तर्क को महत्वपूर्ण मानते हैं।

(६) शाकुन्तल<sup>१</sup> में वर्णित सामाजिक तथा सांस्कृतिक दशा से यह प्रकट होता है कि कालिदास बौद्ध-प्रभावित युग में हुए जब कि समाज में एक और बौद्ध धर्म के प्रति धृणा बढ़ती जा रही थी तथा दूसरी ओर वैदिक व्रात्युण-धर्म का अभ्युदय हो रहा था। इससे भी यही प्रकट होता है कि कालिदास निश्चित रूप से इसकी पूर्व में ही हुए, गुप्तकाल में नहीं।

(७) उपर्युक्त तर्कों के अतिरिक्त कालिदास के ऐतिहासिक नाटक माल-विकाग्निमित्र के आधार पर भी हम यह कह सकते हैं कि कालिदास इस्वी पूर्व प्रथम शतक में ही हुए थे :

१. मालविकाग्निमित्र में शुंगवंशीय ऐतिहासिक घटनाओं का प्रथम तथा पंचन अंक में वर्णन किया गया है। इनमें से एक-यवन पराजय तथा अश्वमेघ यज्ञ का महाभाष्य में पतंजलि ने भी उल्लेख किया है। भाष्य का उल्लेख कालिदास की अपेक्षा अतिसंविप्त मूर्चना के रूप में है, जबकि कालिदास में विस्तार से। इससे प्रकट होता है कि पुष्टमित्र के समकालीन पतंजलि को जिन समसामयिक घटनाओं का ज्ञान या कालिदास को भी उनका सम्यक् ज्ञान था। इससे प्रकट होता है कि कालिदास पतंजलि के कुछ बाद में, लगभग ई० पू० प्रथम शतक में ही हुए होंगे।

१. पाण्ड्यप्रोमसार्पितलम्बहार—इवाद्विराजः । “रघु० ६।६०, सं० क० दर्शन पू० ७६,

२. सं० सा० इति० वलदेव उपाध्याय, पू० १४५-४६,

३. वही,

२ कालिदास ने मालविकाग्निमित्र के प्रथम तथा पंचम अर्क में ही विदर्भ-भूषण की घटना का वर्णन किया है, किन्तु इस घटना का नाटक के अनिरिक्त अन्यत्र कहाँ भी उल्लेख नहीं है। इसमें भी प्रमाणित होता है कि कालिदास शुग इतिहास के भूविज्ञ थे। अत अनुमान है कि वह शुगराज अग्निमित्र के कुद्ध पश्चात् अर्थात् ईम्बी पूर्व प्रथम शतक में ही हुए होंगे।

३ कालिदास न मालविकाग्निमित्र को प्रस्तावना में स्वय को 'वर्तमान कवि, तथा मालविकाग्निमित्र को नव्य कथा पर आश्रित नवीन काव्य बतल या है' ३। इसमें प्रकट होता है कि अग्निमित्र को प्रणायकथा जिन समय विशेष प्राचीन नहीं हुई थी, किन्तु लोकप्रिय ही थी, उस समय कालिदास ने उम नवीन वृत्ति के लिए नवीन कथानक के रूप में लिखा था। प्रस्तावना म स्वय को "वर्तमान कवि" लिखकर उसने यह और भी स्पष्ट कर दिया है कि निश्चिन रूप से चनमान में कुद्ध पूर्व के ही वृत्त को मंजोया गया था। स्पष्ट है कि वह अग्निमित्र के कुद्ध पश्चात् अर्थात् इसकी पूर्व प्रथम शतक में ही वर्तमान रहे होंगे।

४. नाटक के पचम अर्क के प्रारंभ में वैतालिकों द्वारा दो श्लोकों का पाठ कराया गया है ४। इनम विदर्भ-विजय की घटना वर्णित है। इन दोनों श्लोकों में यह घटनित होता है कि मेरे घटनाएँ मानो कुद्ध पूर्व ही घटित हुई हो।

५ मालविकाग्निमित्र में सर्वेनित राजा के अनपाल तथा धारिणी के भाई वीरसेन को "वर्णविद" लिखा है ५। इसी प्रकार पचम अर्क में पुष्पमित्र ने अग्निमित्र को "विगतरोप" हीरर यज्ञ में भग्निति होने का आश्रह किया है ६। किन्तु रोप का कारण नहीं बतलाया गया है। विद्वानों का मन ७ है कि इन प्रयोगों में यह प्रमाणित होता है कि कालिदास वो शुगवालीन परिस्थितियों का सूखमनम ज्ञान या। अत इसम यह भी निष्पर्य निकलता है कि कालिदास अग्निमित्र के आमपास अर्थात् ईम्बी पूर्व प्रथम म ही हुए होंगे।

१ प्रथितयशसां भाससीमिलदविपुश्रादीना प्रदन्धानतिक्रम्य वर्तमानकवे  
कालिदासस्य प्रियाया कथ बहुमान। मालविका०, प्रथम अर्क, प्रस्तावना  
तथा ११२,

२. वही,

३ मालविका० ५११, २,

४. अस्तिदेव्या वर्णविदो भ्राता, वही, ११५-६,

५ वही, ५१४। १५

६ देसो कालिदास० मिरासी पू० ६-१०, मे साहित्य संग्रहः शिवराम पंत,  
भाग १, पू० ८८.

६. नाटक में कौशिकी नामक पात्र की परिज्ञाजिका के रूप में अवतारणा की है। विधवा होने पर उसने यतिवेपधारण कर लिया था<sup>१</sup>। नाटक में उसके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उसके यतिवेपधारण को उचित तथा सज्जनों का मार्ग कहा है—“युक्तः सज्जनैष पन्थाः ।” किन्तु भारतीय धर्मशास्त्र में स्त्रियों को यतिवेपधारण करने का विवान नहीं है। पुरुषों को ही चनूर्धा आश्रम प्रवेश का अधिकार है। स्त्रियों को तो वैद्यत्य में भी पतिव्रत धर्म पालन का आदेश दिया गया है<sup>२</sup>। इससे प्रकट होता है कि यद्यपि कालिदास के समय बौद्ध-धर्म का पतन हो गया था तथा वैदिक धर्म का पुन संस्थापन हो चुका था, तथापि वह युग बौद्ध भिन्नान्तों में प्रभावित था। बौद्ध-धर्म में स्त्रियों को प्रवृज्या ग्रहण करने का अधिकार था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी विधवा आदि स्त्रियों को परिज्ञाजिका होने की व्यवस्था है।<sup>३</sup> नाटक के उल्लेख से भी स्पष्ट है कि कौशिकी ने वैद्यत्य दुःख के कारण ही काषाय धारण किया है।<sup>४</sup> इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि कालिदास उम समय हुए जब कि बौद्ध परम्पराएँ भी चल रही थीं। ब्राह्मण-धर्म की स्थापना होने पर भी उनका प्रभाव अभी पूर्णतः निरस्त नहीं हुआ था। यह समय शुंग-युग के बाद का ही संभव है। अतः अनुमान है कि कालिदास शुंगों के पश्चात् अर्थात् ईस्त्री पूर्व प्रथम शतक में ही हुए होंगे।

७. अन्त में हम यह भी मानते हैं कि कालिदास यदि गुप्तकाल में हुए होते तो वे पराक्रमी गुप्त तथा उनसे सबधित अश्वमेघ आदि की घटनाओं को अवश्य रूपायित करते। किन्तु उन्होंने ऐसा न करके गुप्तों की अपेक्षा स्वल्प प्रसिद्ध शुंगों को उपजीव्य बनाया है, इससे भी स्पष्ट होता है कि वे निश्चित रूप से शुंगकाल के अन्त में ही हुए थे।

उर्युक्त विश्लेषण के आधार पर हम सुनिश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि कालिदास ई० पू० प्रथम शतक में ही हुए थे, बाद में नहीं।

### कालिदास के ऐतिहासिक नाटक का महत्व

कविता-कामिनी-विलास कालिदास ने संस्कृत माहित्य में केवल कविता-कामिनी की कौतुकमयी कमनीयता का ही सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं किया है, अपितु कालिदास के कलाकार ने एक उत्कृष्ट नाट्य-शिल्पी के रूप में भी सर्वाधिक सफल

१. “पुनर्नवीकृतवैध्य-दुख्या मया त्वदीयंदेशमवतीर्य इमे काषाये गृहीते । राजा—युक्तः सज्जनैष पन्थाः ।” मालविका० ५।१-१२,
२. मनुस्मृति० ५।१४७-६१,
३. कालिदासः रामस्वामी शास्त्री, पृ० ७०, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, १।१२,
४. मालविका० ५।१-१२,

कृतियों का मृजन किया है। कालिदास ने अपने जीवन में केवल तीन नाटकों का मृजन किया जिनमें हमारा विवेच्य “मालविकाग्निमित्र” उनका सर्वप्रथम नाटक है। इस प्रस्तुत रचना में अन्य नाट्यकृतियों के समान न कोई विशेष मौलिक है, और न कोई अन्य मौलिक विशेषता ही। अतएव वहाँ पर्वत में भगवानोचन-जगत में प्रस्तुत नाटक के मध्यमें म कालिदास के कर्तृत्व को लेकर पर्याप्त विवाद रहा है। किन्तु आज मध्यमान्य रूप से यह कालिदास की प्रथम नाट्यकृति स्वीकृत हो चुका है। परन्तु प्रथम कृति होने से भालविकाग्निमित्र का महत्व वह नहीं होता है, अपितु नाट्यकृति की दृष्टि से कालिदास की नवोदित प्रतिभा का प्रारम्भिक निर्दर्शन होने के कारण इस कृति का महत्व पर्याप्त बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त, इसकी ऐतिहासिक वाचान्वस्तु भी इसके महत्व का दूसरा प्रमुख कारण है।

मालविकाग्निमित्र के पर्यवर्काण से ज्ञान लेना है कि इसका सम्बन्ध वशानक विशुद्ध ऐतिहासिक नहीं है, किन्तु इसका मध्यांग वातावरण राजकीय वार्षिकारिक घटनाओं से तथा राज्य-ग्रन्थ से सम्बन्धित होने के बारण यह कि सादेह वह मूल्य इतिहासोपयोगी गाम्भीर्य देता है, तथा विशेष-रूप से प्रथम तथा पचम अब की घटनाओं से शुग-इतिहास पर ठोक प्रकाश पड़ता है। रैमन ने इसके यथार्थतापूर्ण चरित्र तथा विद्या की ऐतिहासिक घटनाओं के तथ्य पूर्ण चिवाग के बारण ही भालविकाग्निमित्र के ऐतिहासिक महत्व को स्वीकार किया है।<sup>१</sup> पञ्जलि के महाकाव्य के अतिरिक्त धूमिल शुगवालीन इतिहास पर प्रकाश डालने वाला यह दूसरा प्रामाणिक ग्रन्थ है। इसमें प्राप्त ठोक तथ्यों के आधार पर शुगवालीन इतिहास का ताना बाना बुनने में पर्याप्त सहायता मिलती है। मुख्यत व्योक्ति नाटक का मृजन शुगवालीन घटना के लगभग एवं डेढ़ शतवर उपरान्त ही हुआ था, अत इसमें विलित वृत्तान्तों तथा तथ्यों की विश्वसनीयता तथा प्रामाणिकता भी अगदिग्य है। श्री मिगगी के शब्दों में कालिदास का इतिहास-ज्ञान अचूक<sup>२</sup> था। उसने इस नाटक में मन्येनिहास की ही अवनारणा की है। अतएव विसेन्ट स्मिथ जैसे इतिहासकार ने भी नाटक की प्रामाणिकता तथा ऐतिहासिक परम्पराओं की

१. Its main interest is anything but historical; but some of its characters represent real personages and certain references to the history of the adjacent kingdom of Vidica are appropriately introduced in the 1st Act. It would be unreasonable to suppose that these had no foundation in fact.

Cambridge History of India, Vol I p 468,

२ कालिदास मिराशी, पृ० ८७,

अनुहृपता की स्वीकृति दी है।<sup>१</sup> स्पष्ट है कि नाटक का कथानक मूलतः ऐतिहासिक तथा विश्वस्त है। इसमें एकाधिक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का विस्तृत विवरण है। अतएव इस नाटक का संस्कृत के ऐतिहासिक नाटकों में सर्वाधिक महत्व है।

### मालविकाग्निमित्र के सृजन की पृष्ठभूमि

“मालविकाग्निमित्र” पर अन्य किमी महत्वपूर्ण परिवेश में निविष्ट करके समाजोवना करने से पहले यह आवश्यक प्रीति होता है कि इसके सृजन की पृष्ठभूमि पर किंचित् दृष्टिपात कर लिया जाय। कालिदास के अन्य दोनों नाटक अभिज्ञान शाकुन्तल तथा विक्रमोर्वशीय पुराकथा को उपजीव्य बनाकर उद्भावित हुए हैं, किन्तु, कालिदास की सर्वप्रथम रचना के रूप में मालविकाग्निमित्र में “ऐतिहासिक कथानक” का प्रयोग किया जाना किंचित् विचारणीय है, साथ ही मनोरंजक भी।

कालिदास से पूर्व संस्कृत के नाट्य-माहित्य में एक सुसमृद्ध नाट्य-परम्परा का प्रवर्तन हो चुका था। “मालविकाग्निमित्र” की प्रस्तावना से स्पष्ट है कि भास, सौमिल, कविपुत्र आदि प्राचीन नाटककारों की सामान्य परम्परा पहिले से चली आ रही थी<sup>२</sup> तथा यह भी ज्ञात होता है कि उन्हें अपने नाट्य-शिल्प से प्रचुर खगति एवं प्रतिष्ठा भी मिल चुकी थी। यही कारण है कि कालिदास जैसा प्रतिभा-सम्पन्न कलाकार भी अपने नैसर्गिक नाट्य-सृजन के लोभ का सवरण न कर सका और उसने अपने को उसी प्रगतिशील परम्परा में जोड़ दिया। अनुमानतः कालिदास के हृदय में उन परम्परागत प्रतिभाओं से प्रज्योनित आकाश में सर्वाधिक प्रभासित भास के स्वर्ण वासवदत्ता के द्वारा अर्जित सर्वाधिक लोकप्रियता से उत्साहित होकर, उसी के अनुहृप अभिनव नाट्य-रचना का सहज संकला उदित हुआ। हम समझते हैं, कि कालिदास ने “उदयन-कथा-कोविदग्रामवृद्धारू”, की अत्यधिक अभिराम उदयन-कथा का पल्लवन करने वाले भास के स्वप्नों के सदृश ही ललित लोककथा के रूप में अपने समय में बहुचक्षित अत्यन्त लोकप्रिय एवं नवीन प्रायः अग्निमित्र की प्रसाप-कथा का चयन किया। इस ऐतिहासिक प्रगण्यकथा को कालिदास ने इसके घटित होने के लगभग एक शतक पश्चात् उस समय उपजीव्य बनाया, जबकि यह नवीन होने के साथ-साथ प्रव्यात भी हो चुकी थी। निश्चित् रूप से यह इतिवृत्त उस समय

१. दि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वि० हिम्य, पृ० २१२,

२. मालविकाग्नि की प्रस्तावना में संस्कृत के ३ प्राचीन नाटककारों के उल्लेख-ऋम से संस्कृत नाटककारों की प्राचीन परंपरा पर प्रकाश पड़ता है। हमारा विश्वास है कि कालिदास से क्रमशः भास, सौमिल तथा कविपुत्र पूर्ववर्ती थे।

जन-भावारणा की सृष्टि पर चाया हुआ था ।<sup>१</sup> कालिदास ने भी इसे लोकमानम में मंजोया । यम्भवत शुगा द्वारा मीर्यों के राज्य को हस्तगत रख लेने में पुर्यमित्र तथा अग्निमित्र का प्रबल प्रतार कालिदास के समय में भी परिव्याप्त रहा होगा । अतएव उस समय कालिदास के समय भी शुगा द्वारा मीर्यों के राज्य को हस्तगत कर लेने में पुर्यमित्र तथा अग्निमित्र का प्रबल प्रतार परिव्याप्त था । अन्त लोकमानम में शुगों के प्रति समर्थक श्रद्धा रही होगी । दूसरे, अग्निमित्र तथा मालविका से सम्बन्धित प्रणाय-कथा भी उद्घटनकथा के समान लोकप्रिय रही होगी । कालिदास ने उसी-लोकजोगवत में इस तरकालीन प्रणाय-कथा को संजोकर प्रयित यशस्वी भास के प्रसिद्ध नाटक स्वप्न वामवदना के अनुच्छेद ही स्पष्टित किया । यही कारण है कि नेष्ठक ने संबंधित ही साप्रह धोषणा की है, कि प्राचीन ही सभी वस्तुएँ श्रेष्ठ नहीं हुम्हा करती और न भी नवीन निन्दनीय ही हुम्हा करती हैं ।<sup>२</sup> इस प्रकार कालिदास ने अपनी अभिनव नाट्यवृत्ति के प्रयोग-परीक्षण पूर्वक यथंवद्यग वा आश्रृत किया है ।

मालविकाग्निमित्र पर स्वप्न<sup>०</sup> का पूरा-नूग प्रमाद परिवर्तित होता है ।<sup>३</sup> कालिदास स्वप्न वामवदता के अनुकरण में वह जान के कारण उस के सहश ही ही लोकप्रियता अर्जित करने के लोग में असुनित होकर एक नाटक लिखते हुए भी ललित नाटिका जैसी कृति का मृत्रन कर गए हैं । न केवल यहाँ प्रणायकथा मात्र ही है अपितु नायक धीरोदात्त होने पर भी धीरललित जैसा प्रतीत होता है । सभी प्रकार से देखने पर यह एक नाटिका के ढग पर रचित कृति सी प्रतीत होती है । इसमें कवि को कल्पना-प्रयोग को पर्याप्त अवमर मिला है । किन्तु प्रथम तथा अन्त में विन्यस्त ऐतिहासिक घटनाओं के परिवेश में ही प्रणाय-कथा का प्रयोग करने में शुगकालीन ऐतिहासिक मामधी भी उपलब्ध होती है । स्पष्टत हम इसे विणुद्ध ऐतिहासिक नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी भूतभूत अन्त पुरीय कथा में स्वत्प्रमाद भी ऐतिहासिकता का आभास नहीं होता है । किन्तु जैसा कि हम कह चुके हैं 'मूल कथावस्तु' का नाटकीकरण तत्र किया गया जवाब ये घटनाएँ अत्यन्त आसननकालिक एव नवीन प्राय होने के साथ साथ जन साधारण की सृष्टि पर जगी हुई थी अत इसकी घटनाओं में पर्याप्त सत्यता होने के कारण इसमा ऐतिहासिक मृद्गव असदिग्य

१. मालविकाग्निमित्र प्रावक्ष्यन सं० एस० पी० पढित पृ० २७,

२. पुराणमित्रेव न साधु सर्व न चापि काव्य नवमित्यवद्यम् ।"

सन्तः परह्यान्यतरद्भेजन्ते मूढ परप्रत्ययनेव बुद्धिः । यही, ११२,

३. इस सम्बन्ध में विसेप इसी अध्याय में आगे कालिदास तथा भास देखिये ।

है और इसी कारण इस नाटक का तत्कालीन इतिहास को कलेवर देने में बहुत बड़ा उपयोग सभव है।

### नाटक का कथानक

नाटक का कथानक मिथ्रविष्णुमक से प्रारम्भ होता है। मालविका के नृत्योपदेश के सम्बन्ध में जानने के लिए संगीतशाला को जाती हुई दासी वकुलावलिका द्वासरी दासी को मुदिका से वार्तालाप के द्वारा यह सूचना देती है कि महादेवी धारिणी मालविका को राजा की दृष्टि से छिपाये रखना चाहती है। पर एक दिन चित्रशाला में चित्र देखती हुई महादेवी के निकट उपस्थित होकर राजा मालविका का चित्र देख लेता है, और उसके बारे में पूछने पर वसुलक्ष्मी वालभाव से कह देती है कि यह मालविका है।<sup>१</sup> यहीं तीसरा पात्र गणदास प्रविष्ट होता है। यहीं वकुलावलिका द्वारा पुनः ज्ञात होता है कि स्वामी ने देवी के वर्णावर भाई वीरसेन को नर्मदा के तट पर सीमावर्ती दुर्ग-रक्षक के रूप में नियुक्त किया है और उसी ने कला-योग्य इस मालविका को अपनी वहिन महादेवी धारिणी को उपहार के रूप में भेजा<sup>२</sup> है। इसी को देवी अपने विश्वासपात्र नाट्याचार्य गणदास के पास संगीत-नृत्य की शिक्षा के लिए रख छोड़ती है और मानूम होता है कि वह वड़ी कुशलता से नृत्य की प्रायोगिक शिक्षा ग्रहण कर रही।

इस मिथ्रविष्णुमक के बाद राजा पत्र-लेख लिए हुए मन्त्री के साथ दीख पड़ता है। उनके संभायरणों से ज्ञात होता है कि पहिले राजा ने विदर्भ-शासक को पत्र दिया था। उसके प्रत्युत्तर में ही यह लेख आया है। अमात्य वाहतक वतलाता है कि वैदर्भ अपना विनाश चाहता है। पत्र से ज्ञात होता है कि अग्निमित्र से माधवसेन की मित्रता है तथा वह प्रतिश्रुत-सम्बन्धी है। माधवसेन अपनी कुमारी वहिन को देने का वचन दे चुका है। इसी अपने पितृव्य-पुत्र भाई माधवसेन को अग्निमित्र के पास विदिशा जाते हुए रास्ते में ही यज्ञसेन के अन्तपाल ने वहिन तथा स्त्री-सहित पकड़ लिया। उसी की मुक्ति के लिए अग्निमित्र के विदर्भ-शासक को सन्देश देने पर वह प्रत्युत्तर में अभिसन्धि के रूप में अपने साले मौर्य-सचिव को छोड़ने को लिखता है।<sup>३</sup> अग्निमित्र कार्य-विनियम की इस ग्रभिसंवित्र से रुष्ट होकर विदर्भ के समूलोन्मूलन के लिए आज्ञा देता है।<sup>४</sup> अमात्य भी राजा के वक्तव्य का शास्त्र

१. मालविका० १३-४,

२. वही, १५-६,

३. मालविका० ११७,

४. वही, १७-८,

द्वारा समर्थन करता है।<sup>१</sup> कलन मेनापति को विदर्भ पर आक्रमण वा आदेश दे दिया जाता है।

दूसरी ओर अभ्यास्य क निष्ठमणु वे वाद कार्यान्तर (नर्म) सचिव विदूपर, जिसनी कि प्रनीथा राजा वटी उत्सुकता में वर रहा है, प्रवेश करता है। उसके हारा जात होना है कि राजा न उस चित्र में दम्भी मालविका के प्रत्यक्ष दर्जन के उपाय को भेजा है और अब उसका उपाय भी कर दिया गया है। तभी गण्डाम तथा हरिदत्त दोनों तू-तू मैं-मैं करते हुए प्रवेश करते हैं। यही विदूपर की कूटनीति-प्रयोग विस्तार पाता है। दोनों नाट्याभार्य एक दूसरे की विद्या आदि में हैरान समझते हैं, परस्पर निन्दा करते हैं और राजा से ही प्राप्तिक के न्यून में इसका निर्णय आते हैं कि दोनों में शास्त्र तथा प्रयोग ज्ञान में बोल थीएठ है। पर उस विवाद के विषय में रानी के सभावित पक्षपात के सन्देश में आशवित होरंग राजा भगवती कौशिकी तथा रानी के समक्ष ही विवाद के निर्णय को न्याय समझ दोनों को बुना भेजते हैं। यही जात होता है कि महाराज का पक्षपात हरिदत्त की ओर है तो महारानी का गण्डाम की ओर। अत तटस्य कौशिकी को ही मध्य-सम्मत रूप में मध्यस्थ बनाया जाता है। वयोंकि नाट्यनिर्णय प्रयोग द्वारा ही समझ है अत महारानी की अनिस्त्वा होने पर भी आचार्यों के गिर्या की नाट्य-प्रदर्शन की आज्ञा दे दी जाती है।

द्वितीय अंक में राजा, महारानी परिकाजिका एवं विदूपक रगधाला में मालविका का नृत्य दर्शते हैं। मालविका के उत्कृष्ट नृत्य के कारण प्राप्तिक परिकाजिका गण्डाम के पक्ष में निर्णय देनी है। प्रदर्शन के बाद धारिणी मालविका को राजा के सामने से शोध्र दूर करने को आनुर दीख पड़ती है। उसी मालविका के प्रति राजा का पूर्वानुराग अभिन्नता होता है। हरिदत्त का प्रयोग समयाभाव के कारण स्थिगित कर दिया जाता है।

तृतीय अंक के आरम्भ में (प्रवेशक में) मधुविका और गमाहितिका यह संकेत देती है कि यद्यपि मालविका बहुत प्रजमित हो चुकी है तब भी आजकल परिस्तान सी दीन पड़ती है तथा स्वामी भी उसके प्रति सम्मिलाप है, केवल धारिणी ही उसकी रक्षा कर रही है। तभी विदूपक के माथ राजा आता है, और मालविका में मन रमा हीन पर भी द्योदी गर्नी दगवती के मन्देशानुमार प्रमरणन में उपस्थित होता है। वही रानी की प्रनीथा उर ही रहा है कि मालविका आती है। यही विदूपक द्वारा जात होना है कि यद्यपि भपति पर भाष के ममान ही रानी मालविका पर-

निगाह रखती है तब जो वकुलावलिका आदि उसे राजा से मिलाने को प्रयत्नशील है और आज रानी के पैर में चोट आने से अशोक के दोहद पुरण करने के लिए मालविका को भेजा गया है। राजा को मालविका से मिलने का अवसर मिलता है, पर तभी इरावती की चेटी नियुणिका के साथ प्रवेश कर दोनों मिल ही पते हैं कि इरावती विघ्न डाल देती है और कदुपश्वद मुनाती हृई रुद्ध होकर चली जाती है।

चतुर्थ अंक में विदूपक राजा को बतलाता है कि धारिणी ने मालविका तथा वकुलवलिका को कैइ में डाल दिया है। पर राजा के अनुरोध पर विदूपक पुनः उसे मुक्त कराने तथा राजा से मिलाने को सक्रिय है, और महारानी के लिए फूल चुनते मय सांप के काटे जाने का वहाना बनाकर महारानी की रम्मुद्रांकित अंगुलीयक को विष-विकार शान्त करने के उद्देश्य से प्राप्त कर तहखाने से दोनों को मुक्त करवाने में सफल हो जाता है। इस प्रकार वह राजा का मालविका से सम्प्रिलन भी करा देता है, किन्तु वहाँ पुनः इरावती विघ्नस्वरूप उत्स्थित होकर प्रगण्य-क्रीड़ा में विघ्न डाल देती है।

पंचम अंक के प्रवेशक में सारसिका तथा उद्यानपालिका के वार्तालाप से ज्ञात होता है कि सेनापति पुष्पमित्र ने कुमार वसुमित्र को यज्ञ के अप्तव की रक्षा में नियुक्त किया<sup>१</sup> है तथा महारानी के भाई, वीरसेन ने विदर्भ विजय तथा माधवसेन की मुक्ति-विपर्यक पत्र भी भेजा है<sup>२</sup> तथा उपहारों के साथ सेविका भी भेजी है। प्रवेशक के बाद पुनः वैतलिकों द्वारा ज्ञात होता है कि वरदा तक विदर्भ पर विजय प्राप्त करली गयी है।<sup>३</sup> उधर धारिणी परिव्राजिका के माथ विवोहाचित शुंगार में श्वलंकृत मालविका के साथ अशोक पुष्पशोभा के सहदर्शन के लिए आमन्त्रित राजा पहुँचता है। तभी विदर्भ से भेजी दो जिलपक्ष्याये आती हैं। वे मालविका तथा परिव्राजिका को पहिचान<sup>४</sup> जाती हैं। सारे रहस्य के खुलने पर ज्ञात होता है कि वास्तव में मालविका माधवसेन की छोटी वहिन तथा परिव्राजिका माधवसेन के मंत्री सुमति की छोटी वहिन कौशिकी है।<sup>५</sup> यहीं ज्ञात होता है कि जब माधवसेन पकड़ा गया तब अग्निमित्र के साथ (पूर्व-प्रतिश्रुत) सम्बन्ध के सम्पादन की इच्छा से मंत्री सुमति कौशिकी के साथ मालविका को लेकर विदिशा यात्री-दल के साथ

१. वही, ५। १,
२. वही,
३. वही, ५। १-२,
४. वही, ५। ६-१०,
५. वही,

चल दिए, किन्तु सार्थवाह वन के मध्य में थक कर ठहर गया, वही डाकुओं द्वारा मुठभेड़ हुई। इस सघर्ष में जब सार्थवाह के थोड़ा अम्नादि से सज्जिन तरक्को से पराजित हो गए तो अन्त में भुमति ग्रापद्यस्ता मालविका का परिचामग करते हुए अपने प्राणों को देकर स्वामी के प्रति उक्खण हो गया। कौशिकी मूर्छित हो गयी और मालविका का अपहरण कर लिया गया। कौशिकी भाई का अग्नि-सम्मार करके पुन वैधव्य दुख नवीन होने से दुखित होकर कापाय वस्त्र धारण कर अग्निमित्र के देश में आ गयी, और मालविका लुटेरों से वीरसेन को और वीरसन से महारानी को प्राप्त हुई।<sup>१</sup> कौशिकी यह भी बताती है कि क्योंकि मिछों ने मालविका के लिए एक वर्ष सेविका रहने की भविष्यवाणी की थी अन् यह रहस्य प्रकट नहीं किया।<sup>२</sup>

इसी प्रसन्नता के बातावरण में तथा विदर्भ-विजय के उपलक्ष्म में राजा विदर्भ को बरदा को मध्य रेखा निश्चित करके यज्ञमेन तथा माधवसेन दोनों में विभक्त करने का आदेश दे देता<sup>३</sup> है। पुन काचुकी सेनापति पुष्यमित्र वा पश्चेष लाता है, जिससे जात होता है कि पुष्यमित्र अश्वमेघयज्ञ में दीक्षित ही चुके हैं और अश्व की रक्षा पर नियुक्त वसुमित्र ने सिन्धु के दक्षिणांतर पर यवनों पर विजय प्राप्त कर ली है। अत रोप-रहित होकर यज्ञ में सपरिवार सम्मिलित होने वाले अग्निमित्र को दुलाया<sup>४</sup> है। इस प्रसन्नता के समाचार को सुनकर राजा मीर्य-सचिव सहित सभी वदियों की मुक्ति का आदेश देता है तथा सभी के परामर्श से मालविका तथा अग्निमित्र का परिणय हो जाता है।

ऐतिहासिक परीक्षण के साथ —नाटक के इनिवृत्त के तथ्य-विश्लेषण का आधार पुराण, वाण का हृष्टचरित, महाभाष्य, मेहनुग की थेरावली, श्रयोदया का अभिलेख, दिव्यावदान, कथा-मरितमागर तथा आधुनिक इनिहाससारो के इनिहास आदि हैं, जिनके आधार पर हम कुछ निष्कर्ष निष्कालन की चेष्टा करेंगे। यद्यपि नाटक का उपजीव्य कोई ग्रन्थ विशेष नहीं है। लेप्स ने जन जन के कण्ठ तथा स्मृति से ही घटना आदि को सजोकर नाट्य रूप में विन्यस्त किया है। अन्यथा स्वयं मालविकाग्निमित्र शुग इनिहास का प्रमुख चोत है, तथापि अन्य साक्षों के आगार पर ही इससे प्राप्त तथ्यों को ग्रह्य ठहरान का प्रयास किया जाना उचित है।

१. मालविका० ५।६-१३,

२. वही, ५।१२-१३,

३. वही, ५।१३,

४. वही, ५।१४-१६,

पात्रों की ऐतिहासिकता—नाटक के प्रधान पुरुष-पात्र पुष्पमित्र, अग्निमित्र, चमुमित्र, वीरसेन, यज्ञसेन, माधवसेन ऐतिहासिक हैं। इनमें प्रथम तीन को ऐतिहासिकता सुनिश्चित है। अन्य पात्र भी ऐतिहासिक प्रतीत होते हैं। वाहतक की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। सुभति का उल्लेख नाम्ना कथा-सारित्सागर में हुआ है। उसके अनुसार इसके विता भी मत्री थे। संभवतः यह कोई ऐतिहासिक पात्र था। स्त्री-पात्रों में धारिणी, वमुलधमी तथा इरावती की ऐतिहासिकता के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। कोणिकी काल्पनिक प्रतीत होती है। किन्तु नाटककार ने इन सभी प्रमुख पात्रों को जिस विश्वास के साथ ऐतिहासिक चातावरण में ढालकर चिन्तित किया है उससे अधिकांश प्रमुख पात्रों की ऐतिहासिकता पर विश्वास होता है। निःसन्देह कालिदास ने अपने से तीन सदी पूर्व की विश्वस्त तथा प्रस्थात घटनाओं की ओर, कम मे कम प्रमुख राज-परिवार के वास्तविक पात्रों को ही नाटक में स्थान दिया होगा तथापि मालविका जैसे नाटक के प्रमुख पात्र की ऐतिहासिकता का प्रेषण ध्वन्य विचारणीय है।

### मालविका की ऐतिहासिकता

नाटक के कथानक के अनुसार मालविका विदर्भ-शासक यज्ञसेन के चचेरे भाई माधवसेन की छोटी बहिन थी। पात्र की सत्ता बहुत कुछ सम्भावित है, किन्तु नामकरण के सम्बन्ध में कुछ विचिवित्सा है। सभवतः या तो यह काल्पनिक है या भास के स्वप्नवासवदत्त में प्रयुक्त वासवदत्त के अवन्तिका के मटश्य मालव देण के सम्बन्ध के आधार पर यह नामकरण किया है। किन्तु, क्योंकि इतिहासकारों की मान्यता है कि ईश्वरी पूर्व में कोई भी प्रदेश “मालव” नाम से विख्यात नहीं था। अवन्ति को भी “अवन्ति” कहते थे, न कि “मालवा”। यहाँ तक कि कालिदास के ग्रन्थों में कहीं भी “मालव” शब्द प्रदेश या स्थान के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है, अपितु स्वयं उसने वर्तमान मालवा अर्थात् अवन्ति के लिये अवन्ति ही प्रयुक्त किया है। अतः मालव देण के आधार पर मालविका के नामकरण की संभावना नहीं की जा सकती। किन्तु यह प्रकट तथ्य है कि कालिदास से पूर्व प्राचीन भारत में मालव जाति अवश्य थी। अतः हमारा अनुमान है कि यह नामकरण मालवगण या मालवजाति से सम्बन्धित होने के कारण हुआ है। प्राचीन भारत आयुधजीवी-मालवों से अपरिचित नहीं है। विशेषकर कालिदास के समय में मालवों का विशेष उत्कर्प हुआ। अतः बहुत संभव है कि उसका मालवों से न केवल लगाव ही रहा होगा, अपितु उसे मालवों के विषय में सम्यक् ज्ञान भी होगा।

### नामकरण की आनुमानिक युक्तियुक्तता

नामकरण की आवश्यकता तथा युक्तियुक्तता इसलिए भी मानी जा सकती

है कि सभवन अग्निमित्र के आतं पुर में घटित मानवरगा के ही एस शासव, सभवन माधवमेन की वहिन में मम्पन्धिन प्रणायकथा लेखर ने सुनी होगी, जिन्होंना तो इस प्रणायकथा की नायिका (पात्र) १—विशेष कह नाम प्रसिद्धि में न आया, या फिर समय के प्रवाह में यह गया, अतएव लेखर न मालबो में मम्पन्धित होने के बाए नायिका का "मानविका" नामकरण किया है। हमारा यह इह विष्वास है कि इस 'मानविका' नाम में पूर्णतः स्वारम्भ तथा मार्थन्ता है, और दसका सार्व संत मालबो दी ओर है। जिन्होंने यदि इस कलित नामकरण न मानें तब भी अधिक सहज एवं ग्राह्य प्रकार से मालविका के अभिन्नता की मत्तवा तथा औचित्य के विषय में यह भी कठ मत्ते हैं कि माधवमेन माधववशी या मालब जाति का या। अत वासिदास न जाति के आधार पर 'मालविका' का जन्म नाम के स्वर में प्रयोग किया है। इस प्रकार इस नाम से कलित न मानकर यथार्थ भी माना जा सकता है, निरा कलित तथा ऐतिहासिक नहीं।<sup>१</sup>

मानविका के इस नामकरण के औचित्य से दो तथ्य भी निवाले जा सकते हैं। प्रथम, यह कि नवर में ऐतिहासिक वानावरण उत्तम करने की पूर्ण क्षमता है। दूसरा, यह कि इसकी पूर्व द्वितीय शरण पूर्व में अर्थात् चान्द्रगुप्त मौर्य के समय में ही माधव लोग यात्रा के रूप में व्यवहार आयुषजीवी ही न रह गये थे, अपितु वडे-वडे गजाओं के महायक के स्वर में छोटी-मोटी जागीरों के अधिपति एवं शामक जैसे भी हान सगे थे। वे मग्नाटा के महायक के स्था न हाथ बढ़ाते थे तथा दाय हाथ का काम दिया करते थे।

### मालविकागिनमित्र के कथानक का ऐतिहासिक विश्लेषण

कथानक के दो प्रमुख घटनाचक्र — नाटक का घटनाचक्र क्योंकि दो विभिन्न भागों, स्थानों तथा स्तरों में घटित होता है यह कथावस्तु के ऐतिहासिक विवरण की दृष्टि में दो विभाग किये जा सकते हैं। प्रथम, राजकीय अन्न पुर का घटनाचक्र। द्वितीय अन्य राजनीतिक घटनाचक्र। प्रथम घटनाचक्र सीधा-मादा सरल तथा सम्पूर्ण साहित्य भर विश्वरिति रूप घटनाचक्र जैसा है। प्रमुखत यह प्रथम अन्न के उत्तराद्देश में लेकर चतुर्थ अन्न तक की समस्त घटनाओं को मन्त्र है। इसमें अन्न पुर के प्राचीर के भीतर के शूण्यारिक (रीमानी) वानावरण मही समस्त घटना घटित होती है। जबकि दूसरा घटनाचक्र विशुद्ध राजनीतिक है। इसमें प्रथम अन्न तथा पचम अन्न की ऐतिहासिक घटनाएँ समाहित हैं। प्रस्तु रूप में यह तो जान नहीं होता कि नाटक का कथानक

१. मालब जाति की माता के आधार पर नामकरण माना जा सकता है।

२. वासिदास मिराजी पृ० १४७,

लेखक ने कहा से संजोया है। पर, पुण्यमित्र, अग्निमित्र तथा वसुमित्र आदि पात्र नि संदिग्ध रूप में ऐतिहासिक हैं, तथा अश्वमेधयज्ञ, यज्ञवल्लीज्ञ, विदर्भ-विजय, विदर्भ राज्य का द्वे राज्य के रूप में विभाजन तथा मालविका के प्रेम आदि को घटनाएँ निश्चित रूप से ऐतिहासिक हैं? द्वितीय घटनाचक्र से केवल कुछ ऐतिहासिक घटनाओं का ही ज्ञान नहीं होता, अपितु अनेक ऐतिहासिक रहस्य भी खुलने में सहायता मिलती है। यही अशा ऐतिहासिक इष्ट से विजेप महत्व का है। किन्तु इसका तात्पर्य यह भी नहीं कि प्रथम घटनाचक्र पृथग्ंतः काल्पनिक है। तथापि यह प्रबृद्ध मानना पड़ेगा कि प्रथम घटनाचक्र से इतिहास पर सीधे-सीधे कोई विजेप प्रकाश नहीं पड़ता। उससे मुख्यतः केवल तत्कालीन अन्तःपुरीय प्रणाय-व्यापार का ही ज्ञान तथा सांस्कृतिक सामग्री की उपलब्धि होती है। इस इष्ट में भी इसका अपना महत्व है।

### प्रथम घटनाचक्र के ऐतिहासिक साक्ष्य

प्रथम घटनाचक्र के समीक्षण के लिये हमारे पास कोई भी साक्ष्य या विश्वस्त आधार नहीं है। केवल नाटक की घटनाओं के पारन्परिक समन्वय के आधार पर ही विवेचन किया जा सकता है किन्तु वृहत्कथा के एक घटनाचक्र से इसका बहुत कुछ साम्य परिलक्षित होता है। यद्यपि आज वृहत्कथा मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, पर कथासरित्मागर तथा वृहत्-कथा मंजरी आदि के रूप में उसके संस्करण प्राप्त है। कथा० में टीक मालविका तथा अग्निमित्र की प्रणायकथा के समान ही उदयन बन्धुमती की प्रणायकथा प्राप्त होती<sup>१</sup> है। संक्षेप में कथा०<sup>२</sup> के अनुसार उज्जयनी के राजा महासेन ने वासवदत्ता नामक अपनी कन्या का विवाह वत्सदेण के राजा उदयन के साथ किया था। वासवदत्ता के भाई पालक ने स्वयं जीतकर लाई हुई एक बन्धुमती नामकी राजकुमारी को अपनी वहित के पास भेंट-रूप में भेजा। उसको वासवदत्ता ने मंजुनिका के नाम से गुप्त रूप से रखा था। एक दिन उच्चान-गृहलता में वसन्तक वो साथ लेकर घूमते हुए उदयन ने उसे देखा और उससे गान्धर्व-विवाह किया। यह किया छिपी हुई वासवदत्ता ने देखी और इससे उसको फ्रोथ आया। वह इस क्रिया के समायोजक वसन्तक को वाँधकर ले गयी। तब राजा उसकी माँ के घर से आयी सांस्कृत्यायनी नाम की परिवाजिका की शरण में गया और उसकी सहायता से वह वसन्तक को मुक्त कराकर लाया। अन्त में रानी ने परिवाजिका के कथनानुसार राजा के लिए बन्धुमती को अपित कर दिया। स्पष्ट है

१. कथा० २।६।६।४-६६ में विरचिता नाम की एक दासी से गुप्त प्रेम का निर्देश है।

२. कथा० २।६।६३-७२, देखिये कालिदास : मिराशी पृ० १५६

कि दोनों कथाओं में वहाँ अविक माम्य है। एक और वामवदत्ता तथा बन्धुमती वा एक्शन होना है, तो दूसरी में धार्गिणी तथा मालविका वा। एक में उदयन के प्रिपा-मिलन में विद्वृपक का सहायक होना है, तो दूसरी में अग्निमित्र के साथ मालविका के मिलन में विद्वृपक का महायज्ञ होना। एक में विद्वृपक का बदी होना है, तो दूसरी में वकुलावलि का। एक में सांभृत्यायनी परिव्राजिता डारा मुक्ति तथा विवाह में सहायता देना है तो दूसरी में कौशिकी परिव्राजिता डारा। और अन्त में दोनों में ही प्रणय परिणय एव सम्मिलन है। किन्तु इन सभी समान सी घटनाओं के कारण भी वृहत्या को नाटक का प्राधार या उपजीव्य नही माना जा सकता। अधिक सभव यही है कि दोनों की अभिभूषित की प्रेरक बोई परम्परागत सम्बन्धित प्रसिद्ध लोकप्रिय प्रणय-गाया रही हो।

यह विष्वास करना भी उचित है कि वालिदास भास की प्रणय-कथात्मक रचना स्वप्नवासवदत्ता से मुपरिचित थे। “पुराणमित्येव न साधु सर्वम् . . . . .” “तथा भास-मौमिल-कविपुत्रादीना . . . . .” इत्यादि से एक और यह जात होना है कि वह भास के प्रति समयिक श्रद्धा रखते थे, तो दूसरी और उनकी प्रतियोगी-भावना भी व्यक्त होनी है। समग्र रूप में इसमें यही स्पष्ट होता है कि हो न हो वालिदास ने इस नाटक की रचना के लिए भास में भी प्रेरणा अवश्य गृहण की होगी। स्वप्नवासवदत्ता में पद्मावती के पास वामवदत्ता की द्वद्दम नाम से द्विवार रखना, तथा अन्त में प्रणय-मिलन आदि घटनाओं का दोनों में पर्याप्त साम्य है। प्रस्तुत नाटक को सर्वांग में कल्पित किसी भी तरह नही मान सकते। नाटक में कल्पना के साथ यथार्थ अवश्य है, क्योंकि बुद्ध ही समय पूर्व के प्रमाणी शुगों से सम्बन्धित थोथी प्रणय-गाया की कल्पना करना अनुचित ही न होना, अपितु दु साहस भी होना। मुख्यत ऐसी बोई रचना जिसका मूल कथानक स्वप्निम राष्ट्रीय इतिहास का हो तथा जिसके प्रति जन-जन की समधिक श्रद्धा हो, उसमें सम्बद्ध ऐसी प्रणय-कथा की कल्पना करने लोकप्रिय हो पाना सभव नही था। और कम से कम वालिदास जैसे कलाकार से ऐसी आशा नही की जा सकती। निश्चित रूप से वालिदास ने ‘नाटक स्थातवृत्त स्थात’ के अनुसार उदयन कथा के समान ही लोकप्रिय परोक्षभूत के ऐतिहासिक (प्रव्यात इतिहासादे) कथानक को लोक में संग्रह करके नाट्य-रूप में विन्यस्त किया है, न कि नितान्त कल्पित रूप में। नाटक के आदि तथा अन्त में विन्यस्त विशुद्ध ऐतिहासिक घटनाओं के समायोग में यह विष्वास और भी दृढ होता है कि लेखक ने न केवल अतिरजनात्मक प्रणय-कथा या लोक-कथा से ही, अपितु उसने किसी विश्वस्त जनश्रुति से ही आधार के रूप में कथानक संजोकर नाट्य-गिर्लप का विधान किया होगा, और क्योंकि जनश्रुति निमूँन या निरी कालभनिक नही होनी है, अत इसके मूल में सत्याश अवश्य है।

## प्रथम घटनाचक्र का ऐतिहासिक विश्लेषण

प्रथम घटनाचक्र के कथानक का नाटक की अन्य घटनाओं की गवाही द्वारा जब हम समीक्षण करते हैं तो प्रथम अंक के उत्तरार्द्ध से चतुर्थ अंक तक की समस्त अन्त पुर की घटनाओं को वृट्टि में रखना होगा कि “अग्निमित्र के दो रानियाँ हैं : धारिणी और इरावती । परन्तु सेविका, के रूप में अन्तःपुर में समागता मालविका पर राजा आसक्त हो जाता है । दोनों रानियों के पर्याप्त विरोध तथा सुरक्षा के बावजूद वह अपने नर्म-सचिव की सहायता से मिलने का प्रयत्न करता रहता है, मिलता भी है, और अन्त में उसको भी राज-परिवार की तथा उसके भाई एवं मंत्री द्वारा राजा को ही विवाह के लिए संकल्पित जानकर दोनों रानियों की सहमति से मालविका तथा अग्निमित्र का परिणय हो जाता है । इस प्रकार इसमें राजा रानियों तथा नर्म-सचिव एवं अन्त पुर के अन्य पात्रों के क्रियाकलाप का ही चित्रण है ।

संभाव्यता के आधार पर अग्निमित्र के राज-परिवार में उपायनी-भूत सेविका मालविका के प्रति न तो राजा की अनुरक्ति ही ग्रस्वाभाविक है और न महादेवी धारिणी तथा द्वोटी रानी इरावती के हृदय में इस प्रेम के प्रति ईर्ष्या तथा क्षीभ का अंकुरण ही । इसी प्रकार उन्होंने राजा को यथा-सम्भव उसके प्रणयपाश से दूर रखने की चेष्टा की होगी, तो राजा भी नर्म-सचिव की सहायता से उसमें मिलने को सकिय रहा होगा और अन्त में प्रणय-संविधि में सफलता भी मिली होगी । राजाओं के अन्तःपुर में ऐसी घटना की सभावना को अस्वीकार नहीं किया मरकता ।

ऐतिहासिकता की वृट्टि से यह स्पष्ट है कि माधवसेन अग्निमित्र का “प्रतिश्रुत सम्बन्धी” था । यद्यपि विभिन्न टीकाकारों ने इसको “कन्या-प्रदाता” रूप सम्बन्ध माना है, किन्तु क्योंकि अविवाहित स्त्री “कन्या” ही कही जाती है, अतः यह बहुत संभव है कि माधवसेन ने अपनी कुमारी “वहिन” को अग्निमित्र को देने का वचन दिया हो । इसके अतिरिक्त दोनों पड़ोसी तथा राजपरिवार से सम्बन्धित थे । माधवसेन की यज्ञसेन से अनवन रहती थी, तथा अग्निमित्र का प्रभुत्व ग्रन्थ-दयोन्मुख था, अतः उनमें परस्पर वैवाहिक गठबन्धन की भी पर्याप्त संभावना है । इसकी पुष्टि पंचम अंक से भी होती है जहाँ कि माधवसेन का मंत्री सुमति को इस प्रतिश्रुत-सम्बन्ध की पूरी जानकारी थी । इसनिए जब माधवसेन पकड़ा गया और मालविका भाईविहीन हो गयी, तब सुमति शीघ्र से शीघ्र कौशिकों के साथ इस प्रतिश्रुत सम्बन्ध की इच्छा से, विशेषतः इस प्रयोजन से कि कहीं मालविका पर कोई अन्य ग्रापत्ति न आ जाय, सार्थवाह के साथ उसे विदिशा को ले चला ।<sup>१</sup> इसके

प्रतिरिक्ष नाटक में “स त्वया मदभेदया भक्तवत्त्रभीदय मौक्तन्य” इस वाक्य का भी महत्त्व है। यहीं मौद्रियमिहित सकलत्र माधवसेन की मुक्ति से सम्बन्धित अग्निमित्र के लेख से यह स्पष्ट होता<sup>१</sup> है कि सौदया के प्रति वह आकृष्ट था या इसमें माथ ही प्रतिश्रूत मम्बन्ध था। नाटक में यह भी स्पष्ट है कि अन्त में सुमनि भी अग्निमित्र के साथ सम्बन्ध की इच्छा में विदिशा आ गहा था।<sup>२</sup> इस प्रकार यह घटना पर्यालि सत्य प्रतीत होती है। इस घटना से हम एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अनुमान भी बर सकते हैं कि—

“सम्बन्ध मौर्यों के समय से ही ग्रपनी प्रस्त्रात शूरवीरता के कारण मानव जाति के कुछ अगुआ लोगों को थोटे थोटे प्रान्तपति बनाकर या उन्ह जागीर आदि देकर वहें-वडे सज्जाट या राजा अपने पृष्ठ पोषर के रूप में रखने थे। साम्राज्य की सुरक्षा के लिए ऐसा रखना कुछ अन्वाभावित भी नहीं है। अनुमान यज्ञपति तथा माधवमेन को या इनके पूर्वजों को भी इसी प्रकार कुछ जागीर मौर्यों में प्राप्त हुई थी और शब्द ये भीयं द्वारा नियुक्त विदर्भ के शासक थे। यह भी बहुत समव है कि यह आसपास के किसी अन्य राजा के जागीरदार रहे हो।

रैप्सन का अनुमान है कि यज्ञसेन गम्भवत आनन्द पा आनन्दों का वरद जागीरदार था।<sup>३</sup> रैप्सन के अनुमार दक्षिण भारत की प्राचीन राज-वंगाधिकी के निरौपों से भारत में भी आनन्दों का विस्तार ज्ञान होता है।<sup>४</sup> इन्हीं विस्तार पाते हुए आनन्दा या आनन्दों के वरद यज्ञसेन में, जो कि विदर्भ का नाम है, संघर्ष हुआ।<sup>५</sup> किन्तु यह मत ठीक नहीं है, एवं तो, वर्तमान नवीननम शोध के आवार वर आनन्दों का नामन बाल इतना प्राचीन सिद्ध नहीं होता।<sup>६</sup> हूमरे, यज्ञमेन आनन्दों का वरद या आनन्द ही या इससे अधिक सुमगत हमारा पूर्वोन्नत अनुमान प्रतीप होता है, जिससे न केवल मालविका के नामकरण या उसकी ऐतिहासिकता को पुष्ट होती है, अपिनु समस्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी सुमगत बंध जाती है। अन हमारा अनुमान है कि यज्ञमेन मालवों से सब्जित था तथा, या तो वह मौर्यों का जागीरदार था और किसी अन्य पढ़ोमी राजा का।

१. मालविका ११६-७,

२. वही, ५१६-१०,

३. वैमित्र द्वितीय आँक इदिषा पृ० ४६८,

४. वही, पृ० ४७८,

५. वही, पृ० ४४३,

६. देखो इसी अध्याय में हमारा विवेचन,

नाटक में यज्ञसेन को स्पष्टतः विदर्भ का शासक कहा गया है। यज्ञसेन तथा माधवसेन दोनों चचेरे भाईयों में परस्पर झगड़ा था। नाटक में यज्ञसेन ही राजा कहा गया है और माधवसेन को “कुमार” कहा गया<sup>१</sup> है। अतः यह भी संभव है कि माधवसेन कहीं का राजा न हो<sup>२</sup> और मुमति केवल साधारण परामर्शदाता के रूप में ही उसका सचिव रहा हो। अनुमानतः माधवसेन का राज्य के वंचित होने के कारण ही यज्ञसेन से झगड़ा था। प्राचीन काल में अपने-अपने उत्कर्ष के लिए, सुरक्षा के लिए, जक्ति-सन्तुलन के लिए या फिर सहायता-प्राप्ति के उद्देश्य से प्रायः राजा लोग परस्पर विवाह-सम्बन्ध स्थापित किया करते थे। नाटक से स्पष्ट है कि यज्ञसेन ने भी मौर्य सचिव से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। नाटक के प्रनुसार यज्ञसेन का मौर्य-सचिव साला था। अतः अनुमान है कि यज्ञसेन ने इसी सम्बन्ध के आधार पर मौर्य-सचिव की सहायता से सुविस्तृत विदर्भ का राज्य हथिया लिया था और चचेरे भाई कुमार माधव-सेन को जो कि उच्च में छोटा भी था, राज्य के अधिकार से वंचित कर दिया था। दोनों के पारस्परिक झगड़े का भी प्रमुख कारण यही प्रतीत होता है। नाटक में विदर्भ को द्वैराज्य के रूप में विभक्त कर देने के प्रसंग से भी यही ज्ञात होता है कि द्वैराज्य द्वारा अग्निमित्र ने माधवसेन को न्याय राज्य दिलाने का ही कार्य किया था। अतएव उसे कल्याणी दुष्टि वाला भी कहा गया है। भंडारकर भी उनमें राज्य के उत्तराधिकार के कारण झगड़ा मानते हैं। यही ऐतिहासिक सत्य भी है।

उपर्युक्त राजनीतिक परिस्थितियों से स्पष्ट है कि राजनीतिक उद्देश्य से ही माधव-सेन अग्निमित्र का प्रतिश्रुत-सम्बन्धी हो चुका था। इम संबंध के कारण यज्ञसेन माधवसेन पर और भी रुष्ट हुआ और माधवसेन पर कठोर नियन्त्रण किया। इस पृष्ठ-भूमि से कुछ तथ्य भी सामने आते हैं—सर्व प्रथम यह कि अतिम मौर्य सम्राट् वृहद्रथ की निर्वलता से राज्य में मौर्य-सचिव तथा मौर्य सेनापति के दो प्रमुख गुट बन गये थे। यह घटना उस समय की है, जब कि संभवतः पुष्पमित्र ने राज्य को हस्तगत नहीं किया था, किन्तु दोनों गुट अपने-अपने पक्ष की अभिवृद्धि में संलग्न थे। किन्तु जंगेंही क्रान्ति हुई, पुष्पमित्र ने वृहद्रथ की हथा करके राज्य को हस्तगत कर लिया, तथा अग्निमित्र ने मौर्य-सचिव को बन्दी बना लिया, तभी यज्ञसेन ने भी अपने को स्वतन्त्र घोषित कर दिया। नाटक में इसे अनात्मजः, प्रकृत्यमित्रः, अचिराविधितराज्यः आदि कहा है<sup>३</sup> अतः स्पष्ट है कि यह अभी-अभी स्वतन्त्र हुआ

१. मालविका० १६-७, ५१६-१०,

२. माधवसेन के लिए कुमार शब्द-प्रयोग के कारण वृ० यज्ञसेन से छोटा तथा किशोर प्रतीत होता है।

३. मालविका० १७-८०,

था परन्तु उसे लोकप्रियता प्राप्त नहीं हुई थी। जब यज्ञमेन ने देखा कि माधवसेन भी अग्निमित्र वा प्रतिश्रुत सबधी होने के कारण उससे जा मिलेगा तो उसको बलपूर्वक दबाना चाहा, किन्तु पुष्पमित्र के सम्राट होने पर यज्ञमेन के चंगुल में निवालने के लिए सुनियोजित योजना के अनुसार अपनी बहिन आदि मुख्य परिजन के साथ माधवसेन विदिशा जाने की चेष्टा कर ही रहा था कि यज्ञमेन के सीमारक्षक ने उसे पकड़ वर बन्दी बना लिया, किन्तु, किसी प्रकार मालविका तथा सुमति बन्दी न बनाये जा सके। यज्ञमेन के प्रत्युत्तर (सन्देश) से स्पष्ट है कि माधवसेन के बन्दी बनाने के समय एक विष्वलव भी हुआ था और उसमें वह सो गयी।<sup>१</sup> विष्वलव शब्द यहाँ बहुत सार्थक है। अनुमानत बहुत सी प्रजा ने माधवसेन के पक्ष में 'विष्वलव' में भाग भी लिया था। हमारा विश्वास है कि उस समय सुमति भी अवश्य उसके साथ था। मध्यसेन के बन्दी हो जाने पर सुमति ने ही मालविका की सुरक्षा की तथा आने वाले किसी भी अनिष्ट की आशका से उसे कही छिपा दिया था। नाटक में माधवसेन के सरकान सोदर्या विदिशा जाने का उल्लेख<sup>२</sup> है, और बाद में सोदर्या के विनष्ट होने तथा अन्वेषण प्रयत्नों का भी उल्लेख<sup>३</sup> है। किन्तु पचम अक में उल्लिङ्गित 'तथागतभ्रातुर्बा' शब्द से यह स्पष्ट ध्वनित होता है कि माधवसेन के बदी होने की घटना सुमति के मम्मुख ही घटी थी। माधवसेन के बदी होने पर मालविका सुमति के पास ही सुरक्षित रही। सुमति भी माधवसेन की पूर्व इच्छानुसार ही अग्निमित्र से सम्बन्ध की आवेदा ने विदिशा जाने वाले पथिकसार्थ के साथ छिपकर ही अपनी बहिन कोशिकी तथा मालविका के साथ जा रहा था, किन्तु मार्ग में तस्कर आटविकों से मुठभेड़ होने पर जब सार्थवाह के रक्षक योद्धा परास्त हो गए तब सुमति ने मालविका की सुरक्षा करते-करते अपने प्राण दे दिये और मालविका दाकुओं के द्वारा अपहृत करली<sup>४</sup> गयी।

मालविका आटविकों के हाथ से बीरसेन वो कैसे प्राप्त हुई, इसका नाटक में उल्लेख नहीं है। नाटक में यह तो स्पष्ट है कि बीरसेन ने ही उपहार के स्वप्न में भेजा<sup>५</sup> था और यह भी स्पष्ट उल्लेख है कि आटविकों से बीरसेन वो प्राप्त हुई, उससे देवी को। नाटक से हम यह भी जानते हैं कि देवी धारिणी का निभत-वर्ण

<sup>१</sup> मालविका ११६-७

<sup>२</sup> वही, ११६-७, ११८-१०,

<sup>३</sup>. वही तथा १११ १२,

<sup>४</sup> वही, ११८-१२,

<sup>५</sup>. वही, ११५-६,

का भाई वीरसेन नमेदा-तीर पर सीमा दुर्गे पर रक्षक नियुक्त था।<sup>१</sup> जबकि यह निश्चित है कि विदर्भ तथा विदिशा के शासक यज्ञसेन तथा अग्निमित्र की सीमाएँ परस्पर सम्बद्ध थीं तो वहुत सम्भव है या तो अग्निमित्र के सीमारक्षक वीरसेन जो आटविकों ने मालविका को समर्पित किया था, या उसने आटविकों से अपने परात्रम द्वारा संघर्ष के बाद छीन लिया था। हमारा अनुमान है कि वीरसेन ने आटविकों से भेट रूप में ही प्राप्त मालविका को वहिन को भेजा था। यदि जन-सुरक्षा आदि की इटि से संघर्ष के बाद प्राप्त किया होता तो उसे साधारण जन के समान ही सुरक्षा प्रदान कर मुक्त कर देना चाहिए था। किन्तु संभवतः वीरसेन से आटविक मिले जुले थे। वीरसेन से प्रोत्साहित होकर शशु-सीमा में आंतक पैदा किया करते थे, तथा वीरसेन के यहाँ शरण प्राप्त कर लेते थे। और लूट की वहूमूल्य सम्पत्ति वीरसेन को भी प्रदान कर देते थे। इस अनुमान के आधार पर स्पष्ट होता है कि सीमा-रक्षक वीरसेन ने जन साधारण की मुख शान्ति और सुरक्षा के लिए डाकुओं से संघर्ष नहीं किया था, प्रयत्न उसका एक मात्र उद्देश्य राज्य-सीमा की रक्षा करना तथा शशु को आतंकित करना मात्र था। अतः यह स्वाभाविक प्रतीत होता है कि वीरसेन ने अपने मिने-जुले लुटेरों से प्राप्त सुन्दरी मालविका को अग्निमित्र के अन्तःपुर में वहिन को पहुँचाया हो।

इसी अनुमान की पुष्टि नाटक से भी होती है। नाटक से स्पष्ट है कि लूट-पाट से प्राप्त सम्पत्ति तथा स्त्री-रत्नों को राजा के पास भेट किया जाता था जैसा कि विदर्भ विजय के बाद वीरसेन ने किया था। अतः हमारा विश्वास है कि डाकुओं से भेट रूप में प्राप्त सुन्दरी मालविका को ही वीरसेन ने वहिन को भेजा।

सारांशतः इससे यह तो स्पष्ट है कि भाई माधवसेन के बड़ी होने पर असुरक्षित मालविका किमी प्रकार अग्निमित्र के अन्तःपुर में पहुँच गई थी। सेविका के रूप में मालविका के अन्तःपुर में प्रवेश पाने पर राजा के प्रेम, दोनों रानियों के सुरक्षा-प्रयत्नों तथा अन्य अन्तःपुर के क्रियाकलापों का कोई विशेष ऐतिहासिक महत्व नहीं है। ये सभी प्रसिद्धि-प्राप्त संभाव्य घटनाएँ हैं। संभव है मालविका से राजा का प्रणय-ज्यापार भी चला हो किन्तु इन घटनाओं का विशेष महत्व नहीं है। अन्त में, जब मालविका का वास्तविक परिचय प्राप्त हुआ तो निश्चित है कि राजा ने उसको पूर्व सम्बन्ध के अनुसार पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया होगा। इसी प्रकार इस घटनाचक्र की अनेक घटनाएँ कविकल्पित हैं तो कुछ कविन्प्रसिद्ध। श्री मिराशी यशोक-दोहद की घटना को भास के पंचरात्र नाटक से संजोने की

मध्यावना करते हैं,<sup>१</sup> किन्तु वास्तव में वसन्तोत्सव वर्णन तथा अग्नोश-दोहद कवि प्रसिद्ध है। तथा यह सभव है कि कालिदास को इन्हे नाट्य प्रयोग में विनिविष्ट करने की प्रेरणा भास्म में मिनी हो। उक्त नाटक में नाट्याशार्यों के विवाद, मालविका के नाट्य-प्रयोग तथा मालविका की मुक्ति एवं प्रिय मिलन की घटनाएँ विविचित हैं।<sup>२</sup> निसदेह प्रथम घटनाचक्र में प्रणय-चित्रण होने के बारण कल्पना वा समग्रिक प्रयोग हुआ है।

### द्वितीय घटनाचक्र का ऐतिहासिक विश्लेषण

द्वितीय, विशुद्ध ऐतिहासिक घटनाचक्र के विश्लेषण करने पर उससे बहुत से तथ्य हाय लगते हैं। मुख्यतः नाटक के इसी घटनाचक्र के परिवेश में प्रणय-प्रधान व्यानक का नाट्यदृष्ट वरन् वे बारण इसका ऐतिहासिक महत्व हैं।

### कालिदास पर कुछ आक्षेप

कुछ विद्वानों ने विना समुचित समीक्षण किये, कालिदास पर अनुचित ग्रारोप लगाने वा दृमाहग किया है। डा० श्री ध्य० वेतकर ने लिखा है कि “कालिदास के मालविकाभिनिमित्त में पुष्पमित्र को सेनापति के पद पर नियुक्त बताया गया है, और यह नहीं बहा गया है कि उमन अपन स्वामी का वध वरके राजगद्वी द्वीन ली थी। लेकिन साथ ही उसके अश्वमेघ यज्ञ करने का भी बरण किया है। इससे मालूम होता है कि कालिदास को राज्य तथा का कुछ भी अनुभव नहीं था, या पुष्पमित्र को इतना उन्नप्त दिखाना वी इच्छा से उसने अपनी विदेक-बुद्धि का तिलाङ्गली द दो थी। इसके अनिरिक्त पुष्पमित्र ने जो यज्ञ किया था वह अश्वमेघ ही या इसके तबध में भी कोई प्रमाण नहीं<sup>३</sup>। इतना ही नहीं, वटिक कालिदास पर ममाज तथा राजनीति की अनभिज्ञता वा दोपारोपण रुग्ते हुए वह आगे कहते हैं कि “मालविकाभिनिमित्त में तत्वालीन ममाज पर टीका टिप्पणी वरके तालियाँ पिटवान का कालिदास वा उद्देश्य द्विग्रानहीं रहता। इसी रानी को मदिरा पिलावर सुल्लमन्तुला रामच पर लाना और उनके भाई को हीनजानीय दिखाना इत्यादि घटनाओं को नाटक में प्रदर्शित करन के लिए बहुत बड़ा साहस होना चाहिए। कवि वा अपने नाटक में प्राचीनकाल वा दृश्य दिखाने का द्वाग रचना वडे मीके की बात है। ग्रामीण लोगों के बीच म रानी की हँसी उडवाना और मदिरा पिलान का ऐतिहासिक ग्राधार भीजूद

१. कालिदास मिराशी, पृ० १५८,

२. ध्यो,

३. कालिदास श्री मिराशी, पृ० ८७,

है ऐसी धारणा उत्पन्न करके वाहवाही लूटना कवि के लिए कठिन नहीं है।”

डा० केतकर के उपर्युक्त विचार निराधार है। उन्होंने कालिदास की कृतियों का विव्लेषण करें, तो ज्ञात होता है कि नाटक का इतिवृत्त पूर्णतः इतिहास सम्मत तथा नुसम्बद्ध है। इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान् श्री मिराशी ने डा० केतकर के मत में अश्रद्धा प्रकट करते हुए उसे अस्वीकार कर दिया<sup>३</sup> है। वास्तव में कवि के समय का निर्धारण करते हुए लेखक की कृति पर कीचड़ उद्घालना तथा निराधार आरोप लगाना उचित नहीं कहा जा सकता। विद्वान् समालोचक श्री मिराशी<sup>४</sup> तथा पाश्चात्य इतिहासकार स्मिथ<sup>५</sup> और रैप्सन आदि ने नाटक में उल्लिखित घटनाओं को ऐतिहासिक परम्पराओं के अनुरूप, अर्थात् प्रामाणिक माना है। रैप्सन के अनुसार नाटक के तथ्यों में ग्रविश्वास करना सर्वथा निराधार है। इसके अतिरिक्त सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण वात यह है कि भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों ने मुख्यतः नाटक की घटनाओं को हृष्टि में रखकर ही जुंग इतिहास की स्परेखा दी है। इसके अतिरिक्त केतकर का यह आरोप कि कालिदास को राज्य-तत्त्व का अनुभव न था और न जुंग इतिहास का ज्ञान, नाटक के हमारे ऐतिहासिक विवेचन से सर्वथा निराधार ठहरता है।

### जुंग साम्राज्य को स्थापना तथा राजनैतिक पृष्ठभूमि

जब भौयं साम्राज्य की शक्ति द्वीण हो गयी, मगव के विजाल साम्राज्य पर चाहूँ आक्रमणों के बादल में डराने लगे, मुद्दङ मगव साम्राज्य की जड़े हिलने लगीं, देश की एकता संकटापन्न हो गयी, तब भौयं ग्रामन भी पड़येंत्रों का घर बन गया। उसके अन्दर ही अन्दर क्षान्ति की आग बढ़ने लगी। जो भौयं साम्राज्य सम्राट् भ्रजोक के समय तक यथावृत् अपनी जान एवं प्रतिष्ठा को बनाए रहा, अब उसका पतन प्रारम्भ हो गया। नुदूरवर्ती जन-प्रदेश स्वावीन होने लगे, दक्षिणापथ में सात-चाहनों का स्वतन्त्र राज्य स्यापित हुआ। भ्रजोक ने जिस कर्तिग को रक्त की नदी बहाकर विजित किया या वह अब सर उठाने लगा। पंजाब से लेकर काबुल कन्धार आदि को समेटे पश्चिमोत्तर प्रान्त भी हाथ से निकल चुके थे। यवन, शक, पत्तव तथा कुशान आदि विदेशी जातियाँ एक के बाद एक पश्चिमोत्तर सीमा को रोककर

१. कालिदासः निराशी, पृ० ६-१०,

२. वही, पृ० ५०,

३. वही, पृ० ८७,

४. अलौ हिस्ट्री ऑफ एन्शन्ट इंडिया: स्मिथ पृ० २१२, फुटनोट

५. कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ एन्शन्ट इंडिया, पृ० ४१८,

भारत में आगे बढ़ा लगी। इस समय डेमेट्रियम की ग्राले पाटलिङ्गम पर ही लगी थी। अन्तिम मौर्य-मान्द्राट् प्रविशिष्ट मौर्य साम्राज्य की सीमाओं को भी सुरक्षित रख सक्न म पूर्ण हो गया था। वह चापनूस सचिवों के इशारे की बट पुनर्ली मात्र रह गया था। इनी नारण सभवत साम्राज्य म दो प्रमुख गुट हो गए थे। एक का नेतृत्व मौर्य सम्राट् वृहद्रथ के मुँह लगा सचिव कर रहा था तो दूसरे का स्वतन्त्राधिप सेनापति। यही तथ्य प्रथम घटना चक्र के विवेचन से भी स्पष्ट हो चुका है।

अब जब इस प्रवार मौर्य साम्राज्य के भव्य, विन्दु खड़हर प्राप्ताद की नीव खोखली हो गई थी, त्रिमश उसकी ईटें विमर्श रही थीं और वह धराशायी होने की स्थिति में था, तो सेनापति पुष्यमित्र को अपनी तलबार अपने स्वामी के विश्वद ही उठानी पड़ी। वृहद्रथ को तलबार के पाट उतार कर पुष्यमित्र ने शुभराज्य की स्थापना की। मौर्य वज्र के अवसान के पश्चात् विरोधी तत्वों ने विशेषत मौर्य पक्ष-पातियों न मिर उठाया। उसी का परिणाम था—विदर्भ सधर्य। टा० राय-चौधरी ने नाटक की इसी घटना को इस तरह विवा है कि 'वृहद्रथ मौर्य के शायनकाल में यग्य मान्द्राज्य के अन्तर्भूत दो विरोधी तत्व मक्षिय हैं। एक का नेतृत्व राजा का अमात्। कर रहा था, दूसरे का नेतृत्व सेनापति। पुरस्कार स्वरूप राजसचिव के महोगी को विदर्भ राज्य मिला। सेनापति का पुन अग्निमित्र विदिशा का शायन नियुक्त हुआ। सेनापति ने राज्य-विद्रोह तथा सम्राट् वृहद्रथ का बन उरके जब समूची शक्ति हृष्णगत करनी और मध्यी वो बदी बना लिया, तब मध्यी के सहयोगी वज्रसेन ने अपनी स्वतन्त्रता घोषित करके शुग सम्राट् की प्रसुसत्ता के विश्वद विद्रोह कर दिया। स्पष्ट है कि पुष्यमित्र वे सामन इस समय स्वतन्त्र राज्यों की समस्या उत्पन्न हो गई थी। विदर्भ भी एक ऐसा ही विद्रोही स्वतन्त्र राज्य था'। नाटक म इनी विदर्भ सधर्य का उन्नेक्ष है।

**सेनापति सम्राट् पुष्यमित्र**—मौर्य साम्राज्य के अंतिम शायन वृहद्रथ का उत्मूलन करके सेनापति पुष्यमित्र यग्य का सम्राट् बना तथा शुगरज्य का प्रवर्तन किया। शुग राज्य-काल के सम्बन्ध में विभिन्न मत हैं। वायू०, ब्रह्माण्ड० तथा विष्णु-पुराण के अनुसार शुगराज्य-काल नीं अवधि ११२ वर्ष मात्री जानी है, जबकि मत्य-पुराण के आधार पर ३०० वर्ष मानते हैं। फाजिटर ने पौराणिन उन्नेल का समोधन करते हुए ११२ वर्ष ही शुगराज्य-काल माना है। विमेन्टस्मिथ, राय-चौधरी तथा रैमन आदि विद्वान् प्राय शुगों के १० राजाओं का ११२ वर्ष ही राज्यकाल

मानते हैं<sup>१</sup>। किन्तु विद्वानों में पुष्पमित्र के राज्यारोहण तथा राज्यकाल में मतभेद है। पुराणों के अगुद्ध उल्लेख के अनुसार कुछ विद्वान् पुष्पमित्र का राज्यकाल ६० वर्ष मानते हैं जबकि जैन ग्रन्थों के अनुसार ३० वर्ष ठहरता है<sup>२</sup>। राष्ट्र-चौधरी के अनुमार ई० पू० १८७ के लगभग पुष्पमित्र ने मगध पर अधिकार प्राप्त किया था, तथा १५१ ई० पू० में पुष्पमित्र की मृत्यु हो गयी। अतः पुष्पमित्र ने कुल ३६ वर्ष राज्य किया<sup>३</sup>। किन्तु स्मित पुष्पमित्र का राज्यकाल १७६-१४० ई० पू० मानते हैं<sup>४</sup>, तथा डा० त्रिपाठी १८४-१४८ ई० पू०<sup>५</sup> और डा० सत्यकेतु १८५-१४६ ई० पू० मानते हैं<sup>६</sup>। अतः सभी में थोड़ा मतभेद है, किन्तु सामान्यतः सभी पुष्पमित्र का राज्यकाल ३६ वर्ष मानते हैं। तिथि में थोड़ा बहुत मतभेद होते पर भी इतना निश्चित है कि पुष्पमित्र ने ई० पू० के द्वितीय शतक में मगध साम्राज्य को अधिकृत किया था। मालविकाग्निमित्र में उल्लिखित घटनाएँ भी इसी काल की हैं।

नाटक में सर्वत्र पुष्पमित्र का सेनापति के रूप में उल्लेख किया है और अग्निमित्र का एक राजा के रूप में। अतः यह संभावना स्वाभाविक है कि भले ही पुष्पमित्र ने वृहद्रथ का उन्मूलन करके राज्य अधिकृत किया हो परन्तु वाद में वह सेनापति ही रहा, और संभवतः अग्निमित्र को सम्राट् बना दिया गया, किन्तु वास्तव में वह विचार उचित नहीं है। यद्यपि यह सत्य है कि समस्त शुंग-कालीन इतिहास के साथ्यों में पुष्पमित्र का सेनापति के शब्द के साथ ही उल्लेख है। नाटक में भी उसने स्वर्यं को तथा अन्य पात्रों ने भी उसका सेनापति के रूप में उल्लेख किया है। किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि वह अग्निमित्र का सेनापति था। वास्तविकता यही है कि क्योंकि सत्ता को स्वायत्त करने से पूर्व (लगभग २४ वर्ष) वह सेनापति ही था, अतः वाद में भी उसने अपने साथ सेनापति शब्द को एक विरुद्ध के रूप में चानू रखा। जिस तरह कि भव्यकालीन इतिहास में पेशवा शब्द प्रचलित रहा। यद्यपि हम जानते हैं कि राज्याधिकार के समय पुष्पमित्र वृद्ध रहा होगा, तब भी

१. श्रर्जी हिस्ट्री आँफ एन्शन्ट इंडिया, स्मिय, पृ० २०८, पॉलिटिकल हिस्ट्री आँफ एन्शन्ट : इंडिया : राय चौधरी पृ० ३६६, केम्ब्रिज हिस्ट्री आँफ इंडिया, पृ० ४६७,
२. भा० वृ० इति०: भगवदग्गत, पृ० २७८,
३. पॉलिटिकल हिस्ट्री आँफ एन्शन्ट इंडिया, पृ० ३६१,
४. श्रर्जी हिस्ट्री आँफ इंडिया, पृ० २०८,
५. प्रा० भा० इति०, त्रिपाठी, पृ० १४०-१४३,
६. भा० प्रा० इतिहास, डा० सत्यकेतु, पृ० ४२८, ४३१,

उसने अन्तिम समय तक शामन किया। इतिहासकारों का यह अनुमान है कि यह सभव नहीं कि केवल अग्निमित्र के निभित ही उमन वृहद्रथ का वध किया हो। उमरा तो राज्य को स्वायत्त बरल का उद्देश्य था—मिर उग्निे हुए गजायों की दग्धाना मगध को फूट तथा विद्रोह में मुक्त बरना और आग बढ़ने यवनों को रोकवर देश की स्वतन्त्रता की सुरक्षा करना। इस प्रकार स्पष्ट है कि उमन अपने शामनतान में दो बार यवनों को पराजित किया, तथा दो बार अश्वमेष किया। यदि वह मग्नाद् न होना तो उसके अश्वमघ करने का कोई प्रयोजन ही नहीं निरलता है। द्वितीय हमारे नाटक में ही “अथ देवस्य सेनापते पुष्यमित्रस्य” में पूर्व पद व क्ष्य एव “देवस्य” शब्द का उल्लेख यह प्रस्तुत करता है कि वह अवश्य मग्नाद् एव मगव का शामन था। निम्न ने यह भी स्वीकार किया है कि सेनापति पुष्यमित्र की राजधानी पाटलिपुत्र थी<sup>१</sup>। राजधानी मेनापति की नहीं शामन की होनी है। इतिहास के अनुमार मगव की परम्परागत राजधानी पाटलिपुत्र म ही पुष्यमित्र की राजधानी थी। अत मेनापति पुष्यमित्र के मग्नाद् होने से कोई भी विचिकित्सा नहीं होनी चाहिए।

बास्तव म पुष्यमित्र की यह महानता, अनुता, कर्तव्यपरायणता तथा नीतिज्ञता ना भी प्रसरण है कि उसन मगध राज्य को हस्तगत करन पर भी सेनापति प्रयोग ही चाहूँ रखा, मग्नाट नहीं। उसने कर्तव्य के लिए ही राज्य की बागडोर थामी थी, न कि राजा महाराजा के अभिमान-प्रदर्शन के लिये। दो बार यवनों के निरस्तक्ता तथा दो बार अश्वमेष-पत्र-कर्ता पुष्यमित्र ने अपने जीवन भर मेनापति शब्द का ही प्रयोग किया, यह उसकी विनम्रता का दोष है। यह भी ही सकता है कि वह इतना महाद् कृटनीनित था कि राज्य स्वायत्त करने के बाद नी तथा दो बार यवना को पराजित और अश्वमघ करन के बाद भी उसन मेना तथा जनता के हृदय पर अपनी निरभिमानता, निष्पृहता, कर्तव्यपरायणता आदि एवं द्वारा स्थायी प्रभुत्व जमाने के उद्देश्य से सम्भाद् या राजा का प्रयोग न करन सेनापति का ही प्रयोग किया हो। जो भी हो, किन्तु इस प्रकार उसन प्रजा को बनता दिया था कि वह अब भी सेनापति ही है। राज्य का हृदयना उसका उद्देश्य नहीं, अपिनु देश रक्षा ही है। सेनापति के प्रयोग से जहाँ उसन प्रजा के मामन अपनी किस अन्तर्गत, निस्वार्थपरमा प्रदर्शन कर प्रजा की मान्यताओं पर आरित्य यापा, वहाँ समस्त सहयोगिनी मेना को भी यह विश्वास दिलाया कि वह अब भी एक साधारण सेनापति ही है। जयचंद्र विद्यानकार व शद्दो मे—इसम यह भी स्पष्ट होता है कि दण वी राज्य-स्थाप्ता की कुछ प्रथाओं या नियमों के पालन म वह बहुत सावधान

था और पुनः वही अनुमान होता है कि उस क्रान्ति में सेना की तरह प्रजा भी निश्चित रूपेण उसके पक्ष में<sup>१</sup> थी।

अग्निमित्र का नाटक में शासक या राजा के रूप में उल्लेख करने का कारण यह है कि उस समय केन्द्र के आधिपत्य में प्रान्तों पर राजपुत्र या राजा से सम्बन्धित विश्वस्त व्यक्ति शासन करते थे। यह उस समय की राज्य-संस्थाओं तथा राज्यतंत्र की अनी प्रथा थी। अग्निमित्र भी ऐसा ही शासक था। वह अपने पिता के द्वारा ही विदिशा का शासक न था बल्कि वृहद्रथ के समय में भी विदर्भ के शासक यज्ञसेन के समान ही विदिशा का शासक था। अग्निमित्र के उल्लेखों से जो साम्राज्य अधिकारी होने की गंध आती है उसका कारण तत्कालीन राज्य-व्यवस्था तथा अग्निमित्र का वैयक्तिक पौरुष था। इसके अतिरिक्त वह नाटक का नायक है तथा पुष्यमित्र का निकट भविष्य में उत्तराधिकारी भी। अतः ऐसा होना स्वाभाविक है, अनुचित नहीं। जो भी हो, इतना निश्चित है कि नाटक का घटनाचक्र पुष्यमित्र के राज्यकाल में घटित हुआ था। उस समय विदिशा का शासक अग्निमित्र था।

### विदिशेश्वर अग्निमित्र की विदर्भ-विजय

विदर्भ-विजय मालविकाग्निमित्र में वर्णित शुंगकाल की महत्वपूर्ण घटना है। नाटक का नायक अग्निमित्र विदिशा का शासक था।<sup>२</sup> नाटक से स्पष्ट है कि शुंगकाल में विदर्भ का शासक यज्ञमेन था। यह मौर्य सचिव का सम्बन्धी भी था।<sup>३</sup> विदर्भ तथा विदिशा पड़ोसी राज्य थे। रैप्सन के अनुसार विदर्भ तथा विदिशा की सीमायें लगी थीं। उन्होंने लिखा है कि वर्तमान ऐतिहासिक स्थिति से स्पष्ट होता है कि शुंगों का इस प्रदेश पर आक्रमण करना कितना स्वाभाविक था।<sup>४</sup> वे आनन्द-राजा-शातकरी और पुष्यमित्र को समकालीन मानते हैं।<sup>५</sup> इसी आधार पर उन्होंने विदर्भ-संघर्ष की रूपरेखा दी है।<sup>६</sup> परन्तु हम पहले ही इस मत का अनुचित्य

१. भारतीय इतिहास की रूपरेखा : जयचन्द्र विद्यालंकार, भाग २, १९३३, पृ० ७१३,

२. कुछ विद्वान् शुंगों की दो राजधानी मानते हैं, किन्तु यह ठीक नहीं है। वास्तविकता यही है कि मुख्य राजधानी पाटलिपुत्र ही थी, विदिशा तो उसी के अधिकृत एक प्रदेश भर थी,

३. मालविका ११७,

४. कैम्बिज हिस्ट्री ऑफ एन्शन्ट इंडिया, पृ० ४६८

५. वही, पृ० ४७७,

६. वही, पृ० ४७८, ५४३, ४६८ आदि,

ठहरा चुके हैं। इसके अतिरिक्त आधुनिक शोग के आवार पर शुगो तथा आनंदो वी समकालीनता इसी भी प्रकार प्रमाणित नहीं होती है। अब विद्वानों वी मान्यता है कि आनंद वश की स्थापना शिमुक न वर्णों के पश्चात् लगभग ५० पू० २७ या २४ मे की थी।<sup>१</sup> अत रैप्सन का मत सबथा अग्राह्य है। हमारी तो मान्यता है कि हो न हो, यज्ञमेन अधिकाशत मौर्यों का या किमी अन्य निकटवर्ती गाजा वा जागोरदार 'मालव' था। अत आनंद शुग सधय मानना इतिहास सम्मत नहीं है।

विदर्भ-सधयं नाटक वी प्रथम ऐतिहासिक घटना है। हम उल्लेख कर चुके हैं कि सेनापति पुष्यमित्र ने प्रजादुर्बल मौर्य सम्राट् वृहदेश की गना के निरीक्षण वरते समय हस्ता वरके, शुग राज्य की स्थापना की थी। यह सेनिक क्रान्ति पूर्व नियोजित पड़यत्र का ही परिणाम थी। पुष्यमित्र ने इम सेनिक क्रान्ति द्वारा समय साम्राज्य पर अधिकार अवश्य वर लिया था किन्तु इसी थीच मगध के आकर राज्य स्वतन्त्र हो गये थे तथा मौर्य पक्षपाती सर उठान लग थे। इन्हीं में यज्ञमेन भी था। सभवत, इस समय मौर्य पक्षपाती मौर्य सचिव न भी अवश्य वग्रवत की होगी। अत अग्निमित्र ने उमी समय मौर्य पक्षपाती मौर्य मचिव को बदी बना लिया था। किन्तु शुगों का कार्य यही पत्तम नहीं हुआ था। मौर्य मास्राज्य की गुट्टरदी से निर्वल मगध को उन्हें पुन सम्मान दिलाना था। नाटक के पूर्व मवलित यह आक्रमण भी सेनापति<sup>२</sup> की उमी पूत्र नियोजित योजना वा अग था। सेनिक क्रान्ति के माध्यमाय मौर्य-सचिव को बदी बना देन के समय देश म क्रान्ति तथा ग्राजकना हुई थी।<sup>३</sup> पुष्यमित्र ने इसे यद्यपि शान्त कर दिया या तथापि अपने उद्देश्य को पूर्ण करन में अभी बहुत कुछ शेष था। स्वतन्त्र ग्रभी भी स्वतन्त्र थे। अत अब पुष्यमित्र ने इस ओर प्यान दिया तभी विदर्भ सधयं हुआ।

अनुमानत मवप्रथम सभवत<sup>४</sup> पुष्यमित्र ने सेनिक सधयं वी ग्राजका से विदर्भ पर आक्रमण नहीं किया था, किन्तु आनंदस्त्रिक शालि स्थापित वरन के बद पुष्यमित्र की हृष्टि विदर्भ पर पड़ी। डा० प्रिपाठी के अनुमार पहिने तो पुष्यमित्र न यज्ञसेन में आत्ममर्मण को कहा,<sup>५</sup> परन्तु सभवत उसन वेमा नहीं किया। डा० साहित्र इम सधयं वा त्रम अन्पट भानते हैं, किन्तु नाटक की घटनाग्रा में इसका कम ज्ञान

१ इडियत हिरदारिकल बवाट्टरनी, दिसम्बर १६५० में पी० एल० भार्गव का सेव, तथा अलौ हिस्ट्री औफ इडिया, चतुर्थ संस्करण, पृ० २२७,

२. मालविका० १७-८,

३ प्रा० भा० इति० प्रिपाठी, पृ० १४१,

४ यही,

संभव है। नाटक की देशकाल की संयोजना तथा घटनाचक्र के आधार पर अनुमान कर सकते हैं कि पुष्पमित्र ने मगध को हस्तगत करने पर तथा राज्य की आन्तरिक श्रराजकता को दशा देने के कुछ ही बाद विदर्भ को आत्मसमर्पण तथा माववसेन की मुक्ति के लिए कहा होगा। वैदर्भ के सम्बन्ध में राजा के द्वारा पूछते पर अमात्य चत्तलाना है कि वह आत्मविनाश चाहता है, तथा इसके भी आगे वैदर्भ के प्रति-भन्देश से जात होता है कि माववसेन की मुक्ति के लिए सन्देश अग्निमित्र ने भेजा था। इसी सन्दर्भ में यज्ञसेन स्वर्यं को अग्निमित्र का तुल्यभिजन वतनाना है तथा मौर्य-मचिव को मुक्त करने की अभिसंधि प्रस्तुत करता है।<sup>१</sup> इससे प्रकट होता है कि यज्ञसेन की उस समय स्वतंत्र स्थिति थी और वह स्वर्यं को एक स्वतंत्र शासक समझना था। नाटक के इसी उल्लेख के आधार पर डा० रायचौधुरी ने इस कान्ति की घटनाओं को ऐतिहासिक कलेवर प्रदान किया है।<sup>२</sup> उपर्युक्त समस्त घटना अनुमानत एक ही क्रम में घटी होगी। संभवतः इसके कुछ पञ्चात् ही विदर्भ-संघर्ष हुआ।

अग्निमित्र यज्ञसेन को प्रकृत्यमित्र तथा “प्रतिकूलकारी” आदि शब्दों का प्रयोग करता है।<sup>३</sup> इनसे यह जात होता है कि यज्ञसेन ने प्रारम्भ से ही वृहद्रय के शासनकाल में अपने सत्ते मौर्य सचिव के सहयोग से सेनापति पुष्पमित्र विजेपतः पड़ीसी प्रान्त विदिशा के शासक अग्निमित्र के विरुद्ध कार्य किये होगे। यहीं राजा रोपपूर्वक कहता है “कथ कार्यविनिमयेन मयि व्यवहरत्यनात्मजः”।<sup>४</sup> इससे भी ध्वनित होता है कि यज्ञसेन की स्थिति अग्निमित्र से किसी भी प्रकार भुट्ठङ न थी। यहीं अमात्य भी उसके प्रति कहता है “जिमकी जड़े भूमि मे दूर तक नहीं फैली है ऐसे नवरोपित वृक्ष के समान प्रजा में लोकप्रियता प्राप्त न कर पाने के कारण अभी-भभी अभिष्ठित शात्रु का सपूलोन्मूलन सुकर होता है।<sup>५</sup> यहीं ‘अचिराधिष्ठितराज्यः’, ‘प्रकृतिष्वरुद्धमूलः’ तथा “नवसंरोपणशिथिलतरुः” से उसका राष्य वतलाना सार्थक है। इन शब्दों से स्पष्ट है कि यज्ञसेन को स्वतंत्र हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था। और न वह लोकप्रिय ही था न उसकी स्थिति सुट्ठङ थी। दूसरी ओर, अग्निमित्र की स्थिति सुट्ठ थी। संभवतः विदिशा में वह लोकप्रिय था। पुष्पमित्र-

१. मालविका० ११७,

२. देखो-पाँतटिकल हिस्ट्री ऑफ एन्शन्ट इंडिया : रायचौधुरी पृ० ३७०,

३. वाहतक-प्रकृत्यमित्रः प्रतिकूलकारी च मे वैदर्भः, मालविकामिन० ११३-५,

४. वही,

५. अचिराधिष्ठितराज्यः शत्रुः प्रकृतिष्वरुद्धमूलत्वात् ।

नवसंरोपणशिथिलस्त्रहित सुकरः समुद्धरुं स् ॥ ११८,

वे सम्भ्राद् बनन के कारण राज्य शक्ति भी उसी के हाथ म थी। यही बारण है कि कालिदास ने यज्ञमन क प्रति-सम्बेद मे अग्निमित्र के लिये "पूज्य" शब्द प्रयुक्त बराया है।<sup>१</sup> इसम यह भी ध्वनित होता है कि विदम सघन की घटना निश्चित रूप से राज्य-प्रान्ति क बुद्ध वाद की ही थी। उस समय दोनों म शक्ति सम्मुलन नहीं रहा था। डा० त्रिपाठी ने टीक ही लिखा है कि पुष्यमित्र न (मूहस्थिति से) ज्यो ही कुट्टी पायी कि यज्ञमेन को आत्ममर्मण को कहा था।<sup>२</sup> यह अम विलुप्त टीक है।

नाटक से इसके ग्रागे का अधी भी स्पष्ट हो जाता है। कालिदास न इसी सन्दर्भ मे कुछ कूटनीतिक चालों का निर्देश लिया है। विश्वास होता है कि सभवत आत्मसमर्पण न करने पर दोनों ओर से कूटनीतिक चालें चर्ची गयी थीं। अग्निमित्र ने यज्ञमेन के चर्चेरे भाई युवक माधवमेन को अपनी ओर मिला लिया, और नाटक के अनुसार उनमे वैवाहिक मवि भी हुई। यज्ञमेन ने जब आपसी फृट का लाभ उठात हुए अग्निमित्र को देखा तो विदिशा जाते हुए माधवमेन को बढ़ी बना लिया। इसके पश्चात् जब अग्निमित्र ने यज्ञमेन के पास माधवमेन की मुक्ति का सम्बेद भेजा तो उसके प्रग्युक्तर मे उसी एक अभिसर्वि का प्रस्ताव लिया कि मौयं सचिव को छोड़ देने पर माधवमेन मुक्ति लिया जा सकता है। इस अभिसर्वि से रूप होकर अग्निमित्र ने सेनापति को आक्रमण का आदेश दिया तथा विदर्भ पर आधिपत्य करके उसे बद्धी बना लिया। इन घटनाओं के अम से तथा कालिदास के वर्णन प्रकार से प्रकट होता है कि यह राव तब हुआ जबकि शुग ऋषि दिनों दिन शक्ति सम्पन्न हो रह थे। डा० सत्यकेतु के अनुसार पुष्यमित्र के आधिपत्य मे जब मगध बनवान हुआ तभी उसन स्वर्वन्त्र प्रदेशों को अधीन बरना प्राप्त किया। इसी समय अग्निमित्र न विदर्भ पर आक्रमण किया। अनुमानत अग्निमित्र की यह महत्वपूर्ण विजय थी। इसके साथ-साथ ही सभवत मौयं पक्षपानियों को मदा के लिए दवा दिया गया।

नाटक से इम घटना के उपस्थार का भी पता चलता है। शुग सम्भ्राद् ने विदर्भ विजय के पश्चात् जब पूर्ण रूप से घरेलू तथा पढ़ीस क विद्राहा को शान्त कर दिया और समस्त मगध को एक सुव्वड़ सूत्र म बाँध दिया, तब शुग राज्य की स्थापना का उद्देश्य पूर्ण हो गया था।

१. मालविका० ११६-७ तथा यही २-३ बार और,

२. प्रा० भा० इति० त्रिपाठी, पृ० १४१,

नाटक से ज्ञात होता है कि मालविका से विवाह सम्बन्ध के उपरान्त तथा विदर्भ विजय कर लेने पर माधवसेन तथा यज्ञसेन को (आधिपत्य स्वीकार करने पर) मुक्त कर दिया और विदर्भ प्रान्त को उन दोनों में दरदा नदी को मध्य सीमा निश्चित करके द्वैराज्य के प्रशासन-विधान के अनुसार विभक्त कर<sup>१</sup> दिया गया। इस प्रकार अग्निमित्र ने यज्ञसेन को मुक्त करके तथा विदर्भ को द्वैराज्य प्रशासन का रूप देकर ए<sup>२</sup> और यज्ञसेन को उपकृत किया तो दूसरी ओर माधवसेन को भी उसका न्याय अधिकार दिलाया। इस प्रकार उसने अपनी प्रशासन-पटुता, उदारता तथा नीति-कुशलता का परिचय दिया। संघर्ष का यह अन्त वस्तुतः प्रशसनीय है। विदर्भ-विजय से मगध राज्य की आन्तरिक विघटनकारी प्रवृत्तियों का दमन हुआ। आन्तरिक एकता के स्थापन में उसे सहायता हुई। भारत सुइड हुआ तथा बाह्य आफमणों को निरस्त करने की सामर्थ्य का आविर्भाव हुआ और इस प्रकार शुंगों का “एकतापूर्ण भारत” का लक्ष्य भी पूर्ण हुआ।<sup>३</sup> इस दृष्टि से मालविकाग्निमित्र में वर्णित इस विदर्भ-संघर्ष की घटना का भारतीय इतिहास में अधिक महत्व है।

किन्तु इस ऐतिहासिक घटना का नाटक के अतिरिक्त ग्रन्थव कहीं भी उल्लेख प्राप्त नहीं है। मालविकाग्निमित्र ही एक मात्र ऐसा स्रोत है जिसके आधार पर इतिहासकारों ने इतिहास ग्रन्थों में इस घटना का विवरण दिया है। यही कारण है कि भारतीय इतिहास के चोत-ग्रन्थ के रूप में मालविकाग्निमित्र का महत्व स्वीकृत है। इसके साथ ही नाटक में इस घटना की प्रामाणिकता स्वीकृत होने के कारण कालिदास का ऐतिहासिक ज्ञान भी प्रमाणित हो जाता है तथा सस्कृत के ऐतिहासिक नाटकों में मालविकाग्निमित्र का महत्व बढ़ जाता है।

### पुष्यमित्र द्वारा यवन पराजय तथा अश्वमेध का समायोजन

नाटक में द्वितीय घटनाचक्र की अन्य प्रमुख ऐतिहासिक घटना के रूप में “पुष्यमित्र द्वारा सिन्धु पर यवनों की पराजय तथा अश्वमेध के समायोजन” का वर्णन है। यद्यपि ये भी पृथक्-पृथक् दो घटनाएँ हैं तथापि दोनों को परस्पर संबंधित तथा समानान्तर घटित होने के कारण एक ही घटना के रूप में ही मानना उचित है। नाटक के अन्त में अश्वमेध के आयोजनकर्ता राजयज्ञदीक्षित पुष्यमित्र के द्वारा यज्ञ में सम्मिलित होने के लिये अग्निमित्र को भेजे गये एक लेख का उल्लेख है। वह लेख इस प्रकार है—

१. मालविका० ११३-१४,

२. विशाल भारत, जून, १९६३, पृ० ३८७,

“इवमिति, यज्ञागर से मैं मेनापति पुष्पमित्र विदिशा में स्थित (या विदिशा में रहने वाले) अग्निमित्र वो आलिङ्गन पूत्रवं भूचिन करता हूँ। विदिन ही कि राजपूत यज्ञ में दीक्षित मैने मौ राजपुत्रो मैं युक्त वसुमित्र की मरणसना म ॥३८ वर्षे वे लिए अश्व छोड़ा था। उस यज्ञाइव वो विनारे द्विसी यशस्वेना से युक्त यज्ञ ने पकड़ लिया। कलत दोनों दी मताएँ भिड़ गई। इसके पश्चात् शत्रुघ्नी को परामर्श करके अनुदंड वसुमित्र न हमारे अपहृत अश्वराज वो लोड़ा लिया। अब संगपूत्र यशुमाद के द्वारा अश्व लौटाने पर यज्ञ यज्ञ की तरह मैं भी यज्ञ कहूँगा। अत (तुम्हें) यथा समय ग्रान्तमन (रोप रहित होवर) परिवार सहित यज्ञ में सम्मिलित होता चाहिए।”<sup>१</sup>

उपर्युक्त लेख में स्पष्ट है कि पुष्पमित्र द्वारा यज्ञों की पराजय के पश्चात् ही अश्वमेध मम्पन्न हुआ। अब ये दोनों घटनाएँ ममानातर हैं। पुष्पमित्र ने पहले यज्ञ आरम्भ कर दिया था। वसुमित्र का सधर्ष बाद में दिविजय के ममय सिन्धु तट पर हुआ। मालविकाग्निमित्र के अतिरिक्त महामात्र तथा गारी महिता के पुण्यपुराण में भी इस घटना का उल्लेख है। उन दानों प्रत्या म तथा अन्यान्य साक्षों के आधार पर नाटक में वर्णित घटना की ऐतिहामितता का अनुसन्धान किया जा सकता है।

### द्विरश्वमेधयाजी पुष्पमित्र

भारतीय इतिहास में पुष्पमित्र का अश्वमेध यज्ञ के पूर्ण मस्त्यापनवर्ती के रूप में उल्लेख है। हरिवंश पुराण के अनुसार जनमज्य के बाद पुष्पमित्र ने ही अश्वमेध का पुनरुद्धार किया।<sup>२</sup> महामात्र से इस तथ्य की पुष्टि हीनी है। परंतु न महामात्र में स्वयं को पुष्पमित्र के पुरीहित के रूप में उल्लेख किया है।<sup>३</sup> अब पुष्पमित्र के द्वारा यज्ञ करने वी घटना ऐतिहामित है। किन्तु, अयोध्या के मंदिर में प्राप्त धर्मिकेत में दिखा है—“कोशलाधिपति द्विरश्वमेधयाजित मनापत पुष्प मित्रस्य।”<sup>४</sup> इसमें जात हाना है कि पुष्पमित्र न अस्त जीवन-काल में एक नहीं, दो अश्वमेध किये थे। नाटक में कालिदास ने एक ही अश्वमेध का उल्लेख किया है। अतः नाटक में निर्दिष्ट यज्ञ कीनसा यज्ञ है तथा तब किस यज्ञ से सधर्ष हुआ? इसका पता लगाना आवश्यक है।

१. मालविका० ५। १४-१६,

२. हरिवंश० ३, १६२, ७०-११ तथा भा० प्रा० इति०, सत्यकेतु पृ० ४२०,

३. इह पुष्पमित्र याज्ञाम ० भाष्य० ३। २। १२३,

४. देवि० इदिया भा० २०, अर्थ० १६२०, पृ० ५४-५८, नामरो प्रचारणी परिका, ५ विशाल, १६८१,

## प्रथम यवन-आक्रमण

अंतिम मीर्य सम्राट् वृहद्रथ के समय से ही यवन भारत भूमि पर आगे बढ़ रहे थे तथा भारतीय जन-जीवन को आक्रमित कर रहे थे। वृहद्रथ की हत्या तथा शुंग-राज्य संस्थापन में यही एक महत्वपूर्ण कारण था। इतिहास के अनुसार भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर यवनों का उस समय एकाधिपत्य था। पुष्यमित्र के सम-कालीन पंतजलि ने महाभाष्य में एक स्थान पर लिखा है “अरुणः यवनः साकेतम्, अरुणः यवनो माध्यमिकाम् ।”<sup>१</sup> इस उल्लेख से प्रकट है कि यवन साकेत तथा माध्यमिका तक भारत भूमि को रीढ़ चुके थे। डा० भंडारकर तथा रायचौधरी यह मानते हैं कि उपर्युक्त घटना महाभाष्य की रचना से पूर्व ही घटित हुई थी। अतएव महाभाष्य में अनद्यतन भूत का प्रयोग किया गया है। किन्तु इससे यह निश्चित है कि इस घटना की स्मृति लोक में बनी हुई थी।<sup>२</sup> गार्गी संहिता में भविष्यवाणी के रूप में लिखा है कि “दुष्ट विकान्त यवन साकेत, मथुरा तथा पांचाल पर आक्रमण कर के (अधिकृत करके) पाटलिपुत्र को भी प्राप्त कर लेंगे,”<sup>३</sup> इस उल्लेख से भी स्पष्ट है कि यवन बहुत आगे मध्य देश में बढ़ चुके थे, किन्तु पाटलिपुत्र पर आधिपत्य नहीं कर पाये थे।

उपर्युक्त दोनों उल्लेखों में निर्दिष्ट यवन आक्रमण नाटक में उल्लिखित घटना से भिन्न है। इन उल्लेखों में साकेत, माध्यमिका, मथुरा, पांचाल तथा पाटलिपुत्र के निकट तक जा पहुँचने का निर्देश है, जबकि नाटक में उल्लिखित यवन-संघर्ष सिन्धु के दक्षिण तट पर हुआ। इन दोनों घटनाओं में लेशमात्र भी साम्य नहीं है। निश्चित रूप से ये दो भिन्न-भिन्न यवन आक्रमणों के उल्लेख हैं।

## द्वितीय यवन आक्रमण

महाभाष्य में एक अन्य उल्लेख और प्राप्त है। इस उल्लेख से इन दोनों घटनाओं की भिन्नता प्रकट हो जाती है। महाभाष्य में लिखा है—“अभ्यवहरति सैन्यवान्”<sup>४</sup> अर्थात् सैन्यवानों को नष्ट करता है। इस प्रयोग में वर्तमान कालिक किया प्रयुक्त है, जबकि पूर्वोक्त प्रयोग में अनद्यतन भूत है। इससे स्पष्ट है कि दोनों घटनाएँ कुछ अन्तराय से घटित हुई थीं। इसके अतिरिक्त इससे यह भी स्पष्ट होता

१. भाष्य ३१२।१११,

२. पालिटिकल हिस्ट्री ऑफ एशियन इंडिया : रायचौधरी, पृ० ३७६,

३. ततः साकेतमाक्ष्य पांचालान् मथुरांस्तथा, यवनो हृष्टविकान्ताः प्राप्यन्ति कुसुमध्वजम् ॥

४. भाष्य १।१४४, देखो भा० वृ० इति० भगवदत्तः पृ० २७८,

है कि भाष्य के रचने समय, पहिले प्रयोग में निर्दिष्ट आक्रमण के बाद, पुनः पुष्पमित्र की सुंघर्ष का सामना करना पड़ा था। इसमें उल्लिखित “संन्धवाद्” शब्द से सिन्धु पर दिव्यत यदनों से ही अभिराष प्रतीत होता है। अतः इसी घटना से हमारे नाटक में उल्लिखित यदन सुंघर्ष की घटना का साम्य बैठता है। दोनों ही घटना सिन्धु से मन्त्रनिधि हैं। दोनों में ही यदन पराजय का सकेत है। अतः यह निश्चित रूप से माना जा सकता है कि नाटक में उल्लिखित यह “यदन संघर्ष” की घटना पहली से बाद की है। स्मित महोदय की यह मान्यता थी कि पुष्पमित्र के समय प्रथम संघर्ष बलिगराज खारवेल से हुआ, बाद में दूसरा आक्रमण मेनेन्द्र ने किया।<sup>१</sup> इतिहास की ओर ने पुष्पमित्र तथा खारवेल की समकालीनता को अस्वीकार कर दिया है।<sup>२</sup> वास्तविकता यही है कि पुष्पमित्र को दो यदनों का सामना करना पड़ा था। प्रथम आक्रमण शुग बाल के प्रारम्भ में हुआ। इसी आक्रमण की परिस्थितियों में शुग प्राज्य की स्थापना हुई। दूसरा आक्रमण बाद में हुआ, नाटक में इसी का विस्तार में उल्लेख है।

अब यह भी निर्णय चरना आवश्यक एवं प्रासादिक है कि नाटक में उल्लिखित घटना से किस यदन के आक्रमण का मन्त्रन्धर है। नाटक में वैवल “यदन” शब्द का प्रयोग है।<sup>३</sup> नाटक संवेद नहीं है। तथापि, अन्य साक्षों के आधार पर उस यदन का यदा लगाया जा सकता है। इसके लिए यह आवश्यक होगा कि प्रथम यदन आक्रान्ता का भी निश्चय किया जाय। इतिहासकारों ने पुष्पमित्र के समय में मुख्यत दो यदन आक्रान्ताओं की चर्चा भी है—हेमेट्रियस तथा मेनेन्द्र। देखना यह है कि प्रथम आक्रमण किस यदन ने किया। इसमें सभी सहमत हैं कि यह आक्रान्ता कोई वंशिकृत थीक था।<sup>४</sup> किन्तु कुछ विद्वान् वेमेट्रियस को मानते हैं तो कुछ मेनेन्द्र को। डाः मन्त्रन्धर में यहाँ कुछ भन दिये जा रहे हैं—

(१) रेप्सन मेनेन्द्र को ही आक्रमक मानते हैं। उनकी मान्यता है कि मेनेन्द्र की मुद्दा भारन में बहुत अन्दर तक प्राप्त होती है। अन इसके नेतृत्व में ही मध्य प्रदेश पर आक्रमण हुआ था।<sup>५</sup>

१. अर्द्ध हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पृ० २०६,

२. भा० प्रा० इति० सूत्यकेतु, पृ० ४३४; प्रा० भा० इति० दा० त्रिपाठी, पृ० १४२;

३. मातविका० ५११४-१५,

४. पॉलटिकल हिस्ट्री ऑफ एन्डरेट इंडिया, पृ० ३७६,

५. केम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पृ० ४६७,

(२) स्मिय भी मेनेन्द्र को आक्रमणकर्ता मानते हैं। इनके अनुसार मेनेन्द्र फावुल तथा पंजाव आदि का राजा था। इसी ने साकेत, अवध तथा पाटलिपुत्र तक हमला किया था।<sup>१</sup>

(३) अन्य भी कुछ पाश्चात्य विद्वान् मेनेन्द्र को ही आक्रमक मानते हैं।<sup>२</sup>

(४) डा० भंडारकर डेमेट्रियस को आक्रमक मानते हैं।<sup>३</sup>

(५) डा० रायचौधरी ने भी अनेक प्रवल साक्षों के आधार पर डेमेट्रियस को ही आक्रमक माना है। डाक्टर चौधरी का कथन है कि लगभग २०६ ई० पू० में डेमेट्रियस जवान तथा राजा था। उसने द्वितीय सदी ईस्त्री पूर्व में भारत पर भी शासन किया था। वही पुष्यमित्र का समकालीन था, जबकि मेनेन्द्र ने इन्डोग्रीक राज्य पर बहुत बाद में शासन किया था।<sup>४</sup>

(६) जयचन्द्र विद्यालंकार की भी यही मान्यता है कि डेमेट्रियस (दिमेत्र) ने ही मध्य देश पर आक्रमण किया।<sup>५</sup>

(७) डा० पुरी<sup>६</sup> भी मध्य देश तक घुस आने वाले यवन आक्रमकों का नेता डेमेट्रियस को मानते हैं।

(८) डा० सत्यकेतु विद्यालंकार भी डेमेट्रियस के नेतृत्व को मानते हैं।<sup>७</sup>

(९) डा० त्रिपाठी भी प्रथम यवन आकान्ता डेमेट्रियस को मानते हैं। उनकी मान्यता है कि पुष्यमित्र के राज्यकाल के समय वह प्रीढ़, शायद ४० साल का रहा होगा।<sup>८</sup>

उपर्युक्त मतों को देखने से ज्ञात होता है कि पाश्चात्य विद्वान् मेनेन्द्र के समर्थक हैं तो भारतीय डेमेट्रियस के। पाश्चात्य विद्वान् मेनेन्द्र तथा डेमेट्रियस को समकालीन तथा उनमें कीटिम्बिक सम्बन्ध मानते हैं।<sup>९</sup> टार्न यह भी मानते हैं कि मेनेन्द्र संभवतः डेमेट्रियस का एक सेनापति और संभवतः उसका दामाद था।<sup>१०</sup>

१. श्रीली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, : पृ० २१०,
२. पॉलिटिकिल हिस्ट्री ऑफ एन्शन्ट इण्डिया, पृ० ३८३,
३. वही,
४. वही, पृ० ३८४,
५. भा० इति० रूपरेखा : जयचन्द्र विद्यालंकार, पृ० ७१६-७१,
६. इंडिया इन दि टाइम आँफ पंतजलि, पृ० २८,
७. भा० प्रा० इति० सत्यकेतु पृ० ४२६,
८. प्रा० भा० इति० त्रिपाठी, पृ० १४१,
९. कॉन्फ्रिज हिस्ट्री ऑफ एन्शन्ट इ०, पृ० ४६०,
१०. ग्रीक्स इन वंकिट्र्या एण्ड इण्डिया पृ० १४०, २२५, २२६,

यह भी सच है कि मेनेन्द्र ने सिकन्दर से भी ज्यादा राज्य जीते थे।<sup>१</sup> स्ट्रावों के अनुसार ग्रीक साम्राज्य सुदूर पूर्व तक भारत में फैल गया था। इनमें से कुछ मेनेन्द्र ने जीते तो कुछ डेमेट्रियस ने।<sup>२</sup> अतः स्पष्ट है कि उस समय किसी एक ने ही आक्रमण नहीं किया था। इस सम्बन्ध में हा० भगवत् शरण उपाध्याय ने सुनका हुआ समन्वयात्मक मत देने की चेष्टा की है।

हा० भगवत् शरण उपाध्याय ने डेमेट्रियस को ही आक्रमण स्वीकार किया है।<sup>३</sup> उन्होंने टानं के मत के आधार पर लिखा है कि मगथ साम्राज्य पर आक्रमण करते समय मेनेन्द्र भी डेमेट्रियस के साथ होगा। यह पहला आक्रमण डेमेट्रियस के नेतृत्व में हुआ तथा ऐपोलोडोटस्, डेमेट्रियस तथा मेनेन्द्र तीनों ने मिलकर किया था। पूर्व में मेनेन्द्र नेतृत्व कर रहा था, जबकि परिचय में डेमेट्रियस तथा ऐपोलोडोटस् कर रहे थे। यही वह आक्रमण था जिसका गार्भी सहिता तथा भाष्य में भूतकालिक क्रिया से उल्लेख किया गया है। यह आक्रमण एक तुफान जैसा था जो कि उप्रादा टिक न सका। उनके देश में तभी परस्पर गृह गुद्ध की आग भड़क उठने के कारण वह उन्हीं पांचों लौट गया (जिस समय वह गृह गुद्ध की आग को शान्त करने को लौटने को विवश हुआ), उस समय उसने पूर्वी अधिकृत राज्यों को मेनेन्द्र के अधीन छोड़ दिया। अतएव मेनेन्द्र शाक्ति का राजा बन<sup>४</sup> बैठा। तिन्तु पुष्पमित्र ने उसकी समस्त दुरभिसंघियों को निराहूत करके पीछे धर्मेन दिया तथा भयुरा पावाल, साकेत तथा शाक्ति तत्व के समस्त प्रदेश को अधिकृत कर लिया।<sup>५</sup>

भालविकागिनमित्र नाटक में उपर्युक्त सघर्ण का उल्लेख नहीं है। नाटक में किसी दूसरे ही सघर्ण का उल्लेख है। नाटक के अनुसार यह सघर्ण भी किसी यवन से ही हुआ था। नाटक में यह भी स्पष्ट है कि यह सघर्ण द्वितीय अश्वमेघ के आयो जन काल में हुआ था। विद्वानों में अश्वमेघो के सम्बन्ध में मतभेद है। निरिचित रूप से नहीं वहा जा सकता कि उसने किन विन विजयों के उपलक्ष्य में दो अश्वमेघ किए। दा० निपाठी ने लिखा है कि प्रथम अश्वमेघ राज्यत्रान्ति के ठीक बाद, सभवत् यवन आक्रमण की घटना के बाद ही बोद्धन्त्र के अन्त के रूप में तथा

१. पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इश्वर्ट इण्डिया, पृ० ३८०-८१,

२. यही, तथा प्रा० भा० इति० : निपाठी पृ० १४२,

३. कालिदास का भारत : दा० भगवत् शरण उपाध्याय, पृ० ३१८,

४. कालिदास का भारत दा० भगवत् शरण उपाध्याय, पृ० २२०-२२३,

५. यही, पृ० २२३,

६. भा० प्रा० इति० सत्यवेतु, पृ० ४३०,

ग्राहण धर्म की संस्थापना के रूप में हुआ<sup>१</sup>। आर० के० मुकर्जी के अनुसार विदर्भ विजय के उपरान्त अपनी शक्ति को दृढ़ करने के उद्देश्य से अश्वमेघ यज्ञ किया<sup>२</sup>। हमारा विश्वास है कि शुंग वंश की स्थापना प्रथम यवन आक्रमण के परिणाम स्वरूप या आक्रमण की ग्राशंका से हुई थी। अतः प्रथम अश्वमेघ उग्रकर्मा पुष्पमित्र के मौर्य साम्राज्य की उपलब्धि, सैनिक क्रान्ति की सफलता तथा मध्य देश से यवनों को निरस्त करने के उपलक्ष्य में और ग्राहण-धर्म की संस्थापना के रूप में अपनी युवावस्था में किया था। स्वाभाविक है कि द्वितीय अश्वमेघ प्रथम अश्वमेघ से कुछ समय पश्चात् किया होगा।

### द्वितीय अश्वमेघ

पुष्पमित्र ने द्वितीय अश्वमेघ किस उपलक्ष्य में किया था, विद्वानों में इस सम्बन्ध में भी मतभेद हैं। कुछ विद्वान् इसका सम्बन्ध विदर्भ विजय से जोड़ते हैं तो कुछ यवनों से मध्य देश की मुक्ति के उपलक्ष्य में बतलाते हैं :

(१) स्मिथ के अनुसार यह अश्वमेघ-यज्ञ यवनों तथा अन्य सभी प्रतिद्वन्द्यों की पराज्य के उपलक्ष्य में किया गया।<sup>३</sup>

(२) जायसवाल का अनुमान है कि पुष्पमित्र ने दूसरा अश्वमेघ कर्लिंग के राजा खारवेल से पराजित होने के बाद किया। किन्तु दोनों की समकालीनता का विचार निरस्त हो चुका है।<sup>४</sup>

(३) डाक्टर पुरी के अनुसार यह अश्वमेघ यवनों के लौट जाने पर एवं भारत के गीरव की प्राप्ति के उपलक्ष्य में किया।<sup>५</sup>

(४) आर० के० मुकर्जी के मत में पुष्पमित्र ने द्वितीय अश्वमेघ यूनानी आक्रमण को पीछे धकेलने तथा अपनी विजय के उपलक्ष में किया।<sup>६</sup>

(५) रैप्सन के अनुसार मगध में जब शुंग शक्तिशाली हुए तभी यह यवन संघर्ष हुआ।<sup>७</sup>

(६) कुछ विद्वान् विदर्भ विजय को ही द्वितीय अश्वमेघ का कारण बतलाते हैं। उनकी मान्यता है कि विदर्भ विजय से समूची आन्तरिक विघटनकारी प्रवृत्तियों

१. प्रा० भा० इति० त्रिपाठी, पृ० १४३,

२. एन्शन्ट इन्डिया : मुकर्जी, पृ० ७०,

३. अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, स्मिथ, पृ० २१२,

४. प्रा० भा० इति०, त्रिपाठी, पृ० १४२,

५. इंडिया इन दि टाइम ऑफ पंतजलि, डा० पुरी, पृ० २८,

६. एन्शन्ट इन्डिया, पृ० ७१,

७. कॉम्प्लिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पृ० ४६१,

फा दमन हुआ तथा देश में चिरवाचित एकता की स्थापना हुई—इसके प्रभिनन्दन में पुष्पमित्र ने अश्वमेव यज्ञ किया।<sup>१</sup>

(७) डाक्टर सत्यकेतु मौर्य वंश के अन्त करके सम्राट् पद प्राप्त करने, यवनों को पराजित करने तथा विदर्भ विजय के उत्तराध्य में करने की समावना करते हैं।<sup>२</sup>

(८) डाक्टर भगवत् शरण उपाध्याय के मत में यवन याकान्ताओं की समस्त दुरभिसंविधों को निराकृत कर देने पर शाकल, तक्षशिला तथा सिंधु प्रदेश को अधिकृत करने की अभिलाप्ता के परिणाम स्वरूप द्विनीय अश्वमेव यज्ञ किया।<sup>३</sup>

उपर्युक्त सभी घटों में कुछ न कुछ स्वारस्य है, किन्तु सभी एकाग्री हैं। हमारी मान्यता है कि प्रथम यवन याकान्ताओं को खदेह देने के पश्चात् विदर्भ विजय के हारा भारत की मुद्दता, शान्ति तथा एकता के उद्देश्य की पूर्ति होने पर अपनी बृद्धावधा में शुग साम्राज्य की जड़ों को अतिम रूप से और भी गहरी करने की हृष्टि से पुष्पमित्र ने पुनः एक बार अश्वमेव यज्ञ किया। हमारा अनुमान है कि इस समय तक देश के आन्तरिक भाग में व्याप्त अराजकता को पूर्णतः शान्त कर दिया गया था। भारत से यवनों का नाम-निशान मिटा दिया था। प्रमुख मौर्य पंक्षाती विदर्भ को उसके मुत्र अग्निवित्त ने अधिवृत्त कर निया था। मयुरा, पाचाल, एवं अश्वध में लेकर समस्त आर्यवर्ती को अपने प्रभुत्व में सुड्ड कर लिया गया था तथा बौद्धों के अनाचार के प्रतिरोध में ब्राह्मण घर्म की स्थापना के उद्देश्य को पूर्ण कर लिया था। अब अपनी बृद्धान्वया में शुग राज्य की नीवों को गहरी करने की हृष्टि से अन्त में शक्ति को मुड्ड करने के लिए ही पुष्पमित्र ने यह यज्ञ किया था। इसका कोई उद्देश्य विशेष नहीं था। यह यज्ञ सावेभीम रूप से अपने समस्त उद्देश्यों की उत्तराध्य तथा उत्तराहार के रूप में ही किया गया था। इस समय पुष्पमित्र अपनी शक्ति की पराकार्षा पर था। उसका पौत्र उस समय शुगों के पीरप की यशोद्वजा उड़ाता हुआ भमस्त आर्यवर्त में विचरण कर रहा था। नाटक में इसी घटना का प्रात्रल वर्णन है।

नाटक से ज्ञात होता है कि एक वर्ष पर्यन्त निरंगल घूमते हुए अश्व के रसक के रूप में एक शत राजकुमारों के साथ वसुमित्र घूमता रहा। संभवतः वर्ष के अन्त में जबकि अश्व दिग्मिजय कर लीट रहा था, मगथ से सुदूर प्रदेश सिंधु द्वी तर्याई में अश्वसेना के साथ सत्रद यवन ने उसे चुनीती दी। फलतः दोनों सेनाओं में महान्

१. विशाल भारत : छून, १६६३, पृ० ३८७,

२. भा० प्रा० इति०, सत्पवेतु, पृ० ४३०,

३. कालिदास का भारत : डा० उपाध्याय, पृ० २२५,

संघर्ष हुआ । अन्त में कुशल धन्वी वसुमित्र ने शत्रुओं को परास्त करके अपहृत अश्व को लीटा लिया ।<sup>१</sup> हम समझते हैं कि पतंजलि ने महाभाष्य में “इह पुष्पमित्र याजयाम” वाक्य से इसी अश्वमेव यज्ञ की ओर संकेत किया है । “याजयामः” इस वर्तमानकालिक किंवद्दि के प्रयोग से डाक्टर भंडारकर ने यही अभिप्राय निकाला है कि वह यज्ञ प्रारंभ तो हो गया था किन्तु उसका समाप्त नहीं हुआ था ।<sup>२</sup> इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि प्रथम यज्ञ निश्चित रूप से भाष्य रचना से पूर्व तथा सैनिक क्रान्ति की सफलता के ठीक बाद ही हुआ । द्वितीय अश्वमेव अब चल रहा था । इस घटना से कुछ निष्कर्ष भी निकलते हैं:—

(१) नाटक में निदिष्ट यज्ञ द्वितीय यज्ञ था । इसी यज्ञ के समय द्वितीय यवन संघर्ष हुआ । उसी का नाटक में उल्लेख है ।

(२) यह संघर्ष मेनेन्द्र के नेतृत्व में यवन सेना से हुआ था । मध्यदेश से यवनों को खदेढ़ा जा चुका था, किन्तु सिन्धु के बाहर मेनेन्द्र के नेतृत्व में यवनों ने पैर जमा लिए थे । अतएव वसुमित्र को यहाँ मेनेन्द्र के नेतृत्व में विशाल यवन सेना से सामना करना पड़ा ।<sup>३</sup>

(३) इस समय पुष्पमित्र ने युवक पौत्र वसुमित्र को अश्वरक्षक नियुक्त किया । उसने ही दिवियज्यं की । स्पष्ट है कि पुष्पमित्र वृद्ध हो गया था । अतः द्वितीय अश्वमेव पुष्पमित्र ने अपने शासन काल के अन्त में किया । इस समय संभवतः अग्निमित्र ही शासन का आधार था ।

(४) नाटक में जब राजा लेख को पढ़ते हुए भयंकर युद्ध के समाचार को पढ़ता है तो सहसा उसके मुँह से आश्वर्यजनक शब्द निकल पड़ते हैं—“कथमीदृशं-संवृत्तम् ।” ये शब्द भी सार्थक हैं । इससे स्पष्ट होता है कि उस समय शुंग-शक्ति चरम सीमा पर थी । अतएव अग्निमित्र को विश्वास ही नहीं हुआ कि किसी से

१. योऽसौ राजथज्जदीक्षितेन मया राजपुत्रशतपरिवृतं वसुमित्रं गोप्तारमादिश्य वत्तरोपात्तनियमो निर्गंलस्तुरंगो विसृष्टः स सिन्धोदंकिणरोधसि चरन्न-श्वानीकेन यवनेन प्रार्थितः । तत उभयोर्महानासीत्संमर्दः ॥

मालविकानि० ५।१४-१५,

२. इण्डियन एंटिक्वरी, १७८२, पृ. ३८०,

३. इस निष्कर्ष से विसेन्ट स्मित का यह मत निराधार सिद्ध हो जाता है कि पुष्पमित्र के जीवन काल में एक ही यवन नेता मेनेन्द्र के साथ संघर्ष हुआ था । नाटक के “महानासीत्संमर्दः” शब्द से स्मित की यह मान्यता कि यवनों की टुकड़ी से यह संघर्ष हुआ था, निराधार सिद्ध हो जाती है ।

## २२४ संस्कृत के ऐतिहासिक नाटक

"संमर्दं" भी होना समव होगा। इसके अतिरिक्त यह घटनित होता है कि उस समय उनका इत्तर्स्ततः बोई भी प्रतिरोधी न था।

(५) पुष्पमित्र के समय ही शुग राज्य की सीमाएँ सिन्धु तक फैल गयी थीं तथा शुग राज्य पुष्पमित्र के समय ग्रत्यन्त दृढ़ हो चुका था। उसके समय ही प्रतिरोधियों को कुचल डाला गया था। निर्वर्यंतः पुष्पमित्र के समय मगध ने अपना पुराना गौरव प्राप्त कर लिया था और भारत में इस यज्ञ के द्वारा अतिम रूप से पुष्पमित्र का ऐकाधिपत्य घोषित कर दिया था।

नाटक में निर्दिष्ट यवन संघर्ष के स्थान के सम्बन्ध में कालिदास ने स्पष्टतः सिन्धु के दक्षिण तट का उल्लेख किया है। बिन्नु विद्वानों में इस सिन्धु के सम्बन्ध में भी मतभेद है। इस सम्बन्ध में दो प्रकार के प्रमुख मत हैं:-

(१) कुद्ध विद्वान् सिन्धु से तात्पर्य बुन्देलखण्ड तथा राजपूताने के बीच बहने वाली तथा मध्य सीमा निर्धारित करने वाली सिन्धु को बतलाते हैं। इस मत के प्रमुख सात्यापक विसेन्ट त्विय हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में सिन्धु की अस्तीकृति दी है।<sup>१</sup> रंसन मतभेद को स्वीकार करते हैं और अपना निश्चिन मत नहीं देते। उत्तरापि वह काली सिन्धु के पक्ष में हैं। उनका मत है कि काली मिन्धु चम्बल की एक सहायक नदी थी, यह वित्तोड़ के पास माध्यमिका से लगभग १०० मील दूर थी। वही यद्यों के माध्य संघर्ष हुआ।<sup>२</sup>

(२) अन्य कुद्ध विद्वान् नाटक में उल्लिखित सिन्धु को पंजाब में बहने वाली मिन्ध नदी बतलाते हैं।<sup>३</sup> ढा० आर० ही० मजूमदार ने सिन्धु को पंजाब की सिन्ध ही (इन्डस) माना है। इसके साथ ही नाटक में उल्लिखित 'दक्षिणरोधसि' शब्द वा भी अर्थ उन्होंने दक्षिण किया रखा है।<sup>४</sup> जयचन्द्र विद्यालकार,<sup>५</sup> ढा० सत्यकेतु<sup>६</sup> एवं ढा० उपाध्याय<sup>७</sup> भी यही मानते हैं। अपिकांश में यही मत मान्य है।

ढा० उपाध्याय ने अपनी प्रतिद्वं पुस्तक "कालिदास या भारत" में मुख्यतः नाटक को आधार मानकर इसी मत का समर्थन करते हुए लिखा है कि नाटक में

१. अर्लो हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, पृ० २११ तथा इसी बा कुट्टनोड

२. कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, पृ० ४६६,

३. इ० हि० बया०, १९२५, पृ० २१४,

४. दि एज ऑफ इम्पीरियल पुनिटो पृ० ६६-६७,

५. भा० इति० व्यप्रेक्षा जयचन्द्र विद्यालकार, भाग ३, पृ० ७१६ टिप्पणी

६. भा० प्रा० इति० : सत्यकेतु पृ० ७३०-३१,

७. कालिदास का भारत : ढा० भगवत्पारण उपाध्याय, पृ० २२६-३१,

उल्लिखित सिन्धु पंजाब में प्रवहमान सिन्धु ही है, काली सिन्ध नहीं, जैसा कि सिन्ध मानते हैं। उनका कथन है कि जब अशोकावदान के अनुसार शाकल तथा मालविकाग्निमित्र नाटक के अनुमार मालवा तथा विदर्भ पुष्यमित्र के साम्राज्य के अन्दर थे तब अग्निमित्र की राजधानी विदिशा में कुछ दूर वहने वाली काली सिन्ध को पुष्यमित्र के साम्राज्य के बाहर नहीं माना जा सकता है। नाटक में उल्लिखित सिन्धु पुष्यमित्र के राज्य के बाहर थी। अतः निश्चित रूप में काली सिन्ध से भिन्न है। इसके अतिरिक्त डा० उपाध्याय के शब्दों में अश्वमेघ यज्ञ स्पष्टतया उन प्रदेशों पर विजय का संकेत करता है जो यज्ञ कर्ता के राज्य के बाहर हैं। इसलिए भी यही मानना ठीक होगा कि वसुमित्र की सेना का ग्रीक सेना के साथ पंजाब की सिन्धु पर ही संघर्ष हुआ। नाटक में यवन विजय की सूचना पत्र द्वारा अग्निमित्र के यहाँ आती है। यदि विदिशा के समीन्स्थ काली सिन्ध पर यवन संघर्ष होता तो क्या अग्निमित्र को तत्-सम्बन्धित जानकारी न होती। स्पष्ट है कि पुष्यमित्र ने सुदूर में घटित यवन विजय की सूचना को ही पत्र द्वारा सूचित किया था। अतः काली सिन्ध से नाटक की सिन्धु का साम्य मानना असंगत होगा। वास्तव में वसुमित्र का संघर्ष पंजाब की प्रमुख नदी सिन्धु के तट पर ही हुआ था।

## विदर्भ-विजय, अश्वमेध-यज्ञ तथा यवन-पराजय का ऐतिहासिक महत्व :

मालविकाग्निमित्र नाटक की प्रथम घटना है—विदर्भ विजय तथा दूसरी है यवन पराजय। यवन पराजय की घटना अश्वमेध यज्ञ के साथ प्रासादिक रूप से घटित होती है। अतः हम इसे समग्र रूप में एक ही मान चुके हैं। इन दोनों ही घटनाओं का भारतीय इतिहास में अपना अपना महत्व है। संभवतः सैनिक क्रान्ति के बाद शुंग काल की ये ही सर्वप्रमुख घटनाएँ थीं।

## विदर्भ-विजय

विदर्भ-विजय के पश्चात् मीर्य पक्षपातियों का दमन कर देने पर मगध साम्राज्य में पुर्ण शान्ति स्थापित हुई। समस्त उत्तरी भारत एक छत्र के नीचे आकर संगठित हुआ और भारत में हमेशा के लिए यवनों के आक्रमण का भय जाता रहा। इस हृष्टि से विदर्भ-विजय की घटना का राष्ट्रीय महत्व है। विदर्भ विजय के पश्चात् समस्त आन्तरिक विघटनकारी प्रवृत्तियों का दमन हुआ। देश में चिरवांच्छित राष्ट्रीय एकता स्थापित हुई एवं सुदृढ़ राष्ट्र ने पुनः लुप्त गोरव का अनुभव किया।<sup>१</sup>

## द्वितीय अश्वमेघ

विदर्भ विजय के पश्चात् सैनिक शान्ति वा पुष्यमित्र का उद्देश्य पूर्ण हो गया था। यह सभवत प्रतिम रूप से देश में राष्ट्रीयता की भावना भरने, राष्ट्रीय एकता में वाँधने तथा अपने उद्देश्यों की सप्राप्ति के उपलक्ष्य में, शुग साम्राज्य भी जड़ों वो अतिम दूर से अविकाधिक गहरा करने के उद्देश्य से अपनी वृद्धावस्था में दूसरा अश्वमेघ किया।

## यवन पराजय

द्वितीय अश्वमेघ के समय शुग साम्राज्य अत्यधिक शक्तिशाली था। इस समय यद्यपि पुष्यमित्र के जीवन के अनिम थण्डों में यवनों ने शुगों को लोहा अवश्य लेना वहा। किन्तु ऐतिहासिक इटि से यह अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा उपर्योगी सिद्ध हुआ। (१) भारत भूमि की ओर बुरी इटि से दैवते वाले यवनों वे दु साहम को सज्जा दे तिए निस्त कर दिया गया। (२) भारत के सोमान्त प्रदेश में जिन यवनों ने पैर जमा रखे थे तथा जो बौद्ध धर्म री आड में अतेक द्रुरमिनिवियों में सज्जन थे, उन्हे कुचल डाला गया। (३) अश्वमेघ के रूप में मासकृतिक समायोजन के द्वारा आसोमान्त भारत राष्ट्र को मुहृष्ट दूर दिया गया और उसने उत्तरी भारत में अपन साम्राज्य वो सार्वाधिक सुहृद शक्तिशाली प्रमाणित किया।

उपर्युक्त दोनों ही घटनाओं से भारत के लिए दूर के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिणाम निकले। विदर्भ विजय से जहाँ उत्तरी भारत एकता के सूत्र म सुहृद हुआ, वहाँ अश्वमेघ तथा यवन पराजय के द्वारा अपनी सुहृद शक्ति को इतनी अधिकता तक पहुँचा दिया कि संक्षेपों वर्षों तक विस्ती भी यवन को भारत भूमि पर पैर रखन का साहस नहीं हुआ। इसे दूसरे तथा अतिम प्रयत्नों से यवना को मुँह की खान के बाद (भूमि के रास्त) भारत म धुसरन वे प्रयास भी नष्ट हो गए। विसेन्ट स्मिथ ने लिखा है कि इस्वी पूर्व द्वितीय सदी म भेनन्द्र की पगजय के बाद १५०२ ईस्वी तक वोई भी दिदशी को भारत म भूमि के रास्त नहीं धुम सका। समुद्र के रास्ते प्रले ही धुमा हो।<sup>१</sup> इन महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सफलताओं के कारण ही दोनों ही घटनाओं वा ऐतिहासिक महत्व है। इसके साथ ही इन दोना ऐतिहासिक घटनाओं वो संजो रखन के बारण मालविकासिनिमित्र वा भारतीय इतिहास वे स्रोत के रूप में तथा सस्कृत के ऐतिहासिक नाटक के रूप म समधिक महत्व हैं।

भालविकासिनिमित्र नाटक में प्रमुखत उपर्युक्त दो ही ऐतिहासिक घटनाओं का निर्देश है। इसके अतिरिक्त नाटक में आनुष्ठानिक रूप से कुछ शब्दों वा प्रयोग

१. विशाल भारत, जून १९६३, पृ० ३८६,

२. अली हिन्दू ऑफ इंडिया, सिय, पृ० २०६-१२,

हुआ है, उनसे भी शुंगों के परिवार तथा तत्सम्बन्धित ऐतिहासिक घटना पर अप्रत्यक्ष प्रकाश पड़ता है। अतः उनका भी यहाँ उल्लेख करना उचित होगा।

### अन्य ऐतिहासिक संकेत :

(१) वैमिक अर्निमित्र—शुंग साम्राज्य के संस्थापक पुष्यमित्र को सामान्यतः ब्राह्मण राजा माना जाता है। किन्तु मालविकार्निमित्र में कालिदास ने पुष्यमित्र के पुत्र अर्निमित्र के लिए “वैमिक” शब्द का भी उल्लेख किया है।<sup>१</sup> इस अर्निमित्र के हारा प्रयुक्त शब्द से उसके कुल, वश या प्राचीन निवास स्थान का सम्बन्ध व्यक्त होता है। विद्वानों में इस शब्द के वास्तविक अभिप्राय के सम्बन्ध में मतभेद है।

सेनापति पुष्यमित्र और उसका पुत्र अर्निमित्र शुंग था। पुराणों में पुष्यमित्र को शुंग लिखा है। पाणिनि ने शुंगों को भारद्वाज गोत्र का वत्तलाया है,<sup>२</sup> जबकि हरिवंश पुराण में काश्यप गोत्र का वत्तलाया है।<sup>३</sup> कुछ विद्वान् शुंगों को सामवेदी ब्राह्मण भी मानते हैं।<sup>४</sup> यद्यपि यह निश्चय करना कठिन है कि शुंग किस गोत्र या जात्वा आदि के ब्राह्मण थे। तथापि पाणिनि की अष्टाव्यायी महाभाष्य, वृहदारण्यक उपनिषद्, अश्वलायन श्रौत नूत्र तथा वंशब्राह्मण आदि अनेक ग्रन्थों के आधार पर इतिहासकारों ने यह स्वीकार किया शुंग निश्चित रूप में ब्राह्मण थे।<sup>५</sup> अतः दिव्यवाकदान के उल्लेख के आधार पर पुष्यमित्र को मौर्यों से सम्बन्धित मानने को धारणा<sup>६</sup> तथा मित्रान्त होने के कारण सूर्यपूजक पारस्ती होने की कल्पना<sup>७</sup> निःस्तार सिद्ध हो जाती है। किन्तु नाटक में प्रयुक्त वैमिक शब्द के अनुसन्धान से शुंगों के सम्बन्ध में नवीन प्रकाश पड़ता है। पुराणों से हमें शुंग राजाओं के अतिरिक्त शुंगः

१. दक्षिण्यनाम विस्वोऽिठ वैमिकानां कुलब्रतम्। माल० ४१४,
२. देखो, पॉलिटिकल हिस्ट्री आँफ एन्शेन्ट इण्डिया, पृष्ठ सं०, पृ० ३७०, तथा कैम्बिज हिस्ट्री आँफ इण्डिया, पृ० ४६७,
३. वही, हरिवंश भविष्य, २१४०, ४१, ४२,
४. शर्लो हिस्ट्री आँफ इण्डिया, २०८
५. देखो पॉलिटिकल हिस्ट्री आँफ एन्शन्ट इण्डिया, पृष्ठ सं० पृ० ३६८-७०, कैम्बिज हिस्ट्री आँफ इण्डिया, पृ० ४६७, प्रा० भा० इति० पृ० १४०, फुटनोट भी, भा० प्रा० इति० : सत्यकेतु, पृ० ४२८-२६,
६. प्रा० भा० इति०. त्रिपाठी, पृ० १४०, फुटनोट,
७. शर्लो हिस्ट्री आँफ इण्डिया, व्स्मय पृ० २०८, फुटनोट भी तथा पॉलिटिकल हिस्ट्री आँफ एन्शन्ट इण्डिया, पृष्ठ सं०, पृ० ३७०, फुटनोट भी।

## २२८ : सस्कृत के ऐतिहासिक नाटक

जनपद का भी ज्ञान होता है।<sup>१</sup> नाटक में प्रयुक्त वैम्बिक शब्द से उस जनपद की स्थिति का कुछ अनुमान लगाया ज सकता है। यहाँ शुग तथा वैम्बिक वे सम्बन्ध में कुछ मत देना उपयुक्त समझते हैं —

(१) नाटक में प्रयुक्त वैम्बिक शब्द का सम्बन्ध, एवं ऐ० शाह ने शब्द-माटश के आधार पर विम्बसार के परिवार से माना है।<sup>२</sup> किन्तु यह बेबल उनका अनुमान मात्र है।

(२) डा० राय चौधरी ने यह सकेत दिया है कि विम्बिकी नाम वा कोई राजा भी हुआ है।<sup>३</sup> किन्तु शुग से सम्बन्धित ऐसे किसी राजा का हम पता नहीं चलता।

(३) पदित भगवद्गत ने लिखा है कि पातजल महाभाष्य में वैम्बिक शब्द प्रयुक्त है। कात्यायन ने भी इसको स्पष्ट किया है। किन्तु उस वैम्बिकि तथा नाटक के वैम्बिक शब्द में कोई भी समानता नहीं है।<sup>४</sup>

(४) कुछ विद्वानों के अनुमार समवत् विम्बा अग्निमित्र की माता थी।<sup>५</sup> किन्तु विम्बा मा मानने पर नाटक में यह कालिदास का प्रयोग ही व्याकरण हृष्टि में त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। अत विना साक्ष्य के अनुमान लगाना निरर्थक है।

(५) डा० दिनेश चन्द्र<sup>६</sup> सरकार के अनुमार ‘वैम्बिकानाम-कुलद्रतम्’ शब्द में कुलद्रत में वश की ओर ही निर्देश है। उन्होंने घटलाया है कि शाकुन्तल में पौरव-वश के निर्देश के लिए पौरव-कुलद्रत, तथा रघुवश<sup>७</sup> में इध्वाकुम्भो व वश के लिए कुलद्रत शब्द का स्वय कालिदास ने ही प्रयोग किया है। इसी आधार पर उन्होंने अपना मत व्यक्त किया है कि नाटक में अग्निमित्र ने भी इस शब्द के द्वारा अपने वश या परिवार की ओर निर्देश किया है। और, क्योंकि पुष्पमित्र कोई राज

१. मागधाश्च माहाप्रामा मु डा शुगस्तव्येव च। भत्स्य० १६३।६६,६७ वैखो, भा० व० इति० भगवद्गत, पृ० २७३,
२. प्रोसीडिस आँफ इण्डियन श्रीरियन्टल कान्फेन्स मद्रास, प० ३७६, देशो पॉलिटिकल हिस्ट्री आँफ एन्शन्ट इण्डिया, पट्ठ स०, पृ० ३६६,
- ३ पॉलिटिकल हिस्ट्री आँफ एन्शन्ट इण्डिया, पट्ठ स० पृ० ३६६, पूल्टनोट
- ४ भा० व० इति० पृ० २७७,
- ५ प्रोसीडिस आँफ वि इण्डियन हिस्ट्री काप्रेस, सत्र बलकत्ता, १६३६, पृ० ४७५-४७६,
- ६ अस्त्येतत् पौरवाणामन्य कुलद्रतम्  
भवनेषु रेसाधिकेषु-गृहीभवति तेषाम्। अभिज्ञान० ८।२०,
- ७ गलित-वयस्तामिकवाकूलामिवहि कुलद्रतम्। रघ० ३।७०,

परिवार से सम्बन्धित न था अतः इस शब्द से सुदूर के पूर्वपुरुषों की ओर निर्देश नहीं माना जा सकता। अतः उनका अनुमान है कि विभिन्नक या तो पुर्वमित्र का पिता या पितामह।

(६) विद्वानों ने यह भी बतलाया है कि विभिन्नका नामका एक पादप होता है।<sup>१</sup> हरिवंश में ब्राह्मण सेनानी को श्रीमज तथा काश्यप कहा है।<sup>२</sup> इसका सम्बन्ध शुंगों से भी बैठता है। क्योंकि शुंग का अर्थ मुकुलित पल्लव होता है।<sup>३</sup> लताप्र के पल्लव के उपरि भाग को भी शुंग कहा गया है।<sup>४</sup> इसके अलावा शुंग का कलिका अर्थ भी प्रसिद्ध है। इन प्रयोगों के आधार पर शुंगों को श्रीमज मान सकते हैं। यही नहीं वल्कि अमरकोप में लता विशेष के लिए भी विभिन्नका शब्द प्रयुक्त है।<sup>५</sup> वौद्वायन श्रोत सूत्र में वैभवक का काश्यप के रूप में उल्लेख किया है।<sup>६</sup> इस सबसे यह तो अवश्य प्रकट होता है कि वैभिन्न कुल का तथा शुंगों का अवश्य कोई प्राचीन सम्बन्ध है तथा शुंग अग्निमित्र वैभिन्न कुल का ही सम्राट् था। इसके अतिरिक्त भरहुत जिलाखेख में विभिन्नका शब्द एक नदी के लिए प्रयुक्त है।<sup>७</sup> यद्यपि आज इस नदी का कुछ भी पता नहीं है, तथापि इसकी प्राचीन सत्ता के आधार पर इसके तट पर रहने वालों को वैभिन्नका नामा जा सकता है। हमारा अनुमान है कि मत्स्य पुराण में उल्लिखित शुंग जनपद भी विभिन्नका नदी पर रहा होगा। इसके अतिरिक्त, जब कि आधुनिक इतिहासकार विदिशा से शुंगों का प्राचीन सम्बन्ध मानते हैं तथा उन्हें मूलतः विदिशा का निवासी मानते हैं, तो यह भी अनुमान किया जा सकता है कि हो न हो, विभिन्नका विदिशा के पास ही कोई नदी रही होगी और शुंग जनपद भी उसी के कहीं आसपास रहा होगा।

उपर्युक्त उल्लेखों के आधार पर निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि—

- (१) शुंग राजा निश्चित रूप से ब्राह्मण थे।
- (२) सम्भवतः शुंग राजा पुर्वमित्र का विभिन्नका नाम का कोई पिता या पितामह भी रहा हो,

१. देविये, पॉलिटिकल हिस्ट्री आँफ एन्शन्ट इण्डिया, घण्ठ सं०, पृ० ३६६, फुटनोट
२. हरिवंश पुराण (भविष्य), २।४०,
३. शुंगा : मुकुलितपल्लवा : देखो भा० व० इतिहास, पृ० २७७,
४. वही, लताप्रपल्लवाद्वर्ष शुंगेति परिकीर्त्यते।
५. अमरकोश, २।४।३६, वनौषधिपर्व,
६. देखो, पॉलिटिकल हिस्ट्री आँफ एन्शन्ट इण्डिया, घण्ठ सं०, पृ० ३६६,
७. वही,

(३) किन्तु अधिक सम्भव यही प्रतीत होना है कि शुंग राजा विदिशा के निकट स्थित विम्बानामक नदी के किनारे पर स्थित शुग लनपद के मूल निवासी थे। इस सम्बन्ध में विशेष इसी साध्य के अभाव में हठना में कुछ नहीं कहा जा सकता, तथापि पुराण ग्राहि के परामर्श के आधार पर यह नि संबोध कहा जा सकता है कि चाहे वैम्बिक शब्द का अभिप्राय कुछ भी हो, परन्तु शुंग राजा वैम्बिक थे। अतः कालिदास का वैम्बिक प्रयोग अनेतिहासिक नहीं है।

(ii) विगतरोपचेतसा—नाटक में पुष्पमित्र ने यज्ञ में सपरिवार शान्तमन एवं प्रोधरहित होकर सम्मिलित होने के निए अग्निमित्र को सन्देश भेजते समय “विगतरोपचेतसा” शब्द का प्रयोग किया है।<sup>१</sup> इम शब्द में स्पष्ट होता है कि अग्निमित्र पुष्पमित्र से रूप या तथा दोनों में अनवन थी। नाटक में प्रयुक्त इस शब्द के अतिरिक्त रोप के सम्बन्ध में अन्यत्र कही भी कुछ भी उल्लेख प्राप्त नहीं होता और न इस शब्द में ही रोप का कारण स्पष्ट होता है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि नाटककार वो रोप के सम्बन्ध में विशेष ज्ञान नहीं था, अतएव उसने सकेत मात्र देकर छोड़ दिया है। किन्तु यह विवार समीक्षीत नहीं है। वस्तुत कालिदास शुग इतिहास का विशेषज्ञ था। अतः उसे रोप का कारण अवश्य ज्ञात रहा होगा। किन्तु सम्भवत उस समय वा समाज इस रोप के कारण से सुपरिचित था, अतएव उसने रोप के सम्बन्ध में उल्लेख करना उचित न समझा। श्री मिराशी के धार्ढों में रोप का कारण न बताने से कवि का अच्छा ऐतिहासिक ज्ञान प्रमाणित होता है।<sup>२</sup> किन्तु रोप के सम्बन्ध में अन्यत्र कुछ सकेत न देने से यह शब्द तथा इससे सम्बन्धित घटना आज हमारे लिए एक पहेली बन गयी है। विद्वानों ने इस सम्बन्ध में अनेक प्रसार के अनुमान लगाये हैं—

(१) श्री एस० पी० पटित<sup>३</sup> का कथन है कि पुष्पमित्र ने अग्निमित्र के पुत्र कुमार वसुमित्र को भ्रश्वमेध के अश्व की रक्षा के कठिन कार्य में नियुक्त कर दिया था। समवत, इसी कारण अग्निमित्र उससे रूप था। किन्तु पटित का कुमार शब्द के आधार पर यह अनुमान मात्र है, इसमें तथ्याश कुछ भी प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि जिस समय अग्निमित्र को कुमुकी लेख लाकर देता है, उस समय उसे उठकर घटणा करने के समादर भाव से तथा धारिणी को स्वगत उकित से यह स्पष्ट हो जाता है कि अग्निमित्र पुष्पमित्र से वसुमित्र की भ्रश्वरक्षा की नियुक्ति के

१. मालविका० ३। १५-१६,

२. कालिदास मिराशी, पृ० ६-१०,

३. मालविकानिमित्र, स० एस० पी० पञ्चत, पृ० २२८,

कारण स्पष्ट नहीं था। इसके अतिरिक्त भयंकर समर्दे का समाचार पढ़ने के बाद ग्रग्निमित्र को किसी युद्ध की आशका नहीं थी। अन्त में लेख पढ़ लेने के बाद राजा ग्रग्निमित्र के 'अनुगृहीतोऽस्मि' कहने से स्पष्ट है कि वसुमित्र की नियुक्ति के कारण वह स्पष्ट नहीं था। सभवतः पण्डित महोदय ने धारिणी की स्वगतोक्ति के शब्दों तथा कुमार शब्द के आधार पर यह अनुमान कर लिया है, जो कि अस्याभाविक है।

(२) कुछ विद्वान् वौद्धों के प्रति पुष्यमित्र के द्वेष तथा पक्षपातपूरणं व्यवहार जो ग्रग्निमित्र के रोप का कारण मानते हैं। श्रीकाले ने यह भी लिखा है कि कालिदास ने जब नाटक लिखा तब वौद्धों के प्रति विरोध तथा द्वेष-हृष्टि खत्म हो गयी थी, अतः लेखक ने उसे स्मरण करना ठीक न समझा। किन्तु वौद्ध-द्वेष को भी ग्रग्निमित्र के रोप का कारण मानना उचित नहीं है।

दिव्यावदान के अशोकावदान में पुष्यमित्र को वौद्धविरोधी तथा वौद्ध दमनकारी के रूप में चिह्नित किया है। उसमें यहाँ तक लिखा है कि पुष्यमित्र ने यह घोपणा की थी कि जो श्रमणों के शिरों को काट कर लावेगा, उसे एक शत दीनार दी जावेगी।<sup>१</sup> तिव्वती इतिहासकार तारानाथ ने भी पुष्यमित्र को वौद्ध विरोधी, वौद्ध विहार भजक तथा भिक्षुव्यवकर्त्ता वतलाया है।<sup>२</sup> रैप्सन<sup>३</sup> में भी इन मतों का समर्थन करता चाहा है, किन्तु वे स्पष्ट शब्दों में कुछ नहीं कह सके हैं।

इसमें सन्देह नहीं कि शुंगराजा ब्राह्मण-धर्म के सरक्षक तथा संवर्धक थे, किन्तु उस समय की पुरातत्व सामग्री से यह भी प्रमाणित होता है कि वे वौद्ध धर्म के प्रति असहिष्णु भी नहीं थे। हम यह मानते हैं कि ब्राह्मणों को वौद्ध धर्म के प्रति पक्षपात के कारण उनमें क्षोभ था, किन्तु इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं कि शुंग ब्राह्मण होने के कारण वौद्ध द्वेषी थे। डा० राय चौधरी, डा० त्रिपाठी, डा० उपाध्याय, आदि भारतीय विद्वानों ने दिव्यावदान तथा तारानाथ के उल्लेख को पक्षपातपूरणं तथा निःसार प्रमाणित किया है।<sup>४</sup>

१. पुष्यमित्रो यावत् संधारामान् भिक्षु इच्च प्रधातयन् प्रत्यथतः ।  
स यावच्छाकलतमनुप्रस्तः तेनामिहितम् । यो मे श्रमणशिरो दास्यति तस्याहं दीनारशतं दास्यामि ।
२. प्रा० भा० इति० त्रिपाठी, पृ० १४३,
३. कैम्पिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, पृ० ५६७,
४. पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एन्स्नट इण्डिया, राय चौधरी, पृ० ३८६, कालिदास का भारतः पृ० २२५, तथा प्रा० सा० इति० : त्रिपाठी, पृ० १४३, इण्डिया इन दि टाइम्स ऑफ पतंजलि : डा० पुरी, प० ३ पर डा० वूरोटामस के शब्दः

श्री हरिकिशोर प्रसाद ने दिव्यावदान, मनुशीषुलब्धप तथा तारानाथ के उल्लेखों का अध्ययन करके पुष्पमित्र वो बौद्ध हिंमक मानने के उनके मन को सर्वथा तथ्यहीन प्रमाणित किया है।<sup>१</sup> उन्होंने लिखा है कि वास्तव में पुष्पमित्र शुंग से दिव्यावदान के पुष्पमित्र का साम्य ही नहीं बैठता है।<sup>२</sup> दोनों के बैप्प्य वो ग्रनेस प्रकार से प्रमाणित करते हुए उन्होंने यह भी लिखा है कि पुराण, हर्ष चरित, ग्रीष्मा के अभिलेख तथा नाटक में पुष्पमित्र का (प्राय) मेनापति वी उपाधि से ही उल्लेख हुआ है। बन्तु इसी रूप में वह प्रसिद्ध तथा परिचित था, न कि किसी राजकीय चपाधि के द्वारा। परन्तु दिव्यावदान तथा तारानाथ के इतिहास में मेनापति के रूप में उमड़ा उल्लेख नहीं है। अत दोनों में साम्य सदिक्ष्य है। यद्यपि इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं बहा जा सकता तथानि, हम पुष्पमित्र वो किसी भी स्थिति में बौद्ध-धर्म-द्वोहों तथा असहिष्यु नहीं मान सकते।

हमारा विश्वास है कि मेनेन्द्र प्रस्ताव तथा कट्टर बौद्ध था। बौद्ध धर्म की आठ में दुरनिष्ठियों के द्वारा वह भारत की भूमि पर धर्मने पैर जमाना चाहता था। सम्बन्ध है उसने यामिक भेद-भाव की खापी वो और भी गहरा कर दिया था। इन्हुंने पुष्पमित्र मेनेन्द्र की इन चालों के प्रति सन्तक था। उसने निर्भयता तथा साहस के साथ भारतीय एकता तथा गाढ़ीयता के लिये मेनेन्द्र की चालों को विफल कर दाला। सम्बन्ध है पुष्पमित्र वो यवन बौद्ध शासक मेनेन्द्र की आकाशांगी वो कुचलते समय भारतीय बौद्धों के विरोध था भी सामना करना पड़ा हो और इसी से छुट्ट होकर बौद्धों ने पुष्पमित्र वो बौद्ध विरोधी आदि लिख दिया ही, और इस बौद्धों के उल्लेख के आधार पर ही तारानाथ ने भी लिख दिया है। अत वास्तविकता यही है कि न तो पुष्पमित्र बौद्ध धर्म द्वेषी था, और न अग्निमित्र पुष्पमित्र के बौद्ध धर्म द्वेष के कारण रुष्ट था। नाटक के किसी भी स्थल से हम बौद्ध धर्म के द्वेष की भवत नहीं मिलती, तब इसे अग्निमित्र के रोप वा कारण मानना सर्वथा असगत है।

(३) डा० पुरी ने अपने 'पतञ्जलि बालीन भारत' नामक शोधसम्बन्ध में अग्निमित्र के रोप के सम्बन्ध में लिखा है कि सभवत प्रथम यवन भाक्षमण के समय पुष्पमित्र ने उसमें विता विसो गतं के सन्धि करली थी। डा० पुरी के शब्दों में उस समय वयोऽक्षि यह किसी भी मूल्य पर श ति खरीदना चाहता था। पिता को इस भीद्वा से या किसी अन्य कारण से अग्निमित्र रुष्ट अवश्य हो गया और उसने पिता से सम्बन्ध विच्छिन्न कर लिया, तथा स्वतन्त्र राजा के रूप में विदिशा में अविद्यित

१ इण्डियन हिस्टोरिकल वाप्रेस, १९५३, पृ० ६६,

२ वही, पृ० ६७,

हो गया।<sup>१</sup> इस अनुमान में भी कोई सार नहीं है। डा० पुरी यह स्वीकार करते हैं कि पृथ्यमित्र ने प्रथम यवन मध्यं अपनी युवावस्था में किया और दूसरा संघर्ष बृद्धावस्था में किया। अतः यह मानना अस्वाभाविक है कि पिता पुत्रों में लम्बे समय तक मनोमालिन्य बना रहा होगा। अतः डा० पुरी की कल्पना सर्वथा अस्वाभाविक है।

वास्तविकता यही प्रतीत होती है कि पृथ्यमित्र के मगध पर अधिकार होने के बाद अग्निमित्र ही, मगध पर शासन-प्रबन्ध तथा राज्य-सचालन कर रहा था। इसी कारण अग्निपुत्र ने वसुमित्र को पृथ्यमित्र के पास छोड़ दिया था। अतः पृथ्यमित्र के नमस्त राज्यकाल में मनोमालिन्य की कल्पना का अवसर ही नहीं आता। दूसरे, जबकि यह स्पष्ट है कि पृथ्यमित्र ने भारत की राष्ट्रीयता, स्वाधीनता, एकता आदि उद्देश्यों के लिए अपने सम्राट् का वध किया था, न कि साम्राज्य की भूख से, अतः पृथ्यमित्र के लिए यह कहना कि वह शानि खरीदना चाहता था, तथा भीरु था, सर्वथा अनुपश्रुत है। तीसरे, डा० पुरी प्रथम आक्रमण के पश्चात् रोप के कारण ही विदिशापुर में अविष्टित होना मानते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि अग्निमित्र वृहद्रव्य के सामने से ही विदिशा का शासक था। इसके अतिरिक्त अग्निमित्र को स्वतंत्र शासक मानना भी उचित नहीं है। यदि वह पृथ्यमित्र के मतभेद होने के कारण ही स्वतंत्र हो गया होता तो पृथ्यमित्र के आदेश से स्वतंत्र विदर्भ पर आक्रमण करने का श्रेच्छित्य प्रतीत नहीं होता है।

वास्तव में हम अग्निमित्र के रोप के सम्बन्ध में किसी अन्य स्पष्ट उल्लेख के अभाव में निश्चित रूप से कुछ भी कहना ठीक नहीं समझते। तथापि, यह प्रतीत होता है कि उनमें मनोमालिन्य तथा रोप-प्रसंग किसी राजनीतिक कारण से ही उपस्थित हुआ था तथा इसने इतना महत्वपूर्ण रूप ले लिया था कि यह घटना जनता में भी फैल गयी थी। हमारा अनुमान है कि संभवतः मगध की संप्राप्ति तथा प्रथम यवन आक्रमण के पश्चात् पृथ्यमित्र ने सामान्य रूप से अश्वमेघ करके अपने उद्देश्य की पूर्ति समझली थी तथा वह राज्य की सार्वभौम समृद्धि के प्रति उदासीन हो गया था। किन्तु अग्निमित्र चाहता था कि प्रतापी शुंगों का राज्य दूर-दूर तक फैले तथा शुंगों की शक्ति की प्रवलना के उपलब्ध में अंतिम रूप से अश्वमेघ का समायोजन न हो। पर, पृथ्यमित्र ने ऐसा नहीं किया था, अतः अग्निमित्र ने रोप के रूप में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। अतः अन्त में, जब अग्निमित्र के मंतव्य के अनुसार उसने सार्वभौमक दिविजय के पश्चात् अश्वमेघ किया, तभी रोप त्यागने का आग्रह किया है।

## मालविकाग्निमित्र के परिप्रेक्ष्य मे कालिदास की नाट्यकला

महाकवि कालिदास ने ३ नाटक रचे मालविकाग्निमित्र, विक्रमोद्देशीय तथा अभिज्ञानशाकुन्तल । मुख्य समय पूर्व तक कुछ विद्वान् अतिम दो कृतियों को ही कालिदास की स्वीकार करते थे मालविकाग्निमित्र को नहीं । उनकी मान्यता यी कि अर्थ दो नाटक । की अपेक्षा नाट्यकला की हट्टि से भिन्न होने के कारण मालविकाग्निमित्र कालिदास की रचना स्वीकार किया जाता है ।<sup>१</sup> कालिदास न उपर्युक्त ऋम म ही अपने नाटकों का सृजन किया । इस ऋम के अनुमार मालविकाग्निमित्र कालिदास का सर्वप्रथम नाटक है, जिसम कि कालिदास वे नाटककार ने अपनो नाट्यकला की सर्वप्रथम अवतारणा की है जबकि विक्रमोद्देशीय मे विवित होकर अभिज्ञान शाकुन्तल म उसकी नाट्यकला चरमोत्तम्य पर पहुँच गई है । अन यह आवश्यक हो जाता है कि हम विक्रमोद्देशीय तथा शाकुन्तल की नाट्यकला वे भग्नान ही कलात्मकता, नाट्यशिल्प, अभिव्यजनात्मकता तथा प्रोट सविधाएँ की अपेक्षा रखते हुए मालविकाग्निमित्र का परिणीतन न करें । पहित पादुरग शास्त्री एवं एवं विल्सन तथा ए० डब्बू० रायडर आदि ग्रनेत्र विद्वानों ने शाकुन्तल की बला को ही निर्दर्शन मानकर मालविकाग्निमित्र की हेतु प्रदर्शन करने का प्रयास किया है,<sup>२</sup> किन्तु इस हट्टिकोण को हम मालविकाग्निमित्र के प्रति व्यधमपि न्याय नहीं वह सकते । हमे यह नहीं भूतना चाहिए कि स्वयं वानिदास न मालविकाग्निमित्र के प्रारभ म बहा है न चाहि वान्य नवतिष्यवद्यम् । अन यह आवश्यक है कि कालिदास की नाट्यकला क सर्वांगीण अध्ययन वे लिए मालविकाग्निमित्र की उपक्षा न करके कालिदास की नाट्य वृत्तियों की अभिक अवतारणा के अनुमार ही इसमा अनुशीलन किया जाय । मालविकाग्निमित्र नाटककार कालिदास की प्रथम हृति है । अन मालविकाग्निमित्र के परिप्रेक्ष्य म कालिदास के नाट्यकार का अध्ययन करने पर कालिदास की नाट्य बला क अभिक विकास की हपरेक्षा के रूप म नि भद्रेह हम वहून कुछ उपनिधि हो सकती है । यही कारण है कि मालविकाग्निमित्र का वानिदास के अर्थ नाटकों स कम महत्व नहीं है ।

## मालविकाग्निमित्र का वस्तुविधान तथा चरित्र-चित्रण

वानिदास के विक्रमोद्देशीय तथा अभिज्ञानशाकुन्तल पौराणिक दिनवृत्त पर

१ संस्कृत ड्रामा, दीय प० १४७,

२ वेवर ने विल्सन के सद्देहो के प्रतिकूल इस नाटक के महत्व तथा कनूँत्व को स्वीकार किया है, देखो संस्कृत ड्रामा कोय प० १४७,

आधारित है, जबकि मालविकाग्निमित्र का इतिवृत्त ऐतिहासिक है। मालविकाग्निमित्र में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आधार बनाकर आदि अन्त में विशेष राजनीतिक वृत्त का प्रक्षेप करके अग्निमित्र तथा मालविका के मधुर प्रणय का चित्रण किया गया है। अन्य नाटकों के समान यह भी मुख्यान्त है, किन्तु अन्य नाटकों के समान इसका कथाविन्यास प्रौढ़ नहीं है। गालविकाग्निमित्र की कथा सीधी-साधी है। इसमें मुख्यतः अन्तपुर की प्राचीर की परिसीमा में पनपने वाले कामुक प्रणय-व्यापार का चित्र ही दिया गया है, प्रेम का आदर्श नहीं। प्रणयी राजा चित्रगता सुन्दरी मालविका के प्रति अनुरक्त हो जाता है। यही अनुरक्ति वह विन्दु है जहाँ से कथानक आगे बढ़ता है। रानी के द्वारा विशेष रूप से द्विपा कर रखने पर भी कायन्तर-सन्निव की सहायता से वह उसके प्रत्यक्ष दर्शन का प्रयास करता है। नाट्याचार्यों का विवाद प्रस्तुत करके मालविका के नृत्य का प्रसंग उपस्थित हो जाता है। मालविका को अभिनय प्रदर्शन का अवसर मिला है। अनजाने ही रानी की समस्त सुरक्षा योजनाएँ विफल हो जाती हैं और राजा को प्रत्यक्ष दर्शन का लाभ मिलता है, किन्तु इरावती के व्यवधान से प्रणय-व्यापार में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। तृतीय अंक में अशोक-दोहद के व्याज से मिलन कराया जाता है, परन्तु वह बंदी बना ली जाती है। चतुर्थ अंक में पुनः विदूपक राजा तथा मालविका का मिलन कराने में सफल होता है। तब भी इरावती विघ्नस्वरूप आ उपस्थित होती है। अन्त में पंचम अंक में दोनों का विवाह सम्पन्न हो जाता है।

कथानक जितना सरल है, उतना ही शिथिल भी है। कालिदास ने नाट्याचार्यों के विवाद की उद्भावना करके गति देने का सफल प्रयास किया है। छलिक नृत्य का प्रदर्शन भी, मालविका की रूप-माधुरी को अभिव्यक्त करने के लिये किया जाता है। नृत्य के व्याज से न केवल नेत्र-प्रीति ही होती है, अपितु सुकुमार प्रार्थना भी होती है।<sup>१</sup> यही नहीं, वल्क छलिक नृत्य की उद्भावना का और भी महत्व है। छलिक नृत्य की योजना द्वारा ही मालविका को सर्वांगसीष्ठव की अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। राजा उसके रूप-शिल्प की अनुपमता को देखकर मुख्य हो जाता है। वह कहता है कि चित्रगत मालविका को देख कर हमारे मन में यह सन्देह जरूर उठा था कि वह इतनी सुन्दर न होगी, किन्तु इस समय साक्षात् देखने पर ऐसा जान पड़ता है मानो वह चित्रकार भी, जिसने कि उसको चित्रित किया, अपनी चित्रकला में सफल नहीं हुआ है।<sup>२</sup> प्रेमी राजा विदूपक की सहायता से बारम्बार मालविका से

१. मालविका० २१५,

२. मालविका० २१२,

मिलन में मफल अवश्य होता है जिन्हुं इरावती के गतिरोध के बारें प्रगाथ आपार नहीं बढ़ पाता। मालिदाम ने इरावती के प्रवेश द्वारा प्रगाथहृष्ट की अभिगृहित अवश्य यों है। इस प्रकार नाटक की कथा अवश्य कुछ मत्तवती है जिन्हुं यहाँ नाय्यमूलभगत्याख्यक्ता का अभाव है।

नाटक के प्रथम अक्षय मालिदाम की अपेक्षा नाट्याचार्य का विवाद ही अधिक उभरा है। इसमें मालिदाम का परिचयमात्र प्रमुख मिया गया है। द्वितीय अक्षय में अभिनय के द्वारा मालिदाम सब कुछ प्रवट बर दती है। वह गानी है 'प्रिय समाधम दुर्वंभ है अत हृदय तुम उसकी आशा छोड़ दो। भेरा बाम अपाम परिमूर्ति हो रहा है तो क्या उम जिसे बहुत पहल देखा था पुन देख सकूँगी। हे नाय! मुझ पराधीता को तुम आपन प्रति अनुरागिनी जानना।' मालिदाम का यह आत्मसमरण का सन्देश राजा के हृदय में उत्तर जाना है। नृत्य प्रदर्शन के बाद वह जाने वाले होता है जिन्हुं खिलौपक अपन बुद्धि चातुर्य में कुछ पूछने को उम रोक लेता है। मालिदाम टड़ी हारुर लट्ठी हा जाती है। इस टड़ लट्ठ होने की मुन्दरता भी कुछ अनोखी है। मणिवाच में निष्ठन वलयों से युक्त बाम बाढ़ वो नितम्ब पर रघु कर विटप के पात्रव के समान दक्षिणा हाथ का लटकाकर पैर व अँगूठे में कुनों को दृश्य-उधर बरतो हृड़ी कर्ण की ओर हृष्टि गदाल श्यामा लट्ठी है। सर्व भाव से देहाध को टढ़ा करक लट्ठे रहने की यह स्थिति नृत्य में भी बही मनोरम प्रतीत हाती है।<sup>१</sup> मालिदाम के रूप हथा शिन्प की अनुपमता बामुक रुज्जा की इतना उत्तावला बना दती है ति मर्वान्त पुर में मालिदाम का ही अपन मनह की अधिकारिणी समझता है।<sup>२</sup> फलत इरावती की भिट्टिया का महता दृश्य भी बारम्बार मालिदाम से मिलता है। आत मे, एक और अक्षोक्त के फलन स, दूसर मालिदाम का एक राजनुमारी के रूप में परिचय प्रवट हाज पर दाना का विवाह हो जाता है।

<sup>१</sup> मालिदामिनिमित्र म राजा का चरित्र धीरोदात्त तथा धीरननित का मिथ्यग बन गया है। उसकी धीरोदात्तता उभरी नहीं है। मालिदाम म उसकी अनुरक्षित इतनी अधिक है कि वह बामुक सा प्रतीत होता है। रूप अपन जट्टा म वह दानिष्य कुसब्रत बाला अवश्य है जिन्हुं मालिदामिनिमित्र म चिकित राजा का दानिष्य धीरननित का ही दानिष्य हो सकता है, धीरोदात्त का नहीं। नाटक के नृत्यीय अक्ष

<sup>२</sup> मालिदाम २१४,

<sup>३</sup> यही, २१६,

<sup>४</sup> यही, २१३-१४,

में अशोकविहार करते समय जब राजा स्वयं अभिसार करता है किन्तु वीच में सहसा इरावती भी पहुँच जाती है, तभी एक और वकुलकलिका तथा मालविका कहती है—‘महारानी प्रसन्न हों महाराज के प्रेम का हमें अधिकार ही कहाँ है?’ किन्तु दूसरी और स्वयं राजा कहता है—“मुन्दरि, मुझे मालविका से कुछ भी प्रयोजन नहीं……”<sup>१</sup> ऐसा कथन दाक्षिण्य राजा का न होकर, केवल किसी कामुक का ही हो सकता है। यही नहीं, वल्कि इरावती राजा से कहती है “शठ, तुम विश्वासपात्र नहीं रहे।”<sup>२</sup> तथा जब वह भेखला मारना तक चाहती है तो राजा उसके पैरों में गिर पड़ता है। इस प्रकार के चरित्र को धीरोदात्त तथा दाक्षिण्य नहीं माना जा सकता।

मालविका का चरित्र भी नाटक में उभरा नहीं है। वह मुख्या, तथा भोली-भाली प्रेयसी मात्र दीख पड़ती है। उसके रूप तथा शिल्प का चित्रण अवश्य हुग्रा है, किन्तु चरित्रगत विशेषताओं की व्यजना नहीं हो पाई है। तथापि, राजा की अपेक्षा वह अधिक संयत है। उसमें कामुकता का ज्वार नहीं है। चित्र में महाराज को इरावती की ओर देखते हुआ देखकर वह स्वयं कहती है कि “राजा मुझे समहृष्ट (दाक्षिण्य) नायक नहीं मालूम पड़ते…….”<sup>३</sup> इरावती तथा धारिणी के चरित्र को कीथ विशेष प्रभावशाली मानते हैं।<sup>४</sup> किन्तु वास्तविकता यह है कि नाटक में इसका चरित्र भी अधिक नहीं उभरा है। धारिणी ज्येष्ठा है। यह महिला है और अपने स्वरूप के अनुरूप ही गंभीर है। वह राजा को प्रेम करती है किन्तु मालविका तथा राजा के प्रेम-व्यवहार से उसे चिढ़ है। अतएव वह मालविका को स्वामी की हृष्टि से अलग रखती है।<sup>५</sup> किन्तु वह इतनी उदार-हृदया भी है कि जब उसे मालविका के कौलीन्य का पता चलता है, तब अशोक-दोहद के पूर्ण होने पर दांतों का विवाह कराके ‘देवी’ पद प्रदान करती है।<sup>६</sup> इरावती का चरित्र अपेक्षाकृत अधिक उभरा है, किन्तु न उसमें गंभीरता है न उदारता। वह राजा को ‘शठ’ तक कह देती है और मारने को भी उद्यत हो जाती है। वह सदैव सपत्नीमुलभ ईर्ष्या से क्रुद्ध होकर राजा के पीछे पड़ी रहती है। उसके चरित्र में औद्धत्य तथा तीक्षणता है। एक स्थान पर वह राजा से कहती है—“मैं अस्थान पर कोध करती हूँ”, यह आपका कहना ठीक है।

१. मालविका० ३।१६-२०,
२. वही, ३।२०,
३. वही, ४।८-६,
४. संस्कृत ड्रामा : कीथ : पृ० १५५
५. मालविका० १।३-४,
६. वही, ५।१७-१६,

जब कि हमारा सौभाग्य किसी और को यिल रहा है, यदि इस पर भी कोय न कर्दूंगी तो हास्यास्पद बहुँगी।<sup>१</sup> स्त्रीगांगो में कौशिको का चरित्र समेत अधिक गमीर, उदात्त तथा भावुकता पूर्ण है। किन्तु नाटक में किसी के भी स्वभाव विवास को विशेष अवसर नहीं मिला है। पात्र आदि में अन्त तक एक ने है।<sup>२</sup> प्रायः सभी पत्र टाइप हैं, उनमें वैयक्तिकता का अभाव है। यही कारण है कि न तो चरित्रों में विविधता नक्षित होती है, और न चित्रण में मनोवैज्ञानिकता तथा विद्यवता ही।

नाटक में सबसे महत्वपूर्ण पात्र विद्युपत है। वह हँसोड, पट्ट तथा वामसचिव है, किन्तु इसकी मर्दाधिक विशेषता सूख बूझ पूर्ण सामयिक उन्नितयों में है। विद्युपत के ही चरित्र के भाघ्यमें समस्त नाटक में हास्यन्यग्रद तथा जीवन का सचार हुआ है। समस्त वयाप्रवाह को यही प्राप्ते बढ़ाता है। यही समस्त योजनाओं वा आयोजन, तथा उपायदर्शक प्रजातचक्र है।<sup>३</sup> नि भन्देह समस्त नाट्यविद्यान इसी के मुनोनियादप का पुर्य है।<sup>४</sup>

नाटक का मुख्य रस शृंगार है। कालिदाम भी शृंगार के महाकवि हैं। इनके समस्त वाक्यों में शृंगार रस की धारा ही बही है। स्वाभाविक है कि सदृक्त माहित्य में कालिदाम जैसा अन्य कोई शृंगार रस की उद्भावना में पट्ट नहीं है। किन्तु कालिदाम की प्रथम नाट्यहृति मालकिणिमिश्र में शृंगार की अभिव्यजना का अद्भुत चमत्कार नहीं दीख पड़ता। समस्त वर्गोंने बहुत ही सीधे मादे तथा मरने हैं, तथापि शारुन्तर म शृंगार को जिस मर्यादा, आदर्श तथा भौदर्श की प्रतिष्ठा है, उसका समारस्थ विवेच्य नाटक में ही हुआ। उक्त नाटक में राजा गनी का वारस्वार मिनन होता है, किन्तु दुर्वामास्य इरावती शीघ्र आउपस्थित होनी है और जब तक मालविका के कुरमील का परिचय नहीं पिलना, प्राणवद्यापार नहीं बढ़ता है। गनी की कामुकता वारस्वार कुछ छिन हो जानी है। कालिदाम के शृंगार म स्प के लोभी का अद्भुत नहीं है। यही कारण है कि मानविका का वाम्नविक परिचय मिनने पर ही राजा मानविका को दक्षीपद के योग्य स्वीकार करता है।<sup>५</sup> तभी विवाह होता है और रत्न का स्वार्ग भा स्वयं मिल जाता

<sup>१</sup> मालविका० १।१६-१७.

<sup>२</sup> कालिदास मिराशो, पृ० १५६,

<sup>३</sup> वही १।८-६,

<sup>४</sup> वही १।६-१०

<sup>५</sup> प्रेष्यभवेन नामेय देवोशब्दधमा सती ।

स्नामौषधवस्त्रक्रिया पत्रोर्ण वोषयुज्यते ॥ ५।१२, वही

है।<sup>१</sup> नाटक में शृंगार के अतिरिक्त वसुलक्ष्मी के स्वभावादि के चित्रण में वात्सल्य भी है, किन्तु सर्वाधिक रूप से हास्य-व्यंग की ही अभिव्यंजना मार्मिक है। विदूषक की उचित-प्रत्युक्ति हास्यव्यंग से परिपूर्ण है। जिस कौशिकी का राजा “अध्यात्मविद्या” कहकर सम्मान करता है।<sup>२</sup> उसी का “पीठ मर्दिका कहकर विदूषक परिहास करता है।<sup>३</sup> इसी प्रकार नाट्याचार्यों की उदारंभरि<sup>४</sup> तथा मत्तहस्ति कहकर खिल्ली उड़ाता है। उसे अपने समान पेटू गणेशसे ईर्ष्या है।<sup>५</sup> क्योंकि इसका पेट सर्वं भट्टी के तरे के समान जलता रहता है।<sup>६</sup> नाटक का विदूषक प्रत्युपन्नमति होने के साथ-साथ विपत्ति में काम आने वाला सच्चा मित्र है। उसकी उकितयाँ सारगम्भित तथा संवादात्मक गुणों से युक्त है। मुहावरेदार चुभते हुए मार्मिक कथनोपकथन में वह सिद्धहस्त है। जब बन्दी मालविका के सम्बन्ध में राजा पूछता है तो वह कहता है—“उसका वही वृत्तान्त है जो खिल्ली के यहाँ फैसी हुई कोकिल का होता है। वह बतलाता है कि उस” वेचारी को पिगलाक्षी ने गुहा के समान सारभाण्ड घर के तहखाने में डाल दिया है।<sup>७</sup> वह मित्र के साथ-साय एक सफल अभिनेता भी है। अतएव राजा की कार्य-सिद्धि के लिये सर्वदंश का स्वाभाविक अभिनय भी करता है।

मालविकाग्निमित्र की भाषा में सरसता तथा चुटकीलापन है जो सहसा स्वप्नवासवदत्ता की याद दिला देता है। संवादों की हृष्टि से कालिदास प्रायः मुहावरेदार तथा लोकजीवन से सम्बन्धित छोटे-छोटे वाक्यों के प्रयोग का अन्यस्त है। उदाहरण के लिए—वकुलावलविका मालविका से कहती है—“रक्त कमल के समान तुम्हारे चरण शोभा पा रहे हैं। तुम महाराज की प्रिया हो—ओ !…………” मालविका—सखि, न कहने की बात मत कहो। वकुला०—मैंने कहने योग्य बात ही कही है। मालविका—मैं तुम्हारी प्रिय हूँ। वकुला०—केवल मेरी ही नहीं। मालविका—तो और अब किसकी ? वकुला०—गुणगाही महाराज की भी।<sup>८</sup>” इसी प्रकार जब राजा मालविका से आर्लिंगन का अनुरोध करता है तो वह कहती

-१. मालविका० ५।१८,

२. वही, १।१४,

३. वही, १।१३-१४,

४. वही, १।१५-१६,

५. वही,

६. वही, १।१६-१७,

७. विदूषक—.... हठं विपरिण-कन्दुरिव में हृदयाभ्यन्तरं दहृते । २।१३-१७,

८. मालविका० ४।१-२,

९. मालविका० ३।१३-१४,

है—“दिवों के भय से अपने मन का मनोग्राही पूर्ण नहीं कर सकती हूँ। राजा—  
दरो मन। मालविका—(उपायम् के माथ) ग्राप नहीं ढरते यह मैं रानी के सामने  
देख चुकी हूँ।”

रामचीयना की हस्ति में इमकी भाषा उपयुक्त है। पदों की मध्या अपेक्षाकृत  
न्यून है। यद्य पद्य मरण है। इमकी सबसे बड़ी विशेषता है कि प्रत्यक्ष प्रकार में  
इरावती वा प्रवश करके प्रणयदृढ़ वी शुस्ति तथा श्रीत्युक्त्यवृत्ति की उद्भावना की  
है। इसमें अनुचित, अम्बामाविच तथा अनुपयुक्त घटना आदि नहीं हैं। रघुसंघ का  
आयान रखकर ही नाटककार अद्भुत घटनाओं के प्रदर्शन में बचा है।<sup>३</sup>

नाट्यकृता की हस्ति में यद्यपि मालविकाग्निमित्र उच्चत्रोटि की रचना नहीं  
है और न इमका सविधान ही विशेष प्रोड तथा उत्तरात्मक है, तथापि इसमें कालिदाम  
की प्रतिभा का सर्वप्रथम सफल उन्मय हूँगा है। भामान्यत यह एक प्रकार का वरणन  
प्रधान नाटक है श्रीर यद्यपि यहाँ भावुकता तथा गमीरता वा अभाव है, बिन्दु एसी  
मरण कथा में गमीरता की सभावना नहीं वी जा सकती।<sup>४</sup> इसमें मालविका क  
भ्रमिन्य प्रयोग द्वारा न केवल कालिदास के नाट्यज्ञान का प्रदर्शन होता है, अपिनु  
नाटक को भी कलात्मक स्पष्ट प्रदान कर दिया है। कालिदाम का नाटककार इस  
नाटक के प्रथम प्रयास में दायो स बहुत मंभल मंभल वर चला है। श्री जी सौ  
भाला ने लिखा है कि मालविकाग्निमित्र महाकवि कालिदाम की प्रारम्भिक रचना  
होते पर भी नाट्य शास्त्रीय नियमों की हस्ति में इसरे कथ, निवाह घरना-क्रम, पार  
पोजना आदि सभी म नाटककार क अभ्यासागण बोगल वी द्याप है।<sup>५</sup> बस्तुत यह  
मालविकाग्निमित्र के मृजन का ही परिग्राम है कि कालिदाम का नाटककार शाकुन्तल  
जैसी उत्कृष्ट कृति द सका। इसनिए नि मन्दह कालिदाम तथा सस्कृत के नाट्य-  
साहित्य के लिए मालविकाग्निमित्र का प्रारम्भिक उत्ति के स्पष्ट में अत्यधिक प्रत्यक्ष है।  
भास और कालिदास .

कालिदाम ने मालविकाग्निमित्र की प्रस्तावना में अन्य पूर्ववर्ती नाटककारों  
के माथ भास का उन्नेश भी किया है तथा उन्हें ‘प्रविनयशस् रहा है। इसमें स्पष्ट  
होता है कि इस समय तक भास यशविल यश ग्रन्ति कर चुके थ। अनाव कालिदाम  
ने प्रकाग्निमित्र में उनके प्रति अत्यधिक समादर अन्त करने द्वारा भासका दरक्ष वी

१. मालविका० ३। १३-१४,

२. कालिदास मिरासी, पृ० १४३,

३. कालिदास रामस्वामी-शास्त्री, पृ० २२६,

४. कालिदास : ए स्टडी जी सौ. भाला, पृ० १०४,

है कि कहीं विद्वान् लोग उसकी नवीन कृति की उपेक्षा न करें।<sup>१</sup> प्रस्तावना में ही उसने आग्रह करते हुए लिखा है कि प्राचीन होने से ही सभी कुछ श्रौष्ठ नहीं हुआ करता और न नवीन होने से सब काव्य निष्ठा ही होते हैं। विद्वान् लोग तो परीक्षा के अनन्तर ही उत्तम को ग्रहण करते हैं, दूसरे के विश्वास पर मत बना लेना तो मूर्खों का काम है।<sup>२</sup> इस सब से इतना अवश्य स्पष्ट हो जाता है कि इस नाटक की रचना करते समय कालिदास के सम्मुख भास का क्रन्तित्व ही आदर्श हृषि में रहा था। अतएव हम यह मानते हैं कि निश्चित रूप से कालिदास पर भास का प्रभाव पड़ा है। कथावस्तु आदि के प्रभाव का प्रसंगतः उल्लेख कर आये हैं।<sup>३</sup> नाट्यकला पर भी भास का स्पष्ट प्रभाव है। विद्वानों ने स्वीकार किया है कि दोनों नाटककारों में अनेक समानताएँ हैं। यद्यपि कालिदास की नाटकीय प्रतिभा ने भास की वस्तु घटना को लेकर नया रूप, नई स्थिरता दे दी है तथा अधिक कलात्मकता संकान्त कर दी है। किन्तु कालिदास के प्रति भास का ऋण असंदिग्ध है।<sup>४</sup> वैसे तो कालिदास के सभी नाटकों पर भास का प्रभाव पड़ा है, किन्तु मालविकाग्निमित्र के नाट्यविवान पर स्वप्न० का मर्वाधिक प्रभाव पड़ा है।

हमारी तो यह भी मान्यता है कि कालिदास को नाट्यमृजन की प्रेरणा भी भास से, विजेपतः भास के स्वप्न-वासवदत्ता से ही मिली है। निःसन्देह, मालविकाग्निमित्र की रचना का उत्स सहजरूप से भास के प्रसिद्धतम नाटक स्वप्न० में खोजा जा सकता है। श्री मिराशी ने लिखा है कि मालविकाग्निमित्र के कई प्रसंग स्वप्न० में सूझे हुए मानूम होते हैं, तब भी कालिदास के एक कलाभिज्ञ तथा सौन्दर्यन्वेषक होने से इनकी रचनाएँ भास से अधिक निर्दोष तथा रमणीय हैं।<sup>५</sup> भास के स्वप्न० के समान ही कालिदास ने निकट भूतकालीन ऐतिहासिक वृत्त को इस नाटक का आवार बना कर उम के समान ही मालविकाग्निमित्र के आदि तथा अन्त में ऐतिहासिक घटनाओं का प्रक्षेप भी किया है। कालिदास के समय यद्यपि नाट्य-शास्त्र की परम्परा का पर्याप्त प्रचलन भी था और स्वयं कालिदास को नाट्यशास्त्र का अन्धा जान था, तथापि वह नाट्यशास्त्रीय सिद्धान्त को भूला कर स्वप्न० के अनुकरण के बश शृंगार प्रधान नाटक के स्थान पर “नाटिका” की रचना कर गये हैं। यह अवश्य है कि अन्य दो कृतियों में कालिदास ने यह दोष नहीं आने दिया है। यही क्यों, मालविकाग्निमित्र में कालिदास उन सभी दोषों से बचे हैं जिनका कि भास में

१. मालविका० १२,

२. देखिये हमारा इसी अध्याय का विवेचन,

३. संस्कृत कविदर्शन, पृ० २४८,

४. कालिदासः मिराशी पृ० १४७,

प्राचुर्य है।<sup>१</sup> इस प्रकार कालिदास ने भास में प्रेरणा अवधि नी है तथा स्थविधात म सहायता भी मिली है। नयापि यह कालिदास की मौनिता है। इमर्जी प्रफुल्ली विशेषताएँ हैं तथा अपना महत्व है।

### परवर्ती नाटक प्रोग्राम और मालविकाग्निमित्र

नि सन्देह मालविकाग्निमित्र नाटिका जैसी रचना है। इमर्जी मुख्य उद्देश्य ग्निमित्र तथा मालविका की प्रणयन्त्रया को नाट्यवद्ध करना है। नाटिका म समान यहाँ भी राजा अपनी रानी से द्विप-द्विप वर मालविका से प्रेम बरता है। वह देवीवास से शक्ति है। अत इसका नायक धीरोदात्त की प्रपेक्षा धीरलित अधिक है। सभम्न घटनाचक्र ग्रन्थ पुर तथा प्रमदवन में ही घटित होता है। वेवल प्रथम तथा पचम अवृत्त की कुछ घटनाओं का विन्यास तथा पांच अक्षों के नाट्यविधान के ही कारण यह नाटक कहा जाता है, “अन्यथा यह नाटिका के रूप में ही अभिष्ट है। परवर्ती नाटकवारों ने इसमें अनेक प्रकार से प्रेरणा ग्रहण की है। इसी के अनुररण पर हर्यं न रत्नावती प्रियदर्शिरा तथा उमरी वाद अनेक नाटिकार्थं रची गयीं। यहाँ क्यों, इसमें मुद्रा का सफल प्रयोग किया है उसी को शाकुन्तल म “ग्निमित्रन मुद्रा” के रूप में प्रयुक्त किया है तथा विशामदत्त ने भी मुद्राराजस में मुद्रा प्रयोग की प्रेरणा यही में ली है। इसी प्रकार अन्य नाटकवारों के मालविकाग्निमित्र स अनेक प्रवार म प्रेरणा ग्रहण की है। अब हम कह सकते हैं कि कालिदास की इस नाट्यहृति का सम्मुख नाट्यमाहित्य पर पर्याप्त गुण है।

### सांस्कृतिक चित्रण : राजनीतिक चित्रण

विदिशा:—मालविकाग्निमित्र में ग्निमित्र का विदिशाश्वर के रूप म उल्लेख किया है। स्पष्ट है नि विदिशा ग्निमित्र की राजधानी थी तथा पाटनिपुत्र पुर्यमित्र को परम्परागत राजधानी थी।<sup>२</sup> नाटक में ज्ञात होता है कि ग्निमित्र ने बीरसेन को नमंदा नट पर स्थित सीमावर्ती दुर्ग में नियुक्त किया था।<sup>३</sup> इससे यह स्पष्ट होता है कि ग्निमित्र की विदिशा की सीमा नमंदा तक थी। विदिशा राज्य नमंदा के दक्षिण में था। नमंदा के स्वान पर कुछ सस्करणों में भन्दाकिनी पाठ है, किन्तु इसका तात्पर्य गया में नहीं, ग्रनितु नमंदा से ही है।<sup>४</sup> विदिशा ग्राचीन सभ्यता से ही प्रमिद है। पनजलि ने भी दशाएँ का उल्लेख किया है। डावटर पुरी ने निष्ठा है कि

१ कालिदास . मिरासी, पृ० १४७,

२ घर्ती हिन्दू आँक इ डिया, पृ० २०६,

३. मालविका ११५-६,

४. अर्नो द्विती आँक इ डिया, पृ० २०६, डिप्पएरी,

उसकी राजधानी वेश्वरी पर स्थित (आधुनिक वेतवा पर) विदिशा ही थी। बाद में यह भिलमा के रूप में प्रसिद्ध हुई।<sup>१</sup> पर स्वतंश भारत में पुनः इसका नाम विदिशा हो गया है। नाटक में जात होता है कि उस समय विदिशा एक प्रमुख आधिक व्यवसाय का केन्द्र था। नाटक में वगिकों के परिकसार्थ के विदिशा जाने का उल्लेख है।<sup>२</sup>

**विदर्भ:** — विदर्भ के भी बहुत प्राचीन उल्लेख प्राप्त हैं। आधुनिक “बशर” में इसका साम्य माना जाता है। डा० पुरी के अनुसार जैमिनीय उपनिषद् तत्त्व महाभारत आदि में इमका उल्लेख है।<sup>३</sup> महाभारत में इसकी प्राचीन राजधानी वरदा पर स्थित कुण्डिन का उल्लेख है। यह एक बहुत बड़ा राज्य था। वरदा नदी इसे दो भागों में विभक्त करती थी। उत्तर की राजधानी अमरावती तथा दक्षिण की प्रतिष्ठान। यह दक्षिण में नर्मदा तक फैला था। नाटक में विदर्भ का राजा यजसेन चतलाया है। अग्निमित्र ने इसे अधिकृत करके दोनों चौरे भाईयों में वरदा की मध्यसीमा बनाकर द्वै राज्य के रूप में विभक्त कर दिया था।<sup>४</sup>

**सिन्धु** — नाटक में सिन्धु का भी उल्लेख है। इस उल्लेख का भौगोलिक महत्व विशेष न होकर राजनातिक महत्व ज्यादा है। नाटक के अनुसार वसुमित्र ने अश्वमेघ के अश्व की रक्षा करते हुए सिन्धु प्रदेश में पहुँचने पर यवनों के प्रतिरोध करने पर उन्हें सिन्धु के दक्षिण तट पर परास्त किया। सिन्धु के सम्बन्ध में मतभेद है, किन्तु अब प्रायः सिन्धु से पजाव की नदी का ही अभिप्राय माना जाने लगा है।<sup>५</sup> इन उल्लेखों से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि कालिदास के अनुसार शुंगों का राज्य उनरी भारत में सिन्धु से लेकर प्राच्य समुद्र तक फैला था, तथा इसमें विदिशा तक समस्त दशार्ण और विदर्भ भी थे। स्मिथ के अनुसार इसमें विहार, अवध, तिरहुत, आगरा आदि सम्मिलित थे।<sup>६</sup> सक्षेप में समस्त उत्तर भारत में शुंगों का राज्य था।

### शासन व्यवस्था

नाटक से तत्कालीन राज्य-संस्था तथा राजनीति के सम्बन्ध में भी ज्ञान होता है। उस समय राजा अपने राज्य-कार्य के भ्रांपादन में पूर्ण सतर्क रहते थे। राज्य

१. इंडिया इन दि टाइम ऑफ पतंजलि : डा० पुरी पृ० ८८-८९,

२. मालविका० ५।६-१०,

३. इण्डिया इन दि टाइम ऑफ पतंजलि, पृ० ८४,

४. मालविका० ५।१३-१६,

५. हमारा इसी अध्याय का ऐतिहासिक विवेचन देखिये,

६. अर्ली हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, पृ० २०६,

कार्य में मन्त्रियों में भी परामर्श करते थे।<sup>१</sup> राज्यकार्य के सचालन के लिए अमात्य-परिषद् होती थी।<sup>२</sup> इसके लिए मनिपरिषद् शब्द का भी प्रयोग हुआ है।<sup>३</sup> नाटक में सचिव, अमात्य, मंत्री शब्द समानार्थक रूप में प्रयुक्त हैं। अथंशास्त्र में भी परिषद् के सम्बन्ध में विशेष विवचन है, जिन्होंने नाटक से इस सम्बन्ध में विशेष कुछ ज्ञात नहीं होता। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वामी के प्रति प्राणोत्सर्ग कर देना मंत्री का कर्तव्य था, तभी उसका शरीर सफल माना जाता था।<sup>४</sup> नाटक से यह भी ज्ञात होता है कि राजा तथा मंत्री प्रत्येक कार्य प्राप्त नीतिशास्त्र के अनुसार करते थे। प्रथम अंक में विदर्भ पर आश्रमण के समय अमात्य शास्त्र के अनुसार ही परामर्श देता है।<sup>५</sup> नाटक में “नीति” के लिए तत्र शब्द का प्रयोग हुआ है।<sup>६</sup>

नाटक में राज्य की सप्तप्रकृति के सम्बन्ध में भी ज्ञान होता है। प्रथम अंक में ही विदर्भ के सम्बन्ध में शास्त्र के अनुसार अमात्य कहता है कि जो (शत्रु) राज्य पर अभी-अभी अधिक्षिण हुआ है, तथा जो प्रकृति पर आँख नहीं हुआ है उसका नवसवरीपित गिधिल दृढ़ा के समान शोध ही उन्मूलन सुकर होता है। यहाँ प्रकृति शब्द में सप्तप्रकृति की ओर भी निर्देश है। राज्य के सात अग बनलाए हैं। स्वामी अमात्य, सुहृत, कौप दुर्ग राष्ट्र बल इन्हें प्रकृति भी कहते हैं।<sup>७</sup> राजा को शक्ति-सप्तम तथा स्थायित्व प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि वह प्रकृति पर आँख हो, अर्थात् सभी सप्तांग में युक्त होना राजा को आवश्यक है। इसी उक्ति में नीति के अनुसार यह भी बहा है कि राज्य की अधिकृत करने वाले नवीन राजा को तत्काल अधिकृत कर लेना चाहिए।

राजा के उपर्युक्त स्वत्नागों में से नाटक में कुछ अगों का उल्लेख है। नाटक में सेना<sup>८</sup> तथा सेनापति<sup>९</sup> का उल्लेख है। सेना ही शक्ति की परिमापिका थी, इसी

१. मालविका ० ४।१५,

२. वही, ५।१३-१४,

३. वही, ५।१३-१५, में दो शब्द

४. वही, ५।११-१२,

५. वही, १।०-८,

६. राजा—तेन ह्यवितर्यं तत्रकारवद्भन्म् । वही १।८-८,

७. अमात्य शास्त्रदृष्टमाह देव —

अधिरायितितराज्य शत्रु प्रदृतिप्यहृष्टमूलत्वात् ।

नवसरोपणसियिस्तरूरिव सुकरः समुद्रतुंम् ॥ वही ३।८,

८. मालविका ० ५।१,

९. वही, १।८-८,

से शाश्वतों को दण्ड दिया जाता था। नाटक में कई स्थानों पर इसी का दण्डचक्र के रूप में उल्लेख हुआ है।<sup>१</sup> सीमाओं पर सुरक्षा के लिए दुर्ग होते थे। सीमा-रक्षक अन्तपाल कहलाते थे।<sup>२</sup> वीरसेन की नियुक्ति इसी रूप में नर्मदा तट के दुर्ग में हुई थी। इनके पास पर्याप्त सेना भी होती थी। वीरसेन भी इसी प्रकार का सेनापति था। इस समय राजाओं में साम्राज्यवादी प्रवृत्ति प्रवल थी। यही कारण था कि कि विदिशेश्वर ने विदर्भ को निरस्त किया। चक्रवर्तित्व की अभिलापा भी अत्यधिक थी। राज्य बढ़ाने तथा अपने प्रताप के विस्तार के लिए अश्वमेव तथा राजसूय यज्ञ किया करते थे। पुष्यमित्र ने भी इसी प्रकार दो अश्वमेघ किए थे। एक का नाटक में उल्लेख है। कभी-कभी इसी उद्देश्य की पूर्ति के साथ-साथ अन्य राजाओं को अपना करद बनाकर ही छोड़ दिया जाता था। उस समय ही राज्य-राज्य-विधान का प्रचलन था। यह अच्छा भी माना जाता था। अग्निमित्र ने विदर्भ को दोनों चचेरे भाईयों में दो राज्यों के रूप में विभक्त कर दिया था। राजा विदर्भ विजय की उपरांत विदर्भ को दोनों चचेरे भाईयों यज्ञसेन तथा माधवसेन में विभक्त कर देने की आकांक्षा को व्यक्त करता हुआ कहता है कि “वे दोनों वरदा के दक्षिण तथा उत्तर का अलग-अलग शासन करें, जैसे सूर्य-चन्द्रमा दिन-रात का दो भागों में उपभोग करते हैं।<sup>३</sup> मंत्रि-परिषद् भी इसका समर्थन करती हुई कहती है कि दो भागों में विभक्त राज्यलक्ष्मी को प्राप्त करके वे दोनों परस्पर आक्रमण की प्रवृत्ति को भूलकर सदा आपकी आज्ञा में रहेंगे, जैसे दो भागों में विभक्त रथ के भाग को रथाश्व वहन करते हैं तथा एक दूसरे से लड़ भगड़ कर नियंता की आज्ञा में रहते हैं।<sup>४</sup> नाटक से यह भी ज्ञात होता है कि राजाओं में परस्पर कार्य-विनियम के लिए अभिसंधियाँ हुआ करती थीं।<sup>५</sup> परस्पर संदेशों का आदान-प्रदान हुआ करता था।<sup>६</sup> इसके लिए दूतों के प्रयोग के अतिरिक्त लेख, प्रतिलेख भी भेजे जाते थे।<sup>७</sup> पड़ोसी राज्यों में युद्ध आदि हुआ करते थे। इन युद्धों में लूटपाट भी होती थी। सेनापति लूटपाट की वस्तुओं को राजा के लिए उपहार स्वरूप भेजते थे। इस दृष्टि से भी नाटक के प्रथम तथा पंचम अंक महत्वपूर्ण हैं। प्रथम अंक से वैदर्भ के प्रति-सन्देश से यह ज्ञात

१. वही, ११७-८, ५११,

२. वही, ११५-६, ६-७,

३. देखो मालविका० ५।१३,

४. देखो मालविका० ५।१४,

५. मालविका० १।७,

६. वही, १।६-७,

७. वही,

होता है कि उस समय की लेखन-प्रणाली कौमी थी।<sup>१</sup> इसी प्रकार अतिम ग्रन्थ में पुष्पमित्र के पत्र-लेख में उस समय की पत्र लेख-प्रणाली का उदाहरण स्पष्ट होता है।<sup>२</sup>

### सामाजिक चित्रण

धर्म—कालिदास के नाटकों में वैसे तो प्रस्तावना में धर्म के सम्बन्ध में ज्ञानवारी भी मिलती है किन्तु भ्रन्यान्य स्थान पर भी अनेक ऐसे संकेत मिलते हैं जिनसे तत्त्वालीन धर्म का दौघ होता है। नाटक में वैदिक धर्म की घटाप है। शूग-काल की सत्यापना के साथ ही वैदिक धर्म का पुन व्रतांत हुआ था। पुष्पमित्र ने दो अश्वमेष किए थे। नाटक में एक अश्वमेष का विम्नार में उल्लेख है, जो कि उसने अपनी वृद्धावस्था में किया था। इसके अनिरिक्त नाटक में परिदाजिता कौशिरी के साथ धारिणी का वरण करते हुए अध्यात्मविद्या में पुक्त वेदवर्यी के ममान उसकी शोभा बताता है।<sup>३</sup> नाटक के इन उल्लेखों में शूगकाल में ब्राह्मण धर्म की प्रवर्तना का ज्ञान होता है।

वरणधर्म व्यवस्था—कालिदास के ममय वर्णाश्रम व्यवस्था के प्रचलन का नाटक से ज्ञान होता है। ममाज में परम्परागत जानि प्रथा थी। ब्राह्मणों ना स्थान चब्ब था। ये विद्वान् होने थे। विनेय प्रयोजन में विद्यायुक्त विद्वान् ब्राह्मणों को महीनों तक नित्य दक्षिणा दी जाती थी। नाटक में वसुमित्र के अश्व के रक्षक के रूप में नियुक्त किये जान पर उसकी आयु के निमित्त सौ निष्कर्ष<sup>४</sup> प्रतिदिन मुवर्ग दान देने का उल्लेख है।<sup>५</sup> मवंप्रथम किसी कार्य के प्रारम्भ म या जिक्का आदि के प्रारम्भ म ब्राह्मण की प्रूजा की जाती थी।<sup>६</sup> ब्राह्मण की मृत्यु का निमित्त दनना महाद धार्य मममा जाता था।<sup>७</sup> ब्राह्मण अग्निक्षित भी होने थे जैसा कि विदुपक के चरित्र में स्पष्ट है। ज्ञान को जीविका के माध्यन बताने वालों को विशिक् माना जाता था। ब्राह्मण अन्य पेशे भी करते थे। स्वयं पुष्पमित्र ब्राह्मण होने हुए भी मन गति था।

१. मालविका ११६-७,

२. वही, ४। १५-१६,

३. मालविका ११४,

४. एकशत निष्कर्ष से ३२० रत्ती का अभिप्राय माना जाता है वैष्णोकि ८० रत्ती स्वरण का एक सुवरण और ४ सुवरण का एक निष्कर्ष होता था “चतुर्सौवर्णीको निष्कर्ष विज्ञेयस्तु प्रमाणत ।”

५. मालविका ० पद्म अक का प्रवेशक,

६. वही, २। ६-१०,

७. वही, ४। ३-६,

परम्परागत क्षत्रिय तो थे ही, किन्तु वर्ण-संस्कार शूद्र भी क्षत्रिय का कार्य करते थे। वरणविर वीरसेन भी सेनानायक तथा दुर्गंरक्षक था।

स्त्रियों का स्थान समाज में बराबर का था। स्त्रियाँ परमचतुर, मेघाविनी<sup>१</sup> पढ़ी-लिखी होती थी। कैशिकी पंडिता थी। विदुपी स्त्रियाँ प्राशिनक के रूप में निर्णय भी देती थी।<sup>२</sup> ये कला-निपुण भी होती थी।<sup>३</sup> नृत्य-गीत शिल्प आदि में इनकी विशेष योग्यता होती थीं।<sup>४</sup> उनके लिए नृत्य गीत आदि का विशेष प्रबन्ध था। राजपरिवारों में कलानिपुण स्त्रियों को विशेष रूप से संभीत-सहकारिणी के रूप में रखा जाता था। इन्हें शिल्प-कन्या कहते थे।<sup>५</sup> कलानिपुण स्त्रियों का भेट-रूप में भी आदान-प्रदान होता था।<sup>६</sup> नाटक से ललितकला तथा लोंक-कला के सम्बन्ध में विशेष ज्ञान होता है। स्त्रियाँ कलात्मक ढंग ने शृंगार भी करती थीं। पैरों में यलत्कं-रेखाओं द्वारा कलात्मक विन्यास किया जाता है।<sup>७</sup> इस रांग-रेखा-विन्यास की प्रसाधन-कला में स्त्रियाँ चतुर होती थीं।<sup>८</sup> स्त्रियाँ आधूपण भी पहनती थीं।<sup>९</sup> करघनी, नुपूर तथा अंगुलीयक शब्द नाटक में प्रयुक्त हैं। सीभाग्यवती स्त्रियाँ मंगलालंकारों से अलंकृत रहती थीं।<sup>१०</sup> अलंकारों को पहनाने की भी विशेष कला मानी जाती थी।<sup>११</sup> विवाह आदि के अवसर पर विशेष निपुण स्त्रियाँ ही अलंकार पहनती थीं। विवाह की वेशभूषा अलग होती थी। दुकूल तथा धने सारे अलंकार प्रायः पहने जाते थे।<sup>१२</sup> विवाहित स्त्रियाँ अवगुण्ठन भी करती थीं।<sup>१३</sup> संभवतः विवाह-विवाह नहीं होते थे। विवाह यतिवेण भी धारण कर लेती थी।

१. मालविकाग्निमित्र १११७,

२. वही, १०१५-१६,

३. वही, ५१६-१०,

४. वही, ११३-६,

५. वही, ५१६-१०,

६. वही,

७. मालविका ३११०-११,

८. वही, ३११२-१३ १४-१५,

९. वही, ५१७, १७-१८,

१०. वही, ११४,

११. वही, ५१३-४,

१२. वही, ५१७, १८-१९,

१३. वही, ५११८-१९,

कौशिकी परिव्राजिका बन गयी थी। विधवाओं को यह अच्छा माना जाता था। नाटक प कौशिकी द्वारा काषाय धारण कर लेने की मज़ज़नों का मार्ग कहा है।<sup>१</sup> यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परिव्राजिका का चरित्र कालिदास के समय निर्धारण में भी प्रत्यक्ष रूप से सहायता दता है।<sup>२</sup>

स्त्री दशा —स्त्रियों के विवाह प्रोड अवस्था म हुआ करते थे, किन्तु उनके अभिभावक सम्बन्ध पहले ही निश्चित कर लिया करते थे। मालविका वा भी प्रतिश्रूत-सम्बन्ध हो चुका था।<sup>३</sup> बहु-विवाह की प्रथा थी। अग्निमित्र की दो रानियों का नामा उल्लेख है। इसके अलावा भी सभवत उसके अन्त पुर में प्रनेक रानियाँ थीं।<sup>४</sup> बहु-विवाह के सदमं वो लेकर विलम्बन ने लिखा है कि तत्वालीन हिन्दू समाज पतनोन्मुख था।<sup>५</sup> किन्तु उनका मत सत्य से परे है। भारत में राजाओं वो प्राचीन बाल से ही अनद पत्नी रखने का अधिकार है परन्तु साधारण प्रजा को नहीं। उच्च वर्ग में वहुविवाह भारत को सास्कृतिक विशेषता है। नाटक में धारिणी के वर्णावर भाई का उल्लंघन है। यी मिराशी न लिखा है इस सूक्ष्मतम उल्लेख से स्पष्ट होता है कि कालिदास को अग्निमित्र के समय की सूक्ष्मतम जानकारी थी।<sup>६</sup> उसमें यह भी ज्ञात होता है कि सब अनुलोम विवाह भी होते थे। मनु न इसका विधान किया है।<sup>७</sup> जान पड़ता है कि वीरसेन धारिणी के पिता का शूद्रा या देश्या से उत्पन्न पुत्र था। स्त्रियाँ सप्तती का होना बुरा समझती थीं। पति वी प्रमत्नता का सपादन करना स्त्रियों का कर्तव्य था। परिव्राजिका कहती है कि “साध्वी ललनाएं सपत्नियों के होन पर भी पति को सेवापरायण ही रहती है।”<sup>८</sup> भोजन आदि की व्यवस्था भी स्त्रियाँ ही करती थीं।<sup>९</sup>

श्रिदा-विनोद—स्त्रियों विनोद-प्रिय होती थीं। स्त्री पुरुषों म हास परिहास

१. मालविकामित्र ५११-१२,
२. देखिये हमरा ‘कालिदास का समय’ विवेचन,
३. मालविका ५१६-७,
४. वही, २१८,
५. विपेटर अॉफ हिन्दूज, भाग २, पृ० ३४८,
६. कालिदास . मिराशी, पृ० ६-१०,
७. मनुस्मृति ३।१३,
८. वही, ५।१६,
९. वही, २।१२-१३,

होते रहते थे।<sup>१</sup> श्रीडा-विनोद के अतिरिक्त कथा-विनोद भी होते थे।<sup>२</sup> वालिकाएँ कन्दूक से भी खेला करती थीं।

**वसन्तोत्सव:**—नाटक में वसन्तोत्सव का उल्लेख विशेष महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत नाटक का प्रयोग भी वसन्तोत्सव पर हुआ था।<sup>३</sup> नाटक में वसन्तोत्सव का विस्तार से वर्णन है। प्राचीन भारत में वसन्तोत्सव विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता था। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि यह उत्सव दशहरे की विजय यात्रा के पश्चात् लौटे हुए वीरों के स्वागत में मनाया जाता था। इस प्रकार वह इसकी “विजयोत्सव” से समानता करते हैं। कुछ विद्वान् इसे “होलिकोत्सव” भी मानते हैं। वसन्तोत्सव तथा मदनोत्सव का प्राचीन काल से ही संस्कृत साहित्य में उल्लेख है। निःसन्देह होलिकोत्सव वसन्तोत्सव के रूप में ही मनाया जाता है। रत्नावली के घराने से उसका बहुत कुछ साम्य बैठता<sup>४</sup> है किन्तु यह वास्तव में मदनोत्सव है। किन्तु मालविकाग्निमित्र का वसन्तोत्सव ऐसा प्रतीत नहीं होता। वास्तविकता यह है कि वसन्तोत्सव के अन्तर्गत ही मदनोत्सव, सुवसन्तक, बकुल तथा अशोक वृक्ष-विहार आदि कई उत्सव आते हैं। हजारीप्रसाद द्विवेदी इनमें मदनोत्सव को ही प्रधान मानते हैं।<sup>५</sup> हमारे नाटक के मध्य में वर्णित वसन्तोत्सव में अशोक के दोहढ़ तथा विहार आदि का वर्णन है। अतः यह भिन्न वसन्तोत्सव है। पारिजात मजरी नाटिका में भी वसन्तोत्सव का वर्णन है।<sup>६</sup> मालविकाग्निमित्र के वसन्तोत्सव से उसका बहुत साम्य है, उसमें हिन्दूलक आदि का भी उल्लेख है। नाटक के अनुसार इसी अवसर पर स्त्री पुरुष दोलारोहण किया करते थे।<sup>७</sup> राजाओं के यहाँ प्रमदवन में विशेष रूप से दोलागृह भी हुआ करते थे।<sup>८</sup> इन उल्लेखों से यह उत्सव श्रावण भाद्रपद में मनाये जाने वाला उत्सव प्रतीत होता है। संस्कृत नाटकों का भी अभिनय वसन्तोत्सव पर होता था। मालविकाग्निमित्र का अभिनय भी वसन्तोत्सव पर हुआ था, किन्तु हम निश्चित रूप से इस सम्बन्ध में नहीं कह सकते कि यह वसन्तोत्सव कौनसा था जबकि नाटक अभिनीत हुआ।

१. मालविका० ३।१२ १३,

२. वही, ४।२-३,

३. प्रस्तावना १।१-२,

४. देखिये रत्नावली का विवेचन इसी प्रबन्ध में,

५. प्रा० भा० के कला विलास पृ० १००,

६. देखिये, पारिजात मंजरी, इस प्रबन्ध में,

७. मालविका० ३।२-३,

८. वही, ३।१२-१३,

शिक्षा — नाटक से शिक्षा व्यवस्था तथा परम्परा के सम्बन्ध में विशेष ज्ञान होता है। स्थ्री-पुरुषों को शिक्षा की पूरी स्वतन्त्रता थी। स्त्रियों मुख्यत लिखित कलाओं की शिक्षा प्रहरण करती थी। गुरुजन की तुटिंडे के द्वारा ही शिष्य भी शिक्षा सफल मानी जाती थी।<sup>१</sup> अध्यापक भी उत्तम पात्रों को खोज में रहते थे, तथा उत्तम पात्र को दी गयी शिक्षा को ही उत्कृष्टाधिक मानते थे। गणदाम कहता है "मेघ का जल ममुद्र शृङ्कि में पड़कर खुबना बन जाता है, वैसे ही उत्तम पात्र में दी गयी शिक्षा उत्कृष्ट प्रकट करती है।"<sup>२</sup> शिष्या मालविका की विशेषता वै बारण ही गणदाम की प्रसंगा हुई थी।<sup>३</sup> अधम शिष्य का चुनाव करना शिक्षक की वृद्धिहीनता का सूचक माना जाता था। वयोर्कि मन्दवृद्धि शिष्य उपदेश को मनिन ही करता है।<sup>४</sup> आचार्य को शिष्य पर सर्वाधिकार होता था।<sup>५</sup>

शिक्षकों की नियुक्ति वैतनिक होनी थी,<sup>६</sup> किन्तु शास्त्र-ज्ञान के बल जीविका का साधन नहीं होता था। जीविका के लिए शास्त्र ज्ञान करने वाले की विकेता बनिया बहुर निन्दा की गयी है।<sup>७</sup> अध्यापक शिक्षकाल में सतकं रहते थे। शिक्षण के समय कहीं इधर-उधर नहीं जाते थे।<sup>८</sup> सम्बन्ध शिक्षकों ए परस्पर आधेन परिवाद तथा विवाद भी हो जाता था। व्यवहारिकी विद्या का प्रायोगिक रूप से ही शिक्षण-परीक्षण होता था। गणदास ने "सुतीर्थ" से अभिनन्दन-विद्या प्रहरण की थी तथा वह उसी का प्रायोगिक शिक्षण देता था।<sup>९</sup> इस प्रकार अभिनन्दन-विद्या या नाट्यवला उमर्हों कुलविद्या थी। जब कभी शिक्षकों में विवाद हो जाता था तो शिक्षकों के शस्त्र-ज्ञान तथा प्रयोग-ज्ञान का परीक्षण होता था। इसके लिए तटस्थ विशेषज्ञ प्राशिक्षक की नियुक्ति होती थी। इसी का भी परीक्षण पश्चात की सभावना के बारण एकाकी नहीं होता था।<sup>१०</sup> एकाकी व्यक्ति यदि सर्वंज भी होता

१. छेतार्थदानो व शिष्या। यस्यगुरुजन एव तुप्यति; वही, १५-६,

२. पात्रविरोधे न्यस्त गुरुगांतर बजति शिल्पमाध्यात्-

अत्तमिव समुद्दशुक्ती मुश्ताकलता पर्योदस्य ॥ वही, १६,

३ वही ३१,

४ वही, ११६-१७,

५ वही, ११६-२०,

६ वही, ११५-१६,

७ "यस्यागम केवल जीविकाये, त ज्ञानपण वल्लिज बद्धित वटी, ११७,

८ वही, ११२-१३,

९ वही,

१० वही,

तब भी उसका निर्णय दोष-गुरुत्व माना जाता था<sup>१</sup>, अतः एकाधिक प्राश्निक होना आवश्यक माना जाता था। नाट्यशास्त्र जैसी प्रयोग-प्रधान विद्या का निर्णय प्रायोगिक रूप से ही होता था, वाग्व्यवहार से नहीं।<sup>२</sup> शिष्य की परीक्षा के रूप में ही गुरु की परीक्षा होती थी, गुरु की साक्षात् परीक्षा नहीं होती थी। क्योंकि उस समय यह मान्यता थी कि जिसमें ज्ञान होने के साथ-साथ शिक्षण कला भी होती है वही महात्र शिक्षक होता है। परिद्राजिका कहती है कि “किसी को ज्ञान भ्रष्टिकर हताह है और किसी को पढ़ाने की कला में विशेषज्ञता। जिसमें दोनों गुण हों वही शिक्षकों में प्रधान माना जाता है।”<sup>३</sup>

**चिकित्सा:**— चिकित्सा-व्यवस्था आदि के सम्बन्ध में भी नाटक से ज्ञान होता है। द्वितीय श्रक्त में विद्युपक की उक्ति से ज्ञान पड़ता है कि उस समय दरिद्र रोगियों को बैद्य लोग विना मूल्य भी दवा देते थे।<sup>४</sup> मन्यथा श्रीपथ का मूल्य पर वितरण होता था। इसी प्रकार अन्यत्र विद्युपक की उक्ति से स्पष्ट है कि चिकित्सकों की मान्यता थी कि समय विताकर भोजन करना हानिकर होता है।<sup>५</sup> उस समय न केवल सामान्य स्वास्थ्य तथा चिकित्सा के सम्बन्ध में लोगों का ज्ञान था, अपितु विष-चिकित्सा तथा शल्य-चिकित्सा का भी लोगों को ज्ञान था। नाटक में सर्पदंश के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख है। नाटक में सर्पदंश होने पर दंशच्छेद को पूर्वकर्म कहा गया है।<sup>६</sup> उसमें लिखा है “दंश-स्थान का छेदन, दाह और रक्तमोक्षण यह सभी उपचार सर्पदंश लोगों के लिए उपाय होते हैं।”<sup>७</sup> यह भी मान्यता थी कि कभी-कभी सर्पदंश विष-रहित भी होता है, तथा विष चढ़ने पर शरीर में झनझनाहट भी होती है।<sup>८</sup> नाटक से ज्ञात होता है कि उस समय घृवसिद्धि जैसे सफल विष-चिकित्सक भी थे।<sup>९</sup> नाटक में संपूर्णमुद्रा के द्वारा “उदकुम्भविधान” नामक सर्प-विष

१. मानविक्का० १।१७-१८,

२. वही, १।१५-१७,

३. शिलष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसंस्था संक्रान्तिरन्यस्य विशेषयुक्ता।

यस्योभयसाधु स शिक्षकारणं धुरि प्रतिष्ठापयितव्य एव। वही १।१६.

४ वही, २-१।१२,

५. वही, २।१२-१३,

६. वही, ४।३-४,

७. छेदो दंशस्य दाहो वा क्षतेर्वा रक्तमोक्षणम्।

एतात्ति दंष्टमात्राणामादृष्याः प्रतिपत्तयः ॥ ४।६.

८. वही, ४।४-५,

९. वही,

चिकित्सा का उल्लेख है।<sup>१</sup> उदकुम्भ-विद्वान के सम्बन्ध में विशेष नाटक से ज्ञान नहीं होता है। भैरवीनन्द्र में इसका विशेष वर्णन है।

**ज्योतिष — ज्योतिष सम्बन्धी** कुछ सबेत भी नाटक में उपलब्ध हैं। नाटक में भगवत्प्राहृ के वक्फ़ाव में राश्यनन्द्र में आन का उल्लेख है।<sup>२</sup> वालिदास के समय में ज्योतिष का लोगों की अच्छा ज्ञान था। ज्योतिषियों को दैवचिन्तक कहते थे। प्रहो के शुभाशुभ म विश्वास किया जाता था।<sup>३</sup> यह भी मान्यता थी कि पूर्णिमा पर ही राहू चन्द्र-मण्डल को प्रस्ता है।<sup>४</sup> उस समय लोग सिद्धों की भविष्यवाणियों में विश्वास किया करते थे। सिद्धादेश के कारण ही। सवत्सर मालविका को छिपाकर रखा गया था।<sup>५</sup>

**कामशास्त्र —** इसके सम्बन्ध में भी कुछ सबेत प्राप्त हैं। विदूपक के लिए नाटक में “काम—नन्द—मचिव” तथा ‘कार्यान्वय—सचिव’ शब्द का प्रयोग हुआ है।<sup>६</sup>

**शिष्टाचार —** इसी प्रकार नाटक में तत्कालीन शिष्टाचार के सम्बन्ध में ज्ञान होता है। नाटक में रितपाणि होकर बड़े लोगों के यहाँ जाना भक्षिष्टता कहा है। धर्म<sup>७</sup> शास्त्र के अनुमार भी गुरु, राजा आदि पूज्यजनों को रितपाणि देवना बनित है।

**जनसुरक्षा —** वरिणीकृजन एक स्थान से दूसरे स्थान आते जाते थे, तथा मार्ग म पठाव भी ढाल दिया करते थे। ये आयुधों से युक्त होते थे।<sup>८</sup> तत्कालीन समाज में चोर हाकुओं का भय था। पर्यक्षसार्य लूट लिए जाते थे। नाटक में जगल में भाटविकों द्वारा परिकों को लूटे जाने का उल्लेख है।<sup>९</sup> नाटक में इनकी वशभूषा का भी ज्ञान होना है। ये लोग तूणीर कोदण्ड मादि से सञ्जित होते थे।<sup>१०</sup> इन्हे

१. मालविका।

२. वही, ३।२२-२३,

३. वही ४।५-६,

४. वही, ४।१६,

५. वही ४।१२-१३,

६. वही, १।८-६, ४।१७,

७. वही, ३।१, ४।२-३,

८. वही, ४।१०-११,

९. वही, ५।८-१२,

१०. वही ५।१०,

काल स्वरूप वतलाया गया है। संभवनः उस समय चोर भी थे जो सन्धिच्छेद किया करते थे।<sup>१</sup> नाटक में चोर को कुम्भीलक शब्द प्रयुक्त है।

**वस्तुशिल्प तथा चित्रकला:**— नाटक में प्रयुक्त दीविका, गवाक्ष, समुद्रगृह तथा चतुःशाला आदि शब्दों से वस्तुकला के विकास का ज्ञान होता है। विशेष रूप से नाटक में चित्रकला के सम्बन्ध में ज्ञान होता है।<sup>२</sup> नाटक में चित्रणाला तथा चित्र एवं चित्रप्रतिकृति शब्द का उल्लेख है। नाटक से ज्ञात होता है कि चित्रकला में लोग निपुण हुआ करते थे।

**नाट्यशास्त्र:**— कालिदास के मालविकाग्निमित्र नाटक में अनेकों नाट्य-पास्त्रीय संकेत उपलब्ध होते हैं।<sup>३</sup> कालिदास को नाट्यकला, संगीतकला, नृत्यकला आदि सभी की सूक्ष्म जानकारी थी। नाटक में नाम्ना नाट्यशास्त्र का भी उल्लेख है। कालिदास ने इसे प्रयोग-प्रधान वतलाया है।<sup>४</sup> कालिदास ने इस नाटक में दो नाट्याचार्यों की भी अवतरणा की है—गणदास तथा हरदत्त। इन दोनों को नाटक में नाट्याचार्य तथा अभिनयाचार्य शब्द प्रयुक्त है। गणदास नाट्यविद्या को अपनी कुलविद्या वतलाता हुआ इसके प्रति सहज आन्मीयता प्रदर्शित करता है। नाटक में नाट्यविद्या के गौरव को व्यक्त करते हुए इसे “चाक्षुपयन्न” तथा विभिन्न रूचिवालों का एक मात्र समाराधक कहा है।<sup>५</sup>

उस समय नाटकों तथा नृत्यादि का प्रदर्शन प्रेक्षागृह में होता था।<sup>६</sup> प्रेक्षागृह में तिरस्करणी (पर्दा) भी प्रयुक्त होती थी। प्रेक्षागृह में दर्शकों को बैठने की भी व्यवस्था होती थी। दर्शकों के लिए नाटक में सामाजिक शब्द प्रयुक्त है।<sup>७</sup>

नाटक से ज्ञात होता है कि अभिनय आदि का प्रदर्शन संगीतशाला में होता था।<sup>८</sup> नाट्याचार्य शिष्य वर्ग को गान, वाद्य, नृत्य आदि की समष्टि रूप संगीत

१. मालविका० ३।१६-२०,

२. वही, १।३-४,

३. वही, १।१५-१६,

४. देवानाभिदमामनन्ति मुनयः शान्तं चतुः चाक्षुपम्,  
रुद्धे रोमुमाकृतव्यतिकरे स्वांगे विभक्तं द्विघा।  
त्रिगुण्योदभवमत्र लोकचरितं नानारसं दृश्यते,  
नाट्यं भिन्नरूचेऽनस्य बहुधाप्येक समाराधनम् ॥

वही, १।४,

५. वही, १।१६-२०,

६. वही, २।१,

७. वही, ६।२१-२२,

८. वही, १।३-४,

की मरीगीण शिक्षा देते थे। सगीत तथा नाट्यकला के विभिन्न ग्राम्य शब्दों का भी नाटक में प्रयोग हुआ है।

सगीतक —इसका तात्पर्य नाटक से ही है। इसमें नृत्य, वाद्य, गीत तीनों प्रयुक्त होते हैं। सगीतक से सगीत-रचना सभवत भिन्न होती थी। नाटक में सगीत रचना का पृथक् उल्लेख है।<sup>१</sup> नृत्य या अभिनय से पहिले वाद्य-यत्रों के द्वारा जो सगीतारम्भ किया जाता है उसे सगीत-रचना कहते हैं।

छलिक.—इसके सम्बन्ध में कही-कहीं चलित भी पाठ मिलता है। यह एक प्रवार का साभिनय गान होता है। कालिदास ने छलिक को शर्मिष्ठा द्वारा प्रवर्तित "चतुष्पादोत्थ" अत्यन्त कठिन नृत्य कहा है।<sup>२</sup> चतुष्पथ के सम्बन्ध में नाटक में लिखा है कि यह शर्मिष्ठा द्वारा प्रकाशित मध्यमलय समन्वित चतुष्पथ गान है।<sup>३</sup> वास्तव में चतुष्पदी एवं गीति विशेष है, जिसे चारों चरणों के उत्थान के साथ गाया जाता है। नाटक से यह भी ज्ञात होता है कि उपगान के अनन्तर ही नतुण्ड-वस्तु गायी जाती है। तदनन्तर रसानुरूप नृत्य किया जाता है।<sup>४</sup> इसी को छलिक नामक अभिनय नृत्य कहते हैं। शर्मिष्ठा वृषपर्व नामक असुर वी कन्या तथा यथाति की पत्नी थी। छलिक उसी की कृति है। इस नृत्य की विशेषता यह है कि इसमें किसी पुरावृत्त की ओर निर्देश करके स्वामिप्राय का प्रकाशन किया जाता है। नाटक में भालविका ने भी इसी प्रकार प्रदर्शन किया है। यह एक प्रकार से प्रेमी के प्रति स्वाम निर्देश पूर्वक अभिनय-व्याज से सुकुमार प्रार्थना ही होती है।<sup>५</sup> परिवाजिका के निरायिक शब्दों से स्पष्ट है कि यगो द्वारा गेयार्थ इतनी सफाई से प्रकट किया जाता है, मानो अग घोल रहे हो। चरणान्यास लयानुगत रहता है। रस में तन्मयता रहती है। हाथो द्वारा दिया गया ताल अभिनय की कोमलता घड़ता है। एक भाव दूसरे भाव को प्रेरित करता है और इस प्रकार राग की एकतारता बंधी रहती है।<sup>६</sup>

१. मालविका० ११६-२०,

२ शर्मिष्ठाया कृति चतुष्पादोत्थ छलिक दुष्प्रयोग्यमुदाहरति। वही ११६-२०,

३ शर्मिष्ठाया कृतिलंयमध्या चतुष्पदास्ति। वही २११,

४. वही, २१३-४,

५. वही २१५,

६ अङ्गे रत्ननिर्हतवचनं सूचितः सम्यार्थं पादन्यासो सयमुपगतस्तन्मयत्वं रसेषु।

शालायोनिमूर्दुरभिनयस्तद्विकल्पानुवृत्तो भावो भाव नृदति विषयाद्वागवःपः स एव। वही, २१८,

**भाविक नृत्य<sup>१</sup>**—भाविक भी एक नृत्य-विधा है। भाविक नृत्य उसे कहते हैं जिसमें ग्रविकांश में आंगिक अभिनय होता है, वाक्-प्रयोग स्वल्प मात्र होता है तथा भावपूर्ण पदार्थाभिव्यक्ति होती है।

**पञ्चांगाभिन्न्य<sup>२</sup>**—पञ्चांग-अभिनय के सम्बन्ध में संगीत रत्नार्कार में नृत्, कैवार ममंर, गागर, गीत नामक ५ अंगों का उल्लेख किया है। कुछ विद्वात् चित्त, अक्षि, भ्रू, हस्त पाद इन अंगों की द्वारा अवस्थानुकरण को पञ्चांगाभिनय कहते हैं।

**सर्वांग सौष्ठव<sup>३</sup>**—नाटक में अभिनय या नृत्य प्रदर्शन के लिए सर्वांग सौष्ठव आवश्यक बतलाया गया है। यहाँ सर्वांग सौष्ठव का अभिप्राय यही है कि नृत्य करते समय अंग प्रत्यग में सहज ही भावाभिव्यक्ति हो सके, इसलिए प्रत्येक अंग को मुद्दङ पुष्ट तथा उभरा होना आवश्यक होता है। नाटक में भी इस अंग-सौष्ठव की परीक्षा के बिना कृतिम देश-भूपा के द्वारा नृत्य प्रदर्शन का निर्देश किया गया है।<sup>४</sup>

**पुष्कर आदि वाद्य**—इसके अलावा नाटक में मृदंग, पुष्कर वाद्य, आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है।<sup>५</sup> इसमें मृदंग तथा मुरज प्रसिद्ध है। पुष्कर वाद्य एक विशेष प्रकार का भारतीय वाद्य यन्त्र है।

**मायूरी**—यह पुष्कर वाद्य की ही एक मार्जना होती है अर्थात् पुष्कर वाद्य का यह शब्द विशेष है जो कि हाथ की धाप के साथ गम्भीर स्वर से किया जाता है। पुष्कर में तीन मार्जना होती है। मायूरी, अर्धमायूरी तथा कार्मारी। मायूरी मध्यमस्वरोत्तेया होती है।<sup>६</sup> यह मयूरों को प्रिय होने से मायूरी कहलाती है। स्वर सात प्रसिद्ध हैं। पड़ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, धूचत, निपाद। माना जाता है कि ये सभी स्वर सरस्वती की दीणा से उत्पन्न हुए हैं। इसी प्रकार लय तथा शाल्वा शब्द का नाटक में प्रयोग है। लय तालवर्ती काल को कहते हैं। शाल्वा नृत्य करते समय हस्तसचालन को प्रयुक्त है। स्पष्ट है कि मालविकार्निमित्र में घनेक नाट्यशास्त्रीय शब्दों का प्रयोग हुआ है। इनसे कालिदास के नाट्यशास्त्रीय ज्ञान तथा कालिदास के समय में नाट्य-शास्त्र के प्रचलन तथा लोकप्रियता का सहज ग्रनुमान लगाया जा सकता है।

१. मालविका० ११७,

२. वही, ११६-७,

३. वही, ११५-१६, १६-२०,

४. वही ११६-२०,

५. वही, १२१-२२,

६. वही. १२१,

## २५६ सास्कृत के ऐतिहासिक नाटक

मालविकामिनीमित्र के सास्कृतिक स्वरूप का संक्षिप्त सर्वेषण बरने से यह निश्चय हो जाता है कि कालिदास के दोनों नाटकों की अपेक्षा इसमें सास्कृतिक सम्पत्ति की मात्रा प्रचुर है। और इस सास्कृतिक सम्पत्ति के विनियोग से न केवल नाटक का कलात्मक महत्व बढ़ा है, अपितु ऐतिहासिक वातावरण के निर्माण में तथा सास्कृतिक चिन्नाभिव्यक्ति में भी अधिक सफलता मिली है। इस हृष्टि से नि सन्देह इस नाटक का कालिदास के अन्य नाटकों में अत्यधिक महत्व है।

---

## मृच्छकटिक

संस्कृत-नाट्यमाहित्य में मृच्छकटिक अपने प्रकार को एक अन्यतम लोकप्रिय कृति है। किन्तु मृच्छकटिक की लोकप्रियता केवल इसकी नाट्यकला की सफलता के कारण ही नहीं है, अपितु समाज एवं संस्कृति का यथार्थ चित्रण तथा प्रणायकथा एवं ऐतिहासिक घटना का कलात्मक विनियोग भी इसके लोकप्रिय होने का प्रमुख कारण है। एक और यह प्रणायप्रधान प्रकरण होने के कारण सुमधुर सरस शृंगार-रस का आस्वाद कराता हुआ, तत्कालीन समाज का यथार्थ सजीव अंकन करता है, वहाँ दूसरी ओर राजनीतिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप का प्रांजल प्रतिविम्बन भी। यही कारण है कि मृच्छकटिक अन्य नाटकों की अपेक्षा महत्व रखता है।

### मृच्छकटिक : संस्कृति-प्रधान ऐतिहासिक नाटक

यद्यपि, सामान्यतया मृच्छकटिक का सर्वाधिक महत्व एकमात्र सफल सामाजिक नाट्यकृति होने के कारण ही माना जाता है, किन्तु हम संस्कृत के ऐतिहासिक नाटक के रूप में भी मृच्छकटिक को महत्वपूर्ण मानते हैं। इसमें संदेह नहीं कि मृच्छकटिक सफल सामाजिक नाटक है, किन्तु सामाजिक नाटक के रूप में सफलता का प्रमुख कारण आनुरूपिक रूप में संश्लिष्ट इसकी ऐतिहासिक घटना (कथा) भी है। यदि मृच्छकटिक से ऐतिहासिक घटना को निकाल दिया जाय तो निश्चित है कि मृच्छकटिक का सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्ष निर्जीव निरर्थक तथा कान्तिहीन हो जायगा, और यह केवल प्रणायप्रधान नाटक ही कहलाने लगेगा। अतः हम यह मानते हैं कि मृच्छकटिक की सामाजिक यथार्थता का प्रमुख कारण इसकी ऐतिहासिक घटना है।

इसके अतिरिक्त समाज तथा संस्कृति इतिहास का प्रमुख अङ्ग है। समाज तथा संस्कृति में ( प्रच्छन्न रूप से ) इतिहास अवश्य रहता है। इतिहास के बिना न संस्कृति सर्वांगीण रूप से अभिव्यक्त होती है, और न संस्कृति के बिना वास्तविक

इतिहास। सस्कृति तथा समाज इतिहास के चौमटे में जड़े जाने पर ही अपनी सवित्ति तथा रूपमाधुरी का यथार्थ प्रदर्शन करते हैं। इसी प्रकार इतिहास, सम्भृति तथा समाज में मृपृक्ति होने पर ही अपने स्वरूप का वास्तविक प्रतिविम्बन करता है। वास्तव म इतिहास यदि शरीर है, तो सम्भृति उसका प्राण, इतिहास यदि भाषा है तो सम्भृति उसकी वागी, और इतिहास यदि दर्पण है तो सम्भृति उसमें प्रतिविम्बन होने वाला रूप। सम्भृति के बिना इतिहास न प्राप्तिवाद् इतिहास बन सकता है, न इतिहास की भाषा को वाणी मिल सकती है और न इतिहास के दर्पण म सस्कृति के सजीव रूप का प्रतिविम्बन ही हो सकता है। अनुत इतिहास, समाज तथा सम्भृति परस्पर सापेक्ष्य है, इनके परस्पर मशिलष्ट होने पर ती मम्पूर्ण रूप में इतिहास आविभूत होता है। और ऐतिहासिक ना मुखर हो उठती है। अनेक हमारी मान्यता है ति मूच्छकटिक में, ऐतिहासिक घटना के आनुपग्रह रूप म उगतिवढ़ होने तथा साम्भृतिक एव मामाजिक चित्रण से सापेक्ष होने के कारण ही ऐतिहासिक ना अभिव्यक्त हुई है। मूच्छकटिक म प्रासादिक कथा ऐतिहासिक होने के साथ-साथ नाटक में वसित मामाजिक तथा साम्भृतिक चित्रण अधिकांश म सेतिहासिक कथा में अभिभूत तथा सपृक्ति होने के कारण मूच्छकटिक का ऐतिहासिक नाटक के रूप में समधिक महत्व है। यही कारण है कि हम मूच्छकटिक का ऐतिहासिक नाटकों के अध्ययन-क्रम में रखना आवश्यक समझते हैं। मूच्छकटिक के अध्ययन के प्रसार में नाटक की ऐतिहासिक घटना तथा सामान्यत सास्कृतिक भूपति का अध्ययन ही हमारा मुख्य उद्देश्य होगा। तथापि प्रमगवश शूद्रक की ऐतिहासिक ना ऐतिहासिक का भी सक्षिप्त विश्लेषण करते हुए किसी निरिचन मूल को पकड़ने की चेष्टा करेंगे तथा व्यानक के स्त्रोत के ग्रनुमन्यान के प्रमाण में कुछ अभिनव तथ्यों की सनुपलद्धि का प्रयास भी।

## मूच्छकटिक का रचयिता

सामान्यत प्राचीन समय में यरम्परा के रूप में यह मान्यता चली आ रही है कि मूच्छकटिक शूद्रक की रचना है। मूच्छकटिक की प्रस्तावना में भी शूद्रक की नाटक का कर्ता निभा है। प्रस्तावना में शूद्रक के व्यक्तित्व पर विस्तार में प्रकाश हानते हुए निभा है कि इस (नाटक) की रचना हिंजमुन्यतम विवि शूद्रक ने की थी।<sup>१</sup> वह ऋग्वेद, सामवेद, गणित, हस्तशिला आदि विद्याओं और कलाओं में निपुण था, शिवजी को हृषा से ज्ञान प्राप्त करके तथा अपन पूत्र को गजा बनाऊ वह

११० वर्ष की आयु में अविन में प्रविष्ट हो गया।<sup>१</sup> उसी में आगे लिखा है कि वह समर-व्यवनी प्रमाणित, वेदज एवं तपोघनों में श्रेष्ठ, हायियों के साथ बाह्युद्ध का ईच्छुक राजा था।<sup>२</sup> उसी ने उज्जयनी के सार्यवाह दरिद्रचाहूदत तथा वसन्त-सेना की प्रणयगाया को लेकर इस प्रकरण की रचना की है।<sup>३</sup> इस प्रस्तावना में लेखक की अन्य वैयक्तिक विजेयताओं के साथ रचयिता को नाम्ना शूद्रक तथा क्षितिपाल कहा है। इससे प्रकट है कि मृच्छकटिक का रचयिता शूद्रक राजा था। किन्तु प्रस्तावना में यह उल्लेख नहीं है कि शूद्रक कहाँ का राजा था, कब हुआ था ? वल्किंटीक इसके विपरीत अग्नि-प्रवेश आदि सुदूर की घटनाओं का उल्लेख किया है। यही कारण है कि कुछ अनुसन्धित्यु विद्वानों को शूद्रक की ऐतिहासिकता में सन्देह हुआ है, तथा अधिकांश विद्वानों ने परस्पर विपरीत एवं आत्म-प्रशंसा-पूर्ण अस्वाभाविक उल्लेखों के कारण प्रस्तावना के इन श्लोकों को प्रक्षिप्त तथा अविश्वस्त माना है। और प्रस्तावना के सम्बन्ध में यही अविश्वास तथा सन्देह मृच्छकटिक के कर्तृत्व के विषय में एक समस्या बन गई है।

शूद्रक का व्यक्तित्व संस्कृत जाहित्य में साहित्यिक तथा राजा के रूप में अपरिचित नहीं है। विक्रमादित्य के समान ही शूद्रक से सम्बन्धित अनेक प्रकार की कथाओं का संस्कृत माहित्य में उल्लेख है। कादम्बरी, कथासरित्सागर, वैतालपंचविंशति, हर्यंचरित्र आदि में शूद्रक से सम्बन्धित अनेक प्रकार की कथाएँ पाई जाती हैं। अनेक कथाओं में लोक कथाओं के रोमांटिक व्यवित्तत्व के रूप में भी शूद्रक चित्रित है। यही कारण है कि कुछ विद्वान् शूद्रक की ऐतिहासिकता की थाह पाने में असमर्थ होने के कारण प्रस्तावना को प्रक्षिप्त तथा अविश्वस्त कह कर शूद्रक के कर्तृत्व में सन्देह करते हैं। इन विद्वानों ने लेखक के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न मत दिये हैं। डा० पिशेल ने मृच्छकटिक का कर्ता शूद्रक को न मान कर दण्डी को माना है।<sup>४</sup> मैकडानल ने भी इसी मत का समर्थन किया है,<sup>५</sup> तथा श्री करमरकर ने काव्यादर्श तथा मृच्छकटिक में प्राप्त विभिन्न समानताओं के आधार पर इस मत को पुनर्जीवित किया है।<sup>६</sup> किन्तु यह मान्यता भी सर्वथा निःसार है। डा० सिल्वर्जलेची भी शूद्रक

१. मृच्छकटिक १४,

२. वही, १५,

३. वही, १६,

४. मृच्छकटिक : इन्डोडक्शन : एम० आर० काले० पृ० १७,

५. ए हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर : मैकडानल : पृ० ३६१,

६. न्यू एण्टिकिवरी बाल्यम २ नं० २ पृ० ३०-३५.

को मृच्छकटिक का कर्त्ता स्वीकार नहीं करते हैं। उनके ग्रन्थानुसार मृच्छकटिक के किसी लेखक ने अपनी कृति को प्राचीनता देने के लिए ही शूद्रक ने नाम से चला दिया है।<sup>१</sup> ए० वी० वीथ भी शूद्रक को मृच्छकटिक का रचयिता नहीं मानते हैं। कीथ शूद्रक को ऐतिहासिक व्यक्ति न मानकर कल्पित (लिजेन्डी परसन) व्यक्ति मानते हैं।<sup>२</sup> इसी प्रकार कुछ अन्य विद्वानों ने भी मृच्छकटिक को शूद्रक की कृति स्वीकार नहीं दिया है। इनमें मृच्छकटिक के अमेरिकन अनुवादक औलिवर तथा नेहरकर आदि विद्वाद् प्रमुख हैं जिन्होंने इस प्रकार के सभी ग्रन्थाचीन शोध के पश्चात् व्यर्थ हो गय हैं।<sup>३</sup>

दूसरे, कुछ ऐसे भी विद्वाद् हैं जो शूद्रक को ऐतिहासिक व्यक्ति स्वीकार करते हैं। कर्नल वाइल्ड फोड़ ने पुराणों की वश परम्परा, विशेषतः स्कन्दपुराण के कुमारिका वर्ण के आधार पर शूद्रक का अस्तित्व १६० ई० म माना है।<sup>४</sup> कुछ अन्य विद्वान् आधिकारकों के प्रथम राजा सिमुक (मिशुर, मिप्रक आदि) से शूद्रक को अभिन्न मानते हैं। ढा० स्मिथ आदि इतिहासकार इस सिमुक का समय २४० ई० पू० के लगभग मानते हैं। अत इनके अनुसार शूद्रक तृतीय मदी १० पू० मेरठहरता है।<sup>५</sup> मटेनकोनो मृच्छकटिक के रचयिता शूद्रक का साम्य आधीरवश के राजा शिवदत्त (सन् २४२ ई०) से मानते हैं।<sup>६</sup> श्री चन्द्रबली पाठेष अनक पौराणिक तथा साहित्यिक माध्यों के आधार पर वाशिष्ठीपुत्र पुत्रुमावि से शूद्रक को अभिन्न मानते हैं।<sup>७</sup> इसी प्रवार कुछ अभिन्नित्र के साथ शूद्रक का साम्य मानत है।<sup>८</sup>

१. सस्कृत द्रामा पृ० १३०,

२. वहो, पृ० १२६-३०,

३. देखो, इन्ट्रोडक्शन दृ० वि स्टडी आफ मृच्छ० पृ० ३,

४. मृच्छ० वी० जो पर्वजये पृ० ७,

५. वहो, किन्तु रायचोपरी तथा त्रियाठी आदि ६० पू० प्रथम शतक मे धार्मों का प्रारम्भ मानते हैं देखो प्रा० भा० इति० पृ० १४६,

६. वहो पृ० ८ तथा ए हिन्दू प्रांक सस्कृत लिटरेचर० दासगुप्ता, वाल्पूष १, पृ० २५०,

७. शूद्रक चन्द्रबली पाठेष, पृ० १-३८,

८. “शूद्रकस्त्वं निश्चाल्यो हात्व स्यात् सातवाहन् !”

अमरकोश की हात धारणी की नामलिंगानुशासन की टीका,

त्रिवेन्द्रम् सस्करण २१८।, देखो भारतवर्ष का बृहद इतिहास, पृ० २७६ तथा २६२,

उपर्युक्त विद्वान् शूद्रक को ऐतिहासिक भी मानते हैं तथा मृच्छकटिक का लेखक भी स्वीकार करते हैं। किन्तु ये मत व्यक्तिगत मान्यता तक ही सीमित हैं। व्यापक रूप से इनको समर्थन नहीं मिला है।

अवर्वाचीन समाजोचकों ने उपर्युक्त मतों से प्रभावित होकर ही अपने-अपने मत स्थापित किये हैं। एक प्रचलित धारणा यह है कि शूद्रक ऐतिहासिक व्यक्ति अवश्य है, किन्तु मृच्छकटिक की प्रस्तावना में उल्लिखित शूद्रक कल्पित है। मृच्छकटिक का कर्त्ता शूद्रक नहीं है, अपितु भास के चाहूदत्त को अपूर्ण देखकर किसी ने संपूर्णता देते हुए मृच्छकटिक के रूप में अभिसृष्ट कर दिया है। दूसरे, कुछ विद्वानों भी धारणा यह है कि शूद्रक ऐतिहासिक अवश्य है तथा मृच्छकटिक भी किसी शूद्रक की ही रचना है। किन्तु शूद्रक की ऐतिहासिकता के द्वारा शूद्रक के कृतित्व का निश्चित समय स्थापित करना कठिन है। ये विद्वान् केवल परम्परा का अनुसरण करते हैं, इनके मौलिक तर्क नहीं हैं।

हमारी मान्यता यह है कि निश्चित रूप से शूद्रक ही मृच्छकटिक का रचयिता है। यद्यपि हम प्रस्तावना को शूद्रक की रचना स्वीकार नहीं करते, किन्तु प्रस्तावना के उल्लेखों को साधेंक तथा महत्वपूर्ण मानते हैं। निःसन्देह मृच्छकटिक की प्रस्तावना में बहुत स्वारस्य है। प्रस्तावना के लेखक ने मृच्छकटिक के लेखक के सम्बन्ध में अवश्यमेव किसी निश्चयात्मक ज्ञान के आधार पर ही उल्लेख किया होगा, अतः प्रस्तावना की उपेक्षा करके किसी तथ्य का अन्वेषण सर्वथा असंगत प्रतीत होता है।

प्रस्तावना में शूद्रक के सम्बन्ध में मुख्यतः दो वातों का उल्लेख है—(१) शूद्रक एक विश्यात, विद्वान्, वलशाली राजा हुआ है, (२) उस कवि शूद्रक ने ही मृच्छकटिक की रचना की है। अतः यह देखना आवश्यक है कि विश्याल संस्कृत चाड़मय में किसी कवि तथा साहित्यकार राजा शूद्रक का उल्लेख है या नहीं, यदि कोई उल्लेख है, तो शूद्रक को मृच्छकटिक का रचयिता माना जा सकेगा, अन्यथा नहीं।

संस्कृत साहित्य के अनेक ग्रन्थों में शूद्रक से सबन्धित घटनाओं का उल्लेख<sup>१</sup> है। यदि कथामरितसागर, वैतालपंचविंशति, तथा अन्य अनुपलब्ध ग्रन्थ शूद्रकवद्ध, शूद्रककथा, विकान्त शूद्रक, शूद्रक चरित, विनयवती शूद्रक आदि को कल्पित तथा अविश्वस्त भी मानलें, तब भी कुछ अन्य ऐसे ग्रन्थों में शूद्रक का उल्लेख है जिनको सहसा अविश्वस्त या कल्पित नहीं माना जा सकता। राजशेखर ने शूद्रक का साहित्य-

प्रेमी राजा के रूप म उल्लंखित किया है, इसी की सभा मे शामिल सौमित्र थे, जिन्होंने शूद्रकया की रचना की थी। राजनरगिणी मे विक्रमादित्य के साथ-गाथ शूद्रक मे सम्बन्धित घटना का उल्लेख हुआ है। दण्डी ने भी अवनितमुन्दरी के प्रारम्भ पर शूद्रक का राजा तथा साहित्यकार के रूप म उल्लेख किया है। इनके भी अतिरिक्त वामन ने काव्यालकार सूत्रबृत्ति मे शूद्रक रचन प्रवन्धो का निर्देश किया है। रामचन्द्र गुणचन्द्र ने स्पष्ट मृच्छकटिक को शूद्रक की रचना के रूप मे स्मरण किया है। इनके अतिरिक्त स्वन्दपुराण, मुमतितन्त्र, वृष्णि चरित आदि अनक ग्रन्थो मे शूद्रक का राजा तथा साहित्यकार के रूप मे उल्लेख है।<sup>१</sup> इन सभी उल्लेखो से यह प्रकट हो जाता है कि सम्भृत साहित्य मे कोई शूद्रक नाम का राजा साहित्यकार अवश्य हुआ है तथा वामन और रामचन्द्र गुणचन्द्र के समय तक मृच्छकटिक के कर्ता के रूप मे शूद्रक सुविदिन था। उपर्युक्त सभी साहित्यक तथा आनुशुनिक साक्षों द्वारा पूर्वोक्त प्रस्तावना के उल्लंख सत्य प्रमाणित होते हैं, तथा यह भी प्रमाणित होता है कि मृच्छकटिक के कर्तृत्व का श्रेय शूद्रक को देन के ममन्य म प्रचलित भारतीय परम्परा अमरगत नहीं है। अत कोई कारण नहीं कि प्रस्तावना तो अविश्वसन तथा प्रक्षिप्त मानकर शूद्रक को मृच्छकटिक का कर्ता न माना जाय। नि सन्देह प्रस्तावना का अनुमरण वरत हुए उपर्युक्त वाह्य साक्षों के आधार पर शूद्रक को ही मृच्छकटिक का रचयिता स्वीकार करना उचित है।

किन्तु, शूद्रक को मृच्छकटिक का कर्ता स्वीकार कर लेने पर प्रस्तावना के सन्देहोत्पादक उल्लेखो तथा शूद्रक के समय आदि मे सम्बन्धित प्रश्नो का समाधान कर पाना अत्यत कठिन है। हमारी कठिनाई का सबसे बड़ा कारण यह है कि शूद्रक की लोकप्रियता ने विक्रमादित्य तथा उदयन के समान उमे दन्तक्याओं वा रोमाटिर्पात्र बना दिया है, जो कि सर्वत बल्पित प्रतीत होता है। अत मृच्छकटिक के रचयिता शूद्रक का समय निर्धारित करना एक समस्या है। इसके अतिरिक्त प्रस्तावना म भी शूद्रक के जन्म-स्थान, वश, समय आदि वा कोई उल्लेख नहीं है, बल्कि ११० वर्ष की उम्र म अग्निप्रवेश का उल्लेख वर्गके प्रस्तावना को सन्देहस्पद बना दिया गया है। किन्तु मृच्छकटिक की इस सभी समस्या को मुलभाने के लिये हमारी अपनी विशेष मान्यता है

“हमारी मान्यता है कि वस्तुत मृच्छकटिक किसी प्राचीन ववि शूद्रक की रचना थी। कालान्तर मे मृच्छकटिक के एकाधिक स्वरूप द्वाएँ। इनके बुद्ध-

<sup>१</sup> शूद्रकविरचितायां मृच्छकटिकाया “ . . . . ” शूद्रकादिरचितेषु प्रवन्धेषु का० सू० वृत्ति ३।२४, तथा का० सू० वृत्ति ५।१३ और ४।३।२३ मे नाटक १।६, २।६, उद्दृत है।

मंस्करण साहित्यिक थे, जिनमें माहित्यिक स्वरूप को अविच्छिन्न रखा गया तथा रचयिता के कृतित्व से प्रभावित होकर शब्दाभावना के कारण कुछ अतिरिक्तात्मक रूप से प्रस्तावना में लेखक का परिचय दे दिया गया। कुछ ऐसे भी संस्करण हुए जिनमें रगमीचयता के उपयुक्त अपने विजेय दृष्टिकोण के अनुसार ग्रंथिकांश भाग को छोड़ कर संक्षिप्तरूप में ही संगादित किया गया। इनके सम्पादक ने संक्षिप्त कथानक के अनुमार रंगमंचीय संस्करण का नाम भी दूसरा रखा तथा लेखक तक का नाम देना उचित न समझा। आजकल हमें दोनों मंस्करण अवश्य प्राप्त हैं, किन्तु शूद्रक की मूलकृति उपलब्ध नहीं है। प्राप्त मृच्छकटिक शूद्रक रचित मृच्छकटिक का साहित्यिक संस्करण है, तथा चारुदत्त रंगमंचीय संक्षिप्त संस्करण।"

उपर्युक्त मान्यता के अनुसार हम यह अवश्य स्वीकार करते हैं कि प्रस्तावना मूलतः शूद्रक की रचना नहीं है। किन्तु, वह निराधार तथा अविश्वस्त भी नहीं है। हमारा अनुमान है कि शूद्रक के कृतित्व तथा व्यक्तित्व से सुपरिचित व्यक्ति ने ही संस्कृत नाटकों में नाटककारों के परिचय न देने की परम्परा से क्षुब्ध होकर नाटक के साथ नाटककार को अमर करने के प्रयास में ही शूद्रक का परिचय निवाद किया है। प्रस्तावना में "एतत्कविः किल" "अस्यांच कृतो" के रूप में परिचय देने से स्पष्ट है कि यह मूलकवि की नहीं, अग्रिम किसी सम्पादक की प्रस्तावना है। इसके अतिरिक्त "चकार" "वभूव" क्रियापदों द्वारा मृच्छकटिक को भूतकालीन रचना तथा शूद्रक के भूतकालीन अस्तित्व का ही ज्ञान होता है। अतएव हमें प्रस्तावना में उल्लिखित अग्निप्रवेश तथा आत्मप्रशंसा से युक्त अन्य उल्लेखों के आधार पर प्रस्तावना को प्रक्षिप्त मानकर भी अविश्वस्त नहीं मानना उचित नहीं प्रतीत होता। और यही कारण है कि हम शूद्रक को ऐतिहासिक मानकर आनन्द वंशी सिमुक से साम्य मानना उचित समझते हैं।

कुछ विद्वानों के अनुसार प्रस्तावना में अन्य उल्लेखों के साथ-साथ शूद्रक के वंश तथा देश का उल्लेख नहीं किया है। इससे प्रकट होता है कि प्रस्तावना का लेखक शूद्रक से वस्तुतः अनभिज्ञ था। अतएव वह प्रस्तावना को अविश्वस्त मानते हैं। किन्तु यह मत पूर्णतः भ्रान्त है। यह आवश्यक नहीं है कि सम्पादक प्रस्तावना में लेखक से मम्बन्धित प्रत्येक वात का या हम जिसे आवश्यक समझते हैं उसका उल्लेख करता। संस्कर्ता को लेखक के मम्बन्ध में जैसा भी ज्ञान था, तथा उसने जिस रूप में भी परिचय देना उचित समझा, उसी प्रकार श्लोकवद्ध कर दिया है। परन्पराप्राप्त तथ्यों में भी सत्यता अवश्य होती है। अतः जिस रूप में प्रस्तावना में परिचय दिया गया है उसके आधार पर मूलतः शूद्रक को ही मृच्छकटिक का रचयिता स्वीकार करना सर्वथा उचित है।

## मूच्छकटिक का रचनाकाल

मूच्छकटिक के लेखक शूद्रक की तिथि निर्धारित करना कठिन है। हम यह मानते हैं कि शूद्रक की मूल कृति उपलब्ध नहीं है, बाद का सस्करण ही उपलब्ध है। अत हम शूद्रक के सभय निर्धारण के लिए प्राप्त मूच्छकटिक को अन्त साक्ष्य के रूप में उपयोग करना उचित नहीं समझते हैं। उपलब्ध मूच्छकटिक के द्वारा उपलब्ध मूच्छकटिक का ही समय निर्धारित किया जा सकता है न कि किसी पूर्व सस्करण या उसके रचयिता का। यद्यपि मुद्र विद्वानों ने उपलब्ध सस्करण में अन्त साक्ष्य तथा वाह्य साध्यों के आधार पर धानुषानिक रूप से ई० पू० द्वितीय तथा तृतीय शतव से लेकर ई० के यष्ठ सप्तम शतव के मध्य में भिन्न-भिन्न समय निश्चित किय है, १ किन्तु हम इस तिथि निर्धारण को उचित नहीं मानते हैं। शूद्रक के तिथि-निर्धारण में न तो प्रस्तुत सस्करण के अन्त साध्यों का उपयोग उचित है, और न निरपेक्ष रूप में वाह्य साध्यों का आनुभानिक उपयोग ही। अतएव हम (मूच्छकटिक को मूलत शूद्रक की रचना स्वीकार करन पर भी) उपलब्ध मूच्छकटिक को एक परवर्ती सस्करण मानते के कारण मूच्छकटिक के आधार पर शूद्रक का समय निर्धारित न कर के मूच्छकटिक का ही समय निर्धारित करना उचित समझते हैं।

मूच्छकटिक का रचनाकाल निर्धारित करने के लिए, यद्यपि हम वाह्य साक्ष्य तथा अन्त साध्य वा भाश्य लेंगे। तथापि मूच्छकटिक के रचनाकाल का प्रमुख नियामक अन्त साक्ष्य ही है। अतएव प्रस्तुत प्रसग में हम अन्त साक्ष्य वे रूप में विशेष महत्वपूर्ण तथ्यों का ही उल्लेख करते हैं। किन्तु अधिक विस्तार से मामाजिक तथा सास्कृतिक पर्यावरण के प्रसग में ही यथावसार निर्देश किया जाना सभव तथा उचित होगा।

## वाह्य साक्ष्य

सस्कृत साहित्य के अनक ग्रन्थों में शूद्रक तथा मूच्छकटिक का उल्लेख है। अनेक ग्रन्थों में मूच्छकटिक के उल्लेख प्राप्त हैं। किन्तु अतिय सीमा के रूप में वामन के काव्यालकारसूत्रवृत्ति में विश्वस्त उल्लेख उपलब्ध है। वामन के काव्यालकारसूत्रवृत्ति में शूद्रक रचित प्रगन्ध के नाट्य प्रपञ्च का निर्देश दिया है<sup>१</sup>। इसके अन्तिकृत इसी काव्यालकारसूत्रवृत्ति (५।१३ तथा ४।३।२।) में मूच्छकटिक

- १. देखो, हिन्दौ आँक बलात्कल सस्कृत लिटरेचर: एम० कृष्णमाधारियर  
पू० ५७२-५७६,
- २. काव्यालकारसूत्रवृत्ति ३।२।४ शूद्रकादिरचितेषु प्रश्नधेष्यस्यमूर्यान् प्रश्नो दृश्यते,

(११६ तथा २१६) के दो इनोक उपलब्ध हैं।<sup>१</sup> वामन का समय सामान्यतः अष्टम शतक निश्चित है।<sup>२</sup> अतः मृच्छकटिक निश्चित रूप से अष्टम शतक से पूर्व की रचना है। वामन से पूर्ववर्ती दण्डी के काव्यादर्श में मृच्छकटिक (११३४) का एक इनोक उपलब्ध है,<sup>३</sup> तथा दशकुमार-नरित एवं मृच्छकटिक में विशित सामाजिक चित्रण में साम्य है। अतः मृच्छकटिक दण्डी से अर्थात् सातम शतक से पूर्ववर्ती ठहरता है। दण्डी का समय सप्तम शतक ही नाटक के समय की अंतिम सीमा है।

### अन्तःसाक्ष्य

पूर्व-सीमा-निर्धारण के लिये हमें मृच्छकटिक के अन्तःसाक्ष्य पर ही आश्रित रहना पड़ेगा। यद्यपि कुछ विद्वान् चारुदत्त के रचयिता भास के समय को तथा कुछ विद्वान् वृहत्कथा के समय को पूर्वसीमा के रूप में स्वीकार करते हैं। किन्तु हम चारुदत्त को मृच्छकटिक का परवर्ती रंगमंचीय संस्करण ही मानते हैं। अतः इसे पूर्ववर्ती रचना मानकर उपलब्ध मृच्छकटिक का उपजीव्य मानना उचित नहीं है<sup>४</sup>।

वृहत्कथा निश्चित रूप से मृच्छकटिक की अपेक्षा पूर्ववर्ती रचना है। वृहत्कथा यद्यपि मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, किन्तु कथासरित्सागर के रूप में उसका संस्करण प्राप्त है। कथा० में वर्णित रूपणिका गणिका तथा निर्वन्न लनितांगद ब्राह्मण आदि की प्रणाय कथाओं से मृच्छकटिक में वर्णित चारुदत्त तथा वसन्तसेना की प्रणायकथा का अत्यधिक साम्य है। अतः मृच्छकटिक की रचना के लिए नाटककार ने वृहत्कथा से ही प्रेरणा ग्रहण की होगी तथा वस्तु सँजोयी होगी। इस आधार पर मृच्छकटिक का रचनाकाल वृहत्कथा अर्थात् ई० पू० प्रथम शतक के बाद का ठहरता है।

प्रसिद्ध इतिहासकार श्री डे ने मृच्छकटिक का रचयिता शूद्रक को अस्वीकार करते हुए नाटक में प्रयुक्त शकार तथा विद् के रूप साम्य तथा कामसूत्र के अनुसार वसन्तसेना के विचरण के कारण नाटक का रचनाकाल ई० पू० प्रथम तथा ई० की प्रथम शदी के मध्य में माना है<sup>५</sup>। किन्तु मृच्छकटिक में शकार द्वारा अर्थात् चारुदत्त पर वसन्तसेना की हत्या के अभियोग का दण्ड-निर्णय लगभग मनुसमृति के दण्ड-

१. यासांवलिः सपदि-कीट मुखावलीढः ११६ तथा “द्यूतहि नाम पुरुषस्य असिंहासनं राज्यम्” २१६ के बाद तथा ७ के ७ ठीक पूर्व,
२. सं० सा० इति० गौरोला पृ० ६५४,
३. मृच्छ० ११३४, काव्यादर्श २१२२६ में,
४. इसी अध्याय में शागे देखो, “चारुदत्त की परवर्तित तथा अमौलिकता”,
५. ए हिस्ट्री आँफ संस्कृत लिटरेचर० वाल्यूम १ पृ० ७५८,

विधान में माम्य रखना है<sup>३</sup>। अत प्रकट है कि नाटक वीर रचना मनुस्मृति (ई० पू० द्वि० शतक से ई० के द्वितीय शतक) के अनन्तर हुई होगी। आजकल प्राय मृच्छकटिक वा रचनाकाल ई० वीर तृतीय शतक में पष्ठ शतक के मध्य में ही माना जाना है<sup>४</sup>।

कुछ विद्वान नाटक में प्रयुक्त स्वरूप राजा के उत्तरेष्व के आधार पर<sup>५</sup> उमस्ता द्वितीय शतक के छत्रपथजा रुद्रदामन (१३० ई० के लगभग) से साम्य मानकर तथा नाटक में प्रयुक्त “नारायण” शब्द<sup>६</sup> जो वनिष्ठ के समय में प्रचलित हुआ, वीर आधार मानकर नाटक वा “रचनाकाल” ईमा के द्वितीय शतक में मानते हैं<sup>७</sup>। किन्तु नारक में प्रयुक्त “रुद्रोराजा” शब्द का उल्लेख शक वालिपुत्र महन्द, रम्भापुत्र कालिदास तथा मुबन्धु के क्रम में हुआ है। इस अम में ‘स्वरूप’ का साम्य स्वायत् से मानना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। अत यह अनुमान विशेष महत्व नहीं रखता है। इसी प्रकार परायप न नाटक में प्रयुक्त कायथ तथा राष्ट्रीय आदि शब्दों के अर्थ तथा प्रयोग-क्रम वा विवरण करते हुए मृच्छकटिक का समय कालिदास से पूर्व अर्थात् ई० के चतुर्थ तथा पचम शतक से पूर्व द्वितीय तृतीय शतक के लगभग माना है<sup>८</sup>। किन्तु कालिदास की कृतियों पर कुछेक साम्य या प्रभाव खोज लेने मात्र से किसी निष्पत्ति पर पढ़ चना ग्रसम्भव है। परायपे कालिदास को गुप्तकाल में मानते हैं, और मृच्छकटिक को कालिदास में पूर्व मानकर उसका रचनाकाल द्वितीय तृतीय शतक में स्वीकार करते हैं। हम कालिदास को ई० पू० प्रथम शदी में मानते हैं। यदि हम परायप के अनुसार कालिदास को मृच्छकटिक में परवर्ती मानते तो हमारे मतानुसार मृच्छकटिक ई० पू० द्वितीय तृतीय शतक वीर रचना होता चाहिय, जबकि यह वदापि समव नहीं है। इसक अतिरिक्त प्रो० जागीरदार न मृच्छकटिक पर कालिदास का प्रभाव मिढ़ रिया है<sup>९</sup>। अत केवल प्रभाव या साम्य ही निरण्यित नहीं हो सकता। वह तो बबल विसी तथ्य की पुष्टि या समर्थन भर कर सद्वता है। अविकाश विद्वानों ने अनक प्रमाणों के आधार पर मृच्छकटिक का कालिदास का परवर्ती ही स्वीकार किया है।

१०. मृच्छकटिक ११३६ तथा मनुस्मृति ८१३८०-८१, मिलाइये।

२. गुप्तसाम्राज्य का इतिहास, उपाध्याय, भाग २, पू० १०७,

३. रुद्रोराजा द्वौरापुत्र, मृच्छ ८११४,

४. मृच्छ ११२३,

५. मृच्छकटिक रुद्रोद्वशन, स० वासि, पू० २३,

६. मृच्छकटिक इन्द्रोद्वशनः स० परायपे पू० १७-२८,

७. ड्रामा इन सत्कृत लिट० जागीरदार पू० १०३-४,

प्र० जागीरदार ने मृच्छकटिक के भाषापक्ष तथा वस्तुतत्त्व का समीक्षण करते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि मृच्छकटिक की रचना उस समय हुई, जबकि समाज में भाग्यवादिता बढ़नी जा रही थी, वो धर्म का पुनरुत्थान हो रहा था तथा प्राकृत के प्रतिरिक्ष अपनेश भी प्राप्त: बोलचाल में प्रयुक्त होती थी। ऐसी परिस्थितियाँ गुप्तों के पतन तथा हर्ष के राज्यकाल के मध्य में समप्रलृप से दीख पड़ती हैं। इसी सदर्भ में जागीरदार ने मृच्छकटिक पर कालिदाम का प्रभाव खोज कर अपने मत का समर्थन किया है। प्रतः जागीरदार के यनुसार मृच्छकटिक का रचनाकाल ई० के पचम शतक तथा पष्ठ शतक के मध्य ठहरता है।<sup>१</sup>

ड० व्यास ने भी गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद की अराजकता तथा गुप्तोत्तरकालीन समाज की पृष्ठभूमि का विस्तार से दिवर्दर्शन कराते हुए धर्म, संस्कृति, राजनीति से सम्बन्धित अनेक अन्तर्ग प्रमाणों के आधार पर यही निष्कर्ष निकाला है कि मृच्छकटिक का रचनाकाल ईमा की पांचवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध या छठी शती के पूर्वार्द्ध में माना जा सकता है।<sup>२</sup>

इसके अतिरिक्त मृच्छकटिक में एक प्रबन्ध अन्तर्ग प्रमाण और उपलब्ध है। मृच्छकटिक में नाटककार ने वृहस्पति और मगल (अंगारक) का विरोधी के रूप में उल्लेख किया है।<sup>३</sup> आजकल भी वराहमिहिर के अनुसार दोनों ग्रहों को मित्र माना जाता है। इसके अतिरिक्त वराहमिहिर के वृहज्ञातक से यह भी ज्ञात होता है कि उनसे पूर्व कुछ आचार्य वृहस्पति तथा मंगल को शत्रुगृह भी मानते थे।<sup>४</sup> इस आधार पर यह स्वीकार किया जा सकता है कि मृच्छकटिक का रचनाकाल वराहमिहिर से अर्थात् पष्ठ शतक से कुछ पूर्व ही होना चाहिये।

उपर्युक्त सभी प्रमाणों से यह स्पष्ट होता है कि मृच्छकटिक की रचना पंचम शतक के उत्तरार्द्ध तथा पष्ठ शतक के पूर्वार्द्ध में ही हुई होगी। इस मत के समर्थन में सामाजिक तथा सांस्कृतिक दशा के प्रसंग में भी यथावसर प्रकाश डाला जायगा।

१. ड्रामा इन संस्कृत लिट० पृ० १०१-५,

२. सं० क० दर्शन, पृ० २८१-२८४,

३. अंगारकविश्वदस्य प्रक्षीणस्य वृहस्पतेः, मृच्छ० ६।३३,

४. जीवेन्द्रवृण्दकराः कुजस्य सुहृद् वृहज्ञातक, २।१६,

५. जीवो जीवदुधो सितेन्दुतनयो व्यर्काविभीमाः क्रमात्।

बीन्दुर्का विकुञ्जेन्द्रवश्च सुहृदः क्षेषांचिदेवं मतम् ॥ वृहज्ञातक २।१५,

## मूच्छ्यकटिक का कथानक

मूच्छ्यकटिक १० अंको का विशालराय प्रकरण है। इसका कथानक धूर्तमकुल है, अत यह सभीण्ठीटि का प्रकरण है।<sup>१</sup> सामान्यत मूच्छ्यकटिक का कथानक दो भागो में प्रवाहित हुआ है। एक में, चाहदत और वसन्तसेना की प्रणायकथा विवरित है, दूसरे म पालक और आयक की गजनैनिक कथा निवद है। ये दोनो कथानक अमर, आधिकारिक तथा प्रासादिक कथा के रूप में संशिलिष्ट हैं।

प्रथम अंक में, उज्जयनी की प्रसिद्ध मुन्दरी वसन्तसेना को राजा का श्यालक शकार अपन वश में करना चाहता है, इसीलिये गति में राजमार्ग पर विट और चेट के माय उसका पीछा करता है। किन्तु, शकार के कथन से ही वसन्तसेना को जब यह ज्ञात होता है कि वह चाहदत के मकान के निकट ही है, तो वह उसम घुम जाती है। किन्तु जब, ददनिका क साथ मैत्रेय बलि देन जाता है तो शकार रदनिका को पकड़ लेता है। मैत्रेय उसे ढाटता है। वसन्तसेना शकार से बचने के लिए आमूपणों को न्यास रूप म चाहदत के यही रख देती है और चाहदत स्वय उसे घर तक पढ़ चा आता है। इसी बीच यह व्यक्त हो जाता है कि वसन्तसेना कामदेवायननीदान में देखने के बाद स ही चाहदत पर अनुरक्त है। इस प्रकार अलकारन्यास नामक अंक समाप्त होता है।

द्वितीय अंक में, चाहदत का पुराना नोकर मवाहव चाहदत के दरिद्र हो जाने पर द्यूतश्चमनी हो जाता है। एक बार जब वह जुए में दस स्वर्णमुद्रा हार जाना है, पर चुका नहीं पाता, तो मायुर तथा द्यूतकर द्वारा पीछा किये जाने पर वह वसन्तसेना के घर म घुम जाना है। वसन्तसेना स्वर्णमुद्रण देकर उसे छुरा मुक्त बाग देती है, किन्तु वह ग्नानि का कारण बीदभिक्षु बन जाता है। तभी रास्ते में उन्मुक्त वसन्तसेना का हाथी एवं बीदभिक्षु को कुचलना ही चाहता है कि वसन्तसेना का मेवक करण्पूर उसे बचा लेता है। उसम प्रमान होकर पास मेही खड़ा हुआ नाहदत अपना उनरीय पुरकार म दे देता है। कगापूर इसे वसन्तसेना को दे देता है, वह इसे पाकर बहुत प्रसन्न होती है। यही द्यूतकरसवाहव नामक द्वितीय अंक समाप्त हो जाता है। तृतीय वा नाम सधिच्छेद है। शक्तिरूप नाम का द्वाह्यग वसन्तसेना की दासी मदनिका को मुक्त कराने के लिए चाहदत के घर म सेंध लगाकर न्यास रूप मे रखे हुए वसन्तसेना के आमूपण को ले जाता है। मदनिका-शक्तिरूप नामक चतुर्थ अंक मै शक्तिरूपी आमूपण को लेकर वसन्तसेना के घर जाता है और मदनिका से मिलता है। वसन्तसेना द्विपक्ष उनकी बासी बो मुनकर सारी बात जात जाती है

<sup>१</sup> " 'सभीर्धूनंसंकुल ।'" दशहपदम् ३।४२,

और मदनिका को शविलक के लिये सीधे देती है। इसी बीच चारुदत्त वसन्तसेना के आभूषण के चोरी हो जाने पर दुःखी होता है, और लोकापवाद के भय से पत्नी धूता की रत्नावली को देने के लिये मैत्रेय को वसन्तसेना के घर भेजता है। मैत्रेय उसे यह कह कर देता है कि चारुदत्त न्यासहृष्ट में रखे गये आभूषण को जुए में हार गए हैं, उसके बदले में रत्नावली भेजी है। वसन्तसेना मैत्रेय के द्वारा चारुदत्त से मिलने आने का समाचार भी भेजती है। दुदिन नामक पंचम अंक में वर्णा में भीगती हुई वसन्तसेना विट को साथ लेकर चारुदत्त के पास अभिसार करने के लिए वहाँ जाती है, जहाँ कि वह प्रतीक्षा कर रहा है। दोनों का मिलन होता है और उस रात वह वही रुक जाती है।

षष्ठ अंक में चारुदत्त वसन्तसेना को पुष्पकरण्डक उद्यान में मिलने के लिये कहलवाकर वहाँ चला जाता है। वसन्तसेना चेटी के हाथों रत्नावली को धूता के पास भेजती है, पर वह स्वीकार नहीं करती। तभी सीने की गाढ़ी के लिये रोते हुए रोहसेन को लेकर रदनिका आती है और वसन्तसेना मिट्टी की गाढ़ी से न खेलने वाले रोहसेन को स्वरण की गाढ़ी बनवाने के लिये अपने आभूषणों को दे देती हैं। इसके अनन्तर प्रेमी से मिलने जाने को उत्सुक वसन्तसेना अपने लिये भेजी गई गाढ़ी में न बैठकर अमवश समीप में सड़ी शकार की गाढ़ी में बैठ जाती है। इसी बीच गोपाल-दारक आर्यक, जिसे पालक ने केंद्र कर रखा था, केंद्रबाने से भाग कर आता है, और चारुदत्त की खाली गाढ़ी में बैठ जाता है। गाढ़ीबान वसन्तसेना को आयी समझ कर गाढ़ी हाँक देता है। मार्ग में चन्दन प्रीर बीरक गाढ़ी देखते हैं। चन्दन आर्यक को पहिचान कर रक्षा का वचन देता है, और जब बीरक चन्दन पर सन्देह जाने पर स्वर्यं गाढ़ी देखना चाहता है तो वह भगड़ा कर बैठता है। इसी बीच में गाढ़ी आगे निकल जाती है और प्रवहण विषय नामक षष्ठ अंक समाप्त हो जाता है। सप्तम अंक में आर्यक, उद्यान में चारुदत्त से जा मिलता है। इसी मिलने का वर्णन आर्यकापहरण नाम से किया गया है। अष्टम अंक "वसन्तसेना मोटन" है। वसन्तसेना गाढ़ी में बैठकर उद्यान में पहुंचती है किन्तु वहाँ चारुदत्त के स्थान पर शकार को देखकर भयभीत हो जाती है। शकार के प्रेम को स्वीकार न करने पर, वह उसका गला घोंट कर मारकर भाग जाता है। बौद्धभिक्षु संवाहक वसन्तसेना को मरी देखकर जल आदि डालता है और चंतन्य आने पर समीपस्थ विहार में ले जाता है तथा जीवन-दान देता है। व्यवहार नामक नवम अंक में शकार वसन्तसेना की हत्या का अभियोग चारुदत्त पर लगता है। चारुदत्त वसन्तसेना के साथ अपने सम्बन्ध तो स्वीकार करता है किन्तु अभिसार के लिये आने जाने आदि के सम्बन्ध में स्पष्टतः कुछ भी नहीं बताता। फलतः चारुदत्त को अपराश्री माना जाता है। इसी समय विदूपक मैत्रेय रोहसेन के लिये दिये हुए वसन्तसेना के आभूषण लेकर ग्राता है और शकार से

भगडा कर बैठना है। इस भगडे में ही उसके वगल में आभूपण गिर पड़ते हैं। प्रमाण स्वरूप उन आभूपणों के मिलने पर न्यायाधीशों के द्वारा निधारित निर्वासन के दण्ड के स्थान पर राजा कामी का द०४ देता है। महार नामक दशम शंक में चाण्डाल चारुदत्त को फौसी देने के लिये इमसान में लेजा रहे हैं कि स्थावरक नामक शकार का चेट शकार के वधन से भागकर आता है और स्पष्ट बात बतलाकर चारुदत्त को बचाना चाहता है पर उम दास की बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता। इसी बीच बौद्धभिक्षु वसन्तसेना को साथ लेकर आता है और चारुदत्त बचा लिया जाता है। तभी राज्य में विप्लव होता है। शविलक पालक को मारकर आर्यक को राजा बना देता है। चारुदत्त को भी कुशावनी का राजा बना दिया जाता है। चारुदत्त शकार को धमा दिलवा देता है तथा अन्य सभी आर्यक के मह्योगियों को उचिन पद मिलता है, और अन्त में वसन्तसेना को चारुदत्त का वधूपद मिलने के साथ साथ प्रकरण समाप्त हो जाता है।

### मूच्छकटिक के कथानक का स्रोत

मूच्छकटिक एक प्रकरण का कथानक दशरथक के अनुसार चत्पाद तथा 'लोक-मध्य' होता है।<sup>१</sup> उत्पादवृत्त के द्वोत का अनुसन्धान सर्वथा असम्भव है। किन्तु लोक सत्र्यव्यव्याप्ति के स्रोत का अनुसंधान करके प्राधारभूत कथानक की रूपरेखा खोची जा सकती है। तथापि, प्रकरण के कथानक में ऐतिहासिकता की अपेक्षा अस्वाभाविक है। यद्यपि यह प्रवश्य सम्भव है कि लोकसंश्लिष्ट कथानक में लोक-स्थानक ऐतिहासिक वृत्त के रूप में प्रसगवश कुछ ऐतिहासिकता संप्राप्त हो जाय, तथापि प्रकरण में रूपायित कथानक से ऐतिहासिक तत्त्वोपलब्धि की अधिक आशा नहीं की जा सकती। विशेष रूप से सकीर्ण प्रवार के प्रकरण से इतिवृत्तगत ऐतिहासिक निश्चयात्मकता की आशा करना उचित नहीं है। यही कारण है कि मूच्छकटिक के कथानक से हम इनिवृत्तगत ऐतिहासिकता की आशा नहीं कर सकते।

मूच्छकटिक का पठनाचक्र आधिकारिक तथा प्रामाणिक दो कथाभाग के रूप में विन्यस्त है। आधिकारिक कथानक में चारुदत्त तथा वसन्तसेना की प्रारंभकथा है। प्रासादिक में पालक और आर्यक की राजनीतिक रूप है। मूच्छकटिक का नायक शीरदशान्त-राज्यरूप बारदत्त है, और नायिका कुलजा धूता तथा वैश्या वसन्तसेना है। मूच्छकटिक में उपर्युक्त आधिकारिक तथा प्रासादिक कथा के अतिरिक्त भी सब हक

१. अथ प्रकरणे वृत्तमुख्याद्यं सोकसंधयम्।

"अमात्यविप्रवणिजामेक कृपाच्छ नायकम् ॥" वशरूपक ॥ १६

माथुर, तथा द्यूतकर आदि की द्यूतकथा, शर्विलक तथा मदनिका की प्रगाथकथा आदि उपकथाएँ भी संश्लिष्ट हैं। इन सभी के सम्बन्धण से यह समस्त कथानक इतना विस्तृत अनेकोंगी तथा विविधतायुक्त हो गया है कि संकृत साहित्य के घनेक ग्रन्थों के कथा भाग से इसका कुछ साम्य परिलक्षित होता है। भास का चारुदत्त, कालिदास का शाकुन्तल, विशाख का मुद्राराक्षस, दण्डी का दशकुमारचरित तथा अवन्तिमुन्दरी-कथा और सोमदेव का कथासरित्सागर आदि कुछ ऐसे ही ग्रन्थ हैं, जिनमे स्वल्पाधिक भावां में कथा तथा घटनाओं का साम्य खोजा गया है।<sup>१</sup> किन्तु अभिज्ञानशाकुन्तल, मुद्राराक्षस आदि ग्रन्थों को किसी भी प्रकार से मृच्छकटिक का उपजीव्य नहीं माना जा सकता। अतः सामान्यत भास के चारुदत्त तथा कथासरित्सागर की उपजीव्य वृहत्कथा को ही अधिकांश विद्वान् अपने-अपने वटिकोण के अनुसार इसका उपजीव्य स्वीकार करते हैं।

निःसन्देह भास रचित चारुदत्त नाटक से मृच्छकटिक के कथानक का अत्यधिक साम्य है। अतः, जबसे भास के नाटक चारुदत्त को खोजा गया है, तभी से कुछ विद्वान् मृच्छकटिक तथा चारुदत्त को परस्पर ऋणी मानते हैं तथा अधिकांश विद्वान् चारुदत्त को ही मृच्छकटिक का उपजीव्य मानने के पक्ष में हैं। किन्तु, हम इस प्रकार के किसी मत के पक्ष में नहीं हैं। हमारी मान्यता है कि चारुदत्त तथा मृच्छकटिक में अत्यधिक साम्य होने पर भी चारुदत्त को मृच्छकटिक का उपजीव्य नहीं माना जा सकता। चारुदत्त एक परवर्ती रंगमंचीय संक्षिप्त रूपान्तर है, न कि मौलिक नाटक। मृच्छकटिक तथा चारुदत्त के मूल्य तुलनात्मक परिणीतन से यही ज्ञात होता है कि चारुदत्त की अपेक्षा मृच्छकटिक पूर्ण एवं कुशल नाटककार की नाय्यकृति है। अतः मृच्छकटिक का उपजीव्य चारुदत्त को मानना उचित नहीं है। बहुत समय से चारुदत्त और मृच्छकटिक के सम्बन्ध में विद्वानों में अत्यधिक मतभेद है, तथा इस प्रश्न ने एक समस्या का रूप धारण कर लिया है। अतः यहाँ इसका किञ्चित् विस्तार से विवेचन प्रसंग प्राप्त है।

### चारुदत्त की परवर्तिता तथा अमोलिकता

भास के तेरह नाटकों के आविष्कर्ता श्री टीः गणपति जास्ती ने चारुदत्त को भास की कृति मानकर भास के अन्य नाटकों के साथ प्राचीन नाटकचक्र के रूप में प्रचलित किया है। इस चारुदत्त तथा मृच्छकटिक के प्रथम चार अवृतों में भापा, शब्द, वाक्य, छन्द, घटना पात्र आदि का इतना अधिक साम्य है कि ऐसा प्रतीत होता

१. इन्डोडवशन द्वि दि स्टडी ऑफ मृच्छकटिक: डा० जी० वो० देवस्थली, पृ० १००-२, तथा मृच्छकटिक: इन्डोडवशन सं० परांजये, पृ० २७-२८

है मानों एक ने दूसरे को अपराध उत्तीर्ण बनाया हो तथा अर्थे नाटक को घटा बढ़ा कर दूसरे नाटक के हा मे सपादित वर दिया हो।<sup>१</sup> गणपति शास्त्री के मत मे निष्ठा रखने वाले यनेत्र विद्वानों ने इन दोनों नाटकों का सम्यक् समालोचन किए बिना ही चारदत्त का प्राचीन नाटक मानकर मृच्छकटिक को चारदत्त का परिवर्तित नाट्यरूप माना है या कुछ विद्वानों ने केवल नाट्यशिल्प के स्वरूप, भाषा, काव्य रचना तथा नाटकीय घटनाओं आदि को समना तथा विपरीताओं के आधार पर चारदत्त को मृच्छकटिक का पूर्ववर्ती स्वीकार किया है।<sup>२</sup> इस मत के परिपोषकों मे अग्रगण्य ढा० सुक्यान्कर<sup>३</sup> तथा वेतवलकर<sup>४</sup> आदि ने इस समस्या का विस्तार से अनुशीलन करते हुए चारदत्त का प्राचीन तथा मृच्छकटिक का पूर्ववर्ती उपजीव्य नाटक स्वीकार किया है। इन्हुं अनुक्रमित उगाँवन मत के पक्ष मे नहीं हैं। प्रमुखत ढा० पुश्पकर,<sup>५</sup> प्रो० देवधर<sup>६</sup> प्रो० जागीरदार,<sup>७</sup> ढा० भाग्यव<sup>८</sup> तथा पराजये<sup>९</sup> आदि विद्वानों ने विस्तार मे दोनों नाटकों का अनेक प्रभार से सूक्ष्म प्रध्ययन करते के पश्चात् चारदत्त का अपूर्ण तथा अभिनव सक्षिप्त रूपान्तरित स्वरूप स्वीकार किया है। इनका अभिप्राय है कि चारदत्त के लेखक ने मृच्छकटिक के चार अर्दों के आधार पर सुखान्त नाटक बनाने के उद्देश्य मे उसकी राजनीतिक तथा रोहणीय आदि स सम्बन्धित कथानामाण को छोड़ कर सुखान्त चारदत्त का निर्माण किया है।

नि मन्देह मृच्छकटिक के प्रथम चार अर्दों तथा चारदत्त मे अनेक माम्प हैं, विन्तु चारदत्त मृच्छकटिक के चार अर्दों पर आधारित अपूर्ण तथा मक्षिप्त रूपान्तर

१. इन्ट्रोडक्शन टु दि स्टडी ऑफ वि मृच्छकटिक, ढा० देवस्यती, पृ० १०३-६,
२. मृच्छकटिक • इन्ट्रोडक्शन स० काले० पृ० ३३-४१,
३. सुक्यान्कर मैमीरियल एडीशन याल्मू० २, पृ० १२२,
४. दि रिलेशन ऑफ शूडक्स मृच्छ० टु दि चारदत्त ऑफ भास ढा० एस०के० वेतवलकर, प्रोसीडिंग्स एण्ड ट्रान्सक्शन ऑफ वि फस्टे ओरियन्टल कान्फोर्न्स, १६२२, पृ० १८६-२०४,
५. भास : ढा० पुश्पकर भारतीय विद्यास्टडीज न० १ पृ० ११८-१२०,
६. चारदत्त इन्ट्रोडक्शन : देवधर पूरा १६३६,
७. द्वामा इन सस्त्रत लिटरेचर जागीरदार, पृ० १६१-६३,
८. मृच्छकटिक एण्ड वि चारदत्तम् ढा० भाग्यव, इन्टरनेशनल कान्फोर्न्स ऑफ ओरियन्टलिस्ट २६ वा दिल्ली। तथा कविराज अभिनन्दन थ्रथ, लखनऊ : पृ० ३०५-१०,
९. मृच्छकटिकसू : इन्ट्रोडक्शन : पराजये, पृ० ११-१४,

ही प्रतीत होता है। त्रिवेन्द्रम् से प्रकाशित चारुदत्त के संपादक के अनुसार चारुदत्त की दो हस्तप्रतियों में से एक के अन्त में “प्रवसित चारुदत्तम्” लिखा है,<sup>१</sup> किन्तु चार अकों के चारुदत्त के पढ़ने से वह समाप्त प्रतीत नहीं होता। इसके समुचित उपस्थार के लिए कम से कम एक अक अवश्य अनेकित है। डा० दासगुप्ता ने लिखा है कि चारुदत्त वास्तव में एक अपशङ्क है। नाटक के अन्तःसाक्ष्य से यह ज्ञात होता है कि इसके लेखक या संपादक ने केवल चार ही अंक नहीं लिखे होंगे, किन्तु चार ही अक प्राप्त हैं। नाटक से इसका कोई उत्तर नहीं मिलता है कि चार अंक ही क्यों प्राप्त हैं पूर्ण क्यों नहीं।<sup>२</sup> वास्तव में इन सब प्रश्नों का उत्तर यही है कि चारुदत्त मृच्छकटिक जैसे नाटक पर आधारित अकुशल संपादक द्वारा संपादित रगमंचीय संस्करण है, न कि मौलिक नाटक।

मृच्छकटिक तथा चारुदत्त के तुलनात्मक अध्ययन से यह प्रकट होता है कि दोनों नाटकों में कथानक, पात्र, कथाविकास, शब्द, भाषा, श्लोक आदि में अनेक समानताएँ हैं, किन्तु समानताओं के साथ, तुलनात्मक अध्ययन से यह भी ज्ञात होता है कि शिल्प, भाषा तथा स्वरूप आदि में पर्याप्त अन्तर भी है। अतः यह तो स्पष्ट है कि दोनों नाटक किसी एक ही लेखक की रचनाएँ नहीं हैं, किन्तु समानता तथा विभिन्नताओं के सूक्ष्म अध्ययन से यह भी प्रतीत होता है कि चारुदत्त अपूर्ण तथा अमौलिक नाटक है, जबकि मृच्छकटिक सब प्रकार से पूर्ण साहित्यिक नाटक।

यद्यपि मृच्छकटिक पूर्ण नाटक है, किन्तु इसकी साहित्यिक प्रस्तावना में नाटककार के परिचयात्मक प्रक्षिप्त अंश से यह प्रकट है कि मृच्छकटिक सर्वोर्ण में मौलिक कृति नहीं है, अपितु शूद्रक रचित किसी अन्य मौलिक नाटक का साहित्यिक संस्करण है। अनुमानतः उपलब्ध मृच्छकटिक के मंपादक ने इस नाटक में न केवल मूलकृति के साहित्यिक स्वरूप को अक्षण्णा रखा है, अपितु संभवतः कुछ परिष्कार भी किया है। किन्तु चारुदत्त (ठीक इसके विपरीत) किसी ऐसे ही मूल नाटक के आधार पर किसी अकुशल नाटककार के द्वारा संपादित रंगमंचीय संक्षिप्त संस्करण है। अतः वस्तुतः दोनों ही नाटक मौलिक कृति नहीं हैं, अतः इनकी तुलना के आधार पर निष्कर्ष निकालना कठिन है। तथापि हमारे सामुख ये दो ही हैं; अतः इन दोनों के सम्बन्ध में इन्हीं के आधार पर निष्कर्ष निकालना उचित है। अधिकांश में मृच्छकटिक तथा चारुदत्त की समस्या पर या तो समानताओं को हट्टि में रखकर विचार

१. ड्रामा इन संस्कृत लिट० जागीरदार, पृ० १६१, तथा प्रोसीडिंग्स एण्ड ट्रॉन्सक्शन आँफ दि फर्स्ट श्रीरियन्टल कान्फ्रेन्स, पूना १६२२, पृ० १६०,
२. ए हिस्ट्री आँफ संस्कृत लिटरेचर : वाल्क० १ पृ० १०८,

किया है या वेवल विभिन्नताओं को। किन्तु नार्थगिर्ल, घटनाविदास तथा चरित्र-विवरण आदि की कुशलता अद्भुतता तथा पूर्णता अपूर्णता को सम्मुख रखकर मूलनाटमक स्थप से पर्यवक्षण करने पर कुछ ठोस तथ्यों की समुत्तरिति होनी है। यही हम प्रत्येक अक्ष में कुछ मुल्य-मुख्य उदाहरण देकर निष्पत्ति निकालना उचित समझें।

सर्वप्रथम यदि दोनों नाटकों की प्रस्तावना<sup>१</sup> पर गुलनाटमक हृष्टि हालें तो दोनों नाटकों की अन्यथिक समानता दीख पड़ती है। इससे ऐसा प्रनीत है मानो एक न दूसरे की दृति को सम्मुख रखकर अनुकरण किया हो। मुख्यतः सही भी चार्दित वी शैली तथा शिल्प सविकाश से यही जान पड़ता है मानो चाहूदत के सपादक ने मृच्छकटिक के वाक्योंको काट छाट कर रेगमच की उपयोगिता के उद्देश्य से परिवर्तन किया है। इसके कुछ आगे के वाक्यों से यह योर भी स्पष्ट हो जाता है कि निश्चित स्थप से चाहूदत के सपादक ने ही मृच्छकटिक को सम्मुख रखकर चाहूदत का ह्यान्तर किया है—

सूत्रधार—अथमुपवास बेन ते उपदिष्ट ?

नटी—आयंस्यंव प्रियवपम्येन चूर्णवृद्धेन ।

सूत्रधार—(सरोपम्) या दास्या पुत्र । चूर्णवृद्ध । वदा न खलु त्वा कृपितन राजा पालवेन नववधुकेशकलापितव सुगन्ध छैद्यमान प्रेक्षिष्ये ।<sup>२</sup>

उपर्युक्त मृच्छकटिक के वाक्य सर्वप्रकार से परस्पर सुसम्बद्ध हैं, किन्तु चाहूदत में इन्हीं वाक्यों को इस प्रकार लिखा है—

सूत्रधारः—मर्वतावद् निष्ठतु । कोन्विदानीमार्याया उपवासन्योपदेशिव ।

नटी—अनेन वरिवस्यवेन नूगागोप्तेन ।

सूत्रधार—साधु चूर्णगोप्त । साधु<sup>३</sup> ।

इन वाक्यों से स्पष्ट है कि चार्दित के सपादक के मामने मृच्छकटिक जैसी कृति अवश्य थी। यही वारण है कि चाहूदत के सपादक ने मृच्छकटिक के सूत्रधार के वाक्य को कर्तृवाच्य भ स्पान्तर करके लिखा है, किन्तु नटी की उक्ति को मृच्छकटिक के समान भाववाच्य म ही निख गया है। अन्यथा ये दोनों वाक्य या तो मृच्छकटिक के समान भाववाच्य मे ही होने चाहिये ये या कर्तृवाच्य मे। इन्हीं

१ भासनाटकचक्रम्, चाहूदत प्रस्तावना प्रथम अक्ष, पृ० १६२ तथा मृच्छकटिक चौखम्बा प्रकाशन २०११ प्रथम अंक प्रस्तावना, पृ० १४-१५,

२. मृच्छ० : प्रस्तावना,

३ चाहूदत : प्रस्तावना,

चारुदत्त के वाक्यों से ज्ञात होता है कि चारुदत्त का संपादक किसी अन्य आधारभूत ग्रथ से रूपान्तर ही नहीं कर रहा था, अपितु वह रूपान्तर करने में अकुशल भी था ।

इसके अतिरिक्त मृच्छकटिक में सूवधार अभिरूप-पति नामक उपवास के उपदेश देने वाले चूर्णवृद्ध पर क्रोध व्यक्त करता है, यह पूर्णतः स्वाभाविक तथा उचित है । किन्तु चारुदत्त के लेखक ने पुनः यह ब्रुटि की है कि संक्षिप्त करने की धुन में क्रोध व्यक्त न करवाकर “साधृवाद” दिलाया है । यह भी इसकी अकुशलता का दोतक है ।

इसके अतिरिक्त मृच्छकटिक की उपर्युक्त सूवधार की उक्ति में क्रोधाभिव्यक्ति के समय राजा पालक से सम्बन्धित मृच्छकटिक नाटक के दूसरे प्रासांगिक कथानक की ओर निर्देश किया है, किन्तु चारुदत्त का संपादक, क्योंकि मृच्छकटिक जैसे किसी नाटक के प्रणायात्मक कथानक को ही अभिनेय नाटक के रूप में संपादित कर रहा था, अतः उसने नाटक के उत्तरार्थ की राजनैतिक कथा से सम्बन्धित पालक का उल्लेख नहीं किया है । ऐसा करना चारुदत्त के घटनाचक के अनुरूप अवश्य है, किन्तु इससे यह भी अवश्य प्रकट हो जाता है कि चारुदत्त का संपादक निश्चित रूप से मृच्छकटिक जैसे नाटक को ही संक्षिप्त रूप में संपादित कर रहा था न कि मौलिक कृति का निर्माण ।

मृच्छकटिक के प्रथम अंक में उस समय जबकि मैत्रेय तथा रदनिका देवकार्य के लिये जाने वाले हैं उभी भयभीता वसन्तसेना शकार से पीछा छुड़ाने के लिये अन्य शरण्य न देखकर चारुदत्त के घर में घुस जाती है । चारुदत्त वसन्तसेना को रदनिका समझना है, अतः उसे कहता है—

“चारुदत्तः— ( वसन्तसेनामुद्दिश्य ) रदनिके । मारुताभिलाषी प्रदोषसमय-श्रीतार्तो रोहसेनः । ततः प्रवेश्यतामम्यन्तरमयम् । अनेन प्रावारकेण छादयैनम् । ( इति-प्रावारकं प्रयच्छति ) । ”<sup>१</sup> चारुदत्त में इसी को इस प्रकार लिखा है—

नायकः मारुताभिलाषी प्रदोषः । तदगृह्यतां प्रावारकम् ।

रदनिके । प्रवेश्यतामम्यन्तरचतुःशालम् ।<sup>२</sup>

यहाँ दोनों नाटकों के वाक्यों में आपाततः अत्यविक साम्य प्रतीत होता है, जिससे स्पष्ट है कि परस्पर किसी ने अनुकरण किया है । किन्तु, मृच्छकटिक में

१. मृच्छ० १५२-५३

२. चारुदत्त, १२६-२७,

शीतार्त-रोहसेन को प्रवेश कराने तथा प्रावारक से आच्छादित करने के लिए शदिनिका के प्रति चारदत्त वी उकित युकितयुवत है जब कि चारदत्त में रोहसेन के उल्लेख का अभाव है, तब प्रावारक देने का क्या ग्रीचित्य है? इसमें स्पष्ट होता है कि चारदत्त के सपादक ने सक्षिप्त बरते समय देवन औ शको के सुखान्त कथानक के अनुहूत रोहसेन के उल्लेख को हटाकर उचित अवश्य किया है। किन्तु वह अनुकरण में इतना अद्युशल था कि प्रावारक देन के अनौचित्व को बिना समझे ही मृच्छकटिक जैसे उपजीव्य मूलग्रन्थ के वाक्य वा प्रयोग कर दिया है। इसी अनुकरण की अकुशनता तथा सक्षिप्त रूपान्तर करन की पुष्टि इसी के प्रथिम वाक्य से भी होती है।

मृच्छकटिक में शीत के बारण रोहसेन का अन्दर ले जाने का चारदत्त का इयन स्वाभाविक है, जबकि चारदत्त में रोहसेन के उल्लेख के अभाव में प्रवश्यताम् कहा गया है। यह उल्लेख सर्वथा अणुद है। यदि यह मानें कि चारदत्त ने वसन्तमना के प्रवेश के लिए यह शब्द कहा था तो भी 'प्रविश्यताम्' होना चाहिय था न कि "प्रवेश्यताम्"। स्पष्ट है कि चारदत्त का अकुगल सपादक न मृच्छकटिक में प्रयुक्त चारदत्त की उकित 'प्रवश्यताम्यन्तरम्' को बिना समझे ही प्रयोग कर दिया है। मृच्छकटिक में इसी त्रै में चारदत्त की स्पष्ट उकित है 'रोहसेन गृहीत्वाम्यन्तर प्रविश्य,' किन्तु चारदत्त के सपादक ने सक्षिप्त बरन के उद्दीप्त से रोहसेन के उल्लंघन को तो हटा दिया है, परंतु वाक्य वा रूप तक अपने कथानक के अनुहूत नहीं बदल मचा है। यही नहीं, बल्कि चारदत्त के इसी अक में कुछ आगे दूसरे दृश्य म जब चारदत्त वसन्तमना के प्रति अग्रारात्र के सम्बन्ध में अनुनय करता है उस समय मंत्रेय को रदिनिका वे प्रति अनुनय करना हुआ विवित किया गया है किन्तु यह विश्वास नाटक में चित्रित मंत्रेय के चरित्र के मवया प्रतिकूल है।

प्रथम अब व अन्त म चारदत्त मृच्छकटिक में चन्द्र तथा ज्योत्सना वा वगन बरता हुआ बहता है— मंत्रेय। भवतु। इति प्रदीपिकामि। पश्य

"उदयति हि शशाङ् वामिनीगण्डपाण्डुर्हगणपरिवारो राजसार्गप्रदीप ।

तिमिरनिचरमध्य रशमयो य न्यगीग मृतजल इवपद्म क्षीरधारा पतन्ति ॥"

चारदत्त नामक म निका है—

उदयति हि शशा किनन्तश्चर्जुर्याण्डुर्विजनमहायो राजसार्गप्रदीप ।

तिमिरनिचरमध्य रशमयो यस्य गोगहूनजल इवपद्मे क्षीरधारा पतन्ति ॥

इन दोनों म चारदत्त की अपेक्षा मृच्छकटिक वा इनोर अधिक बलान्तक तथा सौख्य पूर्ण है। चारदत्त के विनावज्ञ रूपाण्डु शब्द की अपेक्षा वामिनीगण-

१ मृच्छ्य० १५७,

२ चारदत्त १२६,

पाण्डुः शब्द में कहीं अधिक ग्रभित्यंजनात्मकता तथा रमणीयता है। कुछ विद्वान् इसी या ऐसे ही सौष्ठव के कारण मृच्छकटिक को चारुदत्त के ४ अर्कों के आधार पर ग्रभिसृष्ट कलात्मक कृति भी स्वीकार करते हैं, और इस प्रकार चारुदत्त को मौनिक तथा मृच्छकटिक को परवर्तीनाट्यकृति मानते हैं। किन्तु वास्तविकता यह नहीं है। ग्रग्र इसी श्लोक के प्रत्येक शब्द की तुलना की जाय तो इस "किलन्नखजूर-पाण्डुः शब्द के अतिरिक्त ग्रन्थ सभी शब्द मृच्छकटिक की अपेक्षा चारुदत्त में अधिक कलात्मक प्रतीत होते हैं। उदाहरण के लिए चारुदत्त का "युवति-जनसहायः" शब्द मृच्छकटिक के "ग्रहगणपरिवार" की अपेक्षा मार्मिक है।

यद्यपि हम भी यह मानते हैं कि अधिकांश में भाषा-सौष्ठव की दृष्टि से चारुदत्त की अपेक्षा मृच्छकटिक अधिक साहित्यिक है किन्तु इस साहित्यिकता तथा सौष्ठव के कारण ही मृच्छकटिक को चारुदत्त के ४ अर्कों के आधार पर विकसित नाटक स्वीकार नहीं किया जा सकता। विकासवाद के परिप्रेक्षण से मूल्यांकन करते हुए मृच्छकटिक को चारुदत्त की अपेक्षा परवर्ती मानना सर्वथा अस्वाभाविक है। विकसित रचना को भी अकुणल तथाकथित शिल्पी विकृत कर देते हैं। यहाँ भी इसका अधिक उचित उत्तर यही है कि चारुदत्त किसी अकुणल नाटककार या ग्रभिनेता के हाथों संपादित रंगमचीय संस्करण होने के कारण अपने आधारूप मौलिक नाटक की साहित्यिकता को सुरक्षित नहीं रख सका है, जबकि मृच्छकटिक में किसी कुणल सम्पादक ने मौलिक नाटक की साहित्यिकता को अक्षुण्णा रखने के साध-साध अपनी वैयक्तिक प्रतिभा द्वारा उसे यत्रतत्र अधिकाधिक उभारने का प्रयास किया है। यही कारण है कि मृच्छकटिक तथा चारुदत्त के "उदयति हि शशांकः" जैसे स्थलों में अन्तर दीख पड़ता है।

द्वितीय अंक में भी दोनों नाटकों में पर्याप्त अन्तर है। चारुदत्त के सम्पादक ने मृच्छकटिक के सुन्दर तथा आकर्षक द्यूत-दृश्य को छोड़ दिया है। मृच्छकटिक में संवाहक माधुर तथा द्यूतकर आदि पात्रों के माध्यम से द्यूत दृश्य की योजना करके मृच्छकटिक को लोकप्रियता की ग्रभिवृद्धि की है, किन्तु चारुदत्त में वह दृश्य नहीं है। चारुदत्त के ग्राध्यर्थन से यह स्पष्ट जात होता है कि चारुदत्त का सम्पादक द्यूतदृश्य ये परिचित अवश्य था। चारुदत्त में द्यूतदृश्य के प्रमुख पात्र संवाहक की अवतारणा की है। संवाहक वसन्तसेना तवा-चेटी से संभापण करता हुआ बतलाता है—कि

१. चारुदत्त के प्रयम अंक में (११६ के निकट) विद्वक के द्वारा गोपदारक शब्द का प्रयोग हो गया है। जिससे ज्ञात होता है कि चारुदत्त का सम्पादक मृच्छकटिक के राजनीतिक कथानक से परिचित था किन्तु उसने जानवृभ कर छोड़ दिया है।

" . इति जातनिवेदोदग्धशरीररक्षणार्थं द्यूतापज्ञीवी मवृत " ततो वहूनि दिनानि  
मया पराजितेन पुरुषेण बदाचिदहसति दशमु सुगर्गेषु पराजिनोऽस्मि " . " ततो द्यू  
वैश्वामार्गे यद्वच्छापनतः समाप्तादितोऽस्मि । तस्य भयेन ह प्रविष्ट । "

सवाहृत की इस उकित मे स्पष्ट है कि चारदत्त का लेखक द्यूत-दृश्य मे  
परिचित था । प्र० जामीरदार न व्यतलाया है कि मृच्छकटिक म स्पायिन द्यूतदृश्य के  
अनुमार इस दृश्य को प्रदर्शित करन के लिए विशाल राजपथ, देवालय एव जनसमुदाय  
अपदित है तथा यह दृश्य रगमचीयता आदि की हस्ति मे कुछ जटिल है । इसे  
सर्वेत सर्वसाधारण रगमच पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता<sup>३</sup> । मध्यवत् यही  
कारण है कि चारदत्त के लेखक ने परिचित हीते हुए भी इस सुन्दर दृश्य को छोड़  
दिया है । अत स्पष्ट है कि चारदत्त किसी नाटक का संक्षिप्त अभिनेय सम्बरण है ।  
इसके अतिरिक्त चारदत्त म मृच्छ० के समान मवाहृत की अवतारणा नी भी है,  
किन्तु मृच्छ० के समान नाटक की गत्यामठना तथा व्यानक को बढ़ाने प्रादि के  
लिये उसका कुछ भी उपयोग नहीं हुआ है । इसमे भी प्रकट होता है कि चारदत्त का  
सपादक ने चारदत्त के गुणों का व्यान मात्र करवाने के लिये सवाहृत का प्रयोग  
किया है किन्तु मृच्छकटिक क समान मटुआयोग नहीं कर सका है । इसमे भी उसकी  
अकुणलता ही प्रकट होनी है ।

चारदत्त के इसी अब म कुछ ग्राग मवाहृत कहता है— ग्रद्यैव वज्ञाचिन्मिव-  
देन प्रद्रव्येयम्<sup>४</sup> ।" और कुछ आगे चेट आकार वसन्तमेना के हाथी मे परिवाजक  
को बचाने की घटना सुनाना है । मृच्छकटिक म भी यह घटना है । वहीं मवाहृत  
कहता है ग्रदेतेन द्यूतकरापमानेन शक्यथ्रमग्नो भविष्यामित् । किन्तु चारदत्त म  
मृच्छकटिक के समान सवाहृत निवेद का बारण नहीं व्यतलाया है । चारदत्त मे  
प्रवृज्या लेने का सकेत मात्र द्वार, परिवाजक को हाथी से बचान की घटना का सकेत  
करना यह प्रमाणित वरता है कि चारदत्त का सपादक मृच्छकटिक जैसे किसी ग्राम-  
भूतनाटक का सधार करके रगमचीय सस्करण तैयार कर रहा था । इसी कारण  
सपूर्ण घटना की योजना न करके केवल सकेत मात्र देना ही उपयुक्त समझा ।

इसके अतिरिक्त चारदत्त मे जब चेट परिवाजक को हाथी मे बचान की

१ चारदत्त अक २, पृ० २१६,

२. द्वामाज इन संस्कृत लिट० पृ० १६२,

३ चारदत्त द्वितीय अक पृ० २२०,

४. मृच्छ० २१६-१७,

घटना का उल्लेख करता है तब “करण्पूर” शब्द का प्रयोग करता है। मृच्छकटिक में भी करण्पूरक नामक वस्तुसेना का एक भूत्य है। इसी परिव्राजक को हाथी से बचाने की घटना के बतलाने के प्रसंग में वह भी करण्पूरक शब्द का प्रयोग नाम के रूप में प्रयोग करता है<sup>१</sup>। दोनों नाटकों में क्रमशः करण्पूर तथा “करण्पूरक” शब्द का प्रयोग है। किन्तु “करण्पूरक” मृच्छकटिक का ही पात्र है, पर करण्पूर चारुदत्त में नहीं है। दोनों में “क” का अन्तर है। किन्तु इसका सकेत उसी पात्र की ओर है। चारुदत्त में निष्प्रयोजन करण्पूरक शब्द का प्रयोग यही सकेत करता है, कि चारुदत्त का सपादक मृच्छकटिक से परिचित है, वह मृच्छकटिक जैसे नाटक का ही सक्षिप्त रूपान्तर है, तथा चारुदत्त का सपादक इस कार्य में अकुशल है। अतएव त्रुटिवण वह अस्वाभाविक रूप से करण्पूर आदि शब्दों का भी अपने आधार मन्त्र के समान उल्लेख कर गया है।

इसी अंक में इसी घटना के अन्त में चेट वस्तुसेना को यह बतलाता है कि बौद्धसाधु को बचाते समय उसके साहब को देखकर समस्त उच्चयनी प्रशंसा करने लगी, तथा एक व्यक्ति ने ऐसे ऊपर प्रावारक फौक दिया। मृच्छकटिक में लिखा है—“एकेन शून्यानि आभरणास्थानानि परामृश्य उँद्ध व्रेक्ष्य, दीर्घं निःश्वस्य, अयं प्रावारकः ममीपरि उद्दक्षिण्ठः<sup>२</sup>।” चारुदत्त में भी इस घटना का उल्लेख है। यहाँ लिखा है—केनापि………दीर्घंनिश्वस्यै तावाद् में विभव इतिकृत्वा परिजनहस्तेऽयं प्रावारकः प्रेपितः<sup>३</sup>।” दोनों उल्लेखों के देखने से एक बार पुनः यही प्रतीत होता है कि चारुदत्त का संपादक मृच्छकटिक को सामने रखकर संक्षिप्त प्रतिलिपि कर रहा था। इसके साथ वह इतना अनिपुण भी था कि प्रावारक को फौकने की अपेक्षा भेजने का निर्देश कर गया है जब कि यहाँ परिजन के हाथों प्रावारक भेजने का कुछ भी औचित्य नहीं है।

तृतीय अंक में मृच्छकटिक में चारुदत्त द्वारा रेभिल के गायन की प्रशंसा करने पर विदूपक कहता है: “मम तावत् द्वाभ्यामेव हास्यंजायते, स्त्रिया संस्कृत पठन्त्या, मनुष्येण च काकलीं गायता। स्त्रीतावत् संस्कृत पठन्ती, दत्-नव-नास्यां-इव-गृहिः ग्रधिकं सुसूयते, मनुष्योऽपि काकलीं गायत् शुष्क-सुमनोदामवेष्टितो वृद्ध-पुरोहित इव, मंत्रं

१. “हं, विप्रलब्धोऽस्मि वातायननिष्कामितपूर्वकाययावनमितपयोधरया करण्पूरस्य परिस्पन्दोऽज्ञुक्या येन न हृष्टः।” चारुदत्त द्वितीय अंक पृ० २२१,
२. आर्ये। वच्चितासि, यथा अद्य करण्पूरकस्य पराक्रमी न हृष्टः मृच्छ० २१७-१८,
३. वही, २१०-२१,
४. चारुदत्तः भासनाटकचक्र, अंक द्वितीय, पृ० २१२,

जपत् हृष मे न रोचते ।" चाहृदत्त मे इसी उक्ति को निरूपक इम प्रकार कहता है—“ मम खलु तावत् गायत् मनुष्य स्त्रयपि पठन्त्युभयमादर न ददाति । गायस्ता-वन्मनुष्यों रक्त-गुमनोवेष्टित इव पुरोहितो हृष न जोभते । स्त्रयपि पठन्ती छिन्नतामिकैव धेनुरतिविरूपा भवनि । ” दोनो उक्तियों की तुलना से इष्ट हो जाता है ‘कि चाहृदत्त के सपादक ने मृच्छकटिक संहिता किया है । इसी कारण वह मुन्दर वाक्यों को पूर्णत घोड़ दिया है तथा रूपान्तर करने में निपुणता न होने के कारण “स्त्रयपि पठन्ती छिन्नतामिकैव धेनुरतिविरूपाभवति” जैसा अस्वाभाविक वाक्य भी लिखा गया है । पठनी हृष स्त्री को छिन्नतामिका गोड़े समान विक्षया बनताने मे कोई भी अनुचित्य प्रतीत नहीं होता । विक्षय मुख्याहृति का अमुन्दर स्वर से साम्य बनताना विसी अनभ्यस्त लेखनी का ही कार्य हो भवता है । हम स्वप्नवासवदत्त के स्थान भास से ऐसी आशा नहीं कर सकते हैं । वस्तुतः स्वप्न० मे ऐसा अपूर्ण, अनुचित, अस्वाभाविक प्रदोग एवं भी नहीं भिनता है, तब चाहृदत्त वो स्वप्न० के रचयिता भास की कृति मानना भास के साम्य अन्याय करना है । अतएव चाहृदत्त की माम की रचना भास कर उसके आधार पर मृच्छकटिक का पल्लवन मानना भास तथा मृच्छकटिक दोनों के साथ न्याय नहीं कहा जा सकता ।

तृतीय अक भ ही और भी कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनमे चाहृदत्त भी अपूर्णता, अकृशलता तथा अनुकृत अवृत्ति का ज्ञान होता है । उदाहरण के लिए मृच्छकटिक के आर्यकापहरण नामक सप्तम अवतार म जिम समय पालक की बंद से भाग कर आर्यक वसन्तसेना के लिये आई हृष चेट की गाड़ी म बैठकर चाहृदत्त के ममीप पहु चता है, उस समय चाहृदत्त वसन्तसेना को उनारने के लिये निरूपक मैत्रेय १ बहता है—“ ११ मस्ते । मैत्रेय । अवतारय वसन्तसेनाम् । ” मैत्रेय गाड़ी के परद को उठाकर देखता है, और उसमे वसन्तसेना के स्थान पर आर्यक को बैठा हुआ देखकर परिहास बरता हुआ बहता है—“मो, नवसन्तसेना, वसन्तगेन, वसन्तव्य १ ।” मृच्छकटिक मे परिहास का यह उत्तर उदाहरण है । मृच्छकटिक का गणित रूपान्तर करने समय चाहृदत्त के सपादक को यह उदाहरण बहुत जचा । फलत मृच्छकटिक के ४ ग्रन्थों का मणिन स्करण बरते समय भी मृच्छकटिक के सप्तम अवक की इस हास्योत्ति को तृतीय

१. मृच्छकटिका ३।३-४,

२. चाहृदत्त ३।२-३,

३. भास के ऐतिहासिक नाम के विवेचन के प्रस्तुत में भी हमने इस सम्य की और संकेत किया है ।

४. मृच्छकटिका ३।४-५,

अंक में स्थान दिया। चारुदत्त के तृतीय अंक में सन्धिच्छेद के दृश्य में विद्युपक चारुदत्त के पास जाकर सूचित करता हुआ कहता है....."भोशचारुदत्त ! प्रियं ते निवेदयामि । नायकः—(वुद्धवा) कि मे प्रियम् । ननु वसन्तमेना प्राप्ता । विद्युपकः—न खलु वसन्तसेना वसन्तसेनः प्राप्तः<sup>१</sup> ।" चारुदत्त के इस स्थल की मृच्छकटिक के साथ तुलना करने पर यह न केवल निम्न श्रेणी का हास्योदाहरण जात होता है, अपितु अनुचित तथा अस्वाभाविक भी है। चारुदत्त में मृच्छकटिक के उदाहरण को स्थान तो दिया है, किन्तु मृच्छकटिक से समान औचित्यपूर्ण परिहास की सृष्टि नहीं हो सकी है। सन्धिच्छेद की सूचना देते समय चारुदत्त के द्वारा वसन्तसेना के आगमन की संभावना कराना स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता। इस संभावना में ऐसा प्रतीत होता है, मानो चारुदत्त सदैव सोते जागते वसन्तसेना के आगमन की ही प्रतीक्षा करता रहता था, जबकि ऐसी कल्पना न केवल चारुदत्त के चरित्र के प्रतिकूल है, अपितु अस्वाभाविक भी है। इस उदाहरण से मृच्छकटिक के समान हास्य उत्पन्न नहीं होता, बल्कि इस उदाहरण को सन्धिच्छेद के शोक पूरण स्थल पर प्रयुक्त करके रमप्रवाह को नष्ट कर दिया है। अतएव बलात् प्रयुक्त यह याक्य चारुदत्त के संग्रहक की अनिपुणता तथा मृच्छकटिक के आधार पर मंक्षिप्त संस्करण को प्रमाणित करता है।

इसी प्रकार तृतीय अंक में ही सुवर्णभाण्ड के चोरी चले जाने की सूचना चारुदत्त की पत्नी ब्राह्मणी (दूता) को मिलने पर वह मैत्रेय को अपनी मुक्तावली-दान के बहाने देती है। उस समय विद्युपक द्वारा रदनिका से लेने न लेने के सम्बन्ध में पूछने पर चेटी रदनिका का यह कथन—“किन्तु खलु तस्मै जनाय दातव्यं भविष्य-तीत्येतन्निमित्त भरृदारकः संतप्यत इति भर्तदारका तव हस्ते दत्वार्थपुत्रमनृणं करिष्या-मीत्येवं करोती,<sup>२</sup> अस्वाभाविक है। “इसके आगे जब चारुदत्त मैत्रेय को मुक्तावली देने के लिये वसन्तसेना के पास भेजता हुआ कहता है— वयम्य इमां मुक्तावली गृहीत्वा वसन्तसेनायाः सकाश गच्छ<sup>३</sup> ।” किन्तु चतुर्थ अंक में मैत्रेय गणिका के समीप जाकर कहता है— “शृणोतु भवती । तत्र भवस्वचारुदत्तस्य गुणप्रत्यायननिमित्तं खलु त्वयालंकार स्तस्मिन् निक्षिप्तः । स तेन द्यूते हारितः<sup>४</sup> इस उक्ति में “स तेन द्यूते हारितः,” वाक्य चारुदत्त मैत्रेय को कहने के लिये नहीं कहता, मैत्रेय स्वयं अपनी ओर से यह सन्देश कहता है। किन्तु परस्पर असम्बन्धित होने से यह अस्वाभाविक है। इस अस्वाभाविकता का कारण यही है कि चारुदत्त के संपादक ने इस मैत्रेय की उक्ति को विना-

१. चारुदत्तः ३।१४-१५,

२. चारुदत्तः ३।१६-१७,

३. द्यौ, ३।१७-१८,

४. द्यौ, ४।५-६,

भौचित्य का विचार किये मूच्छकटिक के उल्लेख के अनुमार ही विच्यन्त बार दिया है।

मूच्छकटिक के तृतीय अक मे चारदत विदूपक को द्यूत मे हारने का संदेश देकर ही रत्नावली को देता है—मैत्रेय, मृद्यु रत्नावलीमादाव वसन्तसेनाया सराणशृष्टवनव्या च मा मद्वचनात्-यत् वस्तवस्माभिं सुवर्णमाणहमात्मीयमिति वृत्त्वा विश्रम्भान् द्यूते हारितम्, तस्य द्यूते गृह्यात्मिय रत्नावली इति<sup>१</sup>।

मूच्छकटिक के चतुर्थ अक मे उपर्युक्त चारदत के संदेश के अनुमार ही विदूपक वसन्तसेना को दहता है—“मया तत् सुवर्णमाणह-विश्रम्भादात्मीर्यमितिवृत्त्वा द्यूते हारितम्<sup>२</sup>।” मूच्छकटिक तथा चारदत दोनों नाटकों के उपर्युक्त उल्लेखों के मिलान करने पर स्पष्ट हो जाता है कि चारदत के सपादक ने सक्षिप्तीकरण नी बैट द्वाट मे मूच्छकटिक के समान चारदत के मुख मे मुक्तावली देने का कारण नहीं कहताया गया है, विन्तु चतुर्थ अक मे मूच्छकटिक के समान ही द्यूत मे हारने के कारण का उल्लेख कराया है। इसने यही निष्कर्ष निकलता है कि चारदत का सपादक मूच्छकटिक का ही सक्षिप्त रूपान्तर कर रहा था, विन्तु वह कुगल सपादक न होने से कुछ परस्पर के विरोधी वावयों का भी उल्लेख कर गया है तथा कही-नहीं उसने अपूर्णता द्वारा दी है।

चारदत के चतुर्थ अक मे इसी प्रकार किसने ही ग्रस्वाभाविक स्थ॒३ है। चदाहरण के लिये मज्जलम (वसन्तसेना) गगिका के घर जावार मदनिका की भावाज देकर बुलाता है तथा मदनिका से मिलता है। इस मिलन-प्रगमा मे घनेक अनुचित प्रयोगों द्वारा नाटक को गोपाटिक बनान की चेष्टा की है। इसके परवात विदूपक चारदत द्वारा भेजी हुई मुक्तावली को देकर निकलता है, तभी उसके बाद मदनिका सायंवाह के यही मे किसी अनुष्ठ (मज्जलक) के धारने की सूचना देती है। इन्हीं शोध चारदत के यही मे समान उद्देश्य के लिये दो अक्तियों का प्रवेश करता<sup>३</sup> मर्वथा अनुचित है। इसके अनन्तर सज्जलक ग्राम्भूपण की रक्षा मे चारदत की अमर्मयंता बतलाता हुआ ग्राम्भूपण को लौटाता है<sup>४</sup>। विन्तु ऐसा करना नाटक

१. मूच्छ० ३।२८-२६,

२. वही ४।३१-३२,

३. चारदत के भभी प्रांकों मे घनेक स्थल ऐसे हैं, जिनसे चारदता के सम्पादक की अप्योगता तथा अनिपुणता का ज्ञान होता है। किन्तु स्थानाभाव से यहाँ समग्र स्थलों का उल्लेख सम्भव नहीं है।

४. चारदत ४।५-६,

५. वही ४।६-७,

की पूर्वघटनाओं के सर्वथा प्रतिकूल है। यदि ऐसा ही भय था तब पहिले न्यास क्यों रखा था।

इसके आगे गणिका द्वारा सज्जलक को साहसिक कहना<sup>१</sup> भी अत्यन्त अस्वाभाविक है। इसके अनन्तर प्रदहण मेंगाकर मदनिका को सज्जलक को सोंप कर अस्वाभाविक प्रकार से सुखान्त नाटक बना दिया गया गया है। वस्तुतः न इसमें कोई कलात्मकता है, न रस-प्रवाह। न शौचित्य है, न घटनाओं में कार्यकारण सम्बन्ध, और न स्वाभाविकता। ऐसी रचना को भास की कृति मानकर मृच्छकटिक का आधार मानना सर्वथा असंगत है।

वास्तविकता यही है कि मृच्छकटिक के ४ अंकों के आधार पर चारुदत्त एक रंगमंचीय संक्षिप्त रूपान्तर के रूप में किसी संपादक के अकुशल हाथों से संघटित किया गया है। चारुदत्त के चतुर्थ अंक के अतिम स्थल से यह तथ्य और भी पूर्णतः प्रभासित हो जाता है। चारुदत्त के अन्त में मदनिका जब सज्जलक को समर्पित करदी जाती है उस समय गणिका कहती है—

गणिका—चतुरिके।

चेरी—(प्रविश्य) अज्जुके इयमस्मि।

गणिका—हज्जे। पश्य जाप्रत्या मया स्वप्नो हृष्टः एवम्।

चेरी—प्रियं मे, अमृताक नाटकं संबृतम्।

गणिका—एहीममलंकारं गृहीत्वार्यचारुदत्तमभिसरिष्यावः।

चेरी—अज्जुके। तथा। एतत् पुनरभिसारिकासहायभूतं दुर्दिनमुन्नमितम्।

गणिका—हताशे। मा खलु वर्णय।"

चेरी—ऐत्वेत्त्वज्जुका।

इन्हीं वाक्यों के साथ चतुर्थ अंक की समाप्ति के साथ चारुदत्त नाटक भी समाप्त हो जाता है। उपर्युक्त वाक्यों से स्पष्ट है चारुदत्त के सम्पादक को ४ अंकों में अमृतांक अर्थात् सुखान्त नाटक का निर्माण अभीष्ट था<sup>२</sup>। मदनिका तथा सज्जलक के मिलन के द्वारा वह पूर्ण हो गया। अतएव उसने अनवसर में ही नाटक समाप्त कर दिया।

वास्तविकता यह है कि चारुदत्त का संपादक अग्रिम अंकों के घटना चक्र से सुपरिचित था। चारुदत्त के अन्त में गणिका अलंकारों को लेकर चारुदत्त के पास

१. चारुदत्त ४। ६-७,

२. कुछ समय पूर्व पद्मप्राभृतक नामक भारण प्राप्त हुआ है इसका लेखक शूद्रक ही माना जाता है। इसमें भी “साधु भी अमृतांकों नाटकांक सम्बृतः।” का

अभिसार करन की घटना की ओर संकेत बरती है। मृच्छकटिक नाटक में भी चतुर्थ अवक वे अनन्तमेना बहती है—“हजे। गृहाणीवमतकाग्रम् चाहदत्तमभिरन्तु गच्छ्याम् ।” पुन चाहदत्त म अभिसार के महायभूत दुर्दिन का संकेत है। मृच्छकटिक म भी चेटी बहती है—ग्राम्य । प्रेक्षस्व प्रेक्षस्व, उन्नमति अकालदुर्दिनम् । मृच्छकटिक म इसके आगे दुर्दिन का वर्णन पचम अवक में है। उसी अवसर पर असन्तमेना अभिसार के लिय जाती है। मृच्छकटिक में इसी कारण पचम अवक का नाम दुर्दिन रखा है किन्तु चाहदत्त का सपादक मृच्छकटिक के समान ही अभिसारोत्मुक्ता तथा दुर्दिन का संकेत तो अवश्य देना है, किन्तु नाटक को आगे न बढ़ा कर यही समाप्त कर दता है। गणिका चेटी संकहती है—“हताशे। मा खलु वधंय ।” इससे स्पष्ट है कि चाहदत्त का सपादक अग्रिम घटना चक से सुपरिचित या किन्तु वह यही अमृताक नाटक के रूप में समाप्त करना चाहता था। इन समाप्ति के बाबतों तथा अग्न्य अकों से शब्द संकेतों से स्पष्ट है कि चाहदत्त के सपादक के सामने मृच्छकटिक के समान ही कोई नाटक अवश्य था। उसी के ४ अकों के आधार पर वह रागमधीय संक्षिप्त सस्तरण प्रस्तुत कर रहा था, अतएव उसने मुख्याल के रूप में ‘हताशे मा खलु वधंय’ की चेतावनी द्वारा चेटी को रोक कर अमृताक नाटक समाप्त कर दिया है।

यद्यपि चाहदत्त ४ अकों की समाप्ति के साथ समाप्त हो गया किन्तु चतुर्थ अवक वे अन्त म चतुर्थीक लिखा है, समाप्ति का संकेत नहीं है। यद्यपि इसी हस्तप्रति में “अवसित चाहदत्तम्” पा उल्लेख भी प्राप्त है । किन्तु वास्तविकता यह है कि ४ अकों म नाटक अपूरण है। चाहदत्त के नायक-नायिका चाहदत्त तथा असन्तमेना से सम्बन्धित अभिसार के रूप म प्राप्त्याशा का संकेत अवश्य कर दिया है, किन्तु नियताप्ति तथा फलागम दोनों महत्वपूरण अवस्थाएँ का संवेद्य अभाव है। अत ४ अकों की समाप्ति के माथ चाहदत्त को पूर्ण नहीं माना जा सकता।

यद्यपि चाहदत्त के अन्त म मदनिका तथा मञ्जलक का मिलन प्रदर्शित करने अमृताक नाटक बना दिया है, किन्तु मदनिका तथा मञ्जलक का प्रगाय उपरवा मात्र है। इस कथा के उपसहार को नाटक का उपसहार नहीं माना जा सकता। नाटक के समुचित उपसहार के लिय कुछ अकों का होना अत्यावश्यक है, किन्तु वे अवक हमें उत्तरव्य नहीं हैं। अत चाहदत्त को सपूर्ण नाटक नहीं माना जा सकता। उपर्युक्त सम्प्रविशेषण के पश्चात् सदोण में यही निष्पत्ति निकलता है कि चाहदत्त के सपादक न मृच्छकटिक के समानता किसी नाटक के आधार पर सम्भवत अपन उद्देश्य के अनुसार रागमच के लिय आगे के घटनाचक्र को उचित न समझ कर ४

अंकों का ही संक्षिप्त संस्करण तैयार किया है। अतः चारुदत्त को किसी भी दृष्टि से मौलिक नाटक मानना उचित प्रतीत नहीं होता है।

मृच्छकटिक नाटक से तुलना करते हुए हमने बतलाया है कि चारुदत्त में रंग-मन्त्र की दृष्टि से तथा नाट्यशिल्प आदि की सरलता के लिये अनेक दृश्यों में परिवर्तन तथा परित्याग किया है। काट छाट की है। दूतावश्य जैसी अनेक सुन्दर घटनाओं को छोड़ दिया है। पात्रों की संख्या कम कर दी है। मृच्छकटिक के ४ अंकों में लगभग १६—१७ पात्र हैं, जबकि चारुदत्त के ४ अंकों के संपूर्ण नाटक में केवल ११ हैं। इसी प्रकार मृच्छकटिक में ४ श्लोक हैं, जबकि चारुदत्त में केवल ५५ हैं। चारुदत्त में द्वितीय अक में एक भी श्लोक नहीं है, जबकि मृच्छकटिक के द्वितीय अक में २० श्लोक हैं। चारुदत्त के ५५ श्लोकों में केवल १३ श्लोक मृच्छकटिक में प्राप्त नहीं हैं, ४२ मृच्छकटिक के ही हैं। इस समस्त पर्यवेक्षण से यही ज्ञात होता है कि चारुदत्त के सपादक ने यह समस्त काट-छाट नाटकीयता के लिये की है। उपर्युक्त समस्त समीक्षण से यही निष्कर्ष निकलता है कि चारुदत्त अमौलिक, अपूर्ण, रंगमंचोपयोगी संक्षिप्त रूपान्तर है। न यह भास जैसे कलाकार की कृति है, और न मृच्छकटिक जैसे साहित्यिक नाटक का उपजीव्य ही।

उपर्युक्त विवेचन से उपलब्ध निष्कर्ष को संक्षेप में हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं—

(१) मृच्छकटिक तथा चारुदत्त—दोनों ही मौलिक नाटक नहीं हैं। ये दोनों शूद्रक रचित किसी अन्य नाटक के दो संस्करण हैं।

(२) मृच्छकटिक साहित्यिक संस्करण है, चारुदत्त रंगमंचीय संस्करण है।

(३) मृच्छकटिक पूर्णतः मौलिक कृति नहीं है, तथापि इसमें अधिकांश में मौलिकता सुरक्षित है। चारुदत्त संवार्ण में अमौलिक है। यह मौलिक कृति के कुछ अंश का सामान्य अभिनेय संस्करण है।

(४) मृच्छकटिक साहित्यिक दृष्टि से पूर्ण नाटक है। चारुदत्त अपूर्ण है, अपवर्ण है।

(५) मृच्छकटिक कृति नाटककार द्वारा संपादित है। चारुदत्त अकृति संपादक के अकृति हाथों द्वारा संपादित है।

(६) मृच्छकटिक के संपादक ने संभवतः साहित्यिकता को उभार दिया है, चारुदत्त के सपादक के अकृति हाथों द्वारा इसकी मौलिकता भी सदृष्ट हो गयी है।

१. इससे ज्ञात होता है कि मृच्छकटिक में चारुदत्त की अपेक्षा मूल नाटक की मौलिकता सुरक्षित है।

(७) न मृच्छकटिक शूद्रक की रचना है, न चारुदत्त भास की । -

(८) न मृच्छकटिक चारुदत्त का उपजीव्य है न चारुदत्त मृच्छकटिक का ।

(९) और, न मृच्छकटिक चारुदत्त में परवर्ती रचना है, न चारुदत्त ही मृच्छकटिक में प्रौढ़वर्ती सरकरण है ।

(१०) अन्त म, सहित-बाह्यमय में भास की रचना के रूप म चारुदत्त का कहीं भी प्राचीन उल्लेख नहीं है<sup>३</sup>, किन्तु दरिद्रचारुदत्त के रूप में इसका अनेकगत उल्लेख हुआ है । मृच्छकटिक की प्रस्तावना में तथा अन्यत्र दरिद्र तथा चारुदत्त शब्दों से नाटककार का विशेष लगाव प्रतीत होता है<sup>४</sup> । यद्यपि नाटककार ने मूर्यधार के मुग्ग से मृच्छकटिक प्रकरण का उल्लेख अवश्य कराया है, किन्तु वहि तथा नाटक के परिचय के प्रसग में मृच्छकटिक का उल्लेख तड़ नहीं है, जब कि नाटक की घटनाओं में प्रसग में उल्लेख हो सकता था । अत. हमारा भनुमान है कि “दरिद्र चारुदत्त” ही शूद्रक की सौलिङ्ग रचना थी, और इसी वे चारुदत्त तथा दरिद्र चारुदत्त के रूप में प्राचीन समय में उल्लेख हुआ है । कुछ समय पश्चात् मभवन, किसी बुशल नाट्यगिली ने दरिद्र चारुदत्त का साहित्यिक सम्बन्ध बरते समय उसका चमत्कार-पूर्णनाम “मृच्छकटिक” रख दिया, जब कि किसी अन्य पश्चात्कालीन यामान्य सपादक न “दरिद्र चारुदत्त” वा चारुदत्त का नाम में रगमच पर अभिनय के लिए सक्षम भस्करण किया । यद्यपि इस भनुमान के मध्यमें विशेष हठना से कुछ नहीं कहा जा सकता, तथापि इतना अवश्य है कि चारुदत्त को मृच्छकटिक का मूल मानने कार वीथ<sup>५</sup> आदि विद्वानों का मत संवेद्य भासक ठहरता है । चारुदत्त को मृच्छकटिक का उपजीव्य कहापि नहीं माना जा सकता । अत मृच्छकटिक के आधिकारिक व्याख्यक का उपजीव्य वृहत्तक्या को ही मानना समुचित है ।

### मृच्छकटिक के कथानक को ऐतिहासिकता तथा काल्पनिकता

हम वह चुटे हैं कि मृच्छकटिक का कथानक दो घटनाचक्रों के रूप में विभक्त है । प्रथम आधिकारिक व्याख्यक का घटना चक्र चारुदत्त तथा वसन्तमेना के प्रगति से सम्बन्धित है तथा द्वितीय, प्रासादिक व्याख्यक भास्यक भास्यक तथा पालक के राजनीतिक

१. ज्ञानीरदार ने अनुष्टुप् दर्शन के विवेचन के भाष्यक पर यह निष्कर्ष निकाला है कि चारुदत्त में, क्योंकि कुल ५५ इतोकों में से १७ अनुष्टुप् हैं, अत यह स्वप्नवासवदत्ता के लेखक द्वी कृति न होकर किसी निष्प्रेरणी के लेखक की कृति है ।
२. मृच्छकटिक ११६, तथा अन्य समस्त नाटक में प्राप्त दारिद्र्य चक्रों हैं ।
३. सम्भृत द्रुमा कीय, पृ० १३१, तथा इन्द्रोद्वेशन दु दि इटही औरोंक मृच्छकटिक द्वा० देवस्यली, पृ० १०३ आदि,

धर्मनाचक्र के रूप में विन्यस्त है। नाटककार ने चारुदत्त तथा वसन्तसेना से सम्बन्धित प्राधिकारिक कथानक संभवतः वृहत्कथा से मँजोगा है। यद्यपि आज हमें वृहत्कथा अपने मूल रूप में (पैशाची मे) उपलब्ध नहीं है, किन्तु वृहत्कथा कथासंग्रहालय आदि के संस्करण के रूप में उपलब्ध है। अतः कथासंग्रहालय आदि के आधार पर ही मृच्छकटिक के कथानक के सूत्र का अनुसन्धान करना संभव है।

कथा में अनेक प्रणाय-कथायें वर्णित हैं। कथा० में रूपणिका तथा निर्धन-वाहण लोहजघ की प्रणाय-कथा का वर्णन प्राप्त है<sup>१</sup>। इस कथा में रूपणिका अपनी माता के विरोध करने पर भी लोहजघ से प्रेम करती है, रूपणिका की माँ निर्धन वाहण को दूर भेजने आदि के कुचक भी रचती है, किन्तु प्रेमी को प्रेमिका से पृथक करने में सफल नहीं हो पाती। विद्वानों की मान्यता है कि मृच्छकटिक के लेखक ने वृहत्कथा के इसी स्थल से प्रेरणा ग्रहण करके निर्धन चारुदत्त तथा वसन्तसेना की प्रणायकथा उपनिवद्ध की है। डा० देवस्थली के अनुसार निर्धन वाहण और गणिका की प्रणाय-कथा को शूद्रक ने इसी रूप में अपना लिया है, किन्तु माँ के विरोध को स्वीकृति तथा समर्थन के रूप में परिवर्तित कर दिया है<sup>२</sup>।

इसी प्रकार कथा० में वेश्या मदनमाला की कथा वर्णित है<sup>३</sup>। इस कथा में प्रसंगतः एक निर्धन जुगारी मदनमाला के निवासस्थान का वर्णन करता है। नाटक के चतुर्थ अंक में भी विद्वपक वसन्तसेना के प्रासाद प्रकोष्ठों का वर्णन करता है। कीथ इन दोनों स्थलों की तुलना की संभावना करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से नाटक के उपर्युक्त वर्णन के लिये कथा० को प्रेरक मानते हैं<sup>४</sup>।

कथा० में कुमुदिकाकथा के नाम से एक और प्रणाय-कथा प्राप्त है<sup>५</sup>। इस कथा में वेश्या कुमुदिका तथा निर्धन वाहण श्रीधर के प्रेम का उल्लेख है। प्रेमी श्रीधर को उज्जयनी का राजा बन्दी बना लेता है। बाद में विक्रमसिंह नामक राजा, जो कि राज्य से अपदस्थ हो चुका है, कुमुदिका की सहायता से राज्य को प्राप्त करता है, और श्रीधर को मुक्ति दिलाता है। डा० कीथ तथा डा० देवस्थली<sup>६</sup> आदि विद्वान् नाटक के प्रासंगिक राजनीतिक कथानक से उपर्युक्त कथा० के स्थल से साम्य की सभावना करते हैं। डा० देवस्थली के अनुसार नाटककार ने राज्यव्युत होने तथा

१. कथासंग्रहालय २१४।४८-१६५,

२. इन्ट्रोडक्शन दु दि स्टडी ऑफ मृच्छकटिक: डा० देवस्थली पृ० १००-१,

३. कथा० ७।४,

४. संस्कृत ड्रामा. पृ० १३४,

५. कथा० १०।२।१-५३,

६. संस्कृत ड्रामा. पृ० १२३, इन्ट्रोडक्शन दु दि मृच्छकटिक: देवस्थली, पृ० १०१,

पुन राज्यासीन होने और राजा की सहायता आदि से सम्बन्धित घटनाचक को उपर्युक्त कथा० की कथा के आधार पर ही अपने प्रकार से उपनिवेद्ध किया है। कथा० देवस्थली ने लिखा है कि नाटककार न कथा० में वर्णित विक्रमसिंह की राज्यच्युति तथा पुनः राज्योपलब्धि के स्थान पर पालक की राज्यच्युति उसकी हत्या तथा उसके इथान पर आयंक की राज्योपलब्धि को नाट्य रूप में निवेद किया है। इसी प्रकार कुमुदिका द्वारा राज्य-प्राप्ति के लिये विक्रमसिंह की सहायता तथा प्रिय-सगम को नाटककार में वसन्तसेना को चारदत्त दी वधु तथा भायक की राज्यप्राप्ति के सहायता के रूप में नाट्यवद्ध किया है<sup>१</sup>।

नि सन्देह उपर्युक्त कथासरित्सागर तथा नाटक की मूल्य मुख्य घटनाओं में बहुत साम्य है। अत पह सभव है कि नाटककार ने वृहत्स्थान से प्रेरणा ली हो। किन्तु यह साम्य इतना अधिक तथा सर्वानीलक नहीं है कि हम वृहत्स्थान को नाटक का उपजीव्य भाज सकें। लोहजंघ तथा निषुणिका के प्रणाय, मदनमाला के महल वे वरांन को नाटक में वर्णित वसन्तसेना तथा चारदत्त के प्रणाय और वसन्तसेना के प्रासाद वण्णन आदि का प्रेरक स्वीकार किया जा सकता है, किन्तु कुमुदिका तथा श्रीधर के प्रणाय और विक्रमसिंह में सम्बन्धित राजनीतिक घटना में नाटक में वर्णित आयंक तथा पालक आदि से सम्बन्धित घटनाचक का साम्य भानना अन्वाभाविक प्रतीत होता है।

कथा० के अनुसार राजा विक्रमसिंह वो प्रतापादित्य आदि राजा युद्ध में परास्त बर देते हैं। अपने मन्त्री अनन्त युण के साथ विक्रमसिंह युद्ध द्वेष में भाग कर कुमुदिका के घर में आकर शरण लेता है। दोनों में धनिष्ठता हो जाती है। फलत कुमुदिका ने महायता से विक्रमसिंह पुन राज्य प्राप्त कर लेता है<sup>२</sup>। और, अन्त में कुमुदिका की विन्नता वे कारण का पता लगा लेने पर प्रत्युपकार के रूप में उज्ज्वली चाकर कुमुदिका के प्रियतम श्रीधर को बन्धन मुक्त कराता है<sup>३</sup>। सूक्ष्मदृष्टि से विचार करने पर नाटक दी प्रासादिक राजनीतिक घटना का कथा० की उपर्युक्त घटना में यहूत कम साम्य प्रतीत होता है। कथा० के समान नाटक में वसन्तसेना सीधे ही आयंक की राज्योपलब्धि में सहायक नहीं होती है और न आयंक ही चारदत्त तथा वसन्तसेना के प्रणायमिलन में सक्रिय रहता है। तथापि, कथा० की कथा को आशिक रूप में नाटक के कथानक वा प्रेरक माना जा सकता है। परन्तु वास्तविकता यही है कि शूद्रक ने अपने प्रकरण के लिए कथानक की मूलत बत्पना द्वारा उद्भावना

१. इन्द्रोदक्षान दु दि स्टडी ऑफ मूर्च्छिक देवस्थली, पृ० १०१,

२. कथा० १०१२।५-४३,

३. कथा० १०१२।४५-५३,

की है। मृच्छकटिक के नाटककार ने वृहत्कथा की एक भी घटना को उसी रूप में स्वीकार करके रूपायित नहीं किया है। सर्वंत्र नाटककार ने अपनी मौलिकता को संकान्त करके वृहत्कथा के नीरस कंकाल को सरस तथा सजीव बनाया है, मांसलता का विनिवेश करके नाटकीयता की उद्भावना की है, तथा विश्वृंखल कथासूत्रों में एकतारता तथा समरसता का उन्मेप करके व्यवस्थित रूप दिया है। अतः हम वृहत्कथा के कथानक की विश्वृंखल रूपरेण्वा मात्र की प्रेरणा लेने के कारण वृहत्कथा को उपजीव्य मानना उचित नहीं समझते। हमारा अभिभवत है कि मृच्छकटिक के नाटककार ने अधिकांश में कथानक को लोकवृत्त के आधार पर कल्पना द्वारा आविभूत किया है, (१) चारुदत्त, वसन्तसेना, शर्विलक तथा मदनिका आदि पात्र (आर्यक तथा पालक को छोड़कर) उद्भावित तथा लोक से संग्रहीत हैं। (२) चारुदत्त तथा वसन्तसेना की आधिकारिक प्रणायकथा लोक-प्रचलित दत्तकथाओं के आधार पर अभिभूत है। (३) शकार का धूर्ततापूर्ण चरित्र, द्यूतदृश्य, शर्विलक तथा रदनिका का प्रगण्य, संवाहक से सम्बन्धित उपकथा तथा रोहमेन और धूता की करुणा-प्रधान मार्मिक उपकथा आदि से सम्बन्धित कथायें नाटककार की निजी उद्भावनायें हैं। (४) आर्यक तथा पालक से सम्बन्धित राजनैतिक कथानक को लोक संश्य के रूप में लोक से संजोया है तथा अपनी मौलिक पद्धति से आधिकारिक नाट्यकथा के साथ संश्लिष्ट करके रूपायित किया है।

मृच्छकटिक में आर्यक तथा पालक से सम्बन्धित प्रासंगिक कथानक के अतिरिक्त समस्त कथा-उपकथा उत्पाद्य हैं। न तो उनके पात्रों की ऐतिहासिकता का पता चलता है और न घटनाओं की ऐतिहासिकता का ही। किन्तु, प्रासंगिक राजनैतिक कथानक लोकसंश्य होने के साथ-साथ ऐतिहासिक है। यद्यपि आर्यक तथा पालक से सम्बन्धित राज्यकांति की घटना शूद्रक में पूर्व ही घटित हो चुकी थी, तथापि शूद्रक के समय में लोककथा के रूप में प्रसिद्ध थी। अतः शूद्रक ने इस राज्यकांति की घटना को भी ऐतिहासिक घटना के रूप में संग्रह न करके लोककथा के रूप में ही संजोया है। अनुमानतः शूद्रक के समय में सामाजिक तथा राजनैतिक दशा अत्यधिक विश्वृंखल थी। राज्य में राजा के अत्याचार तथा अन्याय के कारण न्याय तथा शान्ति का अभाव था। सर्वंत्र अराजकता व्याप्त थी। राज्य उलटने के उद्देश्य से पड़यंत्र तथा विष्वलों में ही लोग लगे रहते थे। कुछ ही समय में राज्यकांतियाँ सफल हो जाती थीं। शूद्रक ने इसी प्रकार की समकालीन सामाजिक तथा राजनैतिक दशा के चित्रण के लिये आर्यक तथा पालक से सम्बन्धित प्राचीन काल से प्रचलित लोककथा को नाटक में प्रासंगिक कथा के रूप में संयुक्त किया है। यद्यपि इस राजनैतिक लोककथा से तत्कालीन राजनैतिक तथा सामाजिक चित्र को उभारने में तथा नाटक में सजीवता एवं सरसता के अतिरिक्त नाटकीयता लाने में पर्याप्त सहायता

मिली है, परन्तु इसकी ऐतिहासिकता में विशुद्धता तथा विश्वसनीयता का अभाव ही रहा है। इस कथा के लोक तत्त्व ने ऐतिहासिक विशुद्धता को सकान्त कर लिया है। पहीं बारण है कि विद्वानों ने इसकी ऐतिहासिकता को विशेष महत्त्व नहीं दिया है और इसी कारण ऐतिहासिक नाटक की अपेक्षा यह सामाजिक नाटक के रूप में ही अधिक जाना जाता है।

विट्टनिट्ज ने “भारतीय साहित्य में ऐतिहासिक नाटक” नामक निबन्ध में “कौमुदी महोत्सव” के समालोचन के प्रमाण में लिखा है कि कौमुदी महोत्सव तथा मृच्छकटिक समान ही ऐतिहासिक नाटक हैं। उनके प्रत्युत्तर मृच्छकटिक में वर्णित पालक के विशुद्ध प्रार्थक के राजनीतिक पदयत्र की पृष्ठभूमि तथा कौमुदी महोत्सव में वर्णित चण्डसेन तथा कल्याणवर्मन से सम्बन्धित कथानक म समानता है। ‘विट्टनिट्ज ने दोनों को इस समानता का उपर्युक्त करते हुए लिखा है कि दोनों ही नाटकों में वर्तमान में उपनिषद्भ भारतीय इतिहास के प्रत्युत्तर घटनाओं का अनुसन्धान प्रसंभव है।’ इस प्रकार विट्टनिट्ज ने कौमुदी महोत्सव तथा मृच्छकटिक को समान अर्थ में ऐतिहासिक नाटक मानकर एक स्तर पर रखने का प्रयत्न किया है। विन्तु उनका मत अधिक समीचीन नहीं है। कौमुदी महोत्सव के सम्बन्ध में हमने आगे विशेष प्रकाश ढाला है। श्री रामकृष्ण कवि ने कौमुदी महोत्सव के कथानक के किसी भी प्रक की ऐतिहासिकता का निश्चय न होने पर भी हमें ऐतिहासिक नाटक के रूप में मर्वंप्रथम प्रशाशित किया था। इसके पश्चात् भी अनेक इतिहासकार तथा साहित्यवारों न कौमुदी महोत्सव की ऐतिहासिकता के अनुसन्धान की चेष्टा भी है, तथापि अद्यावधि सर्वसम्मत रूप से उनके किसी भी कथाग्रंथी की ऐतिहासिकता स्वीकृत न होने पर भी ऐतिहासिक पात्रों के नाम-मात्र्य आदि के भावार पर ही आज भी उसका ऐतिहासिक नाटक के रूप में प्रचलन है। विन्तु मृच्छकटिक में पालक तथा प्रार्थक में सम्बन्धित प्रामगिक कथानक वे ऐतिहासिक होने पर भी इसका सामाजिक नाटक के रूप में ही प्रचलन है। हम भी यद्यपि

1 The Kaumudi Mahotsava is a historical drama only in the same sense as the Mṛichchakatika. That is to say, as the political intrigue of the latter the raising of Ariyaka against Palska is likely to have some historical background so also the story of Chanda-en and Kalyan Verman in the Kaumudi Mahotsava but in both cases we are unable to trace the events alluded in the history of India as far as it known to us at present.”

आधिकारिक कथानक के आधार पर मृच्छकटिक को सामाजिक नाटक ही मानना अधिक उचित समझते हैं, तथापि हम यह भी मानते हैं कि मृच्छकटिक का सामाजिक तत्त्व प्रामंगिक रूप से निवद्ध ऐतिहासिक कथानक से अद्यता नहीं है। अतः इसका ऐतिहासिक नाटक के रूप में भी महत्व है।

कोई भी विद्वान् मृच्छकटिक में उपलब्ध राजनीतिक तथा ऐतिहासिक स्वरूप के अस्तित्व को ग्रस्तीकार नहीं कर सकता। यह अवश्य है कि नाटक के आधिकारिक सामाजिक कथानक ने उसे गौण ही रहने दिया है अतएव हम मृच्छकटिक को विशुद्ध ऐतिहासिक नहीं मानते हैं तथापि यह ऐतिहासिक अवश्य है। नाटककार ने समस्त नाटक में कभी भी आर्यक पालक से सम्बन्धित घटना को दृष्टि से ओफल नहीं किया है अपितु प्रसंगतः स्थान-स्थान पर उसने उस घटना का उल्लेख किया है। प्रथम अंक में प्रतावना में पालक का तदनतर गोपालदारक का उल्लेख है। तृतीय अंक में आर्यक की मुक्ति के सहायक शर्विलक की अवतारणा करके चतुर्थ के अन्त में शर्विलक अपने मित्र आर्यक को मुक्त करने को चला जाता है। आगे यष्ठ अंक में ऐतिहासिक घटना का क्रमणः विस्तार होता है और नाटक की समाप्ति इसी ऐतिहासिक घटना के साथ-साथ होती है। इसके अतिरिक्त नाटक का समस्त सामाजिक कथानक भी ऐतिहासिक राजधानी उज्जैनी से सम्बन्धित है तथा राजनीतिक पृष्ठभूमि पर खड़ा किया गया है। नाटक की अधिकांश घटना किसी न किसी रूप में शकार आदि राज-परिजन तथा अन्य राज्याधिकारियों को छूते-छूते आगे बढ़ी है। समस्त नाटक में राजनीतिक वातावरण में ही सामाजिक कथानक को नाटकवद्ध किया है। अतएव यह राजनीतिक वातावरण में अभिसृष्टि सामाजिक नाटक सा प्रतीत होता है। सामान्यतः इसे इतिहास गम्भित-सामाजिक नाटक या सस्कृतिप्रवान ऐतिहासिक नाटक के रूप में स्वीकार करने में किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। वास्तविकता यही है कि पालक तथा आर्यक की राजनीतिक घटना चारुदत्त तथा वसन्तसेना की कथा से इतनी सम्पूर्णत है कि दोनों को ही साथ-साथ विन्यस्त करने से नाटक की आत्मा उभरती प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त इसी प्रासांगिक कथा के द्वारा मुख्य कथा क्रमणः गतिशील होती है तथा सामाजिक वातावरण की सृष्टि में अत्यधिक योग देती है। यही कारण है कि ऐतिहासिक कथा के परिपाश्व में ही मृच्छकटिक का अध्ययन करना अधिक उपयुक्त है, अतएव यह भी स्पष्ट है कि मृच्छकटिक के ऐतिहासिक कथानक का नाटक में समधिक महत्व है।

विन्टनिट्रज का यह कथन कि मृच्छकटिक में वर्णित राजनीतिक घटना का उपलब्ध भारतीय इतिहास के अनुसार अनुसंधान नहीं हो सकता, सर्वथा त्रुटिपूरण है। वास्तविकता इतनी ही है कि मृच्छकटिक के रचयिता ने पालक तथा आर्यक की घटना को लोक से संजोया है और उसी रूप में नाट्यवद्ध कर दिया है। अतएव

नाटक की कथा का प्राप्त इतिहास से यत्र तत्र विरोध है। किन्तु उमड़ी ऐतिहासिकता सुनिश्चित है। अत वौमुदो महोरसव, जिसकी कथा तथा पात्रों की ऐतिहासिकता अनिश्चित तथा विवादाप्तपद है, से मृच्छकटिक के ऐतिहासिक कथानक का साम्य स्वीकार करना उचित नहीं है। मृच्छकटिक में मुख्यतः गोपाल तथा आर्यक की प्रासादिक घटना ही ऐतिहासिक है। अत यहाँ उसका ही विशेषण करना उचित होगा।

### पालक तथा आर्यक से सम्बन्धित कथानक की ऐतिहासिकता

मृच्छकटिक में प्रासादिक कथानक के रूप में विन्यस्त पालक तथा आर्यक के राजनीतिक कथानक में सम्बन्धित ममस्त पात्र ऐतिहासिक नहीं हैं। पालक तथा आर्यक ऐतिहासिक पात्र हैं अन्य शविसक आदि पात्र कल्पित हैं। पालक तथा आर्यक से सम्बन्धित राजनीतिक घटना ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महसूपूर्ण न होने से, इनिहास प्रन्थों में इसका उल्लेख प्रतिस्वल्प मात्रा में हुआ है। मुख्यतः प्राचीन भारत के प्रसिद्ध राज्य “अवन्नि” उसकी राजधानी उज्जयिनी तथा उसके पराक्रमी राजा प्रद्योग से सम्बन्धित होने के बारण ही इस घटना का प्रसगत यत्र-तथा उल्लेख प्राप्त होता है।

इस पूर्व घट भारत के प्राचीन १६ जनपदों में से एक “अवन्नि” भी था। प्राचीनवाल में अवन्नि में हैश्वरण का राज्य था, किन्तु विम्बसार के शासन वाल के भूल में वहाँ एक नवीन राजवंश स्थापित हुआ। इस नवीन वंश का सम्पूर्ण प्रद्योत था। यह प्रद्योत वंश लगभग ५०५ ई० पू० में अधिष्ठित हुआ। वौद्ववाल में उदयन तथा अजातशत्रु आदि के समय प्रद्योत ही अवन्नि देश का शासक था। प्रद्योत भारतीय इनिहास में अपने प्रत्येक पराक्रम तथा दुर्दान्त तेज के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए प्राय प्रद्योत को चण्ड प्रद्योत (चण्ड पञ्जोन) तथा येना की विशालता के बारण महासेन कहा गया है। पुराणों के अनुमार इस प्रद्योतवंश में ५ गजा हुए—प्रद्योत, पालक, विशाखयुध, आर्यक और अवन्नि वर्षन। आर० के० मुकर्जी न पुराणों के अनुमार ५ प्रद्योतों का नामोल्लम्ब इस प्रकार किया है—प्रद्योतन, पालक (एक पाठ गोपालक), विशाखयुध, जनक (वायु पुराण में अजनक, मत्स्य में सूर्यक तथा भागवत में राजक) और नन्दिवर्धन (वनिवधन भी नाम का एक रूप है)।<sup>१</sup> मुकर्जी न जिस प्रद्योतवंशी जनक, (सूर्यक राजक, और आजक) का उल्लेख किया है, वह नाटक में उल्लिखित आर्यक ही है। इसी प्रकार पुराणों के अनुमार मुकर्जी न जिस नन्दिवर्धन का उल्लेख किया है, वह कथा० म अवन्निवधन के नाम से उल्लिखित

१. हिन्दू सम्प्रता: भार० के० मुकर्जी, पृ० २६२,

है ।<sup>१</sup> अतः नन्दिवर्धनं तथा वर्तिवर्धनं प्रवन्तिवर्धनं के पाठान्तर मात्र हैं ।

मृच्छकटिक में इसी प्रद्योतवंश के पालक तथा आर्यक से सम्बन्धित राजनैतिक घटना को नाट्यब्रह्म किया गया है । प्रद्योतवंश में प्रद्योत के उत्तराधिकारियों में पालक के अतिरिक्त सभी राजा दुर्बल हुए । पालक से सम्बन्धित थोड़ा बहुत इतिवृत्त कथा । आदि ग्रन्थों में भी वरणित है । श्री मुकर्जी ने पुराणों के आधार परं पालक का उल्लेख करते हुए उसी के पाठान्तर के रूप में गोपालक का उल्लेख किया है ।<sup>२</sup> इसी प्रकार अनेक इतिहासकारों ने पालक तथा गोपालक में केवल 'गो' अक्षर के अन्तर के कारण पाठभेद माना है, अन्यथा वे इन दोनों को एक ही मानते हैं ।

इसी प्रकार समानता के आधार पर, कुछ इतिहासकारों ने आर्यक को गोपाल का पुत्र कहा है ।<sup>३</sup> यद्यपि मृच्छकटिक में भी आर्यक का गोपालदारक के रूप में उल्लेख किया है<sup>४</sup> और कुछ विद्वानों ने भी उसको अर्थ गो पालने वाले च्वाले का पुत्र माना है, किन्तु पालक तथा गोपाल को एक मानना तथा आर्यक को वाले का पुत्र मानना इतिहास-विरुद्ध तथा भ्रामक है । कथा ० में प्रद्योत के दो पुत्र थे गोपालक तथा पालक ।<sup>५</sup> गोपालक वडा तथा पालक छोटा था । भास ने भी पालक तथा गोपालक का प्रद्योत पुत्र के रूप में उल्लेख किया है,<sup>६</sup> केवल 'गो' अक्षर के अन्तर के कारण पालक का पाठान्तर गोपालक मानना उचित नहीं है । वस्तुतः पालक तथा गोपालक दोनों भाई हैं । आर्यक गोपालक का पुत्र था । नाटक में इसी गोपालक का गोपाल के रूप में उल्लेख करके आर्यक को गोपाल दारक कहा है । नाटक में इसी आर्यक द्वारा पालक के विरुद्ध की गई राज्यकांति का वरणन है ।

किन्तु प्रद्योतवंश की पौराणिक वंशावली में गोपालक का उल्लेख नहीं है और इसी प्रकार प्रद्योत की पौराणिक वंशावली में पालक तथा आर्यक के मध्य में उल्लिखित विशाखयूप का मृच्छकटिक में उल्लेख नहीं है, वल्कि नाटक में तो पालक को अपदस्थ करके आर्यक के राज्यासीन हीने का वरणन किया गया है । अतः गोपालक तथा विशाखयूप की ऐतिहासिकता के सम्बन्ध में सन्देह होना स्वाभाविक है ।

१. हिन्दू सम्प्रता : आर० के० मुकर्जी (हिन्दी), पृ० २६२,

२. हिन्दू सम्प्रता : आर. के. मुकर्जी (हिन्दी), पृ० २६२,

३. प्रा० भा० इति० विपाठ०, पृ० ७१,

४. "एथोऽद्य गोपालदारको गुप्तिं भङ्गत्वा" मृच्छ० ६।१ से पूर्व, पृ० ३२७, आदि ।

५. कथा० २ ५।२१-२८,

६. प्रतिज्ञायोगन्धरायण २।१३,

कथा० के अनुसार प्रद्योत के बाद पालक ही राजा बना।<sup>१</sup> प्राय सभी इतिहासकार यही मानते हैं। अत स्पष्ट है कि गोपालक पालक का बड़ा भाई था, तथा पि राज्यासीन नहीं हुआ। कथा० के अनुमार यह भी स्पष्ट है कि उदयन तथा गोपालक में परस्पर घनिष्ठता थी। गोपालक ने उदयन तथा वहिन वासवदत्ता के विवाह, अपहरण आदि में सक्रिय भाग लिया था। इसी ने वासवदत्ता के अपहरण के पश्चात् कौशलम्बी जाकर वंधानिक सस्कार कराया था तथा उपहार भेंट किये थे।<sup>२</sup> ऐसा भी ज्ञान पड़ता है कि गोपालक प्राय वासवदत्ता तथा उदयन के पास ही रहता था। गोपालक को राज्य प्राप्ति की इच्छा नहीं थी, इसी उदासीनता के कारण सभवत शोटा भाई पालक प्रद्योत के बाद राजा बना। वृहत्याकृष्णोक्तसग्रह के अनुसार स्वय गोपालक ने पालक का राज्याभिषेक किया था।<sup>३</sup> यही कारण है कि प्रद्योत के उत्तराधिकारी के रूप में गोपालक का उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। किन्तु इन उल्लेखों में कितनी सत्यता है, वहना फटिन है। मूच्छद्रष्टिक में वलित घटना के पासार पर उपर्युक्त कथाओं में सहज ही विश्वास नहीं होता है।

मूच्छद्रष्टिक में पालक को एक अत्याचारी शासक के रूप में चित्रित किया है। नाटक में उसे दुराचारी, चाण्डाल,<sup>४</sup> कुनूप,<sup>५</sup> बलमत्रिहीन,<sup>६</sup> तथा दुष्ट<sup>७</sup> ग्रादि बहा है। नाटककार भास न भी उसे गान्धवेकलाद्वयी तथा व्यायाम-प्रेमी बहा है।<sup>८</sup> अत भात होता है कि सभवतः पालक दुष्टप्रकृति वा व्यक्ति था। प्रद्योत की मृत्यु के बाद उसने अपने कुचकों द्वारा बड़े भाई शान्तिप्रिय गोपालक को, राज्य में वचित वरके ध्रवन्ति को अविकृत वर लिया था। पालक के अत्याचार, अन्याय आदि के अनिरिक्त सभवत पालक के विन्दु ध्रवन्ति की समस्त प्रजा के असन्तोग का यह भी एक कारण था। मूच्छद्रष्टिक में पालक के प्रति इसी प्रजा के धर्मन्तोष तथा विद्रोह भावना को चित्रित

१. कथा० १६१२१३,

२. देखो कथा० २१६१२८-३१ ३१३ ११११-२१ तथा ३१२४३-५५, ६४ आदि।

३. श० क० श्लो० सप्त १८६,

४. मूच्छद्रष्टिक ४२७, १०१६ के पश्चात् (नामरोहणकारी दुराचार पालक इव चाण्डाल),

५. वही १०१४७,

६. वही, १०१४८ १४०,

७. वही, १०१४१, ५२ इत्यादि

८. अर्थशास्त्रपुण्याहो ज्येष्ठो गोपालक सुत।

गान्धर्थदेवी व्यायामशाली चाप्यनुपालक। प्रतिज्ञा० २११,

किया गया है। इसी जन-ग्रसन्तीय का परिणाम था कि प्रजा के छोटे-बड़े सभी लोंगों ने पालक के विरुद्ध राज्यकांति में भाग लिया और कुछ ही समय में सफल विप्लव के द्वारा पालक को राज्यन्युत करके गोपालक के पुत्र आर्यक को राज्य पर श्रासीन किया। यही कारण है कि प्रद्योत के बाद गोपालक का उल्लेख न होकर पालक का उल्लेख है। इस प्रकार कथासरित्सागर आदि की अपेक्षा नाटक में वर्णित राज्यकांति, गोपालक के उल्लेख का अभाव तथा आर्यक के राज्यासीन होने की परिस्थितियों का चित्रण अधिक स्वाभाविक तथा सत्य के निकट जान पड़ता है।

मृच्छकटिक में पालक के पश्चात् आर्यक को उत्तराधिकारी के रूप में चित्रित किया है, जबकि पुराणों के अनुसार विशाखयूप पालक का उत्तराधिकारी था। अतः प्रद्योतवंश की पौराणिक वंशावली में उल्लिखित पालक के उत्तराधिकारी विशाखयूप का उल्लेख दृष्टिपूर्ण होना चाहिये, या मृच्छकटिक का वर्णन अनेतिहासिक होना चाहिये। डा० त्रिपाठी विशाखयूप के उल्लेख को गलत मानते हैं।<sup>१</sup> किन्तु सूक्ष्महृष्टि से विचार करने पर पौराणिक वंशक्रम भी ठीक प्रतीत होता है तथा नाटक में चित्रित घटनाक्रम भी ऐतिहासिक प्रमाणित होता है। मृच्छकटिक के अनेक स्थलों से यह तो स्पष्ट है कि आर्यक गोपालक का पुत्र था। इतिहासकार भी यही मानते हैं। किन्तु प्रद्योत के पौराणिक वंशक्रम के आधार पर विशाखयूप भी पालक का उत्तराधिकारी था। पुराणों में विशाखयूप को-माहिष्मती का राजा लिखा है। कथा० में पालक का पुत्र अवन्तिवर्धन वत्तलाया गया है।<sup>२</sup> अतः हमारा अनुमान है कि विशाखयूप तथा आर्यक ने एक समय में ही अवन्ति के भिन्न-भिन्न भागों पर राज्य किया था। संभवतः जिस समय पालक के विरुद्ध आर्यक ने विद्रोह करके अवन्ति पर अधिकार किया, उसी समय अवन्तिराज्य (असमान) दो भागों में विभक्त हो गया। राजधानी उज्जयनी पर आर्यक का ही अधिकार था, किन्तु माहिष्मती की ओर का थोड़ा बहुत भाग विशाखयूप ने हथिया लिया था। इस अनुमान के आधार पर विशाखयूप का उल्लेख भी ठीक प्रमाणित होता है। इसके अतिरिक्त इस अनुमान से यह भी स्पष्ट होता है कि यद्यपि प्रद्योतवंश में पूर्वोक्त ५ राजा ही हुए, किन्तु ऐतिहासिक से मुख्य अवन्ति-राज्य का उपभोग ४ राजाओं ने ही किया था। विशाखयूप ने अवन्ति का उपभोग अन्य राजाओं के समान नहीं किया, तथापि वह अवन्ति के एक भाग का शासक था। अतएव गोपालक के समान उसकी उपेक्षा न करके पुराणों में उसका प्रद्योतवंश के राजाओं में उल्लेख किया है। किन्तु अवन्ति में पालक का वास्तविक उत्तराधिकारी 'आर्यक' ही था। अतः मृच्छकटिक का उल्लेख पूर्णतः ऐतिहासिक प्रतीत होता है।

१. प्रा० भा० इति० त्रिपाठी, पृ० ७२,

२. वही, पृ० ७१,

पुराणो में प्रद्योतवशी राजाओं का राज्यकाल १०० वर्ष (द्विपचाप॑) किया है। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि सभवत पुराणो में ६८ वर्ष के निये १०० वर्ष लिख दिया है। पुराणो के अनुमार प्रद्योत ५०५ ई० पू० में गढ़ी पर बैठा। इसके २३ वर्ष राज्य करने के पश्चात् ५०५ ई० पू० ४८२ में पालक राज्यगढ़ी पर बैठा। कुछ साथों के अनुसार पालक ने ६० वर्ष के लगभग राज्य किया, किन्तु पुराणो के अनुमार पालक ने २४ वर्ष राज्य किया। सभवत पालक के २४ वर्ष के लगभग राज्य करने पर राज्यकाति हुई। इसी राज्यकाति में पालक मारा गया। पालक के मरने पर प्रायंक ने ४५६ ई० पू० में अवन्ति के राज्य को अविकृत कर लिया। आयंक के पश्चात् अवन्तिवर्धन अवन्ति का राजा बना। अवन्तिवर्धन को ५० पू० ४०७ में उन्मूलित करके अवन्ति पर शिशुनाक वश की स्थापना हुई। अत इष्ट है कि प्रद्योतवश में प्रद्योत के पश्चात् पालक ने २४ वर्ष राज्य अवश्य किया तथा कौशम्बी को जीतकर अपने राज्य में मिलाया,<sup>१</sup> किन्तु यह सोडप्रिय शासक नहीं था। अतएव आयंक के नेतृत्व में पालक के विशद राज्यकाति हुई। यह राज्यकाति की घटना महत्वपूर्ण अवश्य है, किन्तु इसका विस्तार से कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। सभवत पालक से सम्पत्ति प्रजा भ्रत्यधिक रूप तथा प्रसन्नुष्ट थी। अतएव प्रजा के समस्त वर्गों ने इस राज्यकाति में भाग लिया और कुछ ही दिनों के स्वरूप समय में यह काति सफल हो गयी। इस क्राति में कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना घटित नहीं हुई, जिसका विशेष ऐतिहासिक महत्व होता। सभवत यही कारण है कि इसके सम्बन्ध में केवल मृद्धकटिक के अतिरिक्त कहीं भी विशेष उल्लेख प्राप्त नहीं है। मृद्धकटिक के नाटककार ने भी लोक कथा के आधार पर इसका सामान्य वर्णन ही किया है।

मृद्धकटिक में वर्णित प्रासादिक घटना के अनुसार पालक के राज्यकाल में किसी सिद्ध ज्योतिषी ने आयंक के राजा होने के सम्बन्ध में भविष्यवाणी की थी। इस भविष्यवाणी के भय से आशक्ति होकर पालक ने आयंक को उसके निवासस्थान से पकड़ा बर बन्धन में छाल दिया।<sup>२</sup> किन्तु आयंक के निश शर्विलक ने कारागृह के रथकों को मार कर आयंक को मुक्त कराया।<sup>३</sup> आयंक कंद से भाग कर चारदत्त भी

१. अस्युज्जिविधानूपतिः श्रीमाभ्यासकसन्नकः।

कुमारस्तस्य पुश्चोऽस्ति सुवामावन्तिवर्धन्।। ११२।१३,

२. प्रा० भा० इति०, त्रिपाठी, पृ० ७१,

३. “ “एषस्तु आयंको योपालदारको राजाभविष्यतो”

“ति तिदादेश-प्रत्ययपरिग्रस्तेन पालकेन राजा धोपादानीय घोरे बन्धनगते बढ़।” मृद्धकटिक ४।२४-२५, तथा ६।१, २, १०।५२, आदि।

४. मृद्धकटिक ४।२७, ६।१ तथा देलो विस्तार के निये यह अ क।

शरण में गया और बाद में अपने कुद्रुमियों में जा भिना।<sup>१</sup> इस समय समस्त प्रजा राजा पालक से असन्तुष्ट थी। राजा के साले आदि परिजन जनता को मनमाने हींग से पीड़ित करते थे। न्यायाधिकारी भी राजा के भय से शक्ति रहते थे। अन्याय और अत्याचार के कुचक द्वारा समस्त जनता का दमन किया जा रहा था। फलतः प्रजा के प्रत्येक वर्ग में राजा पालक के प्रति असन्तोष था। ऐसी परिस्थितियों में आर्यक तथा शर्विलक को पालक के विरुद्ध प्रजा का सहयोग मिला और प्रजा ने पालक के विरुद्ध राज्यकांति की। इस क्रांति में ही सेना तथा मंत्री से रहित पालक को यज्ञशाला में भार दिया गया और आर्यक को राजा बना दिया।<sup>२</sup> आर्यक ने प्रजा को समाध्वासन देकर पालक के पक्षपातियों एवं उसके परिजन का दमन किया तथा अपने पक्षपाती—समर्थकों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। नाटककार ने इन्हीं घटनाओं को विस्तार से पल्लवित करते हुए चारुदत्त तथा वासवदत्ता की आधिकारिक प्रणयकथा तथा अन्य उपन्यासों के साथ गौण दिया है।

नाटक में उल्लिखित आर्यक का प्रमुख सहयोगी शर्विलक कल्पित पात्र प्रतीत होता है। सेनापति चन्दनक, वीरक आदि अन्यान्य पात्र तथा उनसे सम्बन्धित घटनायें भी सम्भाष्य कल्पना द्वारा विन्यस्त हैं। चारुदत्त, वसन्तसेना, संचाहक आदि से सम्बन्धित सामाजिक घटनाओं को भी उत्पाद्य के रूप में संयुक्त किया है। भविष्यवाणी का प्रयोग कल्पित तथा अनैतिहासिक है। अनुमानतः इसमें केवल ऐतिहासिक तथ्य यहीं प्रतीत होता है कि जब पालक ने गोपालक को राज्य से वंचित करके अवन्ति के शासन को अपने हाथ में ले लिया था, और वह प्रजा पर अत्याचार करने लगा, तब प्रजा ने पालक के विरुद्ध गोपालक के पुत्र आर्यक को राजा बनाने की गुप्त योजना बनायी होगी। पालक को जब इसकी सूचना मिली तब पालक ने प्रकारण ही आर्यक को बन्दी बना लिया। किन्तु, इस घटना से प्रजा में पालक के विरुद्ध विद्रोह की आग और फैल गयी। फलत शर्विलक जैसे पराक्रमी मित्र की सहायता से आर्यक को सब प्रकार से सफलता मिली। शर्विलक जैसे साथी की सहायता से ही आर्यक केंद्र से भाग निकला। पालक इस विद्रोह में मारा गया तथा आर्यक राज्यासीन हुआ। नाटककार ने इन्हीं घटनाओं को लोकस्मृति से संजोकर, कल्पना द्वारा विस्तार करके नाटक में विन्यस्त किया है। इस राजनैतिक घटना से

१. मृच्छकटिक आंक वष्ठ तथा सप्तम,
  २. हत्वारिपुंतं वलमत्रिहीनं पौरान्समाश्वास्य पुनः प्रकर्षत् ।
- प्राप्त समग्रं वसुधाधिराज्यं राज्यं बलारेत्वं शत्रुराज्यम् ॥
- मृच्छ० १०१४८, तथा देखो १०१४७, ५१ आदि ।

सम्बन्धित ग्रन्थ किसी साक्ष्य के भ्रमाव में इसको ऐतिहासिकता के सम्बन्ध में निश्चयारम्भक रूप में कुछ भी बहना अनुचित है। अनुमानत नाटककार ने इस घटना को लोकवृत्त से चुनकर बल्पना द्वारा ही पल्लवित किया है, तथापि सभावश्वता के आधार पर यह राजनीतिक घटना नि सन्देह ऐतिहासिक प्रतीत होता है। कहीं भी इसमें अस्वाभाविकता का आभास नहीं होता है। नाटक में समस्त घटनायें स्वाभाविक रूप से इस प्रकार घटित होती जाती हैं, मानो नाटककार ने चाकूप अनुभव के पश्चात् ही इन्हें नाट्यबद्ध किया हो। वस्तुतः इन राजनीतिक घटनाओं के स्वाभाविक विव्यास का कारण नाटककार की महज उर्वर बल्पना के अतिरिक्त समालीन राजनीतिक दशा की समानता भी है, जिसके कि कारण नाटककार को इस यथार्थ चित्रण में सफलता मिली।

यद्यपि मृच्छकटिक के रचयिता ने अपनी कल्पना द्वारा लोकवृत्त से तप्रहीत घटना सूत्र को मासल तथा मजीव बनाकर, धात-प्रतिधात की अभिमृष्टि द्वारा राजनीतिक घटनाओं के अनुरूप गत्यात्मकता का सचार किया है, तथापि यह अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि उसने राजनीतिक घटना से लोकप्रभाव का परिमाजन करके विशुद्ध ऐतिहासिकता के विनिवेश की चेष्टा नहीं की है। नाटक में यह घटना मूलत अत्यधिक सूत्रात्मक तथा रस्त्वप है तथापि उसमें ऐतिहासिक भूलें हुई हैं। उदाहरण के लिये नाटक में आर्यक वो राजा पालक में भिन्न गोत्र वाला कहा है।<sup>१</sup> जबकि इतिहास के अनुसार यह स्पष्ट है कि आर्यक पालक के भाई गोपालक का पुत्र था, तो आर्यक के लिये गोत्रान्तर का बतलाना उचित नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार नाटक में शर्विलक बहता है कि पालक के समस्त राज्य वो आर्यक ने प्राप्त कर लिया है।<sup>२</sup> जबकि पुराणों के अनुसार हम यह बतला चुके हैं कि विशाख्यूप ने माहिष्मति की ओर वा कुछ भाग हस्तगत कर लिया था। वैसे इस समग्र शब्द का शाब्दिक अर्थ न लेकर समग्र प्राय अर्थ लेना ही ठीक होगा।

नाटक में आर्यक के लिये नाटककार ने प्राय गोपालदारक तथा गोपालप्रदृति आदि शब्दों का उल्लेख किया है। कहीं भी स्पष्ट रूप से उसका परिचय तहीं दिया है। प्रधिकांश व्याख्याकारी तथा इतिहासवारों ने इसका शाब्दिक अर्थ खाला किया है, और आर्यक को खाले का पुत्र मानकर शूद्र तक लिख दिया है। सभवत स्वयं नाटककार को भी आर्यक का ऐतिहासिक परिचय स्पष्टत ज्ञात नहीं था। अतएव

<sup>१</sup> आगच्छत विश्वस्तास्त्वग्निं पतंध्वं सधु कुहत ।

सदमीयेन न राज प्रभवति गोत्रान्तर गन्तुम् ॥ मृच्छ ६।६,

<sup>२</sup> मृच्छकटिक १०।८८,

उसने उसका सम्बन्ध खाले अर्थात् आभीरों से मानकर 'घोप' (आभीरपल्ली) को उसका निवासस्थान मान लिया है तथा घोप से पकड़े जाने का उल्लेख किया है ।<sup>१</sup> किन्तु आर्यकों का खाले का पुत्र तथा शूद्र मानना मर्वथा वृष्टिपूरण है । कथासरित्सागर आदि ग्रन्थों के अनुसार हम स्पष्ट कर चुके हैं कि आर्यक प्रद्योत के ज्येष्ठ पुत्र (पालक के बड़े भाई) गोपालक का पुत्र था । प्रायः विद्वानों ने इसी गोपालदारक शब्द का अर्थ गोपालक या खाला करके तथा आर्यकों को शूद्र मानकर ही मृच्छकटिक को अनैतिहासिक सिद्ध करने का प्रयास किया है । किन्तु नाटक का किंचित् गंभीरता से परिशीलन करते पर उपर्युक्त मान्यतायें निःमार सिद्ध हो जाते हैं ।

नाटक में आर्यक ब्राह्मण शविलक के घनिष्ठमित्र के रूप में चित्रित है । शविलक ब्राह्मण होते हुए भी कहता है कि मैं दुष्ट कुनृप पालक को मार कर, उसके राज्य पर शीघ्र आर्यक को अभिभिक्त करके उसकी अन्य अवशिष्ट आज्ञाओं को मत्तक पर धारण करके व्यसनगत चाहुदत्त का उद्धार करूँगा ।<sup>२</sup> यदि आर्यक शूद्र होता तो नाटककार ब्राह्मण शविलक के मुख से उसकी आज्ञा को सिर पर रखने का उल्लेख न कराता । शविलक यह भी कहता है कि साधु चरित्र वाले आर्यक ने, कुल और मान वीर रक्षा करते हुए यज्ञशाला में स्थित दुष्ट पालक को पशु के समान मार डाला ।<sup>३</sup> इससे स्पष्ट है कि आर्यक कुनैन तथा पालक की अपेक्षा सच्चरित्र था । इसी कारण से उसे "आर्यवृत्त" कहा है । इसके प्रतिरिक्त चन्दनक जिस प्रकार चाहुदत्त को आर्य चाहुदत्त कहता है उसी प्रकार गोपालक को आर्य गोपालदारक कहता है ।<sup>४</sup> इस "आर्य" शब्द से भी ध्वनित होता है कि नाटककार की दृष्टि में आर्यक शूद्र न था । ऐसे ही अनेक उल्लेखों से स्पष्ट होता है कि नाटककार ने आर्यक को प्रसिद्धि के अनुसार गोपालदारक आदि शब्दों का प्रयोग तो अवश्य किया है, किन्तु इतिहास के विश्व शूद्र आदि कहीं भी नहीं लिखा है ।

इसके अतिरिक्त इस ऐतिहासिक कथानक की महनीय विशेषता यह है कि नाटककार ने इस ऐतिहासिक तथा आविकारिक सामाजिक कथानक का समानान्तर विस्तार करते हुए समस्त नाटक में राजनीतिक तथा ऐतिहासिक वातावरण की सफल अभियूषित की है । नाटक का समस्त सामाजिक घटनाचक भी राजनीतिक वातावरण

१. देखो मृच्छ ४१२४-२५, १०१५२-५३,

२. मृच्छकटिक, १०१४७,

३. आर्यकेणार्यवृत्ते न कुलं मानञ्च रक्षता ।

पशुवद्यज्ञवाटस्यो दुरात्मा पालको हतः ॥ मृच्छ १०१५१,

४. आर्यगोपालदारकः आर्यचाहुदत्तस्य प्रवहणमधिरथ्य—मृच्छकटिक ६।२२,

से श्रोतप्रोत है। राजा वा सल्ला संस्थानक न्यायालय, पुलिम अभिकारी तथा राजनीतिक पड़यत्र के माध्यम से समस्त नाटक में ऐतिहासिक बातावरण की सफल अभियूक्ति करके ऐतिहासिकता वा सचार किया है।

### मृच्छकटिक की नाट्यकला

मृच्छकटिक नाट्यकला की हृष्टि से संस्कृत नाट्य साहित्य में सर्वाधिक सफल नाटक है। वस्तुविधान, चरित्रचित्रण, रसारमज्ञता आदि की हृष्टि से मृच्छकटिक भारतीय परम्परा के अनुरूप है किन्तु इनके अतिरिक्त भी इसकी कुछ अपनी विशेषताएँ हैं, जिनका संस्कृत के अन्य नाटकों से प्रायः अभाव है या जो अल्पतरामात्रा में प्राप्त होती है। संस्कृत के नाटक प्रायः भारतीय परम्परा की परिसीमा में ही अभिसृप्त हुए हैं, उनमें भारतीय समाज तथा संस्कृति का प्रतिविम्बन हुआ है, किन्तु मृच्छकटिक एक ऐसा नाटक है जिसमें कुछ सार्वदेशिक तत्व हैं तथा सार्वजनीनता एवं सार्वभौमिकता की भी भलव है। यही बारण है कि मृच्छकटिक भारतीय जनता को ही प्रिय नहीं है, और न केवल भारतीय संस्कृति, आदर्श तथा कला के प्रेमियों को ही प्रिय है, अपितु विश्वभर के रसिकों को समान रूप से प्रिय है।

### मृच्छकटिक का वस्तुविधान

मृच्छकटिक के नाटककार ने १० अको के इस घूर्णसुरुल प्रकरण में अनेक कथा उपकथाओं के रूप में नाटकीय सविधान का समायोजन किया है। मृच्छकटिक में चाहूदत तथा वसन्तमेना के प्राणग्रन्थ और स्थायी मिलन की अभिनाया की कथा को अनेक प्रासादिक घटनाओं के समुचित मध्येप द्वारा भारतीय नाट्य सिद्धान्त की परिमीमाओं में रूपायित किया है। कामदेवायतन उद्यान म परस्पर नेत्रश्रीनि से उभूत वसन्तसेना तथा चाहूदत की अनुरक्ति का वीजप्रक्षेप प्रथम अव म शकार की उक्ति म करके,<sup>१</sup> कर्णपूरक, शविलक मदनिका, तथा सवाहक और माधुर आदि से सवधित उपकथाओं के सविधान द्वारा आधिकारिक कथानक को विकसित किया है। किन्तु जब, सहसा, चाहूदस, शकार के कुचक के द्वारा वसन्तमना को हृषा के अपराधी के रूप में मृत्यु के द्वार पर जा सड़ा होता है,<sup>२</sup> उस समय नाटक की कथा चरमोत्तम पर पहुँच जाती है। सामाजिकों वा कूनुहल उस समय और भी पराकाढ़ा पर जा

१. शकार-भाव, भाव। एषा गर्भदासी कामदेवायतनोद्यानात् प्रभृति

तस्यदरिद्रचाहूदतस्य अनुरक्ता, न मां दमयते “मृच्छ० प्रथम अक, पृ० ५२

२. (स्त्रिगमाहृत्य) आर्यचाहूदत्त। उत्तानो भूत्वा सम तिष्ठ।

एकप्रहारेण भावयित्वा त्वां द्वग्नं नयाव ।”

मृच्छ० दशम अक, पृ० ५६६,

पहुँचता है, जबकि चारुदत्त के वश को सन्नद्ध चाण्डालों के हाथों में उठी हुई खड़ग यहीं नाटक का पटान्त करना चाहती है। निःसन्देह मृच्छकटिक का रचयिता यदि कोई पाश्चात्य नाटककार होता, तो निश्चित रूप से यहीं नाटक को समाप्त करके ट्रैजेडी बना देता, किन्तु भारतीय आदर्श के प्रति निष्ठा होने के कारण मृच्छकटिक के रचयिता ने नाटकीय घटनाचक्र को पुनः एक भोड़ दिया है। चाण्डालों के हाथों से अनायास ही खड़ग छिटक पड़ती है।<sup>१</sup> और नाटक में प्राप्याशा के रूप में कथानक हुःखान्त से सुखान्त की ओर बढ़ चलता है। वसन्तसेना तथा बौद्धभिक्षु वधूस्थान पर पहुँच कर चारुदत्त को जीवनरस की प्रनुभूति करते हैं।<sup>२</sup> तभी प्रेयसी को प्रेमी के स्थायी समागम का विनिश्चय हो जाता है। तदनन्तर शविलक फलागम के रूप में आकर राजाज्ञा की सुनाता है—“आर्य ! वसन्तसेने ! प्रसन्नराजा आपको वबू शब्द से सम्मानित करते हैं।” वसन्तसेना वधूपद वाकर कृतार्थ हो जाती है<sup>३</sup> और नाटक प्रगण्यीयुगल के इस स्थानी-मिलन के साथ समाप्त हो जाता है।

मृच्छकटिक का समस्त घटनाचक्र अत्यन्त प्रभावशाली दंग से विन्यस्त किया गया है। संस्कृत के नाटकों का घटनाचक्र प्रायः शिथिल तथा संवादवहूल है, किन्तु मृच्छकटिक इस ट्रिटि से मालिक है। मृच्छकटिक कार्यत्वरा से सशिलष्ट घटनावहूल नाटक है। मृच्छकटिक के समान संस्कृत के किसी भी नाटक में घटनावहूलता तथा घटनाविविधता नहीं है। नाटककार ने केवल संवादों के द्वारा ही घटनाक्रम को अप्रसर नहीं किया है, अपितु समस्त वस्तुव्यापार में अभिनव सुलभ कार्यव्यापार संक्रान्त हैं। कार्यव्यापार की त्वरा के प्रभाव से ही नाटक की समस्त घटनायें स्वतः एक के बाद एक गतिशील होती गई हैं। मृच्छकटिक में घटनाक्रम की गतिशीलता इतनी अधिक है कि सामाजिकों की कूतुहलवृत्ति अनायास हो निरन्तर बढ़ती जाती है। यह कूतुहलता ही वह तत्व है जो यत्र-तत्र नाटक को नीरस बनाने से रोकती है। कहीं-कहीं, जैसे-द्यूत ग्रंथ के प्रारम्भ में उप-कथा मूलकथाएँ विद्यित हो जाती हैं तथा प्रारम्भ में ही ग्रब सूत्रघार प्रातःकाल ब्राह्मण विदूपक को निमन्त्रण देता है किंतु कुछ बाद में ही विदूपक मातृबलि देने जाने के समय प्रदोष वेला का उल्लेख करता है। इन दोनों उल्लेखों से कालगत असंगति का अभास होता है। इसी प्रकार नाटक

१. मृच्छ० १०।३७,

२. आर्य ! मातावस्मा तावत् ।—“मृच्छ० १०।३८, तथा मृच्छ० १०।४२, ४३, ४७,

३. शर्वि०-आर्य ! वसन्तसेने ! परितुष्टो राजा भवतो वधूशब्देनानु-गृह-णाति, वसन्त०—“आर्य ! कृतार्थोऽस्मि ।” मृच्छ० १०।५७,

के अन्त में धूता के अग्निप्रवेश की घटना (जिसे प्रज्ञिप्त भी माना जाता है) अनादरण्यक प्रतीत होती है, बिन्तु कार्यत्वरा तथा कुतूहल की निरन्तरता के बारण दर्शकों को विश्व मलना तथा शिथिलता का प्रामाण नहीं हो पाता है।

मूच्छकटिक के रचयिता ने नाटक की आधिकारिक सामाजिक कथा के साथ आर्यक तथा पातक से गम्भीरता राजनीतिक पठ्यन्त्र की उपकथा की पताका के रूप में सशिलप्त करके, धात-प्रतिधात की सृष्टि तथा गत्यात्मकता का सचार किया है। कुछ विद्वानों के मतानुसार मुख्य कथा के माथ इस प्रासादिक कथा का सम्बन्ध उचित नहीं बैठता है। राइडर के मतानुसार मूच्छकटिक की ये दो कथायें दो नाटकों के लिये सामग्री प्रदान करती हैं।<sup>१</sup> बिन्तु वस्तुत ये भल उचित नहीं हैं। दा० कीय तथा दा० दास गुप्ता से शब्दों में प्रणायकथा तथा राजनीतिक पठ्यन्त्र की कथा का मिथ्रण नाटककार की मौलिकता का परिचायक होने के साथ साथ नाटक में अपना विषेष महत्व रखता है।<sup>२</sup> यह ठीक है कि आधिकारिक कथा की अपेक्षा राजनीतिक कथा सदैव गोण ही रही है, बिन्तु पताका के रूप में यह विच्यस्त होने के कारण पताका के समान ही समस्त नाट्य कथा पर फहराती रही है। अत गोणता में ही उम्मीद महत्व है। राजनीतिक कथा गोण होने से भी मुख्यकथा से अलग अलग सी नहीं मालूम होती है, अपितु मुख्य कथा के साथ इतनी संपृक्त है कि मुख्य कथा का ही अभिन्न भाग सी जात होती है। यह कथा नाटक के कथा प्रवाह मन तो कहीं ध्याधान पैदा करती है, न कहीं विराम ही; अपितु सहायक कथा के रूप में घटनाओं को गति देती है तथा मुख्य कथा की लदय तक पढ़ौचाने के लिए यथावसर राजनीतिक तथा सामाजिक वातावरण की सृष्टि करती है। इतना ही नहीं, अपितु मुख्यकथा की उद्देश्य पूति के लिये भी राजनीतिक कथा की प्रनिवार्यता भी है।<sup>३</sup>

मूच्छकटिक की मुख्य कथा की नायिका वसन्तसेना मात्रारण गणिका होते हुए भी उज्ज्यवनी के प्रतिष्ठित नागरिक चाहुदत्त के साथ स्थायी मिलन के लिए उत्तमुक्त है। वसन्तसेना तथा चाहुदत्त परस्पर अनुरक्त हैं। वसन्तसेना के लिये चाहुदत्त का समागम दुलंभ नहीं है। बिन्तु गणिका सुलभ क्षणिक मिलन का उसके जीवन में कोई महत्व भी नहीं है। यदि प्रेमी तथा प्रेयसी का सामान्य मिलन ही मुख्य कथा का उद्देश्य होता तो पचम अक में एक रात के महावास के साथ ही नाटक समाप्त हो

१ दि लिटिल क्ले हार्ट : हन्ड्रोडवशन, पृ० २२,

२. सम्भृत धारा, कीय, पृ० १३३, हिस्ट्री ऑफ स० सिटरेचर, दास गुप्ता, पृ० २४३,

३ आलोचना : जनवरी, १६६४, पृ० ८४,

आता, किन्तु नाटककार को मिलन मात्र अभीष्ट न था। अतएव कथा आगे बढ़ती है। दशम अंक में शर्विलक वसन्तसेना को राजा आर्यंक की शुभ सूचना देता हुआ कहता है कि राजा ने उसे "वधू" पद प्रदान किया है, तो वसन्तसेना कहती है कि मैं कृतार्थ हो गयी।<sup>१</sup> नाटक के अनेक प्रसंगों से स्पष्ट है कि वसन्तसेना चारुदत्त की वधू बनकर ही रहना चाहती थी, अतएव चारुदत्त के घर में नहीं जाना चाहती।<sup>२</sup> अपने को चारुदत्त तथा धूता की गुणांजिता दासी कहती है।<sup>३</sup> धूता से वहिन का सम्बन्ध स्थापित फरती है, रोहसेन को पुत्रक घट्ट से सम्बोधित करती है,<sup>४</sup> तथा जब श्रलंकृत होने के कारण वसन्तसेना को रोहसेन भी स्वीकार नहीं करता, तो वह मातृत्व से अभिभूत होकर 'माँ' बनने के लिए शीघ्र ही आभूषणों को उतार कर सुवर्ण शक्टिका बनने के लिए दे देती है, और क्षण भर को (काल्पनिक रूप से) माँ बन कर आत्म-सन्तोष का अनुभव करती है।<sup>५</sup> किन्तु इतने मात्र से सर्वे के लिये वधू धन कहीं पाती है? त्याग तथा प्रेम की श्रग्नि में तपकर जब वह चारुदत्त की सम्क्षता प्राप्त कर लेती है, तभी उसके वधू बनने का स्वप्न पूरा होता है। आर्यंक की धोपणा के पश्चात् न केवल वह चारुदत्त की वधू बनती है, अपितु संपूर्ण राज्य की दृष्टि में वधू बन जाती है। आधिकारिक कथा का यही 'मुख्य कार्य' है। यह कार्य फलागम के रूप में उपकथा के द्वारा ही सभव होता है।<sup>६</sup> आर्यंक तथा शर्विलक के अभाव में फलागम की कल्पना असभव है। अत स्पष्ट है कि मुख्य कथा के लिये उपकथा की अनिवार्यता है। दोनों ही एक दूसरे में अनुस्यूत हैं। एक के विकास से दूसरी का विकास होता है। चारुदत्त की सहायता से यदि आर्यंक की कथा आगे बढ़ती है तो आर्यंक की सुरक्षा में व्यस्त रहने के कारण ही वसन्तसेना शकार के हाथों विपन्न तथा मुमुक्षु हो जाती है और चारुदत्त की कथा आगे बढ़ती है। इसी प्रकार वसन्तसेना तथा आर्यंक की गाड़ी बदलने की घटना, चारुदत्त के अपराध तथा दण्ड प्राप्ति की घटना तथा वसन्तसेना को वधू पद प्राप्ति आदि की घटनायें एक दूसरे के द्वारा ही विकसित हैं। पालक के अस्तित्व के अभाव में चारुदत्त तथा वसन्तसेना का चरित्रोघाटन हो नहीं सकता है। अतः नाट्य प्रभाव के लिये पालक तथा आर्यंक की

१. मूर्च्छकटिक, १०।५७,

२. मूर्च्छ० अंक ६।१ से पूर्व,

३. इयं श्रीचारुदत्तस्य गुणनिजितादासी".....मूर्च्छ० ६।१, पृ० ३१७,

४. वही, पृ० ३१८,

५. मूर्च्छकटिक, ६।१, पृ० ३२०-३२१,

६. आलोचना, जनवरी, १९६४, पृ० ८६,

राजनीतिक घटना का नाटक में भावशक्तता है, अनिवार्यता है। समग्र रूप में मृच्छकटिक का वस्तुविधान ग्रन्थिक व्यवस्थित, समिलिष्ट, प्रवाह तथा प्रभावपूरण है। ग्राम्य से अन्त तक घटनाओं की गतिशीलता, व्यापार-प्रवाह तथा कार्यत्वरा के कारण नाट्यप्रभाव अद्युषण बना रहता है।

### मृच्छकटिक का चरित्रचित्रण

सस्कृत के नाटककारों ने प्रायः सामाजिक तत्व की उपेक्षा की है। मृच्छकटिक ही सरदृत का सर्वप्रथम ऐसा नाटक है जिसमें नाटककार ने सर्वप्रथम पौराणिक तथा राजवर्ग के सामाजिक कथानक से भिन्न सामाजिक इतिवृत्त को नाट्यरूप में रूपायित किया है। मृच्छकटिक का कथानक उज्जयनी के समाज के मध्यम वर्ग के दैनिक जीवन की घटनाओं पर आधारित है। इसके प्रतिदिन के व्यावहारिक जीवन से सम्बन्धित चोर, जुआरी, भिक्षु, राजविशुन, राजसेवक, पुलिम वर्मचारी, न्यायाधीश, राजनीतिक पद्यन्त्रवादी, गणिका, तथा विट, चेट आदि जीवन्त चरित्रों का अवतारणा की है। अतएव यह सस्कृत का एक मात्र यथार्थवादी नाटक है। इसमें राजप्रासाद की प्राचीर भी परिसीमा में चित्रित श्रीमानी चरित्र नहीं है। यद्यपि इसमें नागरिक चारदत्त तथा गणिका वसन्तसेना की प्रणायकथा को ही मुख्य कथा के रूप में विन्यस्त किया है, किन्तु वह सस्कृत के अन्य प्रेम प्रधान नाटकों के समान भ्रातारिक वातावरण में नहीं, अपितु प्रेम की विवरता, मघुरता, कोमलता तथा दलिदान की आधार-शिला पर अभिमृष्ट है। मृच्छकटिक के सामाजिक कथानक को नाटककार ने यथार्थता तथा समाज की यथार्थता तथा व्यावहारिकता के अनुरूप ही चित्रित किया है। मृच्छकटिक में प्रायः समाज के सभी वर्गों के चरित्रों की अवतारणा की है। आहुण से चोर तक, राजा से भिक्षु तक तथा कुलवधु से गणिका तक सभी पात्रों का विनियोग किया गया है। चरित्रों की यह विविधता ही इसकी लोकप्रियता का प्रमुख कारण है।

मृच्छकटिक में सभी पात्र घपने स्वाभाविक व्यक्तित्व के साथ आये हैं, प्रतिनिधि पात्र के रूप में नहीं। नायक चारदत्त जाति से आहुण है, किन्तु व्यवसाय तथा व्यवहार से अपेक्षी है। यह उज्जंगी ये नागरिकों का प्रतिनिधि न होकर, व्यक्तिगत विशेषताओं से युक्त है। वसन्तसेना चारदत्त को आहुण श्रमशक्ति प्रेम सही दरही है।<sup>१</sup> अपितु वह प्रियदर्शन, श्रुतिरमणीय, हस्तिरमणीय,<sup>२</sup> बलाप्रेमी, शारणागत

१. परस्ताहस प्रियदर्शन, मृच्छ० अक २। १४-१५,

'न बेवल श्रुतिरमणीयः हस्तिरमणीयोऽपि,' मृच्छ० अक ७ ४-५,

२ पूजनीयो मे व्राह्मणजनः मृच्छ० अक २। १, पृ० ६७,

वत्सल, भूतलभूगांक, उदात्त, उदार, कुलीन् तथा समस्त उज्जयनी के मन को जीतने वाला गुणज्ञ युवक है, इसलिये वसन्तसेना उस पर अनुरक्त है। चारुदत्त भी वसन्त सेना को प्रेम करता है, परन्तु उसका प्रेम निष्ठिक्य है। वह उसे प्राप्त करने के लिये कोई भी प्रयत्न नहीं करता। त्यागशीलता तथा बदान्यता के कारण वह देरिद्र हो गया है और उसे इस बात का दुःख है कि वह आज देरिद्रतावश अतिथियों के सत्कार तथा याचकों की सेवा में असमर्थ है। अपने शब्दों में ही चारुदत्त एक उस हाथी के समान है, जिसने मदजल से अनेकों मधुकरों को परितृप्त किया है, किन्तु घब मदलेखा के शुष्क हो जाने पर कोई भी भ्रमर वहाँ नहीं आता है।<sup>१</sup> वह अपनी देरिद्रता से इतना दुखी है कि देरिद्र जीवन से मृत्यु को भी श्रेयस्कर समझता है।<sup>२</sup> उमे यश की निन्ता है, किन्तु वह यशोलिप्सु नहीं है। यह सत्यनिष्ठ है परन्तु वसन्तसेना को रत्नाचली भेजते समय विशेष प्रयोजन से भूठ भी बोलता है। चारुदत्त निरा आदर्श प्रेमी नहीं है। वह द्यूतश्रीङ्का को निन्दनीय नहीं समझता, और न गणिका प्रेम को ही चरित्र दोष का कारण मानता है। उममें चारित्रिक अच्छाइयाँ हैं तो मानवसुलभ दुर्बन्ता भी है। सब प्रकार से उसका चरित्र श्रेष्ठ तथा मानवीय गुणों से सम्पन्न है। किन्तु उसके चरित्र में कहीं-कहीं मिथ्या आदर्श भी भलकरता है। जैसे वसन्तसेना के सुवर्णभाण्ड के चोरी चले जाने पर चोर को खाली हाथ न लौटने के कारण सन्तुष्ट होता है,<sup>३</sup> व्यायालय में द्वारम्बार वसन्तसेना की मित्रता के सम्बन्ध में पूछे जाने पर भी वह स्पष्ट स्वीकार न करके उत्तर टाल देता है।<sup>४</sup> नाटककार ने वसन्तसेना के साथ चारुदत्त का सम्बन्ध होते हुए भी वेश्यासंग के लोकापवाद से बचाने के लिए भूठ बुलवाकर न केवल चारुदत्त के मिथ्या आदर्श का चित्रण किया है, अपितु वसन्त सेना के साथ भी अन्याय किया है।

वसन्तसेना का चरित्र चारुदत्त की अपेक्षा अधिक उच्च तथा निखरा हुआ है। वसन्तसेना गणिका है, वेश्या नहीं है। उसकी गणिका वृत्ति की नैसर्गिक कालिमा तथा दोष विशुद्ध प्रेम, त्याग तथा वलिदान की अग्नि में तप-तप कर निःशेष हो गयी है और पवित्र नारी का आदर्श रूप प्रकट हो गया है। वह सामान्य गणिकाओं के

१. एतत्तु मां दहति यद्गृहमस्मदीयं भीणार्थं मित्यतिथयः परिवर्जयन्ति ।  
संशुष्कसान्द्रमदलेखमिव अमन्तः कालात्यये मधुकराः करिणः कपोलम् ॥  
मृच्छ० १-१२ तथा १-३६, ३७, ३८,

२. मृच्छ० १११,

३. मृच्छ० ४१२३, २४,

४. मृच्छ० ६:१६-२४, पृ० ४८०-६३,

समान मर्वभोग्या नहीं है, प्रतएव वह (दस हजार के स्वर्ण आभूषण) प्रनुर म्वर्ण-राशि के लालच में न पड़रर ग्रकार के प्रगाय निवेदन को ठुकर देनी है। वह माँ औ चेतावनी भी देनी है कि यदि वह उसे जीवित देखना चाहती है, तो ऐसा प्रस्ताव कभी न रखे।<sup>१</sup> ममृद्ध गणिका होन से उसके पास अपार सम्पत्ति तथा वंभव है, तथापि इस गर्भित जीविका के प्रति उसमें विद्वोह है। अतएव वह चाहदत से प्रेम करती है। वह चाहदत के रूप योवत पर आसक्त नहीं है, अपिनु उसके गुण तथा कीर्ति पर आसक्त है। प्रेमी चाहदत के दरिद्र होन का उसको क्षीम नहीं है अतएव वह इसी मी प्रकार से उड़वयनी के आभरण-भूत चाहदत को अपना आभरण बना लेना चाहती है। वह जानती है कि दरिद्र पुरुष पर आसक्त गणिका अवश्यनीया होती है।<sup>२</sup> अतएव वह चाहदत की हो जाना चाहती है। वह अपने दो उस मधुकरी के समान नहीं मममती है, जो आश्रमजगी के भड़ते ही उसे त्याग देती है।<sup>३</sup> वह आदर्शप्रेयसी है। मन, वाणी, कर्म में वह चाहदत पर अनुरक्त है। सामान्य वेश्यामो के समान क्षणिक मिलन ही उसका असीर्ट नहीं है, अपिनु स्थायी समाप्त ही उसका उद्देश्य है।

वह यह भी जानती है कि चाहदत की अपेक्षा वह अन्यता तुच्छ है, अत उसका प्रेम पान के सर्वपा अदोष है, तथापि वह त्याग तथा प्रेम में चाहदत से पीछे नहीं है। वह अपन व्यक्तिगत गुणों के द्वारा इनना उठती है कि चाहदत का वधुपद प्राप्त न कर सके, तथा चाहदत भी उसे महर्य म्बीरार कर सक। वसन्तमेना ममृद्ध होन के साथ साथ गरण्य है, अताएव मवाहृत जब माधुर तथा धूतकर के भय में शरण में प्राप्ता है तो वह प्रथम तो ढार बन्द करवा देती है, किन्तु धनिक के भय में गरणागत जानकर ढार मुलवा देती है, और मवाहृत दो कृष्णमुक्त वरवाती है। वह मुनाफ़िन है, अतएव प्राहृत भाष्यी होन पर भी गम्भीर में बोलती है। ललितकला निपुण है। वेश्या होने पर भी धार्मिक है। नाटक पर वसन्तमेना का चरित्र चाहदत की अपेक्षा प्रधिष्ठ मार्मिक है। ममन्त नाटकीय चरित्रों पर वसन्तमेना का चरित्र ही द्याया रहता है। प्रणय सध्य, उत्यान पतन नथा त्याग और धनिकान के माध्यम से वसन्तमेना के चरित्र में ऐसी प्राभावात्मकता तथा महनीयता सक्रान्त हो गयी है, जो कि अन्य दिसी चरित्र में नहीं है। वसन्तमेना की मक्षियता, महनीयता तथा प्रभावात्मकता के

१. एव विज्ञापयितव्या “यदि पा जीवत्तीमिच्छदसि, तदा एवं न पुनरर् मात्रा अज्ञापयितव्या” मृच्छा० अक १।

२. अतएव काम्यने। वर्दिष्युत्यमवात्मनाः खलु गणिका नोके प्राचनीया भवति मृच्छा० अक २।

३. मद० आर्य इ हीन कुमुम सहकारपादय मधुकर्यं पुन सेवते। वसन्त० अतएव तां मधुकर्यं उद्वगते। मृच्छा० २।

कारण ही चारुदत्त का चरित्र फीका-फीका सा लगता है। वसन्तसेना के चरित्र को विशेषताओं के कारण ही नाटक में केवल ३-४ प्रमुख स्त्री पात्र होने पर भी मृच्छकटिक नायिका प्राप्त नाटक है। चारुदत्त न केवल निष्क्रिय है अपितु कुछ ग्रंथों में उसका दर्जन भी नहीं होता। वसन्तसेना का ही एक मात्र चरित्र ऐसा है जो प्रारम्भ से अंत तक समस्त नाटकीय घटनाचक्र को अपने प्रभाव में अभिभूत रखता है। अन्य चरित्र गौण हैं।

शर्विलक जन्म से ज्ञाह्यण है पर कर्म से चोर तथा साहसी है। वह सच्चा मित्र, बीर तथा सच्चा प्रेमी भी है। दासता की श्रेष्ठता स्वाधीनता का पक्षपाती है।<sup>१</sup> प्रतिनायक शकार का चरित्र भी महत्वपूर्ण है उसमें मूर्खता, भीड़ता, हठधर्मिता, विलासिता, क्रूरता आदि सभी विशेषतायें हैं। राजा का साला होने पर उसे गर्व है, अतएव वह न्यायाधीश को भी कुछ नहीं समझता।<sup>२</sup> वह व्यभिचारिणी माँ का पुत्र (कारोलीभातः) है। उसकी बोलचाल, उक्ति-प्रयुक्ति, क्रियाकलाप सभी मूर्खतापूर्ण तथा हास्योत्पादक हैं। विटचेट भी उसे मूर्ख समझते हैं। विदूषक मैत्रेय भी अपने प्रकार का पात्र है। विदूषक का हास्य शकार के समान मूर्खतापूर्ण न होकर, बुद्धिमत्तापूर्ण तथा प्रत्युपपन्नमतित्व से उत्पन्न है। विदूषक चारुदत्त का हितैषी तथा व्यवहार कुण्डल है। चारुदत्त के शब्दों में वह "सर्वकालमित्र" है।<sup>३</sup> धूता, मदनिका आदि अन्य सभी २५-२६ पात्रों के चरित्र भी अपनी वैयविक्तता से मुक्त हैं। जुगाड़ों संचाहक, माथुर तथा दूतकर और पुलिस अधिकारी चन्दनक, तथा बीरक आदि का चरित्र भी मार्मिक होने के साथ-साथ सार्वदेशिक तथा सार्वकालिक है।

मृच्छकटिक के चरित्रों में विविधता के साथ-साथ चित्रण में विवरण है। सभी चरित्र यथायता, रुजीवता, वैयक्तिकता को लेकर उतरे हैं। सभी में अच्छाई-कुराई है। मृच्छकटिक के पात्र कल्पनालोक के आदर्शमात्र नहीं हैं, अपितु वे अस्थिरत्त, मांस के ऐसे जीवन्त चरित्र हैं, जो सभी देश और काल में उपलब्ध हो सकते हैं। इसीलिये आर्य विलियम राइडर ने भारतीय नाटककारों को परम्परा में एक मात्र शूद्रक के चरित्रों को ही सार्वदेशिक स्वीकार किया है।

राइडर की मान्यता है कि शकुन्तला भारतीय नारी है, माधव भारतीय नायक

१. "स्वाधीनता वचनोयताऽपि हि वरं वद्वो न सेवाज्जलिः" मृच्छ० ३।११,

२. मृच्छ० ६।५-७,

३. "अत्रे । सर्वकालमित्रं मैत्रेयः प्राप्तः" मृच्छ० १।६,

है, जिन्होंने मृच्छकानक, मैत्रेय तथा भद्रनिका विश्व के पात्र हैं।<sup>१</sup> डा० कीथ राइडर के मत से सहमत नहीं हैं। वे मृच्छकटिक के चरित्रों की विविधता का श्रेय भास को देते हुए मृच्छकटिक को भारतीय विचार और जीवन से सापेक्ष मानते हैं।<sup>२</sup> कीथ का मत है कि मृच्छकटिक के तीनों चरित्रों की अपेक्षा बालिदास के पात्र सार्वदेशिक अधिक है। वस्तुत वीथ का मत आवश्यकता से अधिक उदार है, अतः पक्षगतपूर्ण है। नि सन्देह बालिदास तथा भवभूति के पात्र विशुद्ध भारतीय हैं। मृच्छकटिक के चारूदत्त तथा वसन्तमेना भी केवल भारतीय समाज के चरित्र हैं किन्तु सस्थानक, मैत्रेय तथा मृदनिका भी अभारतीय नहीं हैं। परन्तु इसमें भी सन्देह नहीं है कि मृच्छकटिक के कुछ पात्रों में सार्वभौमिक विशेषताएँ हैं। अतः यह भी निश्चित है कि मृच्छकटिक के कुछ पात्र विश्व के किसी भी भाग में मिल सकते हैं।<sup>३</sup>

मृच्छकटिक के चरित्र-चित्रण की प्रमुख विशेषता उसका तीखापन यथार्थता तथा मजीवता है। कटु सत्य को चित्रित करने में भी नाटककार ने सकोच नहीं किया है। नाटककार ने सूझम पयब्रक्षण द्वारा जनजीवन के व्यावहारिक तथा मनोवैज्ञानिक पक्ष को अदृष्टा नहीं छोड़ा है। चारूदत्त वे चरित्र-चित्रण में भावुकता तथा आदर्श-वादिता को अभिव्यक्ति करने के लिए मनोवैज्ञानिक प्रतिभा का परिचय दिया है। दरिद्रता के सम्बन्ध में चारूदत्त वे उक्तियाँ नाटककार की मनोवैज्ञानिक सूझ-दूँझ का अच्छा उदाहरण है। शार्विलक, वसन्तमेना तथा मैत्रेय जुआरी, पुलिम कर्मचारी आदि के यथार्थ जीवन से सम्बन्धित सभी महस्त्वपूर्ण पक्ष नाटक में चित्रित हैं। नाटककार न पात्रों के चरित्रोऽधारण में सवादों का ही प्रयाग नहीं किया है, अपितु कार्यों के द्वारा चरित्रोऽधारण उसकी मुख्य विशेषता है। पात्र बोलत कम हैं, सक्रिय अधिक रहत हैं। पहीं कारण है कि एक के बाद घटनाएँ स्वत गतिशील होती जाती हैं।

अन्तिमत्रय — कुछ विद्वानों की मान्यता है कि मृच्छकटिक में कार्यान्वयन का अभाव है, किन्तु यह विचार सर्वया प्रप्राप्त है। समृद्धि में मुद्राराख्यम के पश्चात् मृच्छकटिक ही ऐसा नाटक है, जिसमें कार्यान्वयन की अधिकता मिलती है।

१ Sudraka a lone in the long line of Indian Dramatists has a cosmopolitan character. Shakuntala is a Hindu maid Madhava is a Hindu Here, but Sansthana and Maitreya and Madanika are citizens of the world ”

The Little Clay Cart Introduction P XVI.

२ Sanskrit Drama Keith P 139-40

३. Introduction to the study of Mrechakatika  
Dr Devesthala P 99.

मृच्छकटिक के घटनाक्रम की गत्यात्मकता तथा चरित्रगत कार्यस्वरा के समन्वय के कारण कार्यान्विति का सुन्दर निर्वाह हुआ है। यही नहीं, वल्कि नाटक में न्यायान्विति भी मिलती है। नाटक की समस्त घटना उज्जयनी में ही घटित होती है। नाटक के समस्त दृश्य उज्जयनी के राजमार्ग, चाहूदत तथा वसन्तसेना के धर, पुण्कारण्यक उद्यान न्यायान्वय तथा दध्यस्थान से ही सम्बन्धित हैं। इसी प्रकार कालान्विति का भी अभाव नहीं है। डा० देवस्थली के अनुसार नाटक का समस्त घटनाचक लगभग ६६ घटों के क्रियाकलाप से सम्बन्धित है। इस क्रम में कहीं भी लम्बा विराम नहीं है, अपितु घटनायें क्रमशः निरन्तर विकसित होकर उपसंहारान्मुख होती जाती हैं। अतः संस्कृत के समस्त नाट्यसाहित्य में मृच्छकटिक एक ऐसा नाटक है जिसमें न केवल कार्यान्विति, अपितु पाश्चात्यानुमोदित तीनों अन्वितियों का सफल निर्वाह हुआ है।<sup>१</sup>

**दृश्यतत्त्वः**—मृच्छकटिक नाटक का वस्तुविधान तथा चरित्रचित्रण दृश्यतत्त्व को सम्मुख रख कर किया गया है। मृच्छकटिक के १० अंकों में निवद्ध कथानक का अधिकांश भाग दृश्य है। अतएव समस्त नाटक में प्रवेशक तथा विष्कम्भक आदि उपचूलिकाओं का कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ है। मृच्छकटिक की अके योजना भी दृश्यात्मकता-सापेक्ष है। सामान्यतः इसमें अन्य प्राचीन नाटकों के समान अंक विभाजन अवश्य किया गया है, तथापि प्रत्येक अके को योजना में दृश्यविधान परिलक्षित होता है। सामान्यतः मृच्छकटिक के प्रत्येक अक में २ से ५ तक दृश्य हैं। समस्त नाटक में लगभग २५ से भी अधिक दृश्यों का विवान है, किन्तु मृच्छकटिक का विवान न तो आधुनिक दृश्यविधान के अनुरूप है, और न अभिनय के लिए सुविधाजनक। एक-एक अक में ऐसे ४-५ दृश्यों की योजना है, कि सामान्य रंगमंच पर उनको प्रदर्शित करना कठिन है। यही कारण है कि किसी अभिनेता ने इसका चाहूदत जैसा रंग-मंचीय संक्षकरण किया है। किन्तु आधुनिक वैज्ञानिक युग में मृच्छकटिक रंगमंच के लिए अनुपयोगी नहीं रहा है। यही कारण है कि भारत में तथा छस आदि देशों में मृच्छकटिक का सफलता के साथ नाट्य प्रयोग हुआ है। मृच्छकटिक के द्यूतदृश्य तथा न्यायालय आदि कुछ दृश्य नाट्यकला की हटिट से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। आज के गतिशील तथा व्यस्त युग में मनोरंजन की हटिट से एकांकी के रूप में इन दृश्यों का अत्यधिक प्रभावशाली प्रयोग किया जा सकता है।

**शोर्यक—**नाटक का शोर्यक सार्थक, मनोरंजनानिक तथा कोतुहलपूर्ण है। मृच्छकटिक के रोहसेन की मिट्टी की गाढ़ी को सोने की बनवाने के लिए वसन्तसेना,

१. विशेष देखिये—इन्ट्रोडक्शन टू दि स्टडी ऑफ मृच्छकटिक : डा० देवस्थली, पृ० १२१-२४,

आम्रपणों को देती है उसी घटना के आधार पर नामकरण किया है। यह घटना नाटक के कार्य तथा उद्देश्य सापेक्ष है। क्योंकि इसी अवसर पर वगन्तसेना को रोह-सेन का मातृपद प्राप्त हो जाता है। अत नि सन्देह ममस्त सस्कृत नाटकों में मूच्छकटिक के समान चमत्कारपूर्ण शीर्षक किसी अन्य को नहीं है।

नाट्यविधान एव भाषा-शैली ग्रावि—सस्कृत के अन्य नाटकों के समान मूच्छकटिक में काव्यात्मकता का आधिकरण नहीं है, बिन्तु नितान्त ग्रभाव भी नहीं है। वर्षाविरणं के प्रसग में वाव्य-प्रतिभा का चमत्कार परिलक्षित होता है। बिन्तु काव्यात्मकता तथा वर्णनों की अधिकता नाट्य-प्रभाव में वाधक होती है। मूच्छकटिक वा वर्षाविरणं काव्य हृष्टि से उत्खण्ट होने पर भी नाटक की प्रभावोत्पादकता में वाधक, भ्रत अस्वाभाविक है। इसी प्रकार नाटक के चतुर्थ अक में वगन्तसेना के महल के सात प्रक्षेपणों का लम्बा वर्णन नाटकीयता की हृष्टि से उचित नहीं है। यही कारण है कि मूच्छकटिक के नाटकीय सविधान को निर्दोष नहीं कह सकते। नाटककार ने कथानक को नाम्यवद्ध करते समय अभिनयकाल के औचित्य को भूला दिया है। १० अबों के विशालकाय मूच्छकटिक का न तो २-३ घटों में प्रदर्शन ही समव है, और न पढ़ाना ही। अतएव इसकी विशालता असचिकर प्रतीत होती है। डा० दासगुप्ता ने कथानक की अधिक लम्बाई को दोष माना है। राइडर भी प्रकारग की लम्बाई को दोष मानते हैं।<sup>१</sup> किन्तु कुछ विद्वानों न इसे दोष स्वीकार नहीं करते मूच्छकटिक को दोषमुक्त करने की चेष्टा की है।<sup>२</sup> परन्तु सामाजिक की हृष्टि से तटस्थ होकर देखा जाय तो इसे हृष्टयत्त्व की हृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। नि सन्देह लेसक यदि चाहता तो इसे सखिपत कर सकता था, किन्तु उसका ध्यान ममवन इस ओर गया ही नहीं। कुछ विद्वाव् राजनीतिक घटना को भी शियिलता तथा विश्रृत्तता का कारण मानते हैं, किन्तु यह मत उचित नहीं है। मूच्छकटिक की राजनीतिक घटना के औचित्य तथा अनिवार्यता पर हम प्रर्याप्त प्रकाश ढाल चुके हैं, उससे स्पष्ट है कि मूच्छकटिक की घटनाओं एव चरित्रों की विविधता, गत्यात्मकता तथा धातप्रतिधात द्वारा सजीवता के विनिवेदन का समविक थे य राजनीतिक व्यया को ही है।

कुछ विद्वाव् नाटक के अन्त में घूता के सती होने की घटना वो अनावश्यक तथा नाट्यकला की हृष्टि से अनुपयुक्त मानते हैं। उनकी भान्यता है कि यह घटना चाद में नीलकण्ठ नामक किसी व्यक्ति ने जोह दी है।<sup>३</sup> यद्यपि प्रकट प्रमाण के विना

१. हिस्ट्री ऑफ इग्लिश लिटरेचर, डा० दास गुप्ता, पृ २४५,

२. शालोचना, जनवरी, १९६४, पृ० ८८,

३. सस्कृत द्रामा, पृ० १३५,

इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता तथापि इतना अवश्य है कि धूता की उपकथा से नाटक में गति आती है, अन्त में क्षीण होते हुए नाट्य प्रभाव में पुनः प्रवाह प्राप्ता है, तथा इसके विनियोग से करुण रस की भलक भी मिलती है, तथापि नाट्य-कला की दृष्टि से इसे उचित नहीं माना जा सकता। विना इस घटना की योजना के भी नाटक प्रभावणाली ढंग से समाप्त हो सकता था।

मृच्छकटिक जैली की दृष्टि से संस्कृत साहित्य में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। विशालदत्त ने जिस प्रकार मुद्राराक्षम में विशेष जैली के प्रयोग के द्वारा ऐतिहासिक तथा राजनैतिक वातावरण की सृष्टि करके नाट्य-प्रभाव को उभार दिया है, उसी प्रकार मृच्छकटिक के नाटककार ने विषयानुसारिणी जैली के द्वारा सामाजिक तथा राजनैतिक वातावरण की सृष्टि करके नाटक की प्रभावात्मकता को उद्घटित किया है। मृच्छकटिक में सर्वथ स्वाभाविकता है। घटनाओं वो स्वाभाविकता देने के लिए नाटककार ने कहीं भी देवी, आकस्मिक या चमत्कार-प्रधान प्रसंगों का विनियोग नहीं किया है। विना किसी आरोग के घटनायें स्वतः विकसित होती गयी हैं। एक स्थान पर, जबकि चांडालों की उठी हुई तलवारें सहसा छिटक पड़ती हैं, अवश्य कुछ अस्वाभाविकता प्रतीत होती है। किन्तु वास्तव में यह घटना भी सम्भव है, तथा नाटकों में विशेष प्रयोजन से इस प्रकार का प्रसंग उपस्थित कर देना दोप नहीं कहा जाता है।

नाटककार ने चरित्रों में स्वाभाविकता तथा यथार्थता के विनिवेश के उद्देश्य से अकृत्रिम भाषा जैली का प्रयोग किया है। चरित्रों की विविधता के अनुसार नाटककार ने विविध प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया है। मृच्छकटिक में संस्कृत के अतिरिक्त सात प्राकृतों का प्रयोग मिलता है। इनमें शौरसेनी, मागधी, प्राच्या तथा अवनिंका को प्राकृत माना गया है, शकारी, चाण्डाली तथा ढक्की को विभाषा। विभिन्न पात्रों ने अपने-अपने व्यक्तित्व के अनुसार भिन्न-भिन्न भाषाओं का प्रयोग कराया है। जैसे दृृत-कर तथा माधुर ढक्की का प्रयोग करते हैं, तो संवाहक आदि मागधी का। विदूपक प्राच्या बोलता है तो चन्द्रनक तथा वीरक ग्रावन्ती। इसी प्रकार कोई-कोई पात्र संस्कृत तथा प्राकृत दोनों भी बोलता है। समस्त नाटक में स्वाभाविक रूप से संवादों का प्रयोग हुआ है। संवाद संक्षिप्त, चरित्र के अनुकूल तथा कथानक को गति देने वाले हैं। भाषा सरल, चुभती हुई तथा हार्य व्यंग के उपयुक्त है। नाटक का मुख्य रस शृंगार है, किन्तु अन्य नाटकों के समान नवशिख वर्णन तथा शृंगारिक वातावरण का अभाव है। मृच्छकटिक में नाट्य गुण तथा काव्य गुण का ही समायोग नहीं है, अपितु यह वर्तमान की भिन्न-भिन्न दशि तथा विचारों के अनुरूप सर्वविध सामग्री प्रदान करता है। समग्ररूप में मृच्छकटिक में हास्य, व्यंग, प्रेरणा, करुणा, वीरता सभी का मंजुल संमिश्रण है। इसमें मानव जीवन की कटुता तथा

कठोरता का प्रतिविम्बन है, तो जीवन रस के सुधाकण्डों का निर्झरण भी है। इसमें जीवन के यथार्थवादी पतनोन्मुख चित्र हैं, तो आदर्शोन्मुख सृजणीय चित्रों का भी अभाव नहीं है। इसमें चौर जुआरी हत्यारो, वेष्या तथा व्यभिचारी चरित्रों की अब तारणा है तो स्याग वलिदान तथा प्रेम के पवित्र पथ पर चलने वाले चरित्रों का भी विनियोग है। वास्तविकता यही है कि मृच्छकटिक वे नाटककार न इसमें सत्य की पृष्ठभूमि पर सौन्दर्य की सृष्टि करके शिव तथा मगल के युगल स्वरूप को अभिव्यजित किया है।

### मृच्छकटिक कालीन सांस्कृतिक दशा।

मृच्छकटिक एक साहित्यिक नाटक ही नहीं, अपितु एक सामाजिक, गजनीतिक अथवा सास्कृतिक नाटक है, अत अन्य नाटकों की अपेक्षा इसमें समकालीन समाज, राजनीति, सस्त्रियादि का चित्रण अधिक भावात्रा में तथा अधिक प्राजल रूप में हुआ है। मृच्छकटिक में समकालीन सांस्कृतिक सामग्री का इतना प्राचुर्य है कि वेदल इसी के आधार पर मृच्छकटिक कालीन भारत का भी अध्ययन किया जा सकता है। विशेषत मृच्छकटिक वा समस्त कथानक उज्जयनी में सम्बन्धित है तथा उज्जयनी में ही घटित होता है। अतएव इस नाटक के आधार पर 'मृच्छकटिक कालीन उज्जयनी' का अध्ययन करने में अधिक सरलता हो सकती है। कुछ विद्वानों न इस प्रकार का प्रयास किया है,<sup>१</sup> किन्तु तत्कालीन भारत के अध्ययन वे अनेक अन्य स्रोत भी हैं अत मृच्छकटिक का भास तथा कलिदास के नाटकों के समान सास्कृतिक महत्त्व नहीं है, तथा मुख्यत यही घनवसर, अप्राप्यगिक तथा स्यानाभाव होने के बारण हम मृच्छकटिक का मविस्तार मास्कृतिक चित्र प्रस्तुत करना उपयुक्त नहीं समझते हैं। अत सक्षेप में वेदल विहगम रूपरेखा देने का ही प्रयास करेंगे।

उत्तरी भारत में गुप्तों के समय मस्तिः, सम्यता तथा समाज की आशातीत चम्पति हुई अतएव गुप्तकाल भारतीय ईतिहास में स्वर्णयुग के नाम से विद्यात है। गुप्तोत्तरकाल में, जिस समय मृच्छकटिक का मृजन हुआ, शने-शने भारत वा स्वर्ण-युग का सूर्य अस्तमामी होता गया। उज्जयनी से गुप्तों वा अस्तित्व मिट गया और गुप्तों का वेदव, पराक्रम तथा साम्राज्य केवल भूतकालीन घटना मात्र रह गयी। गुप्तों के बाद हर्यं तक का भारत पतनकालीन भारत था। मृच्छकटिक उर्मा-गुप्तों के बाद से हर्यं तक के-भारत, विशेषत उत्तरी भारत, उसमें भी विशेषत उज्जयनी की सांस्कृतिक दशा का प्राजल चित्र प्रस्तुत करता है।

१. उज्जयनी इन मृच्छकटिक, धो सी. ला. वाल्यूम १,  
प्रसवता १८५५, पृ० ४००-४१३,

## सामाजिक दशा :

**वर्णान्तरम् व्यवस्था:**—मृच्छकटिक कालीन समाज चतुर्वर्ण में विभक्त था। संभवतः चाण्डालों का पंचम वर्ण होता था। ब्राह्मण विद्या-विशेष के अभिज्ञ तथा पूजनीय होते थे,<sup>१</sup> परन्तु सभी ब्राह्मण विद्वान् नहीं होते थे। वे अन्य वर्णों के काम भी करते थे। चारुदत्त ब्राह्मण होते हुए भी व्यवहार से सार्थवाह-पुत्र तथा श्रेष्ठी था, व्यापार आदि करता था। शर्विलक वेदज्ञ विद्वान् पिता का पुत्र होने पर भी चोरी करता था। चारुदत्त तथा शर्विलक दोनों ही वेश्या-प्रेरणा करते थे। चारुदत्त घूतकीडा भी करता था। अतः स्पष्ट है कि ब्राह्मणों का चारित्रिक पतन हो रहा था। ब्राह्मण पौरोहित्य कार्य करते, दान दक्षिणा लेते तथा भोजन भी करते थे।<sup>२</sup> किन्तु भोजन आदि करना उसकी स्वेच्छा पर था। अतएव विदूपक भोजन के लिये<sup>३</sup> मना कर देता है। ब्राह्मणों को शुभ तथा सिद्धिप्रद समझा जाता था।<sup>४</sup> ब्राह्मण धर्म-कर्म भी करते थे। तथा कुछ ब्राह्मण ग्रत्यन्त घनवान् होते थे। संभवतः व्यवसाय के अनुसार पृथक्-पृथक् भोगले होते थे। चारुदत्त श्रेष्ठिचत्वर में निवास करता था।<sup>५</sup> वरणिकज्ञ परिजन-परिवार को छोड़कर विदेशों में व्यापार आदि को जाते थे। चाण्डाल फांसी आदि देते थे। संभवतः कूनाकून भी उस समय थी। सुवरण्कार तथा वर्णिकों को चोर तथा वंचक माना जाता था। नाटक में उन्हें संपर्क है। वरण्संकर शकार को “प्राकृत” कहा है। प्राकृत पुरुष वेदोच्चारण के अधिकारी नहीं होते थे।<sup>६</sup>

**स्त्रीदशा:**—स्त्रियों का समाज में सम्मान था, किन्तु स्त्रियाँ सदैव दुष्ट पुरुषों से आतिकित रहती थीं। एकाकी धूमना-फिरना उन्हें सम्भव नहीं था। पद्मे लगी गाड़ियों में ही स्त्रियाँ आती-जाती थीं,<sup>७</sup> किन्तु इसका तात्पर्य पर्दाप्रिया से नहीं है।

**विवाह:**—प्रायः सबर्ण स्त्री से ही करते थे, किन्तु असबर्ण विवाह भी होते थे। ब्राह्मण चारों वर्णों की स्त्रियों से विवाह कर सकता था। नाटक में शर्विलक

१. “विद्याविशेषालडकृतः किकोऽपि ब्राह्मणयुवा काम्यते” “पूजनीयो मे ब्राह्मण-जनः” मृच्छ० अंक २, पृ० ६७,
२. मृच्छ० अंक १८-६,
३. “सभीहितसिद्धये ब्राह्मणः श्रग्रतः कर्तव्यः” मृच्छ० अंक १०, ५६-५७,
४. “सखलुश्रेष्ठिचत्वरे प्रतिवसति” मृच्छ० अंक २१४-१५,
५. “श्रवणवारित प्रवहण व्रजति मध्यमेन राजमार्गस्य” मृच्छ० ६१२,
६. मृच्छ० ६१२,
७. मृच्छ० ६१२,

तथा चार्ददत्त मदनिका तथा वसन्त सेना से प्रिवाह करते हैं। सती प्रया भी थी। द्यूता नाटक में सती होने का प्रयास करती है।<sup>१</sup>

वेश्या प्रया — उस समय वेश्या प्रया भी थी। ये वेश्या तथा गणिका दो प्रकार की होनी थी। वेश्या रूप योवन में धन वर्जिन करती थी। इन्तु गणिका नृत्य गीतादि बला विशेष द्वारा। नाटक में वसन्त सेना को अधिकतर गणिका प्रयुक्त है। गणिका का स्थान वेश्या से उच्च था। वेश्याओं से सम्बन्ध समाज में श्रेष्ठ नहीं गम्भीर जाता था। अतएव चार्ददत्त वसन्तसेना के सम्बन्ध मन्यायाधीश से वारम्पार म्हीडृति न देकर भूठ बोलता है।<sup>२</sup> गणिकायें अपना पश्चा छोड़ कर कुल बधू भी बन सकती थी। इन्तु राजाज्ञा के बिना नहीं। वसन्तसेना चार्ददत्त की कुलवधू बनती है।

द्यूत प्रया — मृच्छकटिक के समय द्यूत-प्रया का द्वृत प्रचार था। जूप्रा मेलने के अहृडे भी होने थे तथा एकान्त स्थानों में मेला जाता था। द्यूतकारों की मढ़ली होनी थी। मुखिया ममिक बहलाता था।<sup>३</sup> राजा की हृष्टि में द्यूत दण्डये नहीं था। द्यूत में वेईमानी में या हार वर रुपया न चुकाने पर न्यायालंब को भरणे ली जाती थी।<sup>४</sup> वेईमानी करने वालों को बुरी तरह मारा जाता था। इसे न दैन पर उसे दास रख दिया जाता था। कुछ लोग इन्य आजीविका के घभाव में द्यूतोपजीवी बन जाते थे।<sup>५</sup> नाटकार द्यूत को अच्छा नहीं समझता है।<sup>६</sup> समक्ष उस समय शराद्ध भी पीत थे। नाटक में ‘आपानक’ शब्द का प्रयोग भी है।<sup>७</sup>

दास प्रया — दास प्रया प्रचलित थी। मनुष्य पशुओं की तरह सरीदेखें जाते थे। दास अपने स्वामी की सपत्नि होते थे। अत प्रचुर सपत्नि देने पर दासों की मुक्त भी कराया जा सकता था। श्रविलक दासी मदनिका को चोरी में धन प्राप्त वर के मुक्त कराता है। कभी-कभी स्वामी भी म्बय दासों को मुक्त वर देना था। चार्ददत्त द्वारा स्वावरत्व को अदास कर देन का उल्लेख है।<sup>८</sup>

१ मृच्छ० १०१५,

२ मृच्छ० १०१६, ३०,

३. मृच्छ० २१२, ३,

४ मृच्छ० अक २१४-१५,

५. मृच्छ० अक २१५-१६,

६. मृच्छ० २१२,

७ शकार—‘आपानक मध्य पवित्रस्येव रक्तकुलकस्य शौर्यंते भक्ष्यामि’  
मृच्छ० ८।

८ मृच्छ० अक १०१६,

**न्याय प्रणाली :**—न्याय प्रणाली के मम्बन्ध में मृच्छकटिक से अच्छा ज्ञान होता है। न्यायालय में न्यायाधीश थोड़ी तथा कायस्थ मिलकर न्याय निर्णय देते थे। न्यायाधीश वेतन जीवी होता था। अतः न्याय पर राजा का आतंक था। राजा इच्छानुसार न्यायाधीश को सेवा से पृथक् भी कर सकता था, शकार न्यायाधीश को निकलवाने की धमकी देता है<sup>१</sup>। न्याय के सम्बन्ध में नाटक में नवम् अंक से अच्छा ज्ञान होता है। शकार चारुदत्त तथा न्यायाधीश की उक्ति प्रत्युक्ति से स्पष्ट है कि न्याय व्यवस्था ठीक न थी। सभ्य पुरुषों को आसन पर विठायां जाता था। वोदी प्रतिवादी के वयान लेकर साक्षी के आधार पर निर्णय दिया जाता था। फांसी के निर्णय की अतिम आज्ञा राजा से लेनी होती थी। न्याय का अस्तित्व स्वतंत्र नहीं था। राजा की आज्ञा ही सर्वोपरि होती थी<sup>२</sup>।

**कला**.—कला के सम्बन्ध में भी मृच्छकटिक से ज्ञान होता है। कला उन्नत थी। संगीत कला का व्यसन था। रेमिल गायन में चतुर था। वाद्य यत्रों में वीणा का महत्व ज्यादा था। नाटक में वीणा को रत्न कहा है<sup>३</sup>। वीणा के अतिरिक्त ब्रांसुरी, मृदग, दर्ढुर, पणव का भी उल्लेख है<sup>४</sup>। चित्रकला का भी प्रचार था। वसन्तसेना चारुदत्त का चित्र बनाकर मंदिनिका को दिखाती है। संवाहन् भी एक कला थी। संवाहक इस कला में निपुण था। प्रतिमा कला का भी लोगों को ज्ञान था। गिला और काष्ठ की प्रतिमायें बनायी जाती थीं। “चौरं” भी एक कला थी। चौरं कला का नाटक में विशेष उल्लेख है। इनके अतिरिक्त वसन्तसेना के प्रकोष्ठ-वरणन के प्रसंग में भी अन्य कुछ कलाओं का उल्लेख है जिनसे प्रतीत होता है कि तत्कालीन स्त्री-पुरुष प्रसाधान आदि शारीरिक तथा अन्य ललित कलाओं में कुशल होते थे।

**धार्मिक दशा**.—धार्मिक दशा पर मृच्छकटिक से अच्छा प्रकाश पड़ता है। बौद्ध तथा वैदिक दोनों धर्म के उस समय अनुयायी थे, किन्तु बौद्ध धर्म पतनोन्मुख था। संवाहक दुःखों से ऊबकर श्रमगा हो जाता है। वैदिक धर्म राजधर्म था। पालक का यज्ञाला में जाने आदि का नाटक में उल्लेख है। बौद्ध भिक्षु होना अभी बुरा नहीं माना जाता था, तथापि वे संशक्त दृष्टि से देखे जाते थे। श्रमणक दर्शन अनामुद्दियिक माना जाता था<sup>५</sup>। शिरोमुण्डत भिक्षुओं पर नाटक में व्यंग किया गया

१. मृच्छ० ६।६

२. मृच्छ० ६।३६

३. मृच्छ० ३।२-३,

४. वही,

५. “क्यमभिमुखमनम्युदयिक श्रमणकदर्शनम्” मृच्छ० ७।६,

## ११६ संस्कृत के ऐतिहासिक नाटक

है<sup>१</sup>। शाहुण घर्म अम्युदयोग्मुख था। शार्त तथा शीवों के विकाम के सम्बन्ध में नाटक से ज्ञान होता है। पूजा, पाठ, यज, वलि आदि का नाटक में उल्लेख है। प्रतोपवास भी लोग करते थे। दान देना एवं भगवत् स्मरण करने की परम्परा थी। चाण्डाल “सह्यवाहिनी” देवी के उपासक होते थे<sup>२</sup>।

राजनीतिक दशा —मृच्छकटिक कालीन राजनीतिक दशा तथा राज्यव्यवस्था भी अच्छी न थी। उत्तरी भारत घोटे-घोटे राज्यों में विभक्त हो गया था। सांब-भीमिक सम्भाद् कोई न था। राजा भी शक्तिहीन थे। देश में सर्वत्र अराजकता थी। प्रजा राजा से संतुष्ट नहीं था, अतएव सर्वत्र राजा के अत्याचारों से बचने के लिये राजा के विश्वद पठयत्रों में सलग्न रहती थी। राजा भी शत्रुघ्नों से आशकित रहते थे। किंचित् मात्र प्रतिकूल सूचना मिलते ही विपक्षियों को बन्दी बना देता था। ग्राम्यक के प्रति आशकित होकर पालक ने उसे बन्धन में ढाल दिया था। राज्य-व्यवस्था भी अत्यधिक शोचनीय थी। राजा के पक्षपाती राज कर्मचारी अपने को अधिकार सम्पन्न समझते थे। राज्य में सर्वत्र विद्रोह की स्थिति बनी रहती थी। कातियो में अधिक समर्पन नहीं लगता था। ग्राम्यक ने रघुल्प समय में ही पालक के राज्य को पलट दिया था। पठयत्रकारी देश के सभी घोटे-घोटे वगों के लोगों का सहयोग लेते थे। भावितक नाटक में राजपरिजन धूर्त, वीर, राजा रो कुद मनियों को रक्खाता है<sup>३</sup>। अतः स्पष्ट है कि राज्य-काति में चोर, जुगारी आदि सभी ने भाग लिया था।

राज्य में अपराधियों की तलाशों के लिये विशेष अधिकारी नियुक्त होते थे। पालक के वीरक तथा चन्दनक जो आयंक के पता लगाने के लिये नियुक्त किया था। राजा के साले आदि नगर में अशान्ति फैलाते रहते थे। नगर की रक्षा व्यवस्था राजपिशुन सेवकों ने ही विगाड़ रखी थी। कोई भी वहू-वेटो सायकाल के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। राजमार्ग पर वेश्या विट, धूतवर आदि ही सायकाल में धूमने लगते थे। यदावदा लोगों में मारपीट हो जाती थी तथा आनन्दपूरण बातावरण हो जाता था।

राजाओं का चरित्र भी अच्छा न था। मृच्छकटिक के राजा पालक ने कई रस्तों रख रखी थी। शकार की बहित उनमें से एक थी। शकार भी व्यभिचारिणी का पुत्र था। अतः स्पष्ट है कि राजाओं के यहाँ मुजियायें भी होती थीं। ये विलास में मरने रहते थे। फलत राज्य काति तथा अशान्ति की स्थिति बनी रहती थी एवं पठयत्र चलते रहते थे।

१ मृच्छ० द्वार०,

२ मृच्छ० १०१३७,

३ ‘कालीन विदान् स्वभूजविक्रमलघ्ववर्णानि, राजावभानकुपितांश्च नर्द्दभूत्यान्। दहीजपामि सुहृदं, पर्मोक्षणाय, पीतन्धरायण इवोदयनस्य रात् । ४.२६,

८

## प्रियदर्शिका तथा रत्नावली एवं अन्य उदयन नाटक

### (अ) प्रियदर्शिका एवं रत्नावली

हर्ष ने प्रियदर्शिका तथा रत्नावली की रचना करके संस्कृत के नाट्य-साहित्य में सर्वप्रथम नाटिकाओं की परम्परा का प्रवर्तन किया है। अतः यदि भास, कालिदास तथा शूद्रक ने नाट्य साहित्य को नाट्य कला की इटिट से विकसित करके अपने को अमर कर दिया है, तो हर्ष ने भी नाट्यविद्या की इटिट से उसको एक नवीन मोड़ देकर रचनात्मक इटिट से नवीन परम्परा का श्रीगणेश करके ग्रत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान बना दिया है।

### हर्ष की कृतियाँ तथा कर्तृत्व :

हर्ष के नाम से तीन नाट्य-कृतियाँ प्रसिद्ध हैं। किन्तु कुछ विद्वान् इनमें नागानन्द को अंतिम कृति स्वीकार करते हैं, पर अधिकांश विद्वानों की यही मान्यता है कि 'प्रियदर्शिका प्रथम तथा रत्नावली अन्तिम कृति है'।<sup>१</sup> हर्ष की नाट्य-कला के विकास की इटिट से देखने पर यही मत उपयुक्त भी प्रतीत होता है। हर्ष की ये दोनों नाटिकायें उदयन-कथा पर आधारित हैं। अतः हम यहाँ ऐतिहासिक नाटक के अध्ययन क्रम में इनके महत्व तथा ऐतिहासिकता के अनुसार संक्षेप तथा विस्तार में पर्यावेक्षण करेंगे। सामान्यतः प्राचीन समय से ही उपर्युक्त रचनाओं के कर्तृत्व के सम्बन्ध में प्राच्य पाश्चात्य विद्वानों में अनेक प्रकार के मतभेद रहे हैं। कुछ विद्वानों ने मम्मट के उल्लेख के आधार पर इन्हे स्वयं हर्ष की रचना न मानकर धावक की माना है तो कुछ ने रत्नावली के किमी कश्मीरी संस्करण में वाणि के उल्लेख के

१. विशेष देखिये—रत्नावली, सं० देवधर एवं सुरु, नूमिका, पृ० ३२-३३,

प्रियदर्शिका : सं० काले, नूमिका, पृ० ३२, स० क० दर्शन, पृ० ३०६ आदि।

आधार पर उसे बाण को रचना स्वीकार किया है।<sup>१</sup> इसी प्रकार तीनों नाट्यकृतियों में नाट्यशिल्प आदि की हप्टि से पर्याप्त अन्तर होने वे रचना भी कुछ इन्हे एक लेखनी से अभिभूष्ट नहीं मानते। उनके अनुमान मुख्यतः प्रियदर्शिका वा लेखन रत्नावली का रचयिता कभी नहीं हो सकता। इन्तु ये सब मान्यताएँ गम्भीर अध्ययन पर आधारित न होकर अनुमान पर ही अधिक आधारित हैं, अत इन नि सार प्रतीत होती हैं।<sup>२</sup>

काव्य-प्रकाश में काव्य प्रयोजन के सम्बन्ध में उदाहृत वाच्य का अभिप्राय इतना ही है कि काव्य रचना से विद्यों को अर्थ साम भी होता है, जैसे धावक (या बाण) आदि विद्यों को श्री हर्ष आदि राजाओं के द्वारा हुआ। अत इस वाच्य के आधार पर ही इन्हें हर्ष की रचना न मानना सर्वथा भास्कर है। मुख्यतः जबकि अधिकाश प्राचीन विद्वानों ने इन्हे हर्ष का माना है तथा तीनों रचनाओं की प्रस्तावना में इहे स्पष्टतः हर्षदेव की रचना लिया है<sup>३</sup> तो जब तक हर्ष के कृतृत्व के विषय में अर्थ कोई सुटूँ प्रमाण नहीं दिया जाता। इन्हें हर्ष की रचना मानना ही अधिक सगत है। अर्वाचीन अनेक विद्वानों न इन कृतियों के गम्भीर तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर, अनेकविधि समानताओं को सोज कर यही निष्पत्ति निकाला है कि ये सब एक ही नाटककार द्वी रचना है और वह नाटककार है हर्ष।<sup>४</sup>

यद्यपि भारतीय इतिहास में हर्ष नाम के पाच व्यक्तियों का ज्ञान होता है इन्तु विद्वानों ने इस विषय पर भी पूर्वापर विचार करके कन्नोज के हर्ष-वर्वन को ही इनका रचयिता स्वीकार किया है।<sup>५</sup> कन्नोज के राजा हर्षवर्धन के बहुमुखी व्यक्तित्व का

१ देखिये—प्रियदर्शिका : मूलिका , एम आर काले, पृ० १७, सस्कृत ड्रामा, पृ०, १७१ स० का० दर्शन, पृ० ३०८, स० सा० इति-उपाध्याय पृ० ४७७,

२ देखिये, रत्नावली; शारदाराजन राय: पृ० १४, राय ने यह भी लिया है कि काव्य प्रकाश के एक टीकाकार अच्युताराय ने इसी भूम के कारण नेष्ठु को धावक की रचना बतला दिया है।

३ थी हर्षदेवेन अपूर्यवस्तु रचनालकृता रत्नावली नाम नाटिका कृता,

” ” प्रियदर्शिका नाम नाटिका कृता

” ” अलकृत विद्याधरजातक निबद्ध नागानन्द नाम

४ देखिये—रत्नावली; मूलिका देवधर एव शुरू, पृ० ६, प्रियदर्शिका मूलिका : काले १४, सस्कृत ड्रामा, पृ० १७०-७१,

५ देखिये—प्रियदर्शिका काले० मूलिका, पृ० १४-१७, थी हर्ष आंफ कन्नोज के एम पनिवकर, पृ० ६४-७०,

परिचय भारतीय इतिहास तथा सस्कृत वाङ्मय में स्फुट तथा व्यापक रूप से प्राप्त है। उससे स्पष्ट है कि वह वाणी, मध्यूर तथा मातंग दिवाकर आदि का आश्रयदाता ही नहीं था अपितु विक्रमादित्य, घृद्रक, महेन्द्र, विक्रम वर्मा, यशोवर्मा तथा विग्रहराज के समान स्वयं भी साहित्यिक था। हर्ष-चरित में इसका काव्य-रसिक के रूप में अनेकजग़ह उल्लेख हुआ है। चीनी परिचाजक इतिहास के यात्रा विवरण तथा दामोदर गुप्त के कुद्दनीमन के उल्लेख से भी न केवल काव्यानुराग अपितु नागानन्द तथा रत्नावली के कर्तृत्व की प्रमाणिकता भी परिव्यक्त होती है।<sup>१</sup> अतः हर्ष को नाटिकाओं का रचयिता न मानने में कोई अधिकारीत्य नहीं दीखता। यह अवश्य माना जा सकता है कि किसी आश्रित कवि ने इनमें संशोधन कर दिया हो।<sup>२</sup> आधुनिक अनेक विद्वानों ने मुद्दङ प्रमाणों के आधार पर श्री हर्ष को ही इन तीनों का रचयिता सिद्ध किया है।<sup>३</sup> आजकल प्रायः यही मत प्रचलित है।<sup>४</sup> सौभाग्य से संस्कृत के अन्य अनेक नाटककारों के समान हर्ष का समय अनिश्चित नहीं है। हर्ष प्रभाकर-वर्द्धन के कनिष्ठ पुत्र थे तथा वडे भाई राज्य वर्द्धन की मृत्यु के बाद गद्वी पर बैठे। अतः हर्ष (६०६-६४७) का समय सप्तम शतक निश्चित है।

### हर्ष की नाटिकाओं का कथानक

**प्रियदर्शिका:**—वत्सराज उदयन का सेनापति विजयसेन दृढ़वर्मी की पुंछी प्रियदर्शिका को राज्यसभा में लाकर आरण्यकाधिपति विन्ध्यकेतु की पुंछी के रूप में राजा के सामने प्रस्तुत करता है। राजा उसे शिक्षा दीक्षा की समुचित व्यवस्था की हैरिट से वासवदत्ता को सौंप देता है तथा उसके विवाह योग्य होने पर सूचना देने को कह देता है। द्वितीय प्रक्र में उदयन विद्वपक के साथ घूमता हुआ उपवन में वहाँ पहुँचता है जहाँ कि प्रियदर्शिका वासवदत्ता के लिये पुष्प चुनने को आयी है। प्रियदर्शिका कमलों पर उड़ते हुए भ्रमरों से व्यथ होकर चिलाती है कि तभी राजा लताकुंज से प्रकट होकर उसे बचाता है। यहीं नायक-नायिका के प्रथम दर्शन के द्वारा पूर्व-राग का बीज निश्चिप्त किया गया है। तृतीय अंक में उदयन तथा प्रियदर्शिका की अनुराग जनित व्याकुलता का संकेत मिलता है। प्रियदर्शिका की सखी मनोरमा

१. देखिये—प्रियदर्शिका, काले : भूमिका : पृ० १६, संस्कृत ड्रामा, पृ० १३०-१४  
आदि।

२. प्रा० भा० इति० : विपाठी : पृ० २३५,

३. विशेष देखिये—रत्नावली: शारदार्जनराय, पृ० १४-२८, तथा हर्षवर्धनः  
गौरीशंकर चट्टर्जी पृ० २३१-४४, आदि।

४. ए हिन्दू आंक सस्कृत लिट० : दासगुप्ता, वाल्यम । पृ० २५५,

तथा विद्युपक दोनों प्रेमी जनों के सम्मिलन की योजना बनाते हैं। इसी उद्देश्य से एक गर्भीक वीर्योजना की गयी है। वासवदत्ता उदयन चरित से मम्बन्धित एक नाटक का अभिनय करना चाहती है, जिसमें मनोरमा को उदयन बनना है और आरण्यक के वासवदत्ता। मनोरमा की चतुरता से अपने स्थान पर राजा स्वयं पहुँच जाता है। वासवदत्ता को सन्देह होता है और मनोरमा की सारी चाल पाढ़ सी जाती है। चतुर्थ अक में ज्ञात होता है कि वासवदत्ता प्रियदर्शिका पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। किन्तु तभी अगारवती का पत्र उसे चिन्तित बना देता है, क्योंकि उसका भौता हृदवर्मा कलिगराज के वही वन्धन में गढ़ा हुआ है। उदयन उसे मुक्त बनाने को सेना भेजता है। तभी हृदवर्मा का बचुकी आता है और प्रियदर्शिका को पहिचान लेता है। फलत वासवदत्ता भी उसे पहिचान कर राजा के साथ उसका विवाह करा देती है।

**रत्नावली** —प्रस्तावना में योगन्धरायण लालाणक में वासवदत्ता के जलने का प्रबाद फैलाकर सिंहलराज की वन्धा रत्नावली की उदयन के विवाहार्थ मार्गिता है, क्योंकि ज्योतिषियों ने रत्नावली को उदयन की पत्नी बनने तथा इसके उपरान्त चर्चवर्तित्व की प्राप्ति की भविष्यवाणी भी है। किन्तु दुर्मायवश रत्नावली को लाने वाला जहाज टूट जाता है, पर एक तर्हने वा आश्रय लेकर वह बच जाती है और उसमें समुद्रायात्री बनिये राजा के यहीं योगन्धरायण के पास पहुँचा देते हैं। योगन्धरायण उसके व्यक्तिगत द्वारा दिखाकर वासवदत्ता के पास सागरिका के नाम से रख देता है। अब के प्रागम्भ में सागरिका कामपूजा के समय सर्व प्रथम उदयन को देख-धर अनुरक्त हो जाती है। यहीं उसे उदयन का परिचय मिलता है, जिसके लिए उसके पिता ने भेजा है। द्वितीय अक के प्रवेशद्वार से सागरिका के विरह का सर्वेत मिलता है। वह लतागृह में चित्र विनोद के लिए राजा का वित्र बनाती है। उसकी सखी सुमगता उसी चित्र में उदयन के चित्र के पास वासवदत्ता का चित्र भी बना देती है और वे परस्पर गुप्त प्रणय की चर्चा करती हैं। पास में स्थित मैना उन सब गुप्त बातों को सुन लेती है। तभी एक बन्दर के आने के कारण हस्तक्षेप मध्यती है। वे दोनों हर कर भाग जाती हैं। बन्दर पिजरे को खोल जाता है। वे दोनों पिजड़े से उही हृदृ मैना को पकड़ने को पुन आती हैं, किन्तु चित्रपट भूल जाती है। तभी राजा विद्युपक के साथ धूमता हुआ उपवन में आता है और मैना की बातों को सुन कर सारे रहस्य को जान लेता है। राजा तथा विद्युपक को वह चित्रपट मिल जाता है तथा सारी स्थिति का ज्ञान हो जाता है। तभी सुमगता सागरिका को चित्रपट लेने वे उहाने वहीं लाकर राजा से मिलन कराती हैं।

इसी बीच राजा को ढूढ़ती हृदृ वासवदत्ता वहाँ आ जाती है और चित्रपट को देखकर कुछ होती है, किन्तु राजा के द्वारा क्षमा मार्गिते पर चली जाती है।

तृतीय अंक में राजा सागरिका से मिलने को चिन्तित है। विद्वृपक सुसंगता के साथ ऐसी योजना बनाता है जिससे कि सागरिका वासवदत्ता के वेश में राजा के पास अभिसरण कर सके। इस योजना का पता वासवदत्ता को चल जाता है और वह ठीक समय पर वहाँ पहुँचती है। राजा उमे ही सागरिका समझ प्रणय-निवेदन करता है। पर वासवदत्ता के प्रकट होने पर क्षमा मांगता है। वह रुष्ट होकर चली जाती है। सागरिका इन समस्त वातों को जानकर ग्लानिवश लतापाश से फाँसी लगाकर मरना चाहती है तथा पैरुक रत्नावली को विद्वृपक को दे देती है। पर राजा पहुँच कर उसे बचा लेता है। वासवदत्ता पुनः वहाँ आ जाती है और सागरिका तथा विद्वृपक को पकड़ कर ले जाती है। चतुर्थ अंक से ज्ञात होता है कि सागरिका उज्जयनी भेज दी गयी है, पर यह सूचना मिथ्या है। वास्तविकता यह है कि उसे तहखाने में डाल दिया गया है। तभी एक ऐन्द्रजालिक आकर जादू दिखाता है कि अन्तःपुर में आग लग जाती है। वासवदत्ता को सागरिका के बचने की याद आती है और वह राजा से उसे बचाने को कहती है। राजा उसे बचा लाता है। तभी उसके पिता का मंत्री वसुमूर्ति तथा कंचुकी वाभ्रव्य आते हैं और विद्वृपक के गले मेरत्नावली को देखकर सारे रहस्य को प्रकट कर देते हैं। अंत में वासवदत्ता भी रत्नावली से उदयन का दिवाह करा देती है।

प्रियदर्शिका और रत्नावली में समानता:—उपर्युक्त कथानक से स्पष्ट है कि उदयन-कथा पर आधारित हर्ष के इन नाटकों में स्वरूप तथा विषय आदि की दृष्टि से पर्याप्त साम्य है। दोनों ४ अंक की नाटिकायें हैं। उदयन, वासवदत्ता, वसन्तक आदि मुख्य-मुख्य पात्र समान हैं। सागरिका की ही प्रियदर्शिका के रूप में उद्भावना की गई है। यही नहीं, अपितु मुख्य घटना भी दोनों में एकसी है। दोनों की परिस्थितियाँ आदि भी प्रायः समान हैं।<sup>१</sup> अतएव इन्हें “वहिन नाटिका” भी माना जाता है। इसीलिये हम यहाँ इनका एक साथ ही अनुशोलन करना उचित समझते हैं।

हर्ष की नाटिकाओं की स्रोत सामग्री:—हर्ष की दोनों नाटिकायें उदयनकथा पर आधारित हैं। उदयनकथा की स्रोत सामग्री का भास के उदयन नाटकों के पर्यवेक्षण करते हुए हम विस्तार से उल्लेख कर चुके हैं, किन्तु हर्ष ने उस समस्त सामग्री का प्रयोग किया है, इसमें सन्देह है। हर्ष ने दोनों नाटिकाओं के प्रारम्भ में “लोकेहारि च वत्सराज-चरितं” लिखा है। अतः हमारा अनुमान है कि हर्ष ने अपने नाट्यरूपों

१. ए हिस्ट्री आँक संस्कृत लिट्. वासगुप्ता, वाल्यम १, पृ० २५६-५८, तथा प्रियदर्शिका सं० काले, भूमिका, पृ० ३२-३४,

के लिए उदयन-कथा का चयन एक लोकप्रिय कथा के रूप में किया है। विद्वानों की पान्यता है कि हर्ष ने वृहत्कथा (या कथासरित्‌सागर) से वस्तु का चयन किया है।<sup>१</sup> वद्यपि वृहत्कथा से भी पूर्व भास ने प्रामाणिक रूप में उदयन कथा की नाथ्यन्त में स्पायित किया है, जिन्तु हर्ष ने भास को अत्यन्त उपजीव्य नहीं बनाया है भास, लालिदास तथा शूद्रक आदि ने उदयन कथा को किसी न किसी रूप में अपनाया है, जिससे यह निश्चित है कि प्राचीन काल से उदयन तथा रोमाटिक कथा के रूप में प्रसिद्ध तथा लोकप्रिय रही है। हम इमकी लोकप्रियता पर सक्षेप में प्रशंसा ढाल चुके हैं<sup>२</sup>। यद्यपि हर्ष ने उदयन कथा को स्पायित करने से अपने पूर्ववर्ती भ्रतेक छाव्यों से भी प्रेरणा ग्रहण की है, तथापि हमारा अनुमान यही है कि मुख्यत यहाँ वृहत्कथा से ही लोककथा के रूप में कथावस्तु का चयन किया गया है।<sup>३</sup> सभव है हर्ष के समय वृहत्कथा उपलब्ध रही हो। पर आज उसके स्तरकरण कथासरित्‌सागर तथा वृहत्कथा भजरी में उदयनकथा उपलब्ध है।<sup>४</sup> उनके प्राधार पर यही भास आता है कि किसी न किसी रूप में इस के मूत्र वही से संजोये हैं। कुछ विद्वानों ने हर्ष की उदयनकथा में उसकी तुलना करते हुए विस्तार में प्रकाश ढाला है<sup>५</sup> भ्रत। हम यही उसका पिष्टपेपण करना उचित नहीं समझते।

### हर्ष की नाटिकाओं के कथानक की ऐतिहासिकता :

उदयन कथा की ऐतिहासिकता के सम्बन्ध में हम विस्तार से लिख चुके हैं। वहीं हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि वृहत्कथा या उसके स्तरकरण कथासरित्‌सागर तथा वृहत्स्थामजरी आदि में उपलब्ध उदयनकथा की अपेक्षा भास की कथा अधिक ऐतिहासिक है। भ्रत यही सक्षेप में हमें भास की उदयनकथा के परिप्रेक्ष्य में ही हांग वी नाटिकाओं वा सभीक्षण करना उचित प्रतीत होता है।

हर्ष की नाटिकाओं में उदयन, वामवदत्ता, पीगन्धरायण, रुमण्वान आदि ऐतिहासिक पात्रों की अवतारणा हुई है। अमात्यशब्द व्यवहृत करने पर भी भास ने हमण्वान का एक भ्रती के रूप ही विनियोग किया है, जिन्तु हर्ष ने उसको मेनापति के रूप में प्रयोग

१. देखो, जे. ए. औ. एस. याल्यूम् २१, पृ० ८८, आवि

२. देखो, इसी पुस्तक का पचम अध्याय,

३. देखिये, प्रियदर्शिका काले, भूमिका, पृ० १४-१७ आदि

४. कथा ० २।१-६, ३।१-२, पृ० क० भजरी द्वितीय तथा तृतीयलब्धक

५. देखिये, रत्नावली देवधर व सुर, भूमिका, पृ० ७-१५, तथा रत्नावली 'शारदारजनराय' : भूमिका, पृ० २६-३५,

किया है,<sup>१</sup> जोकि स्वाभाविक तथा हमारी पूर्वोक्त कल्पना के अनुकूल है।<sup>२</sup> वृहत् कथा-मंजरी में भी रूमण्डान को स्पष्टतः “वाहिनीपतिः” लिखा है।<sup>३</sup> अतः हर्ष का यह प्रयोग ऐतिहासिक है। कांचनमाला, वसन्तक आदि कुछ पात्रों को लोककथा से (कथासरित्सागर आदि से) संजोया गया है। सांस्कृत्यायनी का मालविकारिनमित्र तथा कथा० में भी चिनियोग प्राप्त है। विजयेन, विजयवर्मा, विक्रमवाहु, वसुभूति, वाभ्रव्य, तथा दृढवर्मा आदि की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। अनुमानतः यह कल्पित ही प्रतीत होते हैं। अन्य साधारण पात्र कल्पित हैं।

हर्ष की नाटिकाओं में उदयन वासवदत्ता के प्रणय या परिणय की प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना का आधिकारक रूप से उपन्यास नहीं है, तथापि लावाणक-दाह तथा गर्भाक की घटना आदि के प्रसंग में प्रासंगिक रूप से उदयन के इस पूर्वचरित का निर्देश किया गया है। हर्ष की नाटिकाओं में मुख्यतः समस्त घटनाचक्र प्रियदर्शिका तथा सागरिका के चारों ओर घूमता है। अतः इनसे सम्बन्धित कथानक ही इन नाटिकाओं का मुख्य वृत्त है। किन्तु यह वृत्त ऐतिहासिक है इसमें सन्देह है। कथा-सरित्सागर आदि में भी यह इस रूप में उपलब्ध नहीं होता। विद्वानों की मान्यता है कि कथा० में संक्षेप में उल्लिखित वन्धुमती के कथानक से इनके कथानक का साम्य होने के कारण यह वहीं से संजोया गया प्रतीत होता है।<sup>४</sup> निःसन्देह इन दोनों वृत्तों में पर्याप्त समानता है।<sup>५</sup> अतः समझ वह है कि नाटककार ने इनके सृजन में वहीं से भी प्रेरणा ली हो, किन्तु नाटिकाओं के इतिवृत्त में हमें ऐतिहासिकता प्रतीत नहीं होती, और न किसी इतिहासकार ने ही इसे ऐतिहासिक स्वीकार किया है।

हर्ष की दोनों नाटिकाओं में प्रियदर्शिका की अपेक्षा रत्नावली का कथानक कुछ विस्तृत है, किन्तु इसके रूपायित करने में कथा० के वन्धुमती के कथानक से ही प्रेरणा नहीं ली है, अपितु भास के पद्मावती के चरित्र से भी प्रेरणा लेकर उसे अपने प्रकार से उपनिवद्ध किया है तथा उसे अपनी कल्पना द्वारा नवोन कलेवर देने की विष्टा की है। यही कारण है कि उदयनकथा की रही-सही ऐतिहासिकता भी नष्ट हो गई है। भास ने पद्मावती के विवाह के मूल में आश्वाणि द्वारा अपहृत राज्य की प्राप्ति की ऐतिहासिक घटना को कारण रूप में विन्यस्त किया है, जबकि हर्ष ने कथा० के

१. प्रियदर्शिका १७-१०.

२. देविये हमारा भास वाला अध्याय,

३. वृ० क० मंजरी २१३-१४,

४. देविये प्रियदर्शिका, काले : मूसिका, पृ० २४-२६, आदि

५. इसी प्रबन्ध के “मालविकारिनमित्र” अध्याय में कथा देखिये।

प्राधार पर पद्मावती के विवाह द्वारा चक्रवर्ति की प्राप्ति की घटना बोही रत्नावली वे विवाह के रूप में उपन्यस्त किया है, जो कि अनंतिहासिक है। मूलत पद्मावती-उदयन विवाह मत्रियों के पहयन का परिणाम है। हर्ष ने भी सागरिका के विवाह के पीछे मत्रियों के राजनीतिक उद्देश्य को प्रदर्शित किया है। लावाएुकदाह के प्रवाद से पद्मावती के विवाह के समान ही सागरिका की याचना तथा विवाह किया जाता है, किन्तु यही भी ऐतिहासिक तथ्य को भ्रष्ट कर दिया गया है। इसी प्रकार हर्ष ने अन्यत्र भी वथा० तथा भास की उदयनतथा पर अपना रग चढ़ा कर उपन्यस्त किया है। सधेष भ, हर्ष की उदयनतथा पद्मावती तथा बन्धुमती के कथानक क मिथ्रण के रूप में उपनिवद्ध होने पर भी मौलिकता लिये हुए हैं तथा इसमें अपने उद्देश्य के अनुसार परिवर्तन-परिवर्धन एवं नवीन उभावनाये भी की गई हैं, किन्तु इससे ऐतिहासिकता की सुरक्षा नहीं हो सकी है।

हर्ष ने कथानक बो गत्यात्मकता, रसात्मकता तथा प्रभावात्मकता की अभिवृद्धि के उद्देश्य से कुछ मौलिक कल्पनाएँ की हैं। रत्नावली के मानभग, वसन्तोत्सव में कामदेवपूजन, चित्रविनोद, दृश्मवेश में अभिसार तथा ऐन्द्रजालिक के क्रियावलाप पादि इसी प्रकार की घटनायें हैं किन्तु इनमें भी ऐतिहासिक यथार्थ तिरोहित हुआ है तथा अस्वाभाविकता का प्रधेष दृश्या है। अत ऐतिहासिकता के निर्वाह की दृष्टि में इनका विनियोग उचित प्रतीत नहीं होता। उपर्युक्त नाटिकाओं का ऐतिहासिक दृष्टि में परिषोलन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि हर्ष भास से प्रभावित अवश्य है तथा मुख्यतः रत्नावली के सृजन में हर्ष ने अनक प्रकार से भास से प्रेरणा तथा महायता ली है। किन्तु यही भास के समान उदयनतथा को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उपन्यस्त न करके वैयक्तिक उद्देश्य से स्वच्छन्दरूप में नाट्यवद्ध किया है और इस प्रकार अपनी कल्पना द्वारा प्रनेक प्रकार का परिवर्तन करके मौलिकता को समान्तर करने का प्रयास किया है।<sup>१</sup> यही कारण है कि भास का उदयन प्रगुणी होने पर भी धीरोदात्त है जबकि हर्ष का उदयन सामान्य शृंगारी नायक मात्र। उसमें धीर, धीर गमीर तथा आदर्श प्रेमी का रूप लक्षित नहीं होता। नाटिका के लिए धीर ललित की अनिवार्यता के कारण हर्ष उदयन के ऐतिहासिक चरित्र की सुरक्षा नहीं कर सके हैं। कलत यही वह कामुक नायक सा बन कर रह गया है।

इसी प्रकार वासवदत्ता का ऐतिहासिक चरित्र भी हर्ष की नाटिकाओं में भास के समान उदात्त तथा उदार नहीं रहा है। यही वह एक सामान्य नारों के सहश सप्तस्तीडाह एवं ईर्ष्या से सदेव उद्विग्न तथा कूद्द सी दीक्ष पद्धती है।

हर्ष की वासवदत्ता में भास की नाटिका के समान त्याग, बलिदान, पति-प्रेम तथा ग्रन्थन्यता नहीं है। अतएव मृतवासवदत्ता को न भुला पाने वाला उदयन भी यही चोगी-चोरी उपनायिकाओं के प्रति प्रणाय-निवेदन करता है। अनुमानतः हर्ष ने अपनी नाटिकाओं में उदयन तथा वासवदत्ता के चरित्र में भास की अपेक्षा कालिदास के ग्रन्थिमित्र तथा इरावती को आदर्श बनाया है। यही कारण है कि इनका, विशेषतः प्रियदर्शिका का, स्वप्न० की अपेक्षा मालविकाग्रन्थिमित्र से ग्रधिक साम्य लक्षित होता है।

उपर्युक्त परिशीलन के बाद हम कह सकते हैं कि हर्ष की दोनों नाटिकायें उदयन की ऐतिहासिक कथा पर आधारित होते हुए भी ऐतिहासिक कम, किन्तु काल्पनिक ग्रधिक है। इन नाटिकाओं के सूजन में हर्ष का न तो उद्देश्य ही ऐतिहासिक रहा है, न दृष्टिकोण ही। यही नहीं, वन्दिक हर्ष ने मूलभूत इतिहास का कल्पना के रूप में ही ग्रधिक प्रयोग किया है। तथापि, यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि हर्ष ने ग्रन्थ कल्पित पात्रों तथा घटनाओं के विनियोग में अपनी इतिहासीकारण की सहज प्रवृत्ति तथा कुशलता का परिचय दिया है। जो भी हो, हर्ष की इन प्रणाय-नाटिकाओं का साहित्यिक महत्व तो अवश्य है, किन्तु ऐतिहासिक महत्व विशेष नहीं है। इसी प्रकार इनकी ऐतिहासिकता तथा ऐतिहासिक महत्व की न्यूनता के कारण इन्हें कल्पना-प्रधान ऐतिहासिक नाटिका मानना ही उचित समझते हैं।

### हर्ष की नाटिकाओं का वस्तुविधान तथा चरित्र-चित्रण

हम लिख चुके हैं कि हर्ष के नाटकों में प्रियदर्शिका प्रथम कृति है, रत्नावली अंतिम। ग्रतः प्रियदर्शिका में हर्ष के नाटककार का वालप्रवास ही परिलक्षित होता है जबकि रत्नावली उसकी नाट्यप्रतिमा के विकास का निदर्शन है। सामान्यतः हर्ष ने इन दोनों को शास्त्रीय पद्धति के अनुरूप ही रूपायित किया है, तथापि प्रियदर्शिका की अपेक्षा रत्नावली का वस्तुविधान ग्रधिक संशक्त है। दोनों नाटिकायें एक ही वृत्त पर समान शिल्पविधान से उपनिवृद्ध हैं, अतः दोनों का तुलनात्मक परिशीलन हर्ष की नाट्यकला के अध्ययन के लिये उपादेय है। कुछ विद्वानों ने एक ही वृत्त पर दो नाटिकाओं के सूजन को दोष माना है, किन्तु ऐसा मानना उचित नहीं है; क्योंकि हर्ष को प्रियदर्शिका में जो श्रुटियाँ तथा न्यूनतायें परिलक्षित हुईं, उन्हीं के परिमाणन के रूप तथा और भी ग्रधिक मौलिकता सक्रान्त करने के उद्देश्य से रत्नावली की रचना की है। इसके विपरीत दोनों नाटिकायें अपने-अपने स्वतंत्र रूप में रसास्वाद कराने तथा अनुरंजन करने में भी सर्वथा समर्थ हैं।<sup>१</sup> तथापि यदि लेखक चाहता

१. ए हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिद० दासगुप्ता, वाल्यूम, १, पृ० २६१,

तो दूसरे इतिवृत्त पर भी अन्य नाटिका की रचना कर सकता था या इसी इतिवृत्त पर अन्य नाट्यरूप को ख्यायित कर सकता है। किन्तु सम्भवतः उदयन कथा के प्रति मनुरामातिरेक के कारण तथा ललित शृंगार प्रधान नाट्यरचना के प्रति उन्मुख होने के कारण उसका दूसरी ओर व्यान ही नहीं गया। जो भी हो, पर इस प्रश्न को तूल देना भद्रत्वपूर्ण नहीं है।

हृष्ण की प्रणाय नाटिकाओं के वस्तुविधान पर भास तथा वानिदास का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। अतएव चरित्र-विद्युण, घटनाविन्यास आदि में परम्परा पर्याप्त साम्य परिलक्षित होता है। प्रियदर्शिका में यह प्रभाव रत्नावली की अपेक्षा अधिक पड़ा है, तब भी हृष्ण ने उसे मौलिक रूप देते की जेप्टा वी है।

प्रियदर्शिका की कथावस्तु तथा वस्तुविधान दोनों ही संक्षिप्त तथा शिखिल है। समस्त प्रथम श्रक्त मुख्य कथानक की पृष्ठभूमि के रूप में ही उपनिवेद किया गया है। द्वितीय श्रक्त में कमल पर भौंरे से नायिका के अस्त होने का प्रसाग शाकुन्तल से संजोया गया है। हृष्ण ने यहाँ इतनी दूर आकर नायक-नायिका के प्रणाय धीज वा निक्षेप किया है, जबकि उसे यह प्रथम श्रव्य में ही करना चाहिये था। इसी प्रकार यहाँ नायिका की अपेक्षा नायक में प्रथम रागोद्वोध वराया है। रत्नावली में ऐसे दोषों का परिमार्जन कर दिया गया है।<sup>१</sup> तृतीय श्रव्य में गर्भांक की योजना नवीन है तथा अनेक विद्वानों ने इसे शिल्प आदि की दृष्टि में सराहा है। किन्तु इसकी परिवर्तना भी मालविकाभिनिमित्र के नृत्य दृश्य से अनुप्रेरित प्रतीत होनी है तथा प्रियदर्शिका रूप में यह मौलिक है और भवभूति तथा राजशेखर ने इसको यहाँ से संजोया है। चतुर्थ श्रव्य में माता के लेब का सप्रयोग भी महत्व वा है, किन्तु अनुमानत यह भी शाकुन्तल के दुष्यन्त की माता के समाचार से अनुप्रेरित प्रतीत होता है। जो भी हो, प्रियदर्शिका हृष्ण का बालप्रयास मात्र है। इस पर अन्य पूर्ववर्ती रचनाओं (मालविकाभिनिमित्र तथा रवज्ञ० आदि) का पर्याप्त प्रभाव है। नाट्यरत्ना तथा शिल्प भी प्रभावोत्पादक नहीं हैं। किन्तु रत्नावली में हृष्ण का नाटककार अधिक समल कर चला है।

रत्नावली का वस्तुविधान प्रियदर्शिका की अपेक्षा अधिक व्यवस्थित एवं मुग़हित है। सस्कृत के अनेक ग्राचीन ग्रन्थचीन विद्वानों ने इन्हें तथा मुख्यतः रत्नावली को, नाट्य-ग्राचीय सिद्धान्तों के धाराहर पर समीक्षण करने पर सफल पाया है।<sup>२</sup> इसी प्रकार

१. सं० क० दर्शन, व्यास, पृ० ३१२,

२. इसको देखिये, दशाव्यक। स० क० दर्शन : व्यास, पृ० ३१८, आदि  
प्रियदर्शिका : काले, भविका, पृ० ३०-३१,

जीवशन आदि अनेक आधुनिक समालोचकों ने रत्नावली की कालान्विति के परिप्रेक्ष्य में समालोचन किया है।<sup>१</sup> अतः हम यहाँ उसकी पुनरावृत्ति करना उचित नहीं समझते। रत्नावली के घटनाविन्यास में भी पर्याप्त मौलिकता है। चित्रविनोद, मिना का उड़भागना, सागरिका का अभिसरण तथा ऐन्द्रजालिक का दृश्य अधिकतर हर्ष की मौलिक परिकल्पना है। किन्तु हर्ष की नाटिकाओं पर भास तथा कालिदास का अत्यधिक प्रभाव है। बन्दर के हटने, तहखाने में डालने आदि की अनेक घटनाओं तक को वहाँ से संजोया है, तथापि हर्ष ने अपनी मौलिकता को भी संक्रान्त करते का पूरा प्रयास किया है।<sup>२</sup> मुख्यतः इनमें अन्तःपुर के प्रणायनित्र का अंकन ही किया गया है। हर्ष क्योंकि स्वयं एक राजा होने से, इस सम्बन्ध में अभिज्ञ था। अतः उसका वर्णन स्वाभाविक तथा अन्तःपुरीय यथार्थ के निकट है तथा इनको घटनाओं में नाटिका-सुलभ गत्यात्मकता, रसप्रबोधना एवं व्यापारान्विति का भी सफल निर्वाह हुआ है। किन्तु, इससे कथानक के मूलचरित्रों के साथ न्याय नहीं हो सका है। फलतः उदयन वासवदत्ता जैसे ऐतिहासिक पात्रों के चरित्र भी ऐतिहासिक यथार्थ से दूर कल्पित से बन कर रहे गये हैं।

हर्ष की दोनों नाटिकाओं के पात्र वैयक्तिक गुणों से युक्त न होकर टाइप धरिक हैं। उदयन धीरलित में ललित तथा विलासीं अधिक है, धीर कम। वह एक रोमांटिक प्रणायी मात्र है। वासवदत्ता भी प्रभुत्व के अहं की प्रतिकृति मात्र है। वह ईरावती के समान ईर्ष्यालु तथा प्रगल्प है। अतएव यहाँ नायक देवी के ब्रास से शंकित रहता है। वासवदत्ता के चरित्र की अपेक्षा रत्नावली का चरित्र अधिक क्रोमल, उदात्त तथा वैयक्तिकता से अनुप्राणित है। यह एक ऐसी भोली-भाली मुख्या प्रेयसी है, जो स्वयं उदयन के लिये पिता, हारा प्रदत्त जानकर मर्यादित प्रणय के के लिये ही अग्रसर होती है। वह राजकन्या होकर भी सेविका बनने पर न. तो क्षुब्ध होती है और न राजा के प्रेम को पाकर गविष्ठ। यही नहीं, वल्कि परिस्थितिवश लज्जित तथा तिरस्कृत होने पर प्राणत्याग तक को उद्यत हो जाती है। वस्तुतः दोनों नाटिकाओं में रत्नावली का ही एक मात्र ऐसा मार्मिक चरित्र है जिसका स्पष्ट पाकर हर्ष का प्रणय चित्रण मार्मिक तथा सफल बन सका है।

हर्ष नाटककार के रूप में सफल है या नहीं, इस सम्बन्ध में सामान्यतः मत-भेद है। किन्तु इसमें दो मत नहीं कि हर्ष ने संस्कृत साहित्य में नाटिकाओं का सफल

१. रत्नावली : देवधर : भूमिका, पृ० १६-२५, प्रियदर्शिका, काले, भूमिका, पृ० २७-३०, तथा देखो जै० ऐ० ओ० एस०, बाल्यूम, २०, पृ० ३३६, वही, बाल्यूम २१, पृ० ८८,
२. विशेष देखिये, रत्नावली : राय : भूमिका, पृ० ३५,

प्रवर्तन दिया है। यद्यपि हर्षं भास, कालिदास, शूद्रक तथा भवमूर्ति वी ममता धर्मे में समर्थ नहीं है, तथापि वाद के नाटककारों में उनका स्थान महत्वपूर्ण है। नि सन्देह प्रणयनाटिया के रचनाकार वे रूप में हर्षं सर्वथा सफल हैं और उनकी सफलता का मुख्य कारण उनका कवित्व है, नाट्यकृशलता नहीं। ३० मुनीति कुमार चटर्जी ने लिखा है कि हर्षं में काव्यप्रतिभा है, कल्पना शक्ति है, किन्तु केवल इनमें ही कोई नाटककार नहीं बनता है। अत उनका मत है कि हर्ष कवि के रूप में सफल है किन्तु नाटककार के रूप में नहीं।<sup>१</sup> वस्तुत इन दोनों नाटिकाओं में हर्षं का कवित्व परि-स्फूट रूप से अभिव्यजित हुआ है। हर्षं की शैली सुवोध, सरल, कोमल तथा म्निध है। किन्तु कवित्व के रूप में भी उनकी सफलता का प्रमुख कारण उनकी रसिकता है, अतएव उनके प्रणय स्थल रसप्रबण हो सके हैं। मदनोत्सव का वर्णन इसका स्पष्ट उदाहरण है।

यद्यपि हर्ष के वस्तुविधान तथा चरित्रचित्रण में इसी असाधारणता के दर्शन नहीं होते और न उनमें गम्भीर अनुभूति तथा भाषा चमत्कृति आदि ही उपलब्ध होती है तथापि नाटककार के रूप में घटनीयता वी सृष्टि उनकी अपनी विशेषता है। भावों की सहज अभिव्यजना, सरस सघटना तथा शैली की प्रकृतिमता ही उनकी भौलिकता है। ३० चटर्जी यह मानते हैं कि हर्षं ने कुछ विशेष कहने के लिये नहीं लिखा है, अपितु स्वयं को नाटककार के रूप में विज्ञापित करने के लिये ही लिखा है।<sup>२</sup> सभवन यही कारण है कि हर्षं ने अपनी रचनाओं, विशेषत नाटिकाओं के द्वारा नाटककार के रूप में विज्ञापित तो सफलतापूर्वक किया है तथा उनकी रचनाओं में सीन्दर्यं है, रसवत्ता है, प्रभावान्विति है, किन्तु न तो कोई नई वात कह सके हैं और न उनमें ऐतिहासिक यथार्थ का निर्वाह ही हुआ है। जो भी हो, हर्षं की प्रणय नाटिकायें, नाटिका की हृष्टि से न बेल सर्वप्रथम रचना है, अपितु रसप्रबण अभिनेय, सरल तथा सूवोध होने के साथ अपने उद्देश्य में सफल हैं। ये काव्यात्मक हृष्टि से हेय नहीं है। मूर्ह्यतः रत्नावली एक ऐसी हृति है जो उनकी प्रतिष्ठा के लिये पर्याप्त मानी जा सकती है।

### सांस्कृतिक चित्रण :

सरस्वत के अन्य नाटकों के समान हर्षं वी नाटिकाओं से भी सांस्कृतिक रामग्री भजोयी जा सकती है, किन्तु हर्षंमालीन संस्कृति सम्यक्ता पर प्रशाप डालने के लिये नाटिकाओं की अपेक्षा हर्षंचरित जैसे अधिक समृद्ध एवं प्रमाणित स्रोतप्रन्य उपलब्ध हैं तथा यही स्थानाभाव भी है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत नाटिकाओं में अधिकांशत

<sup>१</sup> इटिपन ड्रामा ३० मुनीति कुमार चटर्जी पृ० २१,

<sup>२</sup>. वही,

सुप्रसिद्ध या परंपरा प्राप्त सांस्कृतिक सामग्री का ही विनियोग हुआ है, अतएव हम इनसे प्रात् सामान्य सामग्री का यहाँ विवरण देना महत्वपूर्ण नहीं समझते। तब भी इन नाटिकाओं में कुछ विशेष महत्व के शब्दों का प्रयोग हुआ है। प्रियदर्शिका में एक स्थल पर कौमुदी महोत्सव का उल्लेख हुआ है।<sup>१</sup> यह आधिकारिकीय पूर्णिमा को मनाया जाता था। नाटिका से इसके सम्बन्ध में विशेष ज्ञान नहीं होता।

**वसन्तोत्सवः**—हर्ष की नाटिकाओं में सबसे महत्वपूर्ण उल्लेख वसन्तोत्सव का हुआ है। प्रियदर्शिका तथा रत्नावली का सम्भवतः वसन्तोत्सव पर ही अभिनय हुआ था।<sup>२</sup> संस्कृत के नाटकों का प्रायः वसन्त के समय भी अभिनय हुआ करता था। कुछ विद्वानों के अनुसार वसन्तोत्सव चैत्र के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता था तो कुछ माघ में मानते हैं। सामान्यतः आजकल फाल्गुन के सुप्रसिद्ध होलिकोत्सव से इसका साम्य माना जाता है। रत्नावली में वसन्तोत्सव का वडे विस्तार से वर्णन हुआ है।<sup>३</sup> अतः इससे आयोजन तथा स्वरूप पर विशेष प्रकाश पड़ता है।

रत्नावली के अनुसार वसन्तोत्सव, कामोत्सव, मधूत्सव तथा मदनोत्सव से एक ही अभिप्राय प्रतीत होता है, तथापि इनमें मदनोत्सव ही संभवतः प्रमुख होता था। यह उत्सव संभवतः मध्याह्न के समय से मनाया जाता था। इस उत्सव के समय समस्त नगर नाचते गाते नागरजन तथा कामिनियों के आमोद-प्रमोद से मुखरित हो जाता था, तथा पौरजन का प्रमोद और भी परिवृद्ध हो जाता था। कामिनियाँ मधुपान से मत्त होकर नाचते हुए नागरों पर फिचकारी से जल प्रहार करती थीं। रास्ते मर्दल तथा चबंरी के प्रचण्ड शब्द से मुखर हो जाते थे। सुगन्धित और तथा गुलाल के उड़ने से दिशायें ढक जाती थीं। फुव्वारे चलते रहते थे। रंगीन कीचड़ से प्रांगण पक्किल हो जाते थे। वारचिलासिनी जल-प्रहार से सीकार करती थीं। स्त्री-पुरुष अलड्हत होते थे। मुस्यतः इस समय लोकगीत गाये जाते थे। बाद में सम्भवतः दूसरे दिन प्रातः उद्यान में कामदेव की पूजा की जाती थी। वहाँ भी नृत्यानन चलता रहता था। इस वर्णन से यही स्पष्ट होता है कि उस समय आजकल फाल्गुन में मनायी जाने वाली होली को ही मदन महोत्सव के रूप में मनाया जाता था।

### (आ) उदयन नाटक

उदयनकथा की लोकप्रियता तथा ऐतिहासिकता आदि के सम्बन्ध में हम भास के ऐतिहासिक नाटकों पर विचार करते समय प्रकाश ढाल चुके हैं। संस्कृत में उदयन-

१. प्रियदर्शिका, तृतीय अंक का प्रारम्भ,
२. प्रियदर्शिका १।२-३, रत्नावली १।४-५,
३. देखिये, रत्नावली १।८-२५,

कथा पर अनेक नाटक अभियूक्त हुए हैं, उन्हें हम उदयन नाटक कहना उपर्युक्त समझते हैं। सस्त्रृत साहित्य में लगभग एक दर्जन उदयन नाटकों के उल्लेख प्राप्त हैं : (१) स्वप्नवासवदत्ता, (२) प्रतिज्ञा योगव्याधायग, (३) गृहावली, (४) प्रियदर्शिका (५) वासवदत्ता नाट्यधारा, (६) बीणावासवदत्ता (वत्सराज चरित तथा उमद-वासवदत्ता), (७) अभिसारिका वचितव्य (८) तापसवत्सराज, (९) मनोरमा-वत्सलराज (१०) उदयनराज, (११) ललितरत्नमाला, आदि।

उपर्युक्त प्रथम ४ नाटकों के सम्बन्ध में विभार से विवेचन हो चुका है। अन्य उदयन नाटकों का हम यही क्रमशः परिचयात्मक पर्यवेक्षण ही करेंगे—

### वासवदत्तानाट्यधारा

**अपर्याप्त** — यह सुवन्धु की कृति है तथा एक अपरदण्ड मात्र है। अभिनव-भारती आदि में इसके सम्बन्ध में जो कुछ उद्धरण या निर्देश प्राप्त हैं उन्हीं के आधार पर इसका पर्यालोचन होता रहा है।<sup>१</sup> सर्वप्रथम वामन के सामिप्रायत्व के उदाहरण में उल्लिखित सुवन्धु शब्द को लेकर सुवन्धु के नाम तथा समय के सम्बन्ध में विवादों में पर्याप्त विवाद रहता था। किन्तु अब प्राय यह निश्चित हो गया है कि यह गद्य-कार सुवन्धु से भिन्न, भौदेवलीन सुवन्धु की नाट्यकृति है।<sup>२</sup>

अभिनवगुप्त ने अभिनय के विवेचन के प्रसग में नाट्यायित नामक विधा के उदाहरण के लिये वासवदत्तानाट्यधारा को उपन्यस्त किया है। इसके लिये नाट्य या वृत्त घार पार सार शब्द भी उल्लिखित हैं।<sup>३</sup> नाट्यदर्पण में इसको नृत्तदारा भी लिखा है।<sup>४</sup> सामान्यत यह गभीर के समान ही होती है। गभीर के उदाहरण प्रियदर्शिका, उत्तररामचरित तथा वालरामायण में देखे जा सकते हैं, किन्तु नाट्यायित की एह कृति एक मात्र उदाहरण है। इस विधा में एक प्रकार से नाटकी की सवित्र

१. देखिये, उद्धरण आदि के लिये, अभिनवभारती, नाट्यशास्त्रः स० रामचूप्पण कवि, वाल्यूम ३, बड़ोदा, पृ० १७२-१७५ तथा वाल्यूम १ पृ० ४२५;

इ० हि० ववा० वाल्यूम ११, १६४३, पृ० ५६-७२, इ० ऐ० भाग ३, १६२४, में वसुवन्धु और सुवन्धु लेख, आदि,

२ इ० हि० ववा० १६४३, ३६, पृ० ६६-७२, इ० ऐ० भाग एल ३, १६२४ पृ० १-१७ तथा प्रोसीडिंग्स ऑफ सेक्षन प्रारिपन्टल कान्फ्रेन्स, बलकत्ता, १६२२ पृ० २०६-१३,

३ 'नाट रथारशब्दो नाटपार इति नाट्यसार इति च हरयते,' नाट्यशास्त्रः अभिनवभारती टिप्पणी, वाल्यू० ३ बड़ोदा पृ० १७४,

४ देखिये इ० हि० ववा १६, १६४३, पृ० ७१,

सी होती है। अभिनवगुप्त ने इमका स्वप्नायित के रूप में उल्लेख किया है। जिस प्रकार एक स्वप्न में दूसरा स्वप्न, उसमें भी दूसरा स्वप्न होता है, इसी परंपरा के अनुमार वहूर्भस्वप्नायित के ममान नाट्यायित में नाटकों की धारा होती है।<sup>१</sup> श्रीरंगस्वामी सरस्वती तथा डा० राघवन आदि अनेक विद्वानों ने विस्तार से इम विचार के स्वरूप पर प्रकाश डाला है।<sup>२</sup> वासवदत्ता नाट्यधारा के बृहित ग्रंथों से भी इसके बारे में योड़ा वहूत ज्ञान होता है। इसमें जहाँ विन्दुमार उदयन का अभिनय करता है, वहाँ उदयन तथा वासवदत्ता सामाजिक बनते हैं। उसी प्रकार आगे उनके अभिनय करने पर विन्दुमार सामाजिक बनता है। इसी क्रम से यह नाट्य रूप उपनिवद्ध हुआ है। इसके उपलब्ध मंदर्भों तथा उद्धरणों से इसके कथानक का सम्यक् ज्ञान नहीं होता। अनुमानतः इसमें भी उदयन द्वारा वासवदत्ता के अपहरण तथा प्रणय आदि का ही चित्रण किया गया है।<sup>३</sup> तथापि वस्तु के सम्यक् ज्ञान के बिना इसकी ऐतिहासिकता आदि का मूल्यांकन असंभव है।

वासवदत्तानाट्यधारा से संबंधित उद्धरणों में उदयन, वासवदत्ता, यौवन्य-रायण शालकायन के अतिरिक्त चन्द्रगुप्त तथा विन्दुमार का भी उल्लेख हुआ है, यहाँ तक कि इनकी पात्र के रूप में अवतारणा की गई है। इनके अतिरिक्त हृष्णरक्षित तथा कटकपिंगल का भी उल्लेख प्राप्त है। श्री सरस्वती के अनुमार हृष्ण-रक्षित प्रति-हारी तथा कटकपिंगल विद्वपक प्रतीत होता है।<sup>४</sup> जो भी हो, किन्तु इस उल्लेख मात्र से उनके ऐतिहासिक चरित्र के सम्बन्ध में कुछ भी निर्णय करना अस्वाभाविक है। पर इसका तात्पर्य यह नहीं कि इस कृति का सस्कृत साहित्य में महत्व नहीं है। वास्तविकता यह है कि वासवदत्ता नाट्यधारा का साहित्यिक तथा ऐतिहासिक दोनों दृष्टि से ग्रन्थिक महत्व है।

साहित्य, विशेषतः नाट्यसाहित्य की दृष्टि से जिस काल को अब से कुछ पूर्वे तक अन्धकारमय माना जाता था, सुवन्धु की नाट्यधारा की उपलब्धि से उस पर विशेष प्रकाश पड़ता है। इसकी उपलब्धि से यह निश्चित हो गया है कि संस्कृत नाट्य-परंपरा भास या उससे कुछ पूर्व से ही नहीं, अपितु मौर्यकाल से भी पूर्व, संभवतः रामायण-महाभारत काल से ही प्रचलित रही है। नाट्यधारा जैसी कठिन

१. “तत्रास्य वहूतरव्यापिनो वहूर्भस्वप्नायिततुल्यस्य नाट्यायितस्य....” नाट्य-शास्त्रः अभिनवभारती : रामकृष्ण कवि, वाल्यू ३, बडोदा, पृ० १७२,

२. देखिये, पूर्वोक्त लेख,

३. देखिये नाट्यशास्त्रः अभिनवभारती : भाग १, १६३४, बडोदा, पृ० ४२५,

४. इ० ऐ० भाग, एल ३, १६२४, पृ० १७८,

विद्या जो कि आज के नाट्यमाहित्य में दुर्लभ है, के उम बाल में अन्तित्व में यह भी प्रकट होता है कि उस समय नाट्यमाहित्य उत्तरपूर्व की पराकाष्ठा पर था। श्रीराम-स्वामी सरस्वती के ग्रन्थों में उस समय का भारतीय नाटक इन्हे उत्तरपूर्व पर था कि बाद के भारतीय साहित्य के इतिहास में उतना कभी नहीं रहा।<sup>१</sup>

इसी प्रकार इसका ऐतिहासिक महत्व भी कुछ बहुत नहीं है। मुख्यतः इस प्रमाण में चन्द्रगुप्त तथा विन्दुसार के उल्लेख महत्वपूर्ण हैं। वामन के उल्लेख के आधार पर श्री शोप श्रादि ने मुबन्धु को गुणकाल में माना था,<sup>२</sup> विन्दु नरमिहाचार्य द्वारा प्रकटित नाटक के उद्घाटनों तथा अद्वितियसुन्दरीकथा के उल्लेख से मुबन्धु की ऐतिहासिकता प्रकट हो चुकी है।<sup>३</sup> यत इतिहासकारों ने मुबन्धु को अन्तिम नन्द तथा प्रथम दो मीरों का मन्त्री माना है।<sup>४</sup> इस प्रकार इस नाट्यधारा से मीर्यालीन इतिहास, विशेषत विन्दुसार पर विशेष प्रकाश पड़ता है। काव्यालकारमूत्रवृत्ति के चन्द्रगुप्त के पुत्र के साथ मन्त्री मुबन्धु के सम्बन्ध के उल्लेख के आधार पर एक और यह स्पष्ट होता है कि यह चन्द्रगुप्त तथा विन्दुसार वा समकालीन या तो दूसरी ओर यह भी स्पष्ट है कि विन्दुसार साहित्यको का आधारदाता भी था। इसी प्रकार मुबन्धु के सम्बन्ध में ज्ञात होता है कि वह चाणक्य का उत्तराधिकारी<sup>५</sup> तथा अच्छा साहित्यक भी था।<sup>६</sup> हमारा विश्वास है कि इस अमूल्य नाट्यकृति के सपुर्णरूप में उपलब्ध होने पर स्कृत नाट्य-साहित्य तथा भारतीय इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ने की समावना है।

### बीणावासवदत्ता (उन्मदवासवदत्ता तथा वत्सराजचरित)–अपूर्ण-

प्राप्त बीणावासवदत्ता (मद्रास १६३१) अज्ञात लेखक की अपूर्ण-कृति है। इसमें तीन अक पूर्ण हैं, चतुर्थ की रूपल तीन पक्कियाँ हैं। इसके लेखक के अज्ञात होने के साथ साथ इस द्वितीय के वास्तविक नाम का भी इसमें उल्लेख नहीं है। उक्त नाम इसके सपादक ने इसकी हस्तप्रति के स्वामी के कथन तथा इसमें पृथक् से लगे हुए सकेत विशेष के आधार पर ही दिया है।<sup>७</sup> कुछ विद्वान् इस शक्तिभद्र की

१. प्रोतीर्दिस अंक दि सेक्षण शोत्रियष्टल कान्केन्स १६२३, पृ० २३,

२. देखिये वही पृ० ६-११ तथा ई० हि० वदा० १६, १६४३, पृ० ६६-३२,

३ वही,

४ एज अंक दि मन्दाज एन्ड मोर्याज शश्याप ११, पृ० ३३०,

५ कुछ गिद्वान् मुबन्धु का साथ्य राज्यस या उसके पुत्र से मानते हैं, पर यह सत्यहीन है।

६. हृष्ट्य. हिन्दी अंक वलामीक्त स० लिट० कृष्णमाचारी, पृ० ५४६-५०,

७ बीणा० प्रस्तावना पृ० ५,

आशचर्यचूड़ामणि की प्रस्तावना में उन्नेलति १ उन्मदवासवदत्ता मानना उचित मानते हैं<sup>१</sup> किन्तु यह मान्यता निराधार तथा विवादास्पद है।<sup>२</sup> कुछ अन्य विद्वानों ने इसका वत्सराजचरित के नाम से भी उल्लेख किया है,<sup>३</sup> किन्तु दधिण में उदयन नाटकों को प्रायः वत्सराजचरित कहा जाता रहा है, अतः इसे इसका नाम नहीं माना जा सकता। इसलिये जब तक मुनिश्चित रूप से इसका नाम ज्ञात नहीं होता, तब तक इसे वीणाचासवदत्ता के रूप में स्वीकार किया जाना ही उचित है।

श्रीकृष्णमाचारियर ने इस कृति को घूटक की रचना होने का संकेत किया है।<sup>४</sup> डा० कुन्हनराजा ने भास के नाटकों के साथ तुलना करते हुए इसे भास की रचना माना है।<sup>५</sup> श्री कृष्णस्वामी ने भी प्रतिज्ञा० के साथ इसके साम्य का उल्लेख किया है।<sup>६</sup> नि.सन्देह इसका भास के नाटकों, विशेषतः प्रतिज्ञा० से साम्य अवश्य है। किन्तु शिल्प आदि के साम्य के आधार पर ही इसे भास की रचना मानना उचित नहीं है। इतना निश्चित है कि यह प्राचीन कृति है। इसकी शैली प्रांजल, लालित्य-पूरण एवं प्रसादगुण सम्पन्न है। इसमें भी भास के नाटकों के समान नान्दी का अभाव तथा स्थापना आदि का प्रयोग है। किन्तु इसमें प्रतिज्ञा० से घटनापात्र आदि की अनेक विभिन्नतायें भी हैं,<sup>७</sup> तथा जबकि प्रतिज्ञा० को हम भास रचित मानते हैं तो उसी वृत्त पर आधारित इस कृति को भास की मानना कथमपि उचित नहीं है। तथापि इसकी शैली एवं शिल्प के आधार पर हमारा अनुमान है कि इसकी रचना भासकाल के ग्रासपास की, संभवतः कानिदास और भास के मध्यकाल में हुई है।

वीणा० का कथानक प्रतिज्ञा० के समान है। संक्षेप में, इसमें प्रद्योत वासवदत्ता के विवाह के निमित्त शम्भु आराधन करता है तभी उसे वर के गुणों से संबन्धित स्वप्नदर्शन होता है। उन गुणों के अनुरूप वर केवल वत्सराज है, किन्तु उसमें अभिमान आदि कुछ दोष भी हैं। मंत्रीगण के परामर्श के अनुसार उसकी मदव्याधि की चिकित्सा के लिये हस्ति पकड़ने के प्रसंग में उसे वांध लाने का पड़यन्त्र किया जाता है और पकड़ कर उज्जैनी ले जाया जाता है। योगन्धरायण इस समाचार

१. वीणा० प्रस्तावना, पृ० ५;
२. ए हिस्ट्री आँफ सस्कृत लिट्० दासगुप्ता, वाल्यूम १, पृ० ३०१, कुट्नोट
३. हिस्ट्री आँफ वलासीकल लिट्० कृष्णमाचारियर, पृ० ५७८,
४. हिस्ट्री आँफ वलासीकल लिट्० कृष्णमाचारियर प० ४७८,
५. ए न्यू ड्रामा आँफ भास : प्रोसीडिंग्स आँफ सिवय आरियन्टल कान्फ्रेन्स : १६३०, प० ५६३,
६. वीणा० प्रस्तावना :
७. वही, अनेक कुट्नोट

से दुखी होकर प्रतिकार के लिये स्वयं भी पटयत्र की पोजना करता है। वह स्वामी के दुख में चिना-प्रवेश के व्याज से सुध होकर उन्मत के वेश में उज्ज्वलनी जाने तथा वत्सराज के साथ आने का निश्चय करता है। नाटक के प्राप्त तृतीय अरु तत्त्व यही क्या है, चतुर्थ में केवल हमवत का प्रवेश तथा उक्ति निर्दिष्ट है। अनुदानत इसके आगे का कथानक प्रतिज्ञा<sup>१</sup> के समान ही होगा और बीणा<sup>२</sup> के नाम के अनुसार सभवत वासवदत्ता को बीणा शिक्षा के प्रसग में ही अपहरण किया हागा।

बीणा<sup>३</sup> के कथानक से स्पष्ट प्रतीत होता है कि इसका पल्लवन प्रतिज्ञा<sup>४</sup> के आधार पर ही किया गया है। बीणा<sup>५</sup> के लेखक ने इसमें मौलिकता समान्त करने के लिये कुछ घटनाओं तथा पात्रों का चित्रित किया है मिन्तु उनसे प्रतिज्ञा<sup>६</sup> की भूलभूत स्वाभाविकता तथा यथार्थता नप्ट ही गई है। शम्भुआराधन, स्वप्नदण्डन, योगन्धरायण का चित्राप्रवेश तथा मोहिनी मिहि द्वारा लुप्त होना आदि इसी प्रकार की घटनायें हैं। इसमें पाचाल आशुणि के आप्रमण का अपेक्षाकृत विस्तृत निरेण है, किन्तु इसमें पाचलन को प्रदान के इशारे में नाचने वाले भिन्न के रूप में तथा वत्सराज ये निबल चित्रित किया गया है।<sup>७</sup> इसमें यह भी ध्वनित होता है कि पाचाल न वत्सराज के बन्दी होने पर ही सभवत कीशाम्बी का अपहरण किया था। इसी प्रकार इसमें यह भी लिखा है कि बाल्यकाल में राजमार में पित्रों के साथ मेलते हुए उदयन ने 'मैं' गज हूँ। ऐसा कह कर, जाते हुए अगारक मुनि पर वारम्बार धून उडायी थी तभी उस ऋषि ने कुद होकर हस्ति के कारण ही शम्भु द्वारा पकड़े जाने का आप दिया था।<sup>८</sup> हमें ये घटनायें तथा बसुवर्मा, विष्णुप्रात, हरिवंश आदि कुछ नवीन पात्रों की अवतारणा ऐतिहासिक प्रतीत नहीं होती। इसके अनिरिक्त अश्यमेश्वरसुना सज्जन, भाघुर राजा जयवर्मा, बाशीपति विष्णुप्रत, अगेश्वर लवरथ, मत्स्य के राजा शनमन्यु तथा मिष्ठुराज गुग्रू के उल्लिख भी ऐतिहासिकता के सम्बंध में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। यही नहीं बल्कि यहीं ऐतिहासिक पात्र उदयन तथा दर्शक को भी गविष्ठ तथा झूर के रूप में चित्रित किया है। शनद्वायन का नाम सूर्योदत्त लिखा है।<sup>९</sup> वत्सराज के तीन भाई वत्साय हैं।<sup>१०</sup> इसमें प्रतिज्ञा<sup>११</sup> की पटयत्र आदि की घटनाओं को भी अपन अनुगार विन्यस्त किया है, जिहें प्रतिज्ञा<sup>१२</sup> के आधार पर ऐतिहासिक नहीं कहा जा सकता।

१. बीणा<sup>३</sup> पृ० ८-६,

२. बीणा<sup>४</sup> ११६,

३. यही, पृ० २६,

४. यही, पृ० ४६,

संक्षेप में, बोणा० का ऐतिहासिक महत्व उतना अधिक नहीं प्रतीत होता, जितना कि साहित्यिक। साहित्यिक हृष्टि से यह उत्कृष्ट प्रांजल तथा अभिनेय है। वाक्य छोटे-छोटे, संबाद मुन्दर, सरल तथा अनलंकृत हैं। चरित्र-चित्रण परिस्फुट रूप में नहीं हुआ है। संपूर्ण रूप में विना प्राप्त हुए इसका उचित मूल्यांकन असंभव है। तथापि भास के प्रतिज्ञा० के आधार पर इसकी ऐतिहासिकता का पर्यावेक्षण से पुनः यह प्रकट हो जाता है कि यह भास के बाद की है।

### अभिसारिका वच्चितकम् (वंथितकम्)–(अपखंड)

यह नाटक विशाखदेव की रचना के रूप में शृंगारप्रकाश (भोज) तथा अभिनवभारती (अभिनवगुप्त) में अशतः उद्भूत है।<sup>१</sup> अतः विद्वान् इसे विशाखदत्त की ही रचना मानते हैं। उद्धरणों के आधार पर विद्वानों ने इसके शीर्षक के ग्रीचित्य के परिप्रेक्ष्य में संभावित कथानक को प्रस्तुत किया है जिससे स्पष्ट होता है कि यह नाटक भी विशाखदत्त के अन्य नाटकों के समान महान् कृति रहा होगा। उदयन तथा पद्मावती के प्रणय तथा परिणय की कथा प्रसिद्ध है, किन्तु इसमें उदयन तथा पद्मावती के विरोध की पृष्ठभूमि में पद्मावती हत्यारिणी के रूप में चित्रित है। पद्मावती तथा राजा में विरोध कराने को उसे उदयन के किसी पुत्र की हत्यारिणी के रूप में प्रसिद्ध कर दिया जाता है। राजा भी इस प्रवाद में विश्वास करके घृणा तथा ओत्र में भरकर उसे फटकारता है (शृंगार प्रकाश में यही उक्ति दी है)। पद्मावती को प्रियतम के उस अविश्वास तथा प्रेम को सोने का दुख होता है और वह शवरी (अभिसारिका) के रूप में शनैःशनैः नष्टराग का प्रत्यायन करके पुनः प्रेमाधिकारिणी हो जाती है (अभिनवभारती में यही स्थल है)। विद्वानों के अनुसार नाटककार ने यह कथा बोढ़ जातकों के अनुपमा तथा माकन्दिका के चरित्रों के आधार पर उपन्यस्त की है।<sup>२</sup> जो भी हो, किन्तु यह पद्मावती के ऐतिहासिक चरित्र के अनुरूप नहीं है।

### तापसवत्सराजः

यह नाटक भातृराज (भाउराज), अपरनाम अनंगहर्ष की रचना है। प्राचीन समय से ही यह अत्यन्त लोकप्रिय तथा प्रसिद्ध रहा है। अतएव अनेक प्राचीन साहित्य-शास्त्रियों ने इसका अनेकाशः उल्लेख तथा समीक्षण-परीक्षण किया है।<sup>३</sup> विद्वानों

१. देखिये उद्धरण तथा कथा के लिये-हिस्ट्री आँफ वलासीकल संस्कृत लि० कृष्णमाचारियर, पृ० ६१०,
२. हिस्ट्री आँफ वलासीकल संस्कृत लिट० कृष्णमाचारियर : पृ० ६:४; जे ए० एच० श्रार० एस० १६२७ बाल्यम १, भाग ३, पृ० १५६,
- ३ दिशेष देखिये, तापसवत्सराज, भूमिका, पृ० १७-२२,

में च्छन्यालोक में नाटक (२१६) के उद्धरण के आधार पर नवमशनक से प्राची<sup>१</sup> तथा कुट्टीमन में अनगहर्ष के उल्लेख के कारण अष्टम से वाद का माना है ।<sup>२</sup>

प्रस्तुत नाटक बड़े-बड़े थे अब्दो में उपनिवेद हैं । पाचालराज के द्वारा राज्य के अपहरण कर लेने पर भी राज्य-कार्य के प्रति उदासीन उदयन को विषय भी ग मनिमन देखकर मन्त्रिगण पड़यत्र का आयोजन करते हैं । फलत वासवदत्ता दाह के समाचार से विनाश होकर राजा भी प्राण त्याग करना चाहता है, पर स्मण्डान के परामर्श से ऐसा न करके प्रयाग के तपोवन में तापस बन रहता है । तापस वेश में ही धूमता हुआ राजगृह जाता है, जहाँ सास्त्रत्यायनी द्वारा प्रेरित पद्मावती उदयन पर अनुरक्त होकर स्वयं भी परियाजिता बनकर उसके चरित्र की आराधना में रत है । उधर मौगन्धरायण वासवदत्ता को पद्मावती के पास छोड़कर आता है । पद्मावती और राजा की भेट होती है, किन्तु राजा को तब भी वासवदत्ता के लिए रोता देख कर विन्न होती है । चतुर्थ में राजा पद्मावती के प्रति अनुरक्त होता है तथा उनके विवाह का निश्चय हो जाता है । पचम में दर्शक पालक आदि की सहायता से आरणी पर विजय पा लेता है । पछ म वासवदत्ता ग्लानिवश जलना चाहती है । उधर राजा भी प्राणत्याग करना चाहता है और शीघ्रतावश वासवदत्ता की चिता में ही प्रवेश करना चाहता है कि तभी विदूपन वासवदत्ता को समझाते हुए योगन्धरायण को पहिचान जाता है रहस्य खुलता है और सभी के सम्मिलन के साथ नाटक समाप्त होता है ।

उपर्युक्त कथानक से स्पष्ट है कि इसमें उदयन के ऐतिहासिक चरित्र को स्वच्छन्दरूप से तोड़ मोड़ कर विच्छिन्न किया गया है । इसमें उदयन, वासवदत्ता, पद्मावती, योगन्धरायण, स्मण्डान, दर्शक तथा पालक आदि ऐतिहासिक पात्र हैं, तो काचनमाला आदि पात्र लोक कथा से संजोये हुए तथा विनीतभद्र आदि कवित हैं । मूलत आशण का आश्रमण, वासवदत्ता-दाह का प्रवाद, पद्मावती से विवाह अ दि घटनायें ऐतिहासिक अवश्य हैं किन्तु उद्देश्य विशेष के लिये उनका उपन्यास ऐसा किया गया है कि उनकी ऐतिहासिकता पर आवरण पढ़ गया है ।<sup>३</sup> उदयन तथा पद्मावती का ताप्त बनना आदि उद्भावित घटनाओं का विन्यास रसोइयों की त्वरा

१. स० स० इति० यतदेव उपाध्याय, प० ५२३,

२. ताप्तसवत्सराज जै० ए० एच० आर० एस० १६२७, बाल्मी १, भाग ३, प० १५५-५८,

३. हुल्टज के अनुसार इसका कथानक शीद्धक्रोतों में सजोया गया है देखो— हस्त्री औंक वलासीकल संस्कृत लिट० हृष्णमाचारियर, पुट्टोट, प० ६३३,

की हृष्टि से किया गया है। इसके अतिरिक्त नाटक में किसी भी ऐतिहासिक पात्र की मूलभूत चारित्रिक विशेषता उभरने नहीं पाई है, फलतः ऐतिहासिक पात्र भी नाम्ना ऐतिहासिक हैं, किन्तु चरित्र प्रायः कल्पित है। उदयन को अत्यधिक विलासी तथा अधीर रूप में चित्रित किया गया है। सामान्यतः नायिकायें तथा नायक भी मत्रियों के इशारे पर नाचते वाले खिलौने भाव हैं।

**प्रमुखतः** इस नाटक में नाटककार का उद्देश्य ऐतिहासिक न होकर रसप्रबण रचना करना मात्र रहा है। प्रतएव उसने ऐतिहासिक यथार्थ की उपेक्षा करके चमत्कृतपूर्ण उद्भावना द्वारा रसात्मकता का विनिवेश किया है। यही कारण है कि इसमें ऐतिहासिक पात्र तथा कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के विनियोग होने पर भी काल्पनिकता की प्रवलता है। साहित्यिक हृष्टि से कथावस्तु वेदनामयी तथा चमत्कारपूर्ण है। घटनाओं में कार्यान्विति तो है किन्तु न तो कार्यकारण की हृष्टि से स्वाभाविकता है और न नाट्यसुलभ गत्यात्मकता ही। चरित्र-चित्रण में कोई विशेषता नहीं है। वासवदत्ता का चरित्र अवश्य कुछ ठीक माना जा सकता है। शैली तथा विचारों में वैयक्तिकता है। करणाविप्रलंभ भी सशक्त है। सक्षेप में इसमें राजनीतिक, झूँसगारिक तथा तापसजीवन का संश्लिष्ट चित्रण है। हासकालीन नाटकों में यह श्रेष्ठ अवश्य है किन्तु रंगमंचीयता तथा ऐतिहासिकता का अभाव है।

### मनोरमा वत्सलराज (उल्लेख प्राप्त) :

यह नाटक नाट्यदर्शण में भीमट के नाम से उल्लिखित है। भीमट या भीमदेव कालिजर का राजा था। इसने ५ नाटक लिखे, किन्तु सभी अपर्याप्त हैं।<sup>१</sup> राजशेखर ने भी इसका नाटककार के रूप में उल्लेख किया है। यह नाटक हर्ष की प्रियदर्शिका की एक पात्र मनोरमा को अधिकृत करके रचित प्रतीत होता है।<sup>२</sup> इनकी अन्य कृतियों के सम्बन्ध में इसके प्रतिज्ञा चारणव्य के सन्दर्भ में प्रकाश आला गया है।

### उदयनराज :

यह सुप्रसिद्ध जैन नाट्यकार हस्तिमल्ल (१२६० ई०) की अप्राप्त कृति है। इसके ४ नाटक प्राप्त हैं-४ अप्राप्त। श्री नाथूराम प्रेमी ने आफेक्ट के 'केटलाग केटलोगोरम' के आधार पर उदयनराज को एक नाटक माना है,<sup>३</sup> तो अन्य विद्वानों

१. हिस्ट्री आँफ क्लासीकल संस्कृत लिट०, कृष्णमाचारियर, पृ० ६३१-३२,
२. हिस्ट्री आँफ क्लासीकल संस्कृत लिट०, कृष्णमाचारियर, पृ० ६३४,
३. जैन साहित्य का इतिहास : प्रेमी, पृ० ३६६,

## ३३८ . सस्कृत के ऐतिहासिक नाटक

ने इसका काथ्य के रूप में ही निर्देश किया है।<sup>१</sup> जैन परम्परा में हस्तिमल्ल मुख्यतः एक नाटककार के रूप में विख्यात है, तथा उन्होंने नाटक ही अधिक लिखे हैं। इसके प्रतिरिक्त उदयन विषयक काव्यों का पूर्ण अभाव है जबकि नाटकों की मस्त्या पर्याप्त है। अतः इसे भी नाटक ही मानना उचित है। किन्तु जब तक यह प्राप्त नहीं होता इसके सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

### ललितरत्नमाला (अप्रखण्ड) :

यह क्षेमेन्द्र की अप्राप्त रचना है। नाट्यदर्शण तथा श्रीचित्यविचारचर्चा में इसके उद्धरण प्राप्त हैं। विद्वानों का अनुमान है कि यह भी रत्नावली के समान कथानक पर विन्यस्त है।<sup>२</sup> उपर्युक्त समग्र नाटकों के प्राप्त होने पर उदयन नाटकों तथा उदयन-कथा के अध्ययन में विशेष सहायता मिल सकने की सभावना है।

- 
१. कानै कोमामर्देशन वालेषुम्, पृ० ५२६। हिस्ट्री ग्रॉफ बलासीकल सस्कृत लिट० हृष्णमाचारियर, पृ० ६४२,
  २. वैतिमै, हिस्ट्री ग्रॉफ बलासीकल सस्कृत लिट०, हृष्णमाचारियर, पृ० ५८७-८८ साथा ए हिस्ट्री ग्रॉफ सस्कृत लिट०, पृ० ४७१,

## मुद्राराक्षस एवं देवी चन्द्रगुप्त

सस्क्रत-नाट्य साहित्य में विशाखदत्त, (अपर नाम विशाखदेव),<sup>१</sup> सर्वाधिक सफल तथा अन्यतम ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है। उसने एकाधिक नाटक लिखकर नाट्यसाहित्य को अभिवृद्ध ही नहीं किया है, अपितु सर्वप्रथम सर्वाधिक स्वाभाविक ऐतिहासिकता से सपृक्त सफल एकाधिक ऐतिहासिक नाटकों की रचना करके इस क्षेत्र में आदर्श भी उपस्थित किया है। विद्वानों के अनुसार विशाखदत्त ने ४ नाटक लिखे, इनमें तीन मुद्राराक्षस, देवीचन्द्रगुप्त और अभिसारिका बचितकम्, ऐतिहासिक हैं तथा सुभापित के रूप में ज्ञात राघवानन्द पौराणिक है।<sup>२</sup> इनके उपयुक्त ३ ऐतिहासिक नाटकों में से अभिसारिका-बचितकम् का उदयन नाटकों के प्रसग में उल्लेख कर आये है, अतः यहाँ विशाखदत्त के मुख्यतम दो ऐतिहासिक नाटक मुद्राराक्षस तथा देवी चन्द्रगुप्त का ही अध्ययन करेंगे, जिनके कि कारण उसे अद्वितीय गोरव तथा महत्ता प्राप्त हुई है।

### विशाखदत्त एवं उसका समय :

विशाखदत्त के परिचय का प्रमुख साधन मुद्राऽ की प्रस्तावना है। उसके अनुसार ये सामन्त वटेश्वरदत्त (या वत्सराज) के पौत्र तथा महाराज भास्करदत्त (या पृथु) के पुत्र थे। प्रस्तावना में इनके पितामह के लिए प्रयुक्त सामन्त शब्द से स्पष्ट है कि ये किसी सामन्त परिवार से सम्बन्धित थे, किन्तु सम्भवतः वाद में इनके पिता को महाराज पद प्राप्त हो गया था। नाटक में ज्योतिष, न्याय, व्याकरण,

१. मुद्राऽ की प्रस्तावना में निदिष्ट पिता तथा पितामह के दत्तान्त नाम साम्य के आधार पर विशाखदत्त तो सुनिश्चित है, किन्तु अनेक प्राचीन ग्रन्थों में तथा इसकी प्रतियों, सुभाषितावली, सदुक्लिकण्ठमृत एवं शृंगार प्रकाश आदि में विशाखदेव नाम भी मिलने से दोनों अभिन्न भावे जाते हैं।
२. मुद्राराक्ष : भूमिका : के. एच. ध्रुव, पृ० १७; पूना ओरियन्टलिस्ट, १६३६, पृ० ४२,

नाट्यशास्त्र ग्रादि के अतिरिक्त सर्वंत्र विशेष रूप से सक्रान्त राजनीति शास्त्र के ज्ञान तथा कूटनीतिक वृशलता से यह भी स्पष्ट होता है कि हो न हो, इन्होने भी अपने पिता के आधार्य में या स्वतन्त्र रूप से राजनीति के खेल अवश्य क्षेत्रे थे।<sup>१</sup> किन्तु उनकी ऐतिहासिकता तथा इन राजकीय उपायियों का ऐतिहासिक परिचय अभी भी ग्रनु-संधान का विषय है। यही वारण है कि विशाखदत्त का समय भी विवादास्पद बना हुआ है।

विशाखदत्त के ग्रन्थि काल के निर्णय के लिये विद्वानों ने अन्त बाह्य साधपूर्णे के आधार पर अनेक प्रयत्न किये हैं, किन्तु उनमें यद्यपि भी वर्तमत्य है। मुडा० की विभिन्न हस्तप्रतियों के भरतवाक्य में दन्तिवर्मा, चन्द्रगुप्त, अवन्तिवर्मा तथा रन्तिवर्मा एवं दो ग्रन्थ अशुद्ध उल्लेख प्राप्त हैं। विद्वानों ने इनमें दन्तिवर्मा, चन्द्रगुप्त तथा अवन्तिवर्मा को शुद्ध मानकर अपने-अपने मत उपन्यस्त किये हैं। श्री ए० रगस्वामी सरस्वती ने दक्षिण औ अनेक हस्तप्रतियों में दन्तिवर्मा पाठ खोजकर इसे ही प्रामाणिक माना है।<sup>२</sup> तथा इसका साम्य ग्रन्थम् शतक के पहलवन्नरेश से मानकर विशाखदत्त का समय भी ग्रन्थम् शतक स्वीकार किया है,<sup>३</sup> किन्तु उस समय दक्षिण में किसी हृण आकाशता का ज्ञान न होने से तथा बट्टर शीव पहलव नरेश के साथ भरतवाक्य के विषय के ग्रन्तार की वस्त्रना वा अधिक्षिय ग्रादि न होने के कारण विद्वानों ने इस मत को अस्वीकार कर दिया है।<sup>४</sup>

कुछ विद्वान् "पार्थिवशचन्द्रगुप्तः पाठ वो टीक मानते हैं। हुंडिराज ने इसी को ठीक मानकर इसका साम्य चन्द्रगुप्तमौर्य से माना है किन्तु यह मत सर्वथा घस्वाभाविक है अतः अपार्थ है।<sup>५</sup> कुछ ग्रन्थ विद्वान् त्रिनमे शारदारंजनराय, जायमवाल तथा श्रीपद्धित ग्रादि प्रमुख हैं,<sup>६</sup> चन्द्रगुप्त पाठ को प्रामाणिक मानकर इसका साम्य चन्द्रगुप्त द्वितीय से मानते हैं।<sup>७</sup> इस मत के मानने वाले विशाखदत्त को गुप्तकाल (४०-५५ शतक) में तथा कालिदास वा समकालीन स्वीकार करते हैं।<sup>८</sup> यही नहों बल्कि

१. विशेष हृष्टद्यु : सं० क० दर्शन : डा० व्यास, पृ० ३५२,
२. जनरल आफ मिथिक सोसाइटी : अप्रेल, १९२३, पृ० ६१६-१७,
३. मुद्राराजस ध्रुवः भूमिका, पृ० ७,
४. वही पृ० ६ स० क० दर्शन : व्यास, पृ० ३५५,
५. मुद्रा ध्रुव, पृ० २०, भूमिका,
६. हृष्टद्यु, मुद्रा राय : भूमिका पृ० ६-१४ तथा  
इ० ए० एनम् एल पृ० २६५, मुद्रा० पंडित भूमिका पृ० १,
७. विशेष देविये, इन्द्रोदवर्गन टु दि न्टडो आॊफ मुद्रा० : देवस्थली पृ० ६-१०,
८. गुप्त साम्राज्य का इति० वासुदेव उपाध्याय, भाग २, पृ० १०७-८,

थी आर० ऐस० पंडित ने देवीचन्द्रगुप्त के आधार पर विशाखदत्त को गुप्तों का संबंधी भी माना है,<sup>१</sup> किन्तु विद्वानों ने इस मत के समर्थकों का खंडन करके इसे भी अग्राह्य ठहरा दिया है। कोथ के शब्दों में विशाखदत्त को कालिदास का समकालीन मानना भ्रामक कल्पना मान्न है।<sup>२</sup> वस्तुतः विशाखदत्त की शैली कालिदासोत्तरकालीन तथा कम से कम २-३ सदी वाद की है।<sup>३</sup> प्रो० ध्रुव के अनुसार विशाखदत्त पर भारवि का प्रभाव है।<sup>४</sup> अतः गुप्तकाल में उसे मानना कदाचि उचित नहीं। मुख्यतः देवीचन्द्रगुप्तम् की उपलब्धि से, जिसका नायक चन्द्रगुप्त है, यह मत पूर्णतः ध्वस्त हो गया है। अतः अन्य कुछ विद्वान् अवन्ति वर्मा पाठ को प्रामाणिक मानते हैं। किन्तु अवन्तिवर्मी भारतीय इतिहास में दो हुए हैं, एक काश्मीर नरेश, दूसरे कल्नीज नरेश। याकोवी नाटक के अन्तसाक्ष्य के आधार पर काश्मीर नरेश, अवन्तिवर्मा (८५५-८८३ ई०) से इस पाठ का साम्य मानते हैं। प्रस्तावना से एक चन्द्रग्रहण का संकेत है, जो कि बुधग्रह के योग के कारण नहीं हो पाता (१६:)। याकोवी के अनुसार यह तिथि २ दिसम्बर ८६० में पड़ी थी। अतः ये विशाखदत्त का समय नवम शतक में मानते हैं।<sup>५</sup> पर, अपने समर्थन से कोई सुहृद निष्कर्षात्मक प्रमाण न देने के कारण इस मत को विद्वानों ने अस्वीकृत कर दिया है।<sup>६</sup>

श्री काशीनाथ व्याप्ति तैलंग ने अवन्तिवर्मा का साम्य मौखिक वंशी कल्नीज नरेश से माना है।<sup>७</sup> प्रो० ध्रुव ने भी इनका समर्थन किया है।<sup>८</sup> तैलंग तथा ध्रुव आदि ने अनेक प्रबल प्रमाणों के आधार पर इसे हर्ष के बहनोई ग्रहवर्मा के पिता अवन्तिवर्मा से अभिन्न मानकर इनका समय सप्तम शतक माना है।<sup>९</sup> वस्तुतः मुद्रा० में चित्रित जैन तथा बौद्ध धर्म के प्रति सहिष्णुता, नाटक की गौड़ी शैली तथा राजनीतिक पृष्ठभूमि के आधार पर यही प्रतीत होता है कि विशाखदत्त हर्ष के बाद हुए। देवीचन्द्रगुप्त की उपलब्धि से यह मत और भी प्रमाणित हो गया है। राइज़ डंविड़्ज़

१. मुद्रा० पंडित नोट्स पृ० १७१-२,
२. सं० झामा, कीय, पृ० २०४,
३. सं० क० दर्शन व्यास, पृ० ३५७,
४. हृष्टव्य मुद्रा० ध्रुव भूमिका, पृ० १०,
५. हृष्टव्य. सं० झामा, कीय : २०४,
६. वही,
७. मुद्रा० तैलंग, पृ० १३-२८,
८. मुद्रा०, ध्रुव : भूमिका, पृ० ११,
९. मुद्रा : ध्रुव : ८-१०, मुद्रा : तैलंग, पृ० २०-२५,

तथा विन्दनिंदा रैप्सन, मैकडॉनल आदि इतिहासारों ने भी इस मत को स्वीकार किया है।

### (अ) मुद्राराक्षस

मुद्राराक्षस का कथानक—सात अक वे इग नाटक में चाणक्य तथा अमात्य राक्षस के बोधिक एवं कूटनीतिक सधर्यं का प्रश्न किया गया है। नन्दवश का नाश करके चन्द्रगुप्त द्वारा राज्य पर अधिकृत कर दिया गया है, विन्तु मलयवेतु के द्वारा चन्द्रगुप्त के अभिमव की आशका स क्षुब्ध चाणक्य नन्दवश के उन्मूलन करन पर शिवा बाँधन की प्रतिज्ञा के पूर्ण ही जान पर भी, राक्षस को वश में लिये विना इसे पूर्ण नहीं मानता। अतएव वह राक्षस को वश में करने में तत्पर है। यही जात होता है कि उसने राक्षस के द्वारा चन्द्रगुप्त के बध के लिये भेजी गई विषक्त्या द्वारा पर्वतेश्वर द्वारा मरवा दिया है तथा तुम्हारे पिना को चाणक्य न मरवाया है—ऐसा भय देकर भागुरायण मलयवेतु को कटक में भगा देता है। चाणक्य ने सर्वंत्र अपने गुप्तचरों का जान विद्धा रखा है। यही उसे एक गुप्तचर बतलाता है कि बुम्पुम्पुर में तीन व्यक्तिन राक्षस के प्रियात्र हैं—शपणक जीवसिद्धि (जो कि चाणक्य का ही गुप्तचर है), बायम्य शक्टदास तथा श्रेष्ठी चन्द्रमदास (जिसके पर राक्षस अपने बुद्धुम्ब को रख कर नगर में बाहर चला गया है)। वह वहीं से प्राप्त एक राक्षस की मुद्रा भी देता है, जिसमें वह शक्टदास में लियवाये एक कूटनेय की मुद्रित करा देता है और इसी मुद्रा द्वारा उसे वश में करता है। यही जबकि चन्द्रगुप्त पर्वतेश्वर का आढ़ करना चाहता है, चाणक्य पर्वतेश्वर के आभूषणों की ओपने ही तथावयित राक्षस के ५ परमभक्त कूद्रुत के चित्रवर्ण, मलय के सिहनाद, वाष्पीर के पुक्कराघ्यक तथा सिन्धु के सिन्धुपैण राजाओं को देन वा परामर्श देता है। दूसरी ओर पर्वतेश्वर के हृत्यारे शपणक का निष्कारन कराता है तथा शक्टदास को वध्यप्थान में भगवा देना है और चन्द्रमदास को बुलाकर आतकित करता है, जिससे कि वह राक्षस के परिवार को उसे सीधे दे।

द्वितीय अक में, राक्षस भी अपनी कूटनीतिक-चक्र चलाता है विन्तु उसे असफलता ही मिलती है। राक्षस एवं उसके गुप्तचर विराघगुप्त की वारों से जात होता है कि चन्द्रगुप्त की हृत्या को समस्त योजनायें चाणक्य ने असफल कर दी हैं। चन्द्रगुप्त द्वारा भेजी गई विषक्त्या द्वारा पर्वतेश्वर द्वारा मरवा दिया गया है। नगर प्रवेश के समय तोरण द्वारा चन्द्रगुप्त की हृत्या के बदने पर्वतर के भाई दंरोचव द्वारा मरवा दिया गया है। इसी प्रकार के विष प्रयोग तथा सुरगविष्फोट आदि के सभी प्रयत्न निरस्त कर दिये गये हैं। अन्त में राक्षस चन्द्रगुप्त के मर्ही नियुक्त अपने गुप्तचर वैतालिकों के द्वारा भेद नीति वा आश्रय लेता है और भैश्क प्रशस्ति पढ़ने

की सूचना भेजना है। तृतीय में कोमुदी महोत्मव के आयोजन की चन्द्रगुप्त की आज्ञा के उल्लंघन के रूप में चन्द्रगुप्त तथा चाणक्य के कृत्रिम विग्रह द्वारा राक्षस की भेदनीति को पुणित दिखाकर चाणक्य उसको पुनः बाज़ी देता है। चतुर्थ में चाणक्य अपनी नीति द्वारा राक्षस का पक्ष-भेद करता है। इसका गुप्तचर भागुरायण, जो पुष्पपुर से भागकर मलयकेतु के पास आ गया है, उसे यह विश्वास दिला देता है कि राक्षस की शत्रुता चाणक्य के साथ है न कि चन्द्रगुप्त के साथ। अतः चन्द्रगुप्त द्वारा चाणक्य को मतिराद ने छ्युत करने पर नन्दवश में अनुरक्त राक्षस चन्द्रगुप्त को नन्दवंशी समझकर तब वह राक्षस को “तिर्यग्यामान” मानकर परस्पर सन्धि कर सकते हैं। तभी करभक के मुख से चन्द्रगुप्त तथा चाणक्य के विग्रह के समाचार को सुनकर राक्षस अपने को कृतकार्य मानता है। किन्तु भागुरायण इन वातों को गलत ढंग से मलयकेतु को ममभाकर उसे राक्षस से फोड़ देता है। इसी दीच पाटलिपुत्र पर श्राकमण की योजना बनायी जाती है और क्षपणक से मुहूर्त पूछते हैं।

पचम में नाटक की गर्भसन्धि है। इसमें चाणक्य की कूटनीति वरम उत्तर्पं पर पहुँच जाती है। राक्षस का कृत्रिम मिश्र जावसिद्धि भागुरायण से कुमुमपुर जाने के लिये मुद्रा लेते समय प्रसंगवश यह बतला देता है कि राक्षस ने हा विपक्ष्या द्वारा पर्वतेश्वर को मरवाया है। इस मलयकेतु भी सुन लेता है। दूसरी ओर कूटलेख तथा राक्षस से पुरुश्कार में प्राप्त पर्वतेश्वर के अलकारों की पेटिका के साथ सिद्धार्थक भी पकड़ा जाता है। फलतः मलयकेतु को यह विश्वास हो जाता है कि राक्षस गुप्तरूप से चन्द्रगुप्त से मिला हुआ है, और यह राक्षस को बुलाकर फटकारता है। राक्षस को अपनी-नीति की असफलता पर धोर पश्चाताप होता है। मलयकेतु निर्दोष राक्षस का तिरकार करता है तथा उससे पृथक् हो जाता है। पठ अंक में सिद्धार्थक से ज्ञात होता है कि मलयकेतु ने चित्रवर्मा प्रभृति अपने सहयोगी ५ राजाओं को मरवा डाला है। अतएव वहुत से राजा अपने-अपने देश को भाग गये तथा भद्रभटादि ने अविचार-शील मलयकेतु को पकड़ लिया है और चाणक्य ने उनकी समस्त सेनाओं को अधिकार में कर लिया है। उधर राक्षक-मित्रचन्दनदास की प्रवृत्ति जानने को कुमुमपुर आता है, किन्तु जीर्णोद्यान में आत्महत्या के कृत्रिम प्रयास करने वाले चाणक्य के गुप्तचर द्वारा चन्दनदास की फाँसी के सम्बन्ध में जानकर उसे बचाने को कठिवद्ध होता है। सप्तम अंक में चाणक्य के दो गुप्तचर चन्दनदास को वध्यस्थान में लाते हैं, जहाँ उसकी पत्नी पुत्र के साथ मर जाना चाहती है। तभी रांक्षस अपने कारण पीड़ित मिश्र को बचाने के लिये वहाँ पहुँचता है और आत्म समरण कर देता है। निदान, यह चाणक्य का मुहूर्द तथा चन्द्रगुप्त का ग्रमात्य बनता है और जब वन्दी के रूप में मलयकेतु लाया जाता है तब उसे मुक्त कराकर उसके पिता का राज्य दिला देता है।

मुद्राराक्षक के कथानक के लोत — मुद्रा० के कथानक से स्पष्ट है कि इसमें मूलत मन्द तथा चन्द्रगुप्त मौर्य से सम्बन्धित भारतीय इतिहास के सुप्रसिद्ध इतिवृत्त को ही नाट्यशब्द किया गया है। यह मौर्यकालीन ऐतिहासिक वृत्त हमें पुण्य कौटिल्य के भूर्येशास्त्र वृहत्कथा के वृहत्कथामजरी तथा कथासरित्सागर आदि सस्करण एवं बौद्ध ग्रन्थ तथा जेन ग्रन्थों के प्रतिरिक्त यूनानी तथा लेटिन ग्रन्थों में अनेक प्रकार से उपलब्ध है।<sup>१</sup> इतिहासकारों ने इस सामग्री के आधार पर ही मौर्यकालीन इतिहास निखने की चेष्टा की है, किन्तु विशाखदत्त ने इस सबका उपयोग किया है—इसमें सन्देह है। यद्यपि दशरथक के अवलोकनार घनिक ने इसका मूल वृहत्कथा को वत्तलाया है,<sup>२</sup> किन्तु उसका पथन आमक है। उसने वृहत्कथा के उपलब्ध सम्मकर उदाहरण के रूप में उपयोग किया है,<sup>३</sup> किन्तु वास्तविकता यही है कि ये भी मुद्रा० के उपजीव्य नहीं हैं। इन दोनों सस्करणों में चन्द्रगुप्त, नन्द तथा चाणक्य के नाम के प्रतिरिक्त नाटक के इतिवृत्त में कुछ भी साम्य नहीं है। यही कारण है कि प्रो० ध्रुव, थीराय तथा मुकर्जी आदि विद्वानों ने भी घनिक के कथन को अपार्ह ठहराया है।<sup>४</sup> इनना अवश्य माना जा सकता है कि नाटककार ने वृहत्कथामजरी आदि को भी देखा होगा, किन्तु विसी ग्रन्थ विशेष को मुद्रा० का मूल माना जाना सबथा अस्वाभाविक है। वास्तविकता यही है कि विशाखदत्त ने चाणक्य तथा चन्द्रगुप्त मौर्य से सम्बन्धित प्रचलित फूटनीतिक विधाओं, किंवदन्तियों तथा परपरागत विश्वासों से ही अधिक प्रेरणा ली है, इतिविशेष से नहीं, तथापि उपर्युक्त समस्त सामग्री के आधार पर मुद्रा० की ऐतिहासिकता का परिशीलन अवश्य किया जा सकता है।

### मुद्राराक्षम में कल्पना तथा ऐतिहासिकता

मुद्रा० में ₹० पू० चतुर्थमतक के पूर्वांदू<sup>१</sup> की मागध के मुश्सिद्ध नन्दोमूलन की राज्यप्राप्ति से सम्बन्धित घटना को नाट्यशब्द किया गया है। सधेष में प्रपमानित चाणक्य द्वारा प्रतिशोध स्वरूप नन्दवश के समूनोमूलन को प्रतिज्ञा को पूर्ण करके चन्द्रगुप्त की राज्यासीन करन तथा चन्द्रगुप्त की राज्यधी के स्थापित्व के लिये स्वामी भक्त राक्षस वो अमात्यपद पर प्रतिष्ठित करने के कथानक वा ही मुद्राराक्षस में

१. विशेष देखिये, चन्द्रगुप्त मौर्य और उसका काल : मुकर्जी, पृ० २०-२२,

२. सत्र वृहत्कथामूल मुद्राराक्षसम्—दशरथक ११८ की अवस्था,

३. मिलाइये दोनों के उद्धरण,

४. मुद्रा० : ध्रुव भूमिका, पृ० २३, मुद्रा राम भूमिका, पृ० ८, चन्द्रगुप्त मौर्य और उसका काल : मुकर्जी पृ० ३३, आदि,

प्रस्तार है। स्पष्ट है कि नाटक में आधारभूत घटना दो हैं (१) नन्दोन्मूलन की प्रतिज्ञा तथा चन्द्रगुप्त को राज्यासीन करना। इसका नाटक में पृष्ठभूमि के रूप में उल्लेख किया गया है, तथा (२) राक्षस को मौर्य के अमात्य पद पर स्थापित करने की घटना, इसी पर नाटक का समस्त प्रामाद खड़ा किया गया है।

नाटक वहाँ से प्रारम्भ होता है, जहाँ कि नन्दोन्मूलन के पश्चात् चन्द्रगुप्त शिणुनागों के प्रसिद्ध गांगेयप्रासाद के मिहासन पर बैठता है और यहाँ वह स्थल है, जिसके बाद की घटनाओं के सम्बन्ध में इतिहास मौन है। स्पष्ट है कि उपरिनिर्दिष्ट नन्दोन्मूलन तथा चन्द्रगुप्त को राज्यासीन करने की घटना ऐतिहासिक है, किन्तु नाटक में इसका सकेत या उल्लेख मात्र है। इसी से सबैवित “राक्षस निग्रह” की दूसरी घटना, जिसको कि नाटक में आधिकारिक वस्तु के रूप में ह्यायित किया गया है, नाटककार द्वारा उद्भावित है। इस प्रकार मुद्रा० के नाटककार ने यहाँ अन्यकारावृत्त इतिहास के गर्भ में छिपी घटनाओं को सम्भवतः भारतीय आनुश्रुतिक परम्परा तथा किंवदन्तियों आदि से सेंजोकर आनुमानिक इतिहास के रूप में प्रस्तुत किया है। स्पष्ट है कि नाटक की समस्त घटनायें विशुद्ध ऐतिहासिक नहीं हैं। कुछ ऐतिहासिक हैं, कुछ परम्परा प्राप्त हैं तो कुछ अनुमान प्रक्रिया के आधार पर कर्तिष्ठ। किन्तु विशालदत्त ने इन सबका समन्वय तथा प्रस्तुतीकरण इतना स्वाभाविक तथा यथार्थ रूप से किया है कि समस्त नाटक विशुद्ध ऐतिहासिक प्रतीत होता है। अतः हम यहाँ नाटक की प्रमुख प्रमुख घटनाओं के परिपाश्व में यथावसर संक्षेप तथा विस्तार से इसकी काल्पनिकता तथा ऐतिहासिकता पर प्रकाश डालेंगे।

### (१) मुद्राराक्षस के ऐतिहासिक घटना एवं पात्र :

मुद्राराक्षस के प्रारम्भ में नन्दोन्मूलन तथा चन्द्रगुप्त के राज्य पर आसीन होने एवं शस्त्र धारण करने की जिस घटना का बीज रूप में विन्यास किया गया है, वह मूलतः ऐतिहासिक है। इतिहास के अनुसार शिणुनागवंश के पतन के पश्चात् नंदवंश का प्रादुर्भाव हुआ। पुराणों के अनुमार अन्तिम शिणुनाग महानन्दित्र की शूद्रा पत्नी से उत्पन्न महापद्म, जिसे घननन्द भी कहा गया है, ने नन्दवंश का प्रवर्तन किया। महापद्म तथा उसके आठ पुत्रों को नवनन्द कहा गया है। बौद्ध तथा जैन ग्रन्थों में भी नवनन्दों का उल्लेख है महावोधिवंश में ६ नन्दों के नाम इस प्रकार दिये गये हैं— उग्रसेन, पुण्डुक, पण्डगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविपाणक, दशसिद्धक, कैवर्त तथा घननन्द।<sup>१</sup> बीद्रग्रन्थों में इन्हें “नवब्रातरों” कहा है, जबकि पुराणों में पितापुत्र।<sup>२</sup>

१. हिन्दू सम्बता : मुकर्जी : पृ० २६४,

२. वही,

श्री जायमवाल ने "नव" शब्द का ग्रथं "नवीन" किया है किन्तु श्री हार्गेतकृष्णादेव आदि ने उसके प्रति अमहमति प्रश्न की है<sup>१</sup> और अब इसको सामान्यत सख्यावोचक ही माना जाता है। विशाखदत्त ने 'नव' शब्द का शिल्प प्रयोग किया है, किन्तु उसमें सख्यावोचक ग्रथं घटनित होने पर ही उसका स्वारस्य ठहरता है।<sup>२</sup> कुछ भी ही सामान्यत इतना निश्चित है कि नवन दों के अभित्व दी धारणा ऐतिहासिक है।

नाटक में साईतिक रूप से निर्दिष्ट उपर्युक्त घटना से सम्बन्धित दोनों प्रमुख पात्र चन्द्रगुप्त तथा चाणक्य भी विश्वनृत तथा ऐतिहासिक हैं। नाटक में चाणक्य के लिये प्राय कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त आदि शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं, किन्तु इनमें वास्तविक नाम विष्णुगुप्त ही प्रतीत होता है। अन्यथा चाणक का पुत्र होने से चाणक्य तथा कुटिल-कूटनीतिक होने से कौटिल्य नाम पड़ा प्रतीत होता है। विद्वानों में इसके लिये प्रचलित कौटिल्य तथा कौटिल्य शब्द के सम्बन्ध में भी मनमेद है।<sup>३</sup> यद्यपि कुछ प्रीक विद्वानों ने प्रारम्भ में चाणक्य को ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं माना है किन्तु भारतीय पुराण्य, साहिन्यिक-साक्ष्य तथा अनुथृतियों के आधार पर इसकी ऐतिहासिकता असंदिग्ध है। परम्परा के अनुसार चाणक्य का तक्षशिला के विश्वविद्यालय से सबध था। प्रो० हरिश्चन्द्र के अनुसार यह तक्षशिला वा निवासी था,<sup>४</sup> डा० वामुदेवशरण अग्रवाल के अनुसार वह शास्त्र धरोदादेने के लिये पाटिनिषुत गया था।<sup>५</sup> सारांश यही है कि चाणक्य का व्यक्तित्व ऐतिहासिक है।

नाटक में पृष्ठमूर्मि के रूप में निर्दिष्ट उपर्युक्त घटना से ज्ञात होता है कि सभा में अप्रामन से हटाये जाने के कारण अपमानित कुदृ<sup>६</sup> चाणक्य ने शिव्या योनि-कर नन्दवश के उम्मूलन की प्रतिज्ञा की थी।<sup>७</sup> और इस प्रतिज्ञानदी वो उसने पार भी बढ़ लिया था।<sup>८</sup> इनिहासकारों ने इस घटना वो भी भूलत ऐतिहासिक माना है किन्तु रूप तथा घटनाप्रकार के सम्बन्ध में एक छपता नहीं है। पुराणों से इनना ही

१. इ० हि० व्वा० १६३०, भाग ६, पृ० २७५,

२. मुद्रा० ११३,

३. दृष्टव्य स० सा० इति० वृचस्पति पृ० ५३०,

४. कौटिल्य तथा कौटिल्य सम्मेलन पत्रिका १६६३, भाग ४७, अंक ४,

५. चन्द्रगुप्त प्रो० हरिश्चन्द्र सेठ, पृ० १२८,

६. पाणिनिकालोन भारत वामुदेव शरण अग्रवाल, पृ० २५,

७. देखिये, मुद्रा० ११२, ४११,

८. मुद्रा० १६, १०, ३२६,

९. मुद्रा० १७ १०, ११, १२, १३, ३।२७ आदि,

ज्ञात होता है कि नन्दों का ग्राहण कौटिल्य ने उन्मूलन किया तथा चन्द्रगुप्त को राज्य पर वैठाया था,<sup>१</sup> पर अन्य कुछ ग्रंथों से इस पर प्रकाश पड़ता है।

“कथासरित्सागर” के अनुसार नन्दमत्री शकटार ने चाणक्य को कुश उखाड़ते हुए देखकर स्वयं अपने तथा अपने पुत्रों पर किये गये अत्याचार का प्रतिशोध लेने के लिये उसे श्राद्धभोजन के लिये निमंत्रित किया। चाणक्य राजसभा में आकर सर्वोच्च आसन पर बैठ गया, किन्तु उसे वहाँ से हटाकर अपमानित किया। फलतः सभा से जाते हुए उसने सात दिनों में नंदवध न करने तक शिखा न बांधने की प्रतिज्ञा की। “चाणक्य कथा” में वही कथा कुछ भिन्न प्रकार से मिलती है। इसके अनुसार नन्दों ने चन्द्रगुप्त के १०० भाइयों तथा पिता को मरवा दिया था तथा वे चन्द्रगुप्त की चुदिमत्ता से ईर्ष्या रखते थे। एक बार नन्द ने पितृथाद के अवसर पर चन्द्रगुप्त को ग्राहण निमंत्रित करने को कहा। चन्द्रगुप्त को मार्ग में मूँज उखाड़ा तथा उन्हें जलाता चाणक्य मिला। चन्द्रगुप्त के पूछने पर ज्ञात हुआ कि वह पांच थील देने के कारण ऐसा कर रहा है। उसकी इस हड़ निश्चयात्मकता को देखकर अपने भाई तथा पिता के बदले का अवसर जानकर उसे निमंत्रित किया। चाणक्य राज्यसभा में जाकर एक विद्वान् के लिए सुरक्षित स्थान पर जा बैठा। नन्दों ने सेवकों द्वारा उसे शिखा पकड़वा कर निकलवा दिया, तभी चाणक्य ने हीनकुल के नन्दों के समूलोन्मूलन की प्रतिज्ञा की थी। हुंडिराज ने भी लगभग इसी प्रकार की कथा दी है। पर उपने चन्द्रगुप्त को अन्नसदाधिकारी लिखा है।<sup>२</sup> इसी प्रकार एक अन्य कथा के अनुसार लुधक नन्दों की दानशाला के प्रवन्धक संघ का अध्यक्ष एक बार चाणक्य चुना गया। राजा को उसकी कुहपता तथा धूप्ट स्वभाव अच्छा न लगा, अतः उसे पदच्युत कर दिया गया। इस अपमान से श्रुद्ध चाणक्य ने राजा को शाप दिया और उसके वश को निर्मूल करने की घमकी दी और एक आजीवक के रूप में उसके चंगूल से वच निकला।<sup>३</sup>

उपर्युक्त कथाओं से स्पष्ट है कि नन्दराजा ने चाणक्य का अवश्य कोई सामाजिक अपमान किया होगा जिसके कारण उसे नन्दोन्मूलन की प्रतिज्ञा करनी पड़ी। यद्यपि उपर्युक्त कथाओं में चाणक्य के चरित्र को उचित रूप में प्रदर्शित नहीं किया गया है, किन्तु उनसे यह अवश्य ज्ञात होता है कि नाटक की इस घटना में सत्यता अवश्य है, तथा यह भी प्रकट है कि विशाखदत्त ने अग्रासन से सम्यों के सामने

१. दि एज ऑफ इम्पीरियल यूनिटी, पृ० ५५,

२. मुद्रा० तेलंग उपोद्धात, २४-५७,

३. चन्द्रगुप्तमौर्य और उसका काल : मुकर्जी, पृ० ४२-४३,

हटाए जाने के कारण अपमानित होकर नन्दोन्मूलन की प्रतिज्ञा को इन्हीं परम्पराओं से संजोकर नाष्ट्यवद किया है। सामान्यत इसका रूप चाहे जो भी रहा हो, पर नन्दोन्मूलन की इस घटना का अर्थंशास्त्र में तथा पुराणों में भी उल्लेख है, अतः इतिहासकारों ने भी इसे मूलत ऐतिहासिक स्वीकार किया है।<sup>१</sup>

उपर्युक्त चारणक्य कथा तथा दुष्टिराज के सन्दर्भ से चन्द्रगुप्त के मम्बन्ध में भी कुछ विशेष परम्परागत बातें ज्ञात होती हैं —

१. नन्दो से सम्बन्धित उपर्युक्त दोनों वधाओं के अनुसार चन्द्रगुप्त का नन्दो से न बेवल सम्बन्ध था, वल्कि मनवत चन्द्रगुप्त नन्दो का कोई उच्चाधिकारी भी था।

२. नन्दो से विरोध नन्द के यहाँ रहते सदय ही चन्द्रगुप्त का नन्दो से विरोध हुआ। यह विरोध या तो चन्द्रगुप्त की प्रतिभा के बारण हुआ या चन्द्रगुप्त के भाईयों के वध के बारण। जो भी हो, पर यह विरोध धीरे-धीरे प्रतिशोध के रूप में बदल गया। यजचन्द्र विद्यालयारी न यहाँ तक लिखा है कि घनेनन्द ने चन्द्रगुप्त को मारने की आज्ञा भी दे रखी थी।<sup>२</sup>

३. चन्द्रगुप्त तथा चारणक्य का मिलन — चन्द्रगुप्त ने अपने प्रतिशोध लेने के लिए चारणक्य जैसे व्यक्ति को खोजा और चारणक्य का अपमान होने पर इन दोनों विरोधियों ने मिलकर नन्दो से बदला लिया।

<sup>१</sup> उपर्युक्त वृत्तान्त से चन्द्रगुप्त और नन्द के विरोध को परिस्थितियों पर तो 'सामान्य प्रकाश पड़ता है किन्तु उसके प्रारम्भिक जीवन पर नहीं। सामान्यत 'चन्द्रगुप्त भौयं के प्रारम्भिक परिचय तथा चारणक्य के साथ उसके सरपर्क के मम्बन्ध में भी अनेक किवद्दतियाँ हैं। मुख्यत योढ़ ग्रन्थों के अनुसार अपनी जन्मभूमि को छोड़कर चली थाने वाली भौरिय जाति रा मुख्या चन्द्रगुप्त का विना था। दुम घ्यवश वह सीमान्त पर एक भगड़े में मारा याता तथा उसका परिवार श्रानाथ ही गया। उसकी अवला विधवा अपने भाइयों के साथ भाग कर पुष्पपुर नगर में आयी, जहाँ उसने च द्रगुप्त को जाम दिया। मुरक्खा के विचार से इस श्रानाथ वालक को उसके भाइयों ने एक गोशाला में छोड़ दिया जहाँ एक गढ़गिर्ये ने उसे अपने पुत्र की तरह पाला और वहे होने पर उसे एक शिकारी के हाथ बेच दिया। शिकारी ने उसे गाय चरान के काम पर नियुक्त किया। एवं यार वह कुछ ग्वालों के साथ खेल

१. चन्द्रगुप्त भौयं और उसका काल, मुकुर्जी, पृ० २३ २८, दि एज सॉफ इन्डीरियल यूनिटी पृ० ५५,

२. भा० इति० स्परेश्वर, भाग २ पृ० ५४८,

में राजा बनकर खेल रहा था, तभी चाणक्य की इटि उस पर पड़ी और उसकी नेतृत्व-शक्ति से प्रभावित होकर वह उसे साथ ले आया।<sup>१</sup> प्रचलित परम्परा के अनुमार तक्षशिला में दोनों में गुरु शिष्य का सम्बन्ध भी था। नाटक में यद्यपि दोनों की भेट तथा सम्पर्क आदि के सम्बन्ध में कुछ भी उल्लेख नहीं है तथापि नाटक से दोनों का गुरु-शिष्य सम्बन्ध घटनित होता है।<sup>२</sup> इससे यह भी प्रकट होता है कि विशाखदत्त ने इस घटना की कथा को परम्परा से ही संजोया है। इसके अतिरिक्त यह भी ज्ञात होता है कि राज्य पर अधिष्ठित होते समय भी यह युवक ही था, अतएव राक्षस ने उसे 'बाल' कहा है।<sup>३</sup>

इसके अतिरिक्त पूर्वोक्त कथाओं से यह स्पष्ट है कि चाणक्य के समान चन्द्रगुप्त भी नन्दों द्वारा प्रताड़ित तथा व्रस्त होने के कारण प्रतिशोध लेने के अवसर की प्रतीक्षा में था, अतः जब चाणक्य का साहचर्य उसे मिला तो उसने भी नन्दोन्मूलन में उसका पूर्ण सहयोग दिया हांगा। यही कारण है कि चाणक्य ने सफल क्रान्ति के पश्चात् भी चन्द्रगुप्त को ही राज्यासीन किया। नाटक में चाणक्य की सहायता से एवं चाणक्य के द्वारा चन्द्रगुप्त के राज्य-प्राप्ति का अनेकाः स्पष्ट उल्लेख है।<sup>४</sup> यद्यपि चाणक्य के शब्दों में नन्दोन्मूलन तथा चन्द्रगुप्त के राज्यासीन करदेने के पश्चात् उसकी प्रतिना पूर्ण हो गयी तब भी वह चन्द्रगुप्त के अनुरोध के कारण ही मंत्रित्व ग्रहण करके राज्य-कार्य में सक्रिय था।<sup>५</sup> वह स्वयं मुद्रा० में इसके कारण का भी निर्देश करता है कि राक्षस को विना वश में किये न तो नन्दोन्मूलन पूर्ण माना जा सकता है और न चन्द्रगुप्त की राज्य-लक्ष्मी की स्थिरता की ग्राशा ही।<sup>६</sup> स्पष्ट है कि चन्द्रगुप्त के राज्यासीन होने पर भी देश में विद्रोहियों का आतंक था। नन्दों के पक्षपाती लोग राक्षस के नेतृत्व में विद्रोहरत थे। इसके अतिरिक्त संभवा चाणक्य चन्द्रगुप्त को एकच्छ्रव चक्रवर्जी के रूप में भी देखता चाहता था। अतएव वह चन्द्रगुप्त के प्रभिभव को स्पष्टतः अपना अभिभव समझ कर उत्तोजित हो उठता था।<sup>७</sup> यही नहीं, बल्कि चाणक्य स्वयं राक्षस की योग्यता तथा स्वाभिभवित का प्रशंसक था। अतएव वह उसका उपयोग चन्द्रगुप्त के लिये करना चाहता था तथा वह क्योंकि

१. चन्द्रगुप्त मौर्य और उसका काल: मुकर्जी: पृ० ३६,

२. मुद्रा० ३।६, ३।१६-२०, ७।१।, १३, १४ आदि,

३. मुद्रा० ७।१२, एक स्थान पर उसे नववयसि शब्द भी प्रयुक्त है, वही, ३।३,

४. मुद्रा० १।१३, २।१३ आदि,

५. मुद्रा० १।१२-१३,

६. वही, १।१३ १४,

७. देखिये, वही १।६-१।,

धारण विशेष से राजनीति में सक्रिय हुया था, अतः चन्द्रगुप्त तथा भारत के शासन द्वा भार उस पर छोड़ कर स्वयं मुक्त होना चाहता था<sup>१</sup> मुद्रा० से यह तथ्य स्पष्ट है कि नन्दोन्मूलन की पूणा एवं चन्द्रगुप्त की गजयनशक्ति की विशेषता आदि के निये वह नन्दो के परमभक्त राक्षस को वश में लाना आवश्यक मानता है और इसीनिए वह तपस्वी सर्वार्थसिद्धि तथा नन्दोन्मूलन के भव्योगी पर्वतक को परवा डालता है ।

किन्तु, मुद्रा० के प्रारम्भ तथा घन में अनेकश (नौ) नन्दो के समूनोन्मूलन के बाद भी सर्वार्थसिद्धि की अतिम नन्द के रूप में अवनारणा कुछ अनुचित तथा अनेतिहासिक प्रतीत होती है । हम नौ नन्दो का नामोन्लेख कर चुके हैं । उनमें अतिम नन्द का नाम घननन्द लिखा है, सर्वार्थसिद्धि नहीं । यह हमारा अनुमान है कि घननन्द अतिम नन्द का वास्तविक नाम नहीं था वल्कि घनलुभ्यक होने के कारण ही उसे घननन्द जैसा अभिधान दे दिया गया जिस प्रकार यि उपर्युक्त तथा महापद्धति<sup>२</sup> ।<sup>३</sup> नाटक में भी अनेक स्थानों पर अतिम नन्द को घनलुभ्यक के रूप में चिह्नित किया है । और यदि मवार्थसिद्धि अनिम नन्द था तथा वह घनलुभ्यक था तो उसका ही नाम घननन्द रहा होगा । अत हमारा अनुमान है कि अतिम नन्द के एवंविक अभिधान थे, उनमें एक सर्वार्थसिद्धि भी रहा होगा । समवतः इसीलिए प्रो० ध्रुव इसे ऐतिहासिक मानते हैं ।<sup>४</sup>

नाटक के घनुमार सुरग द्वारा भागकर तपोवन में तपस्या करते समय सर्वार्थसिद्धि का वध कराया गया था । नाटक में यह घटना नन्दो के वशनाश की समानान्तर घटना के रूप में उल्लिखित प्रतीत होती है । नाटक के इन चलेखों के संसन्दर्भ अध्ययन में पहीं प्रतीत होता है, मानो सर्वार्थसिद्धि की मृत्यु के पश्चात् ही चाणक्य ने धर्मने को पूर्णप्रतिज्ञा समझा था । नाटक में यि प्रकार सर्वार्थसिद्धि के पशायन तथा वाद में मृत्यु का उल्लेख है, उसकी पर्याय साक्षों में भी पुष्टि होती है । परिशिष्टपर्वत से स्पष्ट है कि अतिम नन्द मारा नहीं गया, वल्कि चाणक्य की अनुमति से रथ में अपनी पत्नी एवं पुत्री के साथ प्रचुर घन लेकर पाटलिपुत्र से भाग गया था ।<sup>५</sup> इनिहासकारों ने इसका इस प्रकार भी उल्लेख निया है कि जब चन्द्रगुप्त पाटलिपुत्र में प्रवेश कर रहा था, तब अनिम नन्द रथ में स्वर्णमुद्रा लद कर निकल

१ मुद्रा० ११३-१५, १२७,

२ वही, ११३-१४, ११५-१६

३. भा० इति० रूप० भाग २, जयचान्द्र विद्यालयार, पृ० १२७,

४ मुद्रा० सं० ध्रुव० भूमिका, पृ० २४,

५ देखिये, चन्द्रगुप्त मौर्य एवं उसका काल· मुकर्जी, पृ० ५६,

रहा था ।<sup>१</sup> इन उल्लेखों से यही प्रतीत होता है कि सर्वप्रथम अतिम नन्द मारा नहीं, गया, अपितु भाग गया था, तभी चाणक्य ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण समझ ली थी । इसी लिये संभवतः नाटक में सवाधंसिद्धि का पलायन वर्णित है । नाटक से यह भी जात होना है कि राक्षस (या इसी प्रकार के अन्य किसी) नन्दभक्त मंत्री के उक्साने पर भावी भय की आशका से उस निस्पृह तपस्वी को भी भरवा दिया गया । तथ्य कुछ भी हो, पर प्रचलित अनुश्रुतियों के परिप्रेक्ष्य में नाटक की यह घटना संभावित तथा किसी परम्परा पर आधारित ही प्रतीत हो री है ।

मुद्रा० के अनुमार नन्दो-मूलन के बाद राक्षस ही चाणक्य का प्रमुख प्रतिहृदीय था तथा भरयतः वह नन्दनाश के कारण अत्यन्त कुद्ध था । चाणक्य अन्तर्देशीय समस्त विद्यों को दूर करने के लिये राक्षस को वश में करके चन्द्रगुप्त के अमात्य पद पर प्रतिष्ठित करना चाहता था, किन्तु मलयकेतु भी अपने पिता की हत्या से कुद्ध था एवं नन्द । राज्य के लोभ से उत्साहित था<sup>२</sup> अतः राक्षस मलयकेतु की सहायता से चन्द्रगुप्त के राज्य को उलटने के पडयंत्र में संलग्न था । सर्वेष में नाटक से इस घटना का पूर्वार्पण इम प्रकार जान होता है कि सर्वप्रथम चन्द्रगुप्त तथा चाणक्य ने पर्वतक की सहायता से नन्दो-मूलन किया । सभवनः इस सहयोग के प्रतिदान के रूप में उनमें विजित राज्य के वैट्टारे की सविं भी हुई थी; किन्तु नन्दो-मूलन के बाद ही राज्य के दोष की आशका में तथा अत्यधिक बलशानी पर्वतक से संभावित भय से आशंकित होकर चाणक्य ने छल द्वारा पर्वतक को भरवा दिया, जिससे कि चन्द्रगुप्त निष्कृत होकर राज्य का सार्वभीम उपभोग कर सके । किन्तु राक्षस ने अवसर का लाभ उठाते हुए पर्वतक के पुत्र मलयकेतु को अपना ग्रस्त बनाकर चाणक्य से घटेला लेने की इच्छा से चन्द्रगुप्त के राज्य को उलटने के लिये पडयत्रों का जाल बिछा दिया । पर चाणक्य चाणक्य था, उसने न केवल पर्वतक की हत्या का दोष ही उसके सर पर मढ़ा, अपितु उसके समस्त प्रयत्नों को असफल करके इतना विवश कर दिया कि उसे चन्द्रगुप्त का अमात्य पद प्रहरण करना ही पड़ा ।

उपर्युक्त सम्मुर्द्ध घटना ऐतिहासिक नहीं है । सर्वप्रथम, राक्षस जैसे प्रमुख पात्र की ऐतिहासिकता ही सदिग्द है । वैसे मुद्रा० में राक्षस के अतिरिक्त नन्दो के सुप्रमिद्ध मंत्री बक्नास का भी उल्लेख है,<sup>३</sup> जो कि ऐतिहासिक है, किन्तु राक्षस के व्यक्तित्व का निश्चय नहीं है । जाली ने राक्षस को ऐतिहासिक न मानकर कल्पित

१. हिन्दौ औफ इण्डिया : शाह, पृ० ८८,

२. मुद्रा० ११०-११,

३. मुद्रा० १२३,

माना है, किंतु श्री दीक्षितार ने उनमें अमहमति प्रकट की है।<sup>१</sup> प्रो० ध्रुव भी राक्षस को ऐनिहासिक मानन के पक्ष म हैं।<sup>२</sup> कुद्र विद्वानो ने राक्षस को बत्रनास का आत्मपुत्र भी माना है।<sup>३</sup> नाटक मे चित्रित स्वाभाविक तथा सजीव चित्रण के आधार पर हमारा अनुमान है कि विशाखदत्त न परम्परा से समागम किमी अनुग्रुणि के आधार पर ही राक्षस की उद्भावना की है। नाटक के इतने प्रभुमय पात्र को निनात बल्पित नही माना जा सकता। अनुमानत नन्दी के बाद इस प्रकार का कोई स्वामी मक्त मत्री अवश्य रहा होगा। हमारा यह भी अनुमान है कि चाणक्य की अपेक्षा उसके प्रतिद्वन्दी के चरित्र को निम्न कोटि का प्रदर्शित करने की इच्छा से ही उसको राक्षस नाम दिया गया है, जैसा कि चाणक्य वा कूटिलमति होने से कोटिल्य<sup>४</sup> अन्यथा राक्षस इतना अधिक नीति निपुण तथा स्वामिभक्त था कि चाणक्य न बेवल उसकी प्रशस्ता या सम्मान करता है अपिनु वह चन्द्रगुप्त के राज्य की स्थिरता के लिये उसकी मदाग्री का उपयोग करता चाहता है। नाटक म ही चाणक्य न स्पष्ट कर दिया है वह उसे नीति द्वारा ही वश म लाना चाहता है बल द्वारा नही। क्योंति यदि राक्षस मना द्वारा पक्ष जान पर स्वय मर जाता तो चन्द्रगुप्त लोकोत्तर गुग्गावान राक्षस से वियुक्त हो जाता और यदि सना को मार डानता तो भी कष्ट होता।<sup>५</sup> यही कारण है कि वह चन्द्रगुप्त स राक्षस का सम्ब ध स्थापित करन के लिए कूटनीति का प्रयोग करता है।<sup>६</sup> यद्यपि इस घटना भी ऐतिहासिकता का सबध म कुद्र भी कहना अमम्भव है, पर इसक पथाथ चित्रण स राक्षस जैसे मत्री का अस्तित्व समावित प्रतीत होता है।

विन्तु पवतक को ऐनिहासिकता भी सुनिश्चित नही है। पवतक बोन था, जिस प्रदेश का था आदि प्रश्नो के सम्बन्ध म कुद्र ऐतिहासवारा ने अनभिज्ञता प्रकट की है<sup>७</sup> विन्तु कुद्र इस ऐतिहासिक भी स्वीकार करत हैं। नाटक म इसके लिये पर्वतक पवतं, पवतश्वर आदि पद्म प्रयुक्त हुए हैं। मुद्रा० से यह भी स्पष्ट है कि नन्दान्मूरन म पवतक ही चाणक्य तथा चन्द्रगुप्त वा प्रभुख सहयोगी था। सभवत यह पवत प्रदेश, जिस हिमालय प्रदेश भी कहा जा सकता है का निवासी था।

१ दि भौयन पालिटी . दीक्षितार, पृ० १४ १५,

२ मुद्रा० ध्रुव० भूमिका, पृ० २४,

३ हृष्टव्य प्र० ऐति० नां० जोशी पृ० १०७,

४ हृष्टव्य मुद्रा० ११७, ४१२ आदि,

५ यही ३१२५

६ यही ७१६,

७ भा० इति० रूप० जयचन्द्र पृ० ५४६,

अनेक इसे उत्तुक्त नामों से अभिहित किया गया है। परिशिष्टपर्वत से ज्ञात होता है कि चाराक्य हिमवत्कूट गया और उस प्रदेश के राजा के साथ मैत्री की।<sup>१</sup> बौद्ध-वृत्तान्तों से भी चाराक्य तथा पर्वतक की मित्रता की पुष्टि होती है।<sup>२</sup> इतिहास के अनुमार पर्वत प्रदेशीय इस राजा की मित्रता के पश्चात् इसकी सहायता से ही मगध विजय हो सकी थी।<sup>३</sup> नाटक के अनेक स्थलों से भी यही ध्वनित होता है। मुद्रा० के अनुमार यह अत्यन्त प्रभावशाली तथा पराक्रमी राजा था। नाटक से ज्ञात होता है कि पर्वतक की मित्रता तथा सहयोग पाने के लिये इनमें विजितराज्य के वैद्यवारे की तथा अन्य सहयोगी राजाओं को भी कुछ न कुछ देने की संधि हुई थी। मुद्रा० के “योजनशतं समधिक—” के आधार पर विद्वानों ने यह भी निष्कर्ष निकाला है कि इसकी राजधानी चिनाव तथा भेलम के पास रही होगी।<sup>४</sup>

कुछ इतिहासकारों ने पर्वतक का सुप्रसिद्ध राजा पोरस से साम्य माना है। प्रो० हरिश्चन्द्र सेठ ने स्पष्टतः पर्वतक को पोरस की उपाधि मान कर पोरस तथा पर्वतक को एक ही व्यक्ति माना है।<sup>५</sup> किन्तु श्री नीलकण्ठ शास्त्री पर्वतक तथा पोरस का साम्य मानने से सहमत नहीं हैं।<sup>६</sup> मुख्यतः उनका कहना है कि म्लेच्छ तथा उसकी सेना को म्लेच्छवल शब्द प्रयुक्त है, किंतु वास्तविकता यह है कि नाटक में म्लेच्छ शब्द न तो प्रत्यक्षतः मलयकेतु को प्रयुक्त हुआ है, और न स्पष्टतः वह जाति वोधक है। वहाँ जहाँ कहीं भी यह शब्द प्रयुक्त हुआ है, उसका अभिप्राय केवल धूरणा व्यक्त करना है या अन्य सहयोगियों की सेना का निर्देश करना।<sup>७</sup> दूसरे, उन्होंने यह भी लिखा है कि पर्वतक के हिमवत्कूट तथा पोरस के चिनाव तथा भेलम के प्रदेश में पर्याप्त अंतर है, किन्तु हिमवत्कूट का तात्पर्य विशाल हिमाचल प्रदेश से है और उसमें काश्मीर से लेकर पंजाब तक के समस्त भूभाग को समाहित करना अधिक संगत प्रतीत होता है। तीसरे, वह नाटक में उल्लिखित सिन्धु के सिन्धुपेरा राजा के उल्लेख से भी अम में पढ़ जाते हैं, किन्तु वास्तव में श्री सेठ ने सिन्धु का आधुनिक सिन्धु से तात्पर्य न मानकर द्वेराजात तथा सिन्धुसागर दोग्राव से माना है।<sup>८</sup> चौथे, उन्होंने

१. दृष्टव्य : चन्द्रगुप्त मौर्य एवं उसका काल : मुकर्जी, पृ० ५०,

२. वही,

३. चन्द्रगुप्त मौर्य : हरिश्चन्द्र सेठ, पृ० ३४,

४. वही, पृ० ४२

५. चन्द्रगुप्त मौर्य : हरिश्चन्द्र, पृ० ३४-३६, ४६,

६. दि एज अफ दि नन्दाज एण्ड मौर्यज : नीलकण्ठ शास्त्री, पृ० १४७,

७. देखिये मुद्रा० ३।२४-२५, ६।७, ८ आदि,

८. भा० इति० रूप० भाग २, जयचन्द्रचिद्यालंकार, पृ० ५४६,

## ३५४ सस्कृत के ऐतिहासिक नाटक

पर्वतक की विषयक्ता द्वारा हत्या पर भी आपत्ति की है, किन्तु यह नाटककार की उद्भावना है और मुख्यतः चाणक्य की कूटनीति को प्रदर्शित करने के लिये ही ऐसा किया गया है। स्पष्ट है कि पर्वतक का पोरस में साम्य मानने भ नाटक के सामान्य उल्लेखों को बाधक मानना उचित नहीं है। अतएव अनेक इतिहासकारों ने पर्वतक का पोरस से साम्य माना है। श्री मुरजी ने दोनों के साम्य का समर्थन करते हुए लिखा है कि इस बात को देखते हुए कि अपने समय में अपने देश की राजनीति में पोरस का वितना महत्वपूर्ण स्थान था, यह ग्रिल्कुल तर्कमगत ज्ञात होता है।<sup>१</sup>

परन्तु प्रो. हरिश्चन्द्र मेठ पर्वतक का पोरस में ही साम्य नहीं मानते, अपितु उसका सम्बन्ध पौराणिक "पुह" में जोड़ते हैं तथा पोरव प्रीत पोरम को एक ही मानते हैं। हम यहाँ इस विस्तार तथा विवाद में नहीं उल्लंघन करावें, किन्तु यह लगभग निश्चित है कि नाटक का पर्वतक अवश्य ऐतिहासिक व्यक्ति है तथा यह भी ऐतिहासिक सत्य है कि उसकी महायना में ही चन्द्रगुप्त ने नन्दो-मूलन किया था। यही बारण है कि चन्द्रगुप्त उसका आत्मीय जनके समान ही शाद आदि कार्य करता है।<sup>२</sup> नाटक के अनुमार चाणक्य ने पर्वतक की हत्या प्रतिश्रूत शर्वराज्य न देने के उद्देश्य से करवा दी<sup>३</sup> और इसी कारण चन्द्रगुप्त की बटक से उसके पुत्र मलयकेतु का पतायन करवा दें, उसके भाई वैरोचक को प्रतिश्रूत राज्य देन का प्रदर्शन करके उसे मरवा डाला।<sup>४</sup> इस प्रकार नाटक में पर्वतक के परमभूत ५ अन्य प्रधान सहयोगी राजाओं का भी उल्लेख है। प्रमाण उनके नाम हैं कुन्तन का राजा विन्द-वर्मी, मलयका राजा सिहनाद, काश्मीर का राजा पुष्कराश, मिथु का मिथुपेण सेथा पारम का मेघाश।<sup>५</sup> अनुमानत इन सभी ने किसी शर्त पर ही पर्वतक की सेना के द्वारा में चन्द्रगुप्त की सहायता की थी और वाद में ये शर्त पूरी न होन पर चन्द्रगुप्त के विश्व भलयकेतु की सहायता कर रहे थे। यथापि मनयकेतु वैरोचक तथा उपर्युक्त राजाओं तथा इनसे सबधित घटनाओं की ऐतिहासिकता सदिगम है और यह सब नाटककार की उद्भावना मात्र प्रतीत होता है। तथापि इतना सम्बव प्रतीत होता है कि चन्द्रगुप्त की नन्दो-मूलन के सहयोगिया के माय कुछ न कुछ सधि अवश्य

१ चन्द्रगुप्त मौर्य और उसका काल, मुकर्जी पृ० ५०,

२ चन्द्रगुप्त मौर्य: हरिश्चन्द्र, पृ० ४१-७२ आदि,

३ मुद्रा० ११८-२०,

४ मुद्रा० १५-६ आदि

५ देखो वही ११४-१६, २१५-१६ आदि;

६ यही, १२० इत्यादि;

हुई होगी। किन्तु चाणक्य ने राजनीतिक भय की आशंका से वह पूर्ण तो की ही नहीं, साथ ही किसी भी भावी भय से मुक्ति पाने के उद्दे�्य से कूटनीति द्वारा उन्हें कुचल दाला होगा। वास्तव में उपर्युक्त घटनाओं में ऐतिहासिकता चाहे हो या न हो, पर सर्वर्थिसिद्धि तथा पर्वतक आदि का वध राजनीतिक आवश्यकताये है। यद्यपि यहाँ विषय-कन्या आदि का विनियोग सर्वथा काल्पनिक है, किन्तु राजनीति में ऐसी घटनाओं की सम्भाव्यता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

### (२) मुद्राराक्षस के काल्पनिक विनियोग :

हम नाटक की प्रमुख ऐतिहासिक घटना तथा पात्रों के सम्बन्ध में विचार करते समय स्पष्ट कर चुके हैं कि इसमें मलयकेतु जैसे प्रमुख पात्रों का विनियोग भी ऐतिहासिक दृष्टि से सन्देहास्पद है। विश्रूत पात्रों से संबंधित घटनाओं को भी समग्र रूप में तथा तद्रूप में ऐतिहासिक कहना असम्भव है। इसी प्रकार चन्द्रनदास, शक्तशास आदि अन्य पात्र भी काल्पनिक होते हैं। वास्तविकता यही है कि नाटक में प्रमुख रूप में दो मंत्री चाणक्य तथा राक्षस का बोलिक संघर्ष ही चित्रित है, किन्तु यह भी ऐतिहासिक न होकर नाटककार की कल्पना द्वारा अभिसृष्ट है। यही कारण है कि इससे सम्बन्धित विषयक्या द्वारा पर्वतक की हत्या, मलयकेतु द्वारा चन्द्रगुप्त के अभिभव का प्रयास, राक्षस तथा मलयकेतु का कलह, भागुरायण तथा भद्रभट आदि गुप्तचर एवं उनसे सम्बन्धित यत्र-प्रयोग, विष-प्रयोग आदि समस्त घटनायें काल्पनिक हैं। इसी प्रकार नाटक में शक, यवन, किरात, काम्बोज, पारसीक एवं वाल्हीक तथा खस, मगध, चेदि, हूण आदि राज-संघर्षों का उल्लेख भी ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। इन्हें नाट्यवस्तु के काल से संबंधित करके सतोलना उचित नहीं है। अनेक ऐतिहासिकारों ने इनकी ऐतिहासिकता के प्रति सन्देह व्यक्त किया है।<sup>१</sup>

नाटककार ने मुद्रा तथा लेखप्रयोग जैसी घटनाओं को अभिज्ञानशाकुन्तल तथा मालविकाग्निमित्र से सँजोकर तथा “ग्लकारन्यास” के प्रसंग की मृच्छकटिक से प्रेरणा लेकर यहाँ अपने प्रकार से विनियोग किया है। अतः यह भी ऐतिहासिक नहीं है। स्पष्ट है कि मुद्रा० में ऐतिहासिक शंश कम तथा काल्पनिक ही अधिक हैं, तथापि ऐतिहासिकता की सफल अभिसृष्टि के कारण यह प्रतिनिधि ऐतिहासिक नाटक स्वीकार किया जाता है।

### (३) मुद्राराक्षस की ऐतिहासिकता :

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो गया है कि मुद्रा० का आधारभूत प्रमुख कथांश सुपसिद्ध तथा ऐतिहासिक है पर अन्य कूटनीतिक समस्त घटना-विन्यास कल्पित हैं।

१. दृष्टव्य : चन्द्रगुप्त मौर्य एवं उसका काल : मुकर्जी, पृ० ५०, वि एज ऑफ नन्दाज़ एण्ड मीरज़ : नीलकण्ठ शास्त्री, पृ० १४६-१४७,

किन्तु विशाखदत्त ने नाटक के इस समस्त घटनाचक को अत्यन्त गनुभित रूप से विनियुक्त करके अपनी नाट्यप्रतिभा तथा कुशलता द्वारा ऐतिहासिकता का ऐसा स्वाभाविक प्रक्षेप किया है कि समस्त नाटक धार्मलक्ष्म विशुद्ध ऐतिहासिक सा प्रतीत होता है। इसका सबंध प्रमुख कारण यह है कि मुद्रा० के नाटककार ने नाटक की वस्तु के अनुरूप एक और जहाँ ऐतिहासिक वातावरण का सफल निर्माण किया है, वहाँ दूसरी ओर काल्पनिक वस्तु तथा पात्र का इतिहासीकरण भी अतोव सफलतापूर्वक किया है। यही नहीं, बल्कि इस नाटक में एक कुशल ऐतिहासिक नाटककार के रूप में उसने सर्वत्र ऐतिहासिक हृष्टिकोण को सदैव सम्मुख रखा है। इसी का परिणाम है कि नाटक का समस्त वातावरण ऐतिहासिक रग से अनुरजित तथा नाटक इतिहासरस का आस्वाद करने में सर्वथा समर्थ है।

प्रमुखत मुद्रा० वीररम-प्रधान नाटक है किन्तु इसका बीर उस सधारणस्थल से सम्बन्धित नहीं जहाँ तलबारों की भनभनाहट, घोड़ों के टापों की आवाज, हाथियों की चिपाड़, या सुनिकों की मारधाढ़ आवश्यक होती है। मक्षेप में, यह दो मन्त्रियों के कूटनीतिक मुद्दे की कहानी है। इसमें बौद्धिक सधर्प ही प्रमुख है। अतएव समस्त नाटक में यड्यत्र तथा भ्रमिकारों का विनियोग किया गया है। विष प्रयोग, यत्र-प्रयोग तथा गुप्तचरों के यड्यत्र आदि इसी प्रकार के किया, कलाप है। यही नहीं, बल्कि नाटककार ने इसमें प्राय ऐतिहासिक हृष्टिकोण के अनुरूप पात्रों का चित्रण किया है। नाटक के प्रमुख पात्र चालकय, राधस तथा चन्द्रगुप्त आदि का चरित्र पूर्णतः इतिहास-सापेक्ष है। नाटक के प्रत्येक पृष्ठ पर चालकय का ऐतिहासिक व्यक्तित्व सत्रिय हृष्टिगत होता है। इसमें चालकय का चरित्र इतना अधिक स्वाभाविक तथा मानिक है कि उसकी समता अन्यत्र दुलभ है। इर्दी प्रश्नार राधस का चरित्र भी उसके प्रतिद्वन्द्वी के रूप में कम महत्वपूर्ण नहीं है। चन्द्रगुप्त तथा नन्द आदि के चरित्र-चित्रण में भी विशाखदत्त ने परम्परा का ही आशय लिया है। अतएव नन्दों को अभिमानी लुभ्यक तथा लालची के रूप में चित्रित किया है तो चन्द्रगुप्त को विनम्र तथा पात्रापालक के रूप में।

मुद्रा० में ऐतिहासिक वातावरण का निर्माण या इतिहासीकरण में अनुभरत-प्रक्रिया के अतिरिक्त अर्थशास्त्र वा अविक्ष आश्रय लिया गया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र इसकी प्रत्येक पक्षित में घोल रहा है। यही कारण है कि जहाँ इतिहास मौन है, वहाँ राजनीतिकता तथा ऐतिहासिकता मुकर है। यद्यपि नाटक में वस्तु के देश काल से भिन्न भी कुछ विनियोग हुए हैं किन्तु वह नाटककार के देशकाल सापेक्ष है तथा कारण है। वास्तविकता यही है कि इसमें कूटनीतिक तथा राजनीतिक क्रियाकलाप आदि प्राय अर्थशास्त्र से ही अनुप्राप्त हैं और इसी का परिणाम है कि इसमें वस्तु-

कालीन सम्यता तथा संस्कृति के चिन्हण में यथार्थता आ सकी है। यही नहीं, वल्कि विशाखदत्त का राजनीति-मंवंधी प्रायोगिक ज्ञान, उमकी सग्रहत लेखनी तथा नाथ्य सुलभ कलात्मकता ने अज्ञात इतिहास के शुष्कपक्ष में भी प्राणवत्ता तथा रसात्मकता का ऐसा समन्वित, मंजुल विनिवेश किया है कि जिससे न केवल समस्त नाटक विशुद्ध ऐतिहासिक ही प्रतीत होता है, अपितु वह अज्ञात इतिहास का एक मुखर अध्याय भी बन गया है। अधिक विस्तार में न जाकर, हम संक्षेप में यही कह सकते हैं कि ऐतिहासिक नाटक के लिये जिस संघर्ष, घातप्रतिघात, वस्तुकालीन संस्कृति-सम्यता तथा ऐतिहासिक इटिकोण की आवश्यकता होती है, और नाथ्यरूप की सफलता के लिये जैसी गत्यात्मकता तथा कुतूहल-प्रवृत्ति अपेक्षित होती है, उमका मुद्राराक्षस में सर्वथा सफल विनियोग हुआ है; और इसी कारण यह ऐतिहासिकता से संयुक्त, इतिहासरस से अनुप्राणित सफल ऐतिहासिक नाटक है, जिसे हम विना किसी संदेह के विशुद्ध ऐतिहासिक नाटकों की श्रेणी में रख सकते हैं।

#### (४) मुद्राराक्षस के कुछ विवादास्पद उल्लेख :

मुद्राराक्षस में नन्दोन्मूलन तथा चन्द्रगुप्त के राज्यासीन होने की घटना के ऐतिहासिक होने पर तथा समग्र रूप में इसके ऐतिहासिकता से समृक्त होने पर भी इसमें चन्द्रगुप्त तथा नन्दों के संबंध में एकाधिक परस्पर विरोधी, भ्रामक एवं परम्परा के विरुद्ध उल्लेख हुए हैं, जो न केवल विवादास्पद हैं, अपितु जिनके परिपार्श्व में मुद्रा० की ऐतिहासिकता का पर्यवेक्षण करने पर इसमें पर्याप्त अनेतिहासिकता तथा कल्पना की अराजकता का आभास होता है। उदाहरण के लिये चन्द्रगुप्त मौर्य को “वृपल” तथा यहाँ तक कि “कुलहीन” शब्द भी प्रयुक्त किया है। नन्दों को ‘‘अभिजात’’ तथा “प्रथित” कहा है। चन्द्रगुप्त को मौर्यपुत्र के साथ-साथ नंदवंशी कहा है, तथा नवनन्दों के उन्मूलन के उल्लेख के पश्चात् भी सर्वार्थसिद्धि की अवतारणा की गई है।

चन्द्रगुप्त मौर्य निःसंदिग्ध रूप से ऐतिहासिक पुरुष है, किन्तु उसके वंश तथा जाति आदि के संबंध में अनेक प्राचीन ग्रंथो, अनुश्रुतियों तथा लोककथाओं में अनेकाशः संक्षेप तथा विस्तार से उल्लेख होने पर भी विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है। पूर्व-निदिष्ट बोद्ध अनुश्रुति के आधार पर चन्द्रगुप्त का जन्म शाकयों से सबधित “मोरिय-जाति” में हुआ, जिसमें कि स्वयं बुद्ध उत्पन्न हुए थे। किन्तु मुद्रा० में उसे अनेकाशः “वृपल” शब्द प्रयुक्त है।<sup>१</sup> बोश में वृपल का शूद्र, अवर्वर्ण तथा जघन्यज के साथ पर्याय के रूप में उल्लेख हुआ है।<sup>२</sup> अतः अनेक विद्वानों ने मुद्रा के आधार पर चन्द्र-

१. मुद्रा० ११२--१३ - ७।११-१२,

२. अमरकोश २।१६।१,

गुप्त को शूद्र माना है। उनके अनुसार इमीलिए सम्भवता नाटक में एक स्थान पर स्पष्टत “कुलहीन”<sup>१</sup> शब्द का प्रयोग किया गया है। यद्यपि यह सत्य है कि नाटक में चन्द्रगुप्त के लिये शूद्रार्थक वृप्तन तथा “कुलहीन” शब्द का प्रयोग हुआ है। किन्तु इन उल्लेखों के एकाग्री शास्त्रिक अर्थ के आधार पर ही चन्द्रगुप्त को ‘शूद्र’ मानना उचित नहीं है। यहाँ इन शब्दों के युक्तियुक्त अर्थ को आत्मसात् करने के लिये उनके प्रसगानुसार अनुशीलन करने पर उपर्युक्त धारणा पूर्णतः आनंद प्रतीत होती है।

नाटक में प्राय अनेक चाणक्य राक्षस तथा कंचुकी ने चन्द्रगुप्त को ‘वृप्तन’ कहा है। इनमें चाणक्य के उल्लेख सर्वाधिक महत्व के हैं, किन्तु उनसे चन्द्रगुप्त की विचित्रताओं भी लघुता व्यक्त नहीं होती, बल्कि उनसे कई स्थानों पर वस्तुलता तथा दच्च एवं सामर्थ्यशाली राजा का अर्थ ही व्यनित होता है।<sup>२</sup> प्रौ० हरिश्चन्द्र सेठ ने नाटक के अनेक उद्घारणों का समीक्षण करके यहीं लिखा है कि चाणक्य के द्वारा प्रयुक्त वृप्तन शब्द प्रायः देव, राजन् आदि अर्थ के लिये ही प्रयुक्त है।<sup>३</sup> श्री हारीतबृप्तण देव ने भी इस राजन् के विशेषण के रूप में प्रयुक्त माना है।<sup>४</sup> मुकुर्जी के अनुसार कई स्थानों पर चाणक्य अपन प्रिय शिष्य को इस शब्द में इस प्रकार प्रयुक्त करता है, मानो यह उसका प्यार का नाम हो।<sup>५</sup>

कुछ विद्वानों के मनुसार राक्षस तथा कंचुकी को उचितयों में कुछ स्थानों पर वृप्तन में लघुता का भाव स्पष्ट है। अतएव डा० शर्मा ने कंचुकी की उचित को इस हास्टि से महत्वपूर्ण माना है।<sup>६</sup> किन्तु तत्त्वत् यदि देखा जाय तो यह धारणा भी उचित प्रतीत नहीं होती। वास्तविकता यही है कि उन स्थानों पर यह उल्लेख इनेपात्रमक है। प्रथम स्थान पर श्रेष्ठ का लाभ उठाते हुए चन्द्रगुप्त के शत्रु राक्षस ने यह प्रयुक्त किया है।<sup>७</sup> अत यह प्रयोग चन्द्रगुप्त के प्रति शत्रुता के कारण धृणा व्यक्त वर्णन के लिये किया गया है जोकि सर्वथा उचित है तथा शत्रु द्वारा प्रयुक्त होने से इस सम्बन्ध में विशेष महत्व नहीं रखता। दूसरे स्थान पर कंचुकी चाणक्य की गृह-सपत्ति का वर्णन करता हुआ एवं और उमकी निस्पृहता को वर्तलाता है तो दूसरी

१. मुद्रा० २।७,

२. देखो, मुद्रा० १।१६-२०, ३।१८-१६,

३. चन्द्रगुप्त मौर्य, पृ० ५१,

४. इ० हि० षवा० धात्यूम १३, पृ० ६४१,

५. चन्द्रगुप्त मौर्य और उसका काल : मुकुर्जी, पृ० २६,

६. इ० हि० षवा० १६४०-४१, पृ० ८६,

७. मुद्रा० ६।६,

ओर चाणक्य द्वारा प्रयुक्त "वृपल" शब्द के अोचित्य का प्रतिगादन करता है।<sup>१</sup> यहाँ भी इस प्रयोग में चाणक्य की निस्पृहता तथा ग्रपरिग्रह के सम्मुख चन्द्रगुप्त की समृद्धि तथा ऐश्वर्यगत लघुता ही व्यक्त होती है, न कि कुल-वंश तथा जातिगत। स्पष्ट है कि नाटक में प्रयुक्त शिल्प वृपल शब्द का तात्पर्य शूद्र नहीं है। यदि विजाखदत्त का इस शब्द से शूद्र का ही अभिप्राय होता तो कम से कम (अतिम अंक में) राक्षस से परिचय करते समय "वृपल" शब्द-प्रयोग की अशिष्टता वह न करता।<sup>२</sup> नाटक के गंभीर अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें चाणक्य द्वारा प्रयुक्त वृपल शब्द का ही वस्तुन् सर्वाधिक महत्त्व है, क्योंकि राक्षस तथा कंचुकी द्वारा इसका प्रयोग गौण रूप में तथा उसके अनुकरण के रूप में ही किया गया है और नाटक में अधिकांश में चाणक्य द्वारा प्रयुक्त वृपल शब्द के सन्दर्भादि के अनुजीलन से यह सुस्पष्ट हो जाता है कि वह प्राथः आत्मीयताभिव्यक्ति तथा वात्सल्यदोत्तन के लिये ही प्रयुक्त हुआ है न कि शूद्र के लिये।

यही नहीं, वल्कि नाटक में अनेक स्थानों पर प्रयुक्त वृपल शब्द चन्द्रगुप्त की उपाधि भी प्रतीत होता है।<sup>३</sup> कोश में भी यह शब्द चन्द्रगुप्त तथा राजा के पर्याय के लिये उल्लिखित है। डा० सुधीर कुमार गुप्त ने लिखा है कि वृपल पद शूद्र का ही वाचक नहीं है, घोड़ा और गाजर का भी व्योतक है और वृपलों पद के बल शूद्र या शूद्री का ही व्योतक नहीं, प्रत्युत अविवाहित रजस्वला कन्या रजस्वला वांझ-मृतवत्सा भी वृपली होती है। ऐसी कन्या तथा स्त्री सभी वर्णों में होती है। उनका मन है कि क्षत्रिय मौर्यों को वृपल पद उनके श्रेष्ठत्व के कारण ही मिले होंगे।<sup>४</sup> प्रो० हरिशचन्द्र सेठ ने इसके आविर्भाव के सम्बन्ध में वत्तलाया है कि यह ग्रीक शब्द (वेसिलियस) वसिलिओ का संस्कृत रूप है, जिसका प्राकृत रूप "वसल" होता है। यह वसिलिओ ग्रीक में राजाओं के लिये प्रयुक्त होता था। उन्होंने लिखा है कि राजा के स्थान पर वसिलिओ और राजाधिराज या महाराज के स्थान पर वसिलिओ (वसिलियन) का प्रयोग अनेक भारतीय राजाओं ने अपने द्विभाषिक सिक्कों में भी किया है।<sup>५</sup> एरियन आदि पुराने योरोपीय इतिहासकारों ने चन्द्रगुप्त को सदंव इंडियन वसिलिओ (इंडियन वसिलियस) कहा है। चन्द्रगुप्त के साथ इसके उपाधिरूप में प्रचलन का कारण यह

१. मुद्रा० ३ १५-१६,

२. चन्द्रगुप्त मौर्य, पृ० १२,

३. ड०हि० कवा. वा ७, पृ० ४६६,

४. वेदात्मव्यः सुधीरकुमार गुप्त, पृ० ५६,

५. चन्द्रगुप्त मौर्य : पृ० ५४,

है कि चन्द्रगुप्त की पत्नी यूनानी संल्पूक्षण की पुत्री थी। अतः उसके बारण ही उसे और उपाधि से अभिहित होना असगत नहीं है।<sup>१</sup> उनका अनुमान है कि मुद्रा० का रचयिता संभवतः इस वक्तकथा से अवगत हो और उसने अभिज्ञान रूप से इस उपाधि का प्रयोग किया हो। तथ्य कुछ भी हो, जिन्तु इतना स्पष्ट है कि नाटक में प्रयुक्त वृप्त शब्द को हीनजाति सूचक तथा अपमान भूचक भानना कथमपि उचित नहीं है।

**वस्तुतः** भारतीय वाड्मय के अनुशीलन से भी यही स्पष्ट होता है कि वृप्त शब्द को मूलतः शूद्रार्थक मानना ही असगत है। ढा० पुरी ने लिखा है कि भाष्य में हाकू लोगों के लिये वृप्त शब्द प्रयुक्त हुआ है। यही नहीं, बल्कि उन्होंने यह भी लिखा है कि शूद्रवेद में वृप्त शब्द का प्रयोग है तथा यही शब्द वाद में मुद्रा० में अधारिक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।<sup>२</sup> अर्थज्ञास्त्र में दो स्थानों पर वृप्त शब्द का प्रयोग हुआ है। जिन्तु वहाँ उसका अर्थ श्री जायसवाल के अनुसार अधर्मी है।<sup>३</sup> श्री राय चौधरी के अनुसार समृति तथा भद्राकाव्यों में निष्ठापूर्वक धर्मवालन न करने वाले धत्रियों को ही वृप्त शब्द प्रयुक्त हुआ है।<sup>४</sup> वे इस शब्द का अर्थ आत्य भी मानते हैं।<sup>५</sup> श्री के सी चट्टोपाध्याय के मनुसार मनुस्मृति में वृप्त शब्द से सम्बन्धित वई श्लोक है, पर उनके अनुसार उन्होंना प्राचीन एवं अधर्मी था, वाद में शूद्र हुआ।<sup>६</sup> मनुस्मृतिकार के श्लोकों से स्पष्ट है कि उसके मत में वृप्त का मूलतः तात्पर्य अधर्मी ही है।<sup>७</sup> मनुस्मृति के परिप्रेक्षण में इस शब्द का भाषा-वैज्ञानिक अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि वृप्त में अर्थ-परिवर्तन हुआ है। सर्वप्रथम इसका तात्पर्य अधर्मी था, किन्तु वाद में अधर्मी को शूद्र सहश मानने के कारण वृप्त भी शूद्रार्थक हो गया और प्रधनियों को वृप्त (तथा शूद्र) कहा जाने लगा। चन्द्रगुप्त के लिये इस शब्द के प्रयोग के सम्बन्ध में विद्वानों का यह भी मन है कि मौर्य अनुत्त धर्मिय था, जिन्तु एक तो उसने श्रीक राजकुमारी के साथ शादी की और सम्मवन् उसने धर्म परिवर्तन भी किया तथा उसके पीछे अशोक ने बोढ़ धर्म में हस्ति ली। अतः ब्राह्मणों ने अधर्मी के रूप में वृप्त वहा० मूलतः वृप्त शब्द को शूद्र अर्थ में गहण करना

१. चन्द्रगुप्त मौर्य, पृ० ५४,

२. हृष्टद्युः इंडिया इन दि टाइम ऑफ पत्रजलि पुरी, पृ० ६०-६१,

३. हृष्टद्युः इंह० १६३०, भाग ६, पृ० २७१,

४. दि एज ऑफ नन्दाज एण्ड मौर्यज, पृ० १४०,

५. इंडियन वल्चर, भाग २, पृ० ५५८,

६. इ० ह० १६३०, भाग ६, पृ० २८२-८३,

७. विशेष दैखी, मनु० १०१४२, दा० १६, शा० १६ आदि,

उचित नहीं है।<sup>१</sup> यही नहीं, वल्कि श्री देव के अनुसार एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बगाल की किसी हस्तप्रति में वृपल के स्थान पर “वृपम्” है।<sup>२</sup> तथा श्री पंडित ने नाटक में प्रयुक्त वृपल का तात्पर्य भी एक नवीन वृप माना है।<sup>३</sup> तैलंग ने भी अपने मुद्रा<sup>०</sup> में एक स्थल पर वृपल के स्थान पर किसी आधारभूत हस्तप्रति में पाठान्तर के रूप में देव का निर्देश किया है।<sup>४</sup> इससे भी ज्ञात होता है कि यह शब्द मूलतः हीन जाति वोधक नहीं है और न इस अभिप्राय से यह मुद्रा<sup>०</sup> में प्रयुक्त ही हुआ है। अतः वृपल शब्द के आधार पर चन्द्रगुप्त को शूद्र मानना सर्वया अस्वाभाविक है।

इसी प्रकार नाटक में “कुलहीन” शब्द का भी प्रयोग अवश्य हुआ है।<sup>५</sup> किन्तु वह उक्ति स्पष्टतः राक्षस की है जोकि न केवल शत्रु है, अपितु दिवंगत नन्दों का परमभक्त भी है। इसके अतिरिक्त राक्षस की वह उक्ति विषण्णता से पूर्ण क्रोधोक्ति है तथा नन्दों को चन्द्रगुप्त की अपेक्षा प्रशस्यतर दिखलाने के अभिप्राय से ही उसमें इस शब्द का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि लक्ष्मी को उसने “पापे” तथा “अनभिजाते” तक कहा है, जोकि प्रभिदेव अर्थ की वृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता। अतः यहाँ “कुलहीन” शब्द का भी शाविदक अर्थ यहरए करना अस्वाभाविक है। वस्तुतः यहाँ इस शब्द का मात्र “साधारणकुल” से तात्पर्य है। श्री मुकर्जी, रायचौधरी तथा श्री हारीतकुपणदेव प्रादि विद्वानों ने भी इसको हीनजाति वोधक नहीं माना है। तथा उपर्युक्त शब्दों के आधार पर मौर्य को शूद्र मानने वालों का समाधान किया है।<sup>६</sup>

मुद्रा<sup>०</sup> में चन्द्रगुप्त का मौर्य के रूप में अतेक बार उल्लेख हुआ है। किन्तु, मुद्रा<sup>०</sup> में ही अन्यत्र चन्द्रगुप्त को राक्षस के स्वामी (नन्दों) का पुत्र कहा है।<sup>७</sup> नन्दों को चन्द्रगुप्त का पूर्वज (गुरु) कहा है,<sup>८</sup> चन्द्रगुप्त को नन्दान्वय,<sup>९</sup> एवं नन्दों द्वारा

१. इ० हिं० द्वा० १६३०, भाग ६, पृ० २८१-८२

२. देखो वही, पृ० २७२,

३. मुद्रा० : पंडित : भूमिका १४,

४. मुद्रा० तैलंग : भूमिका, पृ० १६४, फुटनोट,

५. मुद्रा० २१८

६. चन्द्रगुप्त मौर्य एवं उसका काल, पृ० २६-३० तथा जे. ची. श्रो. आर. एस. भाग ४, १६१८, पृ० ६१-८,

७. मुद्रा० ५१६,

८. वही २१८,

९. वही ४१७-८, ५१४,

पालिन-नोपित कहा है,<sup>१</sup> तथा राजस द्वारा चन्द्रगुप्त का पैतृक अमात्यमुख्य,<sup>२</sup> एवं पितृ-परम्परा में आगत<sup>३</sup>, कहा है। इन उल्लेखों के प्राधार पर कुछ विद्वानों की धारणा रही है कि चन्द्रगुप्त नन्दों से ही सम्बन्धित था किन्तु यह धारणा उचित नहीं है।

प्रथमत यह धारणा—जैसा कि श्री रायचौधरी ने लिखा है कि यदि वह नन्द होता तो नन्दों के प्रति धूरणा व्यक्त न करता।<sup>४</sup>

द्वितीयत यदि वह नन्दों से सम्बन्धित होता तो उसे भी नन्द कहा जाना चाहिये था तथा चारणक्य का कृपापात्र न होकर उसकी श्रोधानि वा शलभ होना चाहिये था।

तृतीयत चन्द्रगुप्त के नन्द होने पर नाटक में वल्लित वल्गुप्त द्वारा भी नन्द कहा जाना चाहिये था तथा यह भी चारणक्य का श्रोध-पात्र होना चाहिये था।

चतुर्थं इतिहास के अनुसार नन्द शूद्र थे। पुराणों में नन्दों द्वारा शूद्रगर्भोद्धव, शूद्रभूमिपाल, शूद्रप्रयोनि, शूद्रप्रय तथा अधर्मिक लिखा है।<sup>५</sup> यूनानी लेखक कृष्णियस, डायोडोरस प्लॉटार्क तथा जस्टिन आदि ने स्पष्ट शब्दों में नन्दों को नापितपुत्र, स्वभावन नीच, दुष्ट तथा हीनकुल का लिखा है।<sup>६</sup> दूसरी ओर दीर्घं निकाय, महापरिनिवाससूत्र, तथा महार्वण आदि बौद्धग्रन्थों, परिशिष्टपर्वत, आदि जैन ग्रन्थों तथा कृष्णियस आदि यूनानी लेखकों के सादृश के प्राधार पर श्री मुकर्जी ने विस्तार में यह प्रमाणित किया है कि चन्द्रगुप्त मौर्य निश्चित हृष से धन्वित था।<sup>७</sup> यही नहीं, वल्कि पुरातात्त्विक प्रबल प्रमाण के हृष में उपलब्ध स्तम्भ तथा स्मारकों के प्राधार पर भी इतिहासकारों ने चन्द्रगुप्त मौर्य को सूर्यवशी धन्वित प्रमाणित किया है।<sup>८</sup> इसके प्रतिरिक्ष पुराण आदि अनेक साथों वे अनुसार अन्नामत्तम नन्दों को उन्मूलित करके ब्राह्मण कोटिल्य ने पृथ्वी को मुक्त कराया तथा चन्द्रगुप्त को राज्याधिकारी बनकर अभिपिक्त किया,<sup>९</sup> तो इसमें भी स्पष्ट होता है कि नन्द शूद्र थे तथा धन्वित

१ वही २१८,

२ वही ७।१२-१३,

३. वही ४।।-८,

४. दि एज आफ नन्दाज एण्ड मौर्याज, पृ० १४१,

५ चन्द्रगुप्त मौर्य एवं उसका काल मुकर्जी, पृ० २६,

६. वही, पृ० २३,

७. वही, पृ० २२-२८,

८ दि० हिं० यदा० वाल्यूम ३१, १६५५ पृ० १५५-६,

९. चन्द्रगुप्त मौर्य एवं उसका काल मुकर्जी पृ० २३,

विनोदी थे । अतएव चाणक्य जैसे दृढ़प्रतित्र भ्राह्मण ने नन्दोन्मूलन के पश्चात् कुलीन क्षत्रिय को ही अभिधिक्त किया होगा । अतः दोनों में सम्बन्ध मानना अनुचित है ।

पंचमतः अर्थशास्त्र में जबकि कीटिल्य वारम्पार राजा के “अभिजात” होने पर वल देता है,<sup>१</sup> अतः यदि चन्द्रगुप्त शूद्र नन्दों का सम्बन्धी या कुटुम्बी होता तो नन्दोन्मूलन के पश्चात् चाणक्य जैसा कटूर भ्राह्मण, शास्त्राचार्य तथा कुलीनराजा का पक्षपाती शूद्र चन्द्रगुप्त को किसी भी स्थिति में राज्य पर अभिधिक्त न करता । स्पष्ट है कि चन्द्रगुप्त अभिजात था, वह नन्दों से सम्बन्धित नहीं था । अतः किसी भी आधार पर नन्द तथा चन्द्रगुप्त को कुटुम्बी या परस्पर सम्बन्धित मानना सर्वथा अस्वाभाविक है ।

यद्यपि मुद्रा० में नन्दों को उच्च-कुलीन, प्रथित तथा सज्जन भी कहा है<sup>२</sup> जो कि उपर्युक्त नन्दों से सम्बन्धित उल्लेखों के विरुद्ध प्रतीत होता है । किन्तु मुद्रा० के ये सभी उल्लेख नन्दों के परमभक्त राक्षस के मुव से तथा मलयकेनु के द्वारा तिरस्कृत होने पर विष्णु एवं विनाश दशा में निकले हैं । अतः ये अनैतिहासिक नहीं, अपितु स्वाभाविक, स्वामिभक्ति के थोतक तथा नाटकीय परिस्थिति के अनुकूल हैं और इनसे नन्दों के शूद्र होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ।

कथासरितागर में चन्द्रगुप्त को ‘पूर्वनन्दसुत’ अवश्य लिखा है और इस आधार पर उसे नन्दों से सम्बन्धित भी माना जा सकता है, किन्तु कथा० में उसकी जाति के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है । श्री देव ने चन्द्रगुप्त को पूर्वनन्दसुत मानते हुए भी उसे क्षत्रिय माना है<sup>३</sup> किन्तु ऐसा मानकर भी पूर्वोक्त शूद्र नन्दराजाओं से उसका वश तथा जातिगत सम्बन्ध नहीं माना जा सकता । लगभग १८वीं सदी के पुराणों के टीकाकार रत्नगर्भ ने मौर्य शब्द को आधार बनाकर चन्द्रगुप्त को नन्द की किसी दूसरी पत्नी “मुरा” का पुत्र लिखा है । यद्यपि इसने “मुरा” को नन्दराजा की पत्न्यन्तर तो बतलाया है किन्तु उसकी जाति का उल्लेख नहीं किया है । दूसरे, इसे टीकाकार ने मौर्य शब्द से नन्द की पत्नी अवश्य खोज निकाली है, किन्तु उसे चन्द्रगुप्त की “माँ” नहीं माना जा सकता । क्योंकि मुरा से मौरीय बनता है न कि मौर्य । इस व्याकरण की त्रुटि के कारण ही विद्वानों ने इस टीकाकार के उल्लेख को त्याज्य ठहराया है । मुकर्जी के शब्दों में टीकाकार के द्वारा निर्दिष्ट “मुरा” पुराणों के प्रतिकूल है तथा उसने व्याकरण की ओर विना व्यान दिये चन्द्रगुप्त की “माँ”

१. इ० हि० व्वा० १६३०, भाग ६, पृ० २७२,

२. मुद्रा० ६१६, ५१२०,

३. देखो—इ० हि० व्वा० १६३०, भाग ६, पृ० २७२,

खोजने भर का प्रयत्न किया है । वस्तुत मौर्य 'मुर' पुलिलग में बन सकता है न कि "मुरा" से ।<sup>१</sup> अतः इस प्राधार पर भी मौर्य को नन्दों से सम्बन्धित नहीं माना जा सकता ।

मुद्राराक्षस के टीकाकार दुष्टिराज ने भी नाटक के विवादास्पद परस्पर विरुद्ध उल्लेखों को सुलझाने की चेष्टा की है । इसके अनुसार सर्वार्थिसिद्धि नामक नन्द राजा के दो रानियाँ थीं—वही 'सुनन्दा' तथा छोटी वृपलपुत्री 'मुरा' । सुनन्दा के नौ पुत्र हुए वे नन्द बहलाये । मुरा के मौर्य नामक पुत्र हुआ । उस मौर्य के एक शत पुत्रों में चन्द्रगुप्त भी एक था, जो यि नन्दों के द्वाल से बच निकला ।<sup>२</sup> स्पष्टतः उपर्युक्त मत का कोई भी ऐतिहासिक आधार नहीं है, केवल मुद्रा० के अटपटे उल्लेखों के आधार पर अपनी कल्पना द्वारा उन्हें सुलझाने मर के लिये यह कथा गढ़ी गई है । वास्तविकता यही है कि नन्द शूद्र थे तथा चन्द्रगुप्त मौर्य धर्मिय । अत दोनों में न तो कोई सम्बन्ध भाना जा सकता है और न किसी सम्बन्ध के आधार पर मौर्य को शूद्र ही माना जा सकता है । इतिहासकारों ने अनेक बोढ़ तथा जैन साक्षों के आधार पर यह प्रमाणित किया है कि चन्द्रगुप्त मौर्य पिष्पलोवन में रहने वाली धर्मिय जाति से सम्बन्धित था ।<sup>३</sup> उक्त की बोढ़ परम्परा के अनुसार विद्वान् इन्हें शाक्षों से सम्बन्धित मानते हैं ।<sup>४</sup> जैन परम्परा के अनुसार इनका सम्बन्ध मयूर पोपको से था ।<sup>५</sup> डा० बुद्धप्रकाश यद्यपि मयूरपोपक या रक्षकों की प्रपत्ता इनका सम्बन्ध मयूर भक्तको से मानना उचित समझते हैं,<sup>६</sup> किन्तु उनका मत ग्राह्य प्रतीत नहीं होता । पुरातात्त्विक उपलब्धियों के आधार पर विद्वानों न मयूर को मौरवश का प्रतीक माना है तथा ग्रथिकार्य विद्वान् उनका सम्बन्ध मयूरवायकों से मानते हैं । जो भी हो, हम यही विशेष विस्तार में नहीं जाना चाहते, किन्तु उपर्युक्त समस्त उल्लेखों के आधार पर मानते हैं कि चन्द्रगुप्त धर्मिय था, तथा उसको किसी भी प्रकार नन्दों से सम्बन्धित नहीं माना जा सकता ।

जहाँ तक "मौर्य" अभिधान का सम्बन्ध है विद्वानों का मत है कि यह 'मोरियपुत्र या मोरिय दोषित्र' होने के कारण ही पड़ा । उनके अनुमार मौर्य नाम

१. चन्द्रगुप्त मौर्य और उसका काल, पृ० २८-२९,

२. देखो मुद्रा० संलग्न उपोद्धात, २४-४४

३. देखो—इ० हि० कवा० १६३०, भाग ६, पृ० २७२

४. देखो—वही भाग १, १६४५, पृ० १५३,

५. देखो—वही, पृ० १५५,

६. वही, पृ० १५६,

भारतकूल से सम्बन्धित मानना अधिक उचित है।<sup>१</sup> इसी प्रसंग में अनेक विद्वानों ने मौर्यों के पूर्व निवास स्थान के रूप में “मौर्य नगर” को स्वोजने की भी वेष्टा की है।<sup>२</sup> हम यहाँ इस अप्रासंगिक प्रपञ्च में नहीं पड़ना चाहते, किन्तु इतना निश्चित है कि शूद्रा मुरा की कल्पना करके चन्द्रगुप्त को मौर्य तथा शूद्र मानना एवं नन्दों से सम्बन्धित वतलाना युक्तियुक्त नहीं है। परन्तु इसका तात्पर्य यह भी नहीं कि मुद्रा० के पूर्वोक्त उल्लेख निराधार तथा अनेतिहासिक है या विशाखदत्त को इतिहास का समुचित ज्ञान न था या उसने इतिहास को अष्ट किया है। वस्तुतः तथ्य जैमा कि हम निर्देश कर चुके हैं, यह है कि विशाखदत्त ने मुद्रा० का सृजन लोक परम्परा तथा अनुश्रुतियों के आधार पर किया है। औदृ अनुश्रुति के अनुसार प्रसिद्ध है कि चन्द्रगुप्त के पिता के सीमान्त पर मरने के बाद उसकी विधवा माँ ने उसको पाटलिपुत्र में ही जन्म दिया था। संभवतः उसका पिता मौर्य था और विशाखदत्त इस अनुश्रुति से परिचित था। अतएव उसने नाटक में स्पष्टतः चन्द्रगुप्त को मौर्य-पुत्र कहा है।<sup>३</sup> इसके अतिरिक्त विशाखदत्त यह भी जानता था कि मौर्य तथा नन्दवंश का परम्पर किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है। अतएव उसने मौर्य को नन्दों से भिन्न गोत्र (गोत्रान्तर) का कहलाया है।<sup>४</sup> इसी प्रकार जैसा कि हम चन्द्रगुप्त के प्रारम्भिक जीवन से सम्बन्धित घटनाओं तथा कथाओं का उल्लेख कर चुके हैं, उनसे स्पष्ट है कि चन्द्रगुप्त का वाल्यकाल तथा किशोरकाल नन्दों के आश्रय में ही व्यतीत हुआ था, सभवत विशाखदत्त इनसे भी सुपरिचित था। अतएव उसने चन्द्रगुप्त को नन्दों द्वारा पालित पोपित आदि लिखा है।

यद्यपि नाटक के नन्दान्वय, स्वामिपुत्र आदि उल्लेख आपाततः अनेतिहासिक अवश्य प्रतीत होते हैं तथा कुछ विद्वान् इन्हें असंगत, पुराणों के प्रतिकूल, पुराण के दीक्षाकार से मग्नीत् तथा दुण्डिराज के उल्लेख की आधारभूत परम्परा पर आधारित मानते हैं। किन्तु नाटक के मूलभूत उद्देश्य तथा राजनीतिक पृष्ठभूमि को सम्मुख रख कर सन्दर्भ आदि के परिपार्श्व में इनका परिशीलन करने पर तत्वतः ये सोहैश्य प्रयोग प्रतीत होते हैं। सर्वप्रथम, नाटक के तृतीय अंक में कंचुकी द्वारा नन्द को चन्द्रगुप्त का “गृह” कहलाया गया है किन्तु यहाँ गुरु का पिता आदि अर्थ लेना ही अनिवार्य नहीं है। सामान्यतः इस स्थल से ऐसा प्रतीत होता है मानो नाटककार ने

१. दृष्टव्यः इ० हि० क्वा० वाल्यूम ६, १६०, पृ० २४३,

२. दृष्टव्य, दि होम आँफ दि मौर्याजः इ० हि० क्वा० वाल्यूम, ३१, १६५५,

इन्यादि।

३. मुद्रा० २१६,

४. वही, ६१५,

द्वन्द्व एवं अलकार की दृष्टि से ही इस शब्द का प्रयोग किया हो । चतुर्थ अंक में भागुरायण मलयकेतु से समापण करते समय चन्द्रगुप्त के लिये नन्दान्वय एवं ‘पितृ-परपरागत’ शब्दों वा प्रयोग करता है । जिन्तु यह सुविदिन है कि मुद्रा० विशुद्ध राजनीतिक नाटक है । मुख्यत प्रस्तुत स्थल पर कूटनीतिपटु बौद्धिक का गुप्तचर भागुरायण राक्षस तथा मलयकेतु में फूट ढालने के लिये भेदनीति का प्रयोग कर रहा है । अतएव नन्द राजा से चन्द्रगुप्त के सम्बन्ध की परम्परा के आधार पर उद्देश्य विशेष के लिये यह चन्द्रगुप्त को नन्दवशी तथा नन्दों की परम्परा से समागत बतलाना है । यहाँ दो बात ध्यान देने की हैं । एक तो यह कि यह कूटनीति के प्रयोग का स्थल है और गुप्तचर आदि द्वन्द्व दृष्टि से ऐसे प्रयोग प्राप्त किया करते हैं । अतएव भागुरायण द्वारा यहाँ दोनों में भेद बरान के लिये ऐसा किया जाना अव्याभाविक नहीं है । दूसरे सीमान्तवासी मलयकेतु नन्दोन्मूलनन में चन्द्रगुप्त का सहयोगी होने पर भी उसकी बश परम्परा से अभिज्ञ होगा, यह आवश्यक नहीं है । यही बारण है कि विशाखदत्त ने नि मकोच स्वप्न से चन्द्रगुप्त को नन्दवशी आदि बतलाकर भेदनीति का सफल तथा व्यावहारिक प्रदर्शन किया है ।

यही नहीं, बल्कि भागुरायण के द्वारा कानफ के जाने के कारण ही पचम अंक में पुन स्वय मलयकेतु राक्षस से बाद विवाद करते हुए, चन्द्रगुप्त को राक्षस का “स्वामीपुत्र” तथा “नन्दवशी” बतलाया है । स्वप्न है कि इन शब्दों के आधार पर विशाखदत्त के ऐनिहासिक ज्ञान को लादित बरना उचित प्रतीत नहीं होता । बास्तव में ये चाणगुव्य के कूटनीतिक प्रयोग के रूप में प्रयुक्त हैं । अतएव राक्षस मलयकेतु के द्वारा प्रताडित होन पर कहता है—“अहो, मुशिलप्टोऽप्यममूच्छ्व-प्रयोग !” । इस प्रकार के नाटक में पर्वतक को स्वय मरवा कर चाणगुव्य द्वारा राक्षस को बदनाम बरना आदि कई विशुद्ध कूटनीतिक प्रयोग हैं, जिनमें आधार पर मुद्रा० के सप्तम अंक में चाणगुव्य के द्वारा राक्षस को चन्द्रगुप्त का पैतृक अमार्य बतलाना अवश्य कुछ स्ट्रक्टरा है । जिन्तु, हमारा अनुमान है कि नाटक में अनेकश कूटनीतिक प्रयोगों में चन्द्रगुप्त को नन्दवशी आदि के रूप में उल्लेख कर देने के कारण अन्त में स्वय कायंभार से मुक्त होने वी इच्छा से तथा इस सम्बन्ध के

निर्देश द्वारा राक्षस तथा चन्द्रगुप्त की घनिष्ठता स्थापित करने के उद्देश्य से ही इस वाक्य का प्रयोग किया गया है। सभवत यही कारण है कि नाटककार ने उपर्युक्त वाक्य के बाद ही राक्षस के द्वारा स्वगत के रूप में “योजितोऽनेनसम्बन्धः”<sup>१</sup> कहकर अपने इस वाक्य प्रयोग की श्रीचित्ति की और संकेत किया है। अन्यथा यदि चन्द्रगुप्त नन्दवंशी होता, और राक्षस चन्द्रगुप्त का पैतृक होता तो चन्द्रगुप्त के अभिवादन करने पर एक अनभिज्ञ तथा सर्वप्रथम परिचयागत के समान—“अये। अयं चन्द्रगुप्तः” से नहीं कहता।<sup>२</sup>

अन्त में; यदि विशाखदत्त ने वास्तव में चन्द्रगुप्त तथा नन्दों को परस्पर सम्बन्धित मानकर नाटक लिखा होता या ऐसा ही मानकर नाटक का अध्ययन किया जाय तो नाटक का कोई विशेष महत्व तो ठहरता ही नहीं, बल्कि साथ ही इन परस्पर विरुद्ध उल्लेखों के कारण वह अत्यन्त प्रस्वाभाविक, निष्प्राण तथा अकुशल नाटककार की कृति मात्र प्रतीत होती है।<sup>३</sup> स्पष्ट है कि नाटक के किसी भी उल्लेख के आधार पर न तो चन्द्रगुप्त को धूम्र मानना उचित है और न नन्दवंशी ही। अतः मुद्रा० के सम्बन्ध में एतिहासिकता की कल्पना करना भी उचित तथा न्याय नहीं माना जा सकता।

### मुद्राराक्षस की नाट्यकला

मुद्राराक्षस संस्कृत के एतिहासिक नाटकों में तो निःसदिग्धरूप से सर्वोत्कृष्ट है ही, किन्तु अपनी नाट्यकला की विशिष्टता के कारण यह समग्र संस्कृतनाट्य साहित्य के सफलतम नाटकों में भी अन्यतम ठहरता है। कथानक, नाट्यशिल्प तथा शैली आदि प्रत्येक दृष्टि ने यह मौलिक है। विशाखदत्त ने इसमें प्राचीन संस्कृत नाट्य-परम्परा से डंठकर अभिनव कथानक को मौलिक धरातल पर विन्यस्त किया है। कथानक विशुद्ध राजनीतिक है, किन्तु नाटक में जात इतिहास के भी अग्रिम अध्याय को अपनी काल्पनिक आँखों से साक्षात्कार करके सर्वप्रथम रूपायित किया है। इसमें न प्रणयकथा है, न प्रणय का रोमानी वातावरण है। यहाँ तक कि इसमें नायिका का अभाव है। यद्यपि सप्तम अक्र में चन्द्रनदाम की पत्नी की अवतारणा अवश्य हुई है, पर वह स्वल्पकालिक है। और न तो उसका प्रत्यक्षत कथानक या कथा-प्रवाह से सम्बन्ध है और न वह ऐन्डिक उत्तोजना से सम्पूर्ण ही है। इसी प्रकार इसमें न भृत्याचिव परिहासप्रिय विदूपक का भी अभाव है। यही नहीं, बल्कि मुद्राराक्षस एक

१. मुद्रा० ३। १-१२,

२. वही,

३. दृष्टव्यः पुना श्रोग्यन्त-लिस्ट, १६४०-४१ वाल्यूम ५, पृ० ८१-८५,  
तथा चन्द्रगुप्त मौर्यः हरिश्चन्द्र सेठ, पृ० ६१,

ऐसा राजनीतिव पड़यन-प्रधान नाटक है जिसमें बोहिदि गभीरता, विचारों का दार्शनिकता तथा शंखीगत गुरुता ही अधिक है। इमवा वस्तुविधान तथा चरित्र-चित्रण ही कृद्ध इस प्रकार का है कि दर्शक इसके गुफानुगु फित कथाजाल में उत्थकर पड़यन-सापेक्ष सघष, अन्तर्द्वंद्व तथा धातप्रतिधात के चक्रवात में खो जाता है। फलत वही उसे शिथिलता, नीरसना तथा दुष्कृता का आभास तक नहीं होता।

### वस्तुविधान

सात अक के इस नाटक का कथानक भारतीय ऐतिहास के जाज्वल्यमान अध्याय से सम्बन्धित है, किन्तु नाटककार वहाँ से कथासूत्र के रूप में वकालमात्र संजोकर बल्पना द्वारा ही उसे सरस-सजीव गतिशील नाटकीय रूप दिया है। सर्वप्रथम प्रस्तावना के अनन्तर मुकुनशिखर को स्पर्श करते हुए चाणक्य की नाटकीय अवतारणा ही अत्यधिक मासिक तथा महत्वपूर्ण है। नाटककार ने यहाँ चाणक्य की ऊर्जवल प्रभावपूर्ण उक्तिन द्वारा एक और कथानक का बीज निर्धारित कर दिया है तो दूसरी और नाटकीय वार्यव्यापार के लिये पृष्ठभूमि का ममुपस्थापन भी। इसके प्रतिरिक्षन यहाँ नायक के स्वभाव, कूटनीतिक, व्यक्तित्व तथा पड़यन-प्रधान कार्यव्यापार एवं राक्षस के निप्रहरूप नाटक के उद्देश्य को अत्यात प्रभावात्मक प्रकार से व्यक्त कर दिया है। प्रथम अ के प्रारम्भ में ही सामाजिक को यह जात हो जाता है कि यह लडाई चाणक्य तथा राक्षस की नहीं है अपितु चतुर महावत तथा मत्त हस्ति की है। दूसरे शब्दों में सिद्धान्तों की है। नन्दोन्मूलन की प्रतिज्ञा के पूर्ण कर लेने पर भी चाणक्य स्वामीभक्त राक्षस को बश में किय गिना नन्दोन्मूलन को अपूर्ण मानता है। अतएव वह राक्षस रूपी जगली हाथी की अपनी नीति तथा बुद्धि को रजु से बाधना चाहता है, १ जबकि राक्षस उसकी चालों से बचने के साथ-साथ अपनी स्वामीमविन का भी परिचय देना चाहता है। राक्षसनिग्रह के लिये चाणक्य ने गुप्तचरों का जाल विद्या रखा है, जिसके फलस्वरूप प्रतिद्वन्द्वी राक्षस के समस्त प्रथन न केवल विफल हो जाने हैं, अपितु पवतेश्वरवत्थ आदि से कलकित करके उसके पक्ष को भी क्षीण किया जाता है। राक्षस भी अपनी नीनि द्वारा गुप्तचरों के माध्यम से उसका प्रतिकार तथा अपकार करता है। नाटक के अधिग्रंथ अ की भ दोनों की इसी मत्रशक्ति का सघर्ष तथा कूटनीतिक पैतरेवाजी का प्रभावशाली नाटकीय प्रदर्शन है। अन्त भ, चाणक्य के बुद्धि वैभव के सामने राक्षस आत्मसमर्पण कर देता है।

इस प्रकार राक्षस यद्यपि चाणक्य से हार जाता है विन्तु राक्षस के द्वारा चन्द्रगृष्ट के मत्रिपद की श्रयोग्य बतलान पर चाणक्य प्रकारान्तर से स्वयं यह व्यक्त

कर देता है कि वस्तुतः राक्षस हारकर भी जीत गया है ।<sup>१</sup> चाणक्य की विजय वास्तव में उसकी नीतिकुशलता तथा संत्रिशक्ति की विजय है, जबकि राक्षस की हार होने पर भी उसकी भानवता की विजय है, हृदय की विजय है, त्याग, तपस्त्विता तथा वलिदान की विजय है । यही कारण है कि नाटक के पटान्त होने पर भी राक्षस की स्वामीभक्ति तथा आदर्शपूर्ण मित्रता से अभिभूत सामाजिक का हृदय राक्षस की प्रशंसा किये विना नहीं रहता ।

नाटक का वस्तुविधान अत्यन्त सुगठित है । प्रो० ध्रुव ने भारतीय नाट्य-मिद्धान्त के अनुसार सभीक्षण करते हुए यह प्रमाणित किया है कि इसमें सभी संधियों का सफल प्रयोग हुआ है ।<sup>२</sup> नाटकीय घटनाओं में अनूठी गत्यात्मकता प्रभावात्मकता तथा एकदेशीयता है । इसका रहस्य यही है कि इसमें विशाखदत्त सर्वत्र अन्वितत्रय के पालन में सचेष्ट रहा है ।<sup>३</sup> संस्कृत नाटकों में प्रायः स्थानान्विति की उपेक्षा हुई है, पर मुद्रा० समस्त घटनाचक्र प्रमुखतः पाटलिपुत्र तथा मलयकेतु के शिविर में ही घटित होता है । मुद्रा० के नाटककार ने अंक तथा उपचूलिकाओं के समुचित विधान द्वारा कालान्विति का भी सफल निर्वाह किया है । सामान्यतः इसका समस्त कथानक १ वर्ष के लगभग का है किन्तु इस नाटक की सर्वाधिक विशेषता कार्यान्विति के निर्वाह की सफलता है और यही नाटक की सफलता के लिये अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण भी होती है । यह इस कार्यान्विति की सफलता का ही परिणाम है कि समस्त नाटक में प्रभावऐक्य है तथा गैरित्य का अभाव है । यद्यपि पर्वतेश्वर तथा मलयकेतु के ग्राभूपणों के दान आदि के कुछ ऐसे प्रसंग हैं, जिनका मूल कथानक से सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता, किन्तु आपाततः एव नाटक के अन्त होते-होते समस्त घटनाओं की सार्थकता व्यक्त होती है तथा सभी मूलकथा में समाहित हो जाती है । कार्य के सतत प्रवाह के कारण ही कथाधारा में प्रवाह, प्रभाव तथा एकरसता है और यही कारण है कि पाश्चात्य समालोचकों ने भी इसे सराहा है ।

### चरित्र-चित्रण :

विशाखदत्त की संशक्त लेखनी ने चरित्र-चित्रण में भी अपूर्व सफलता प्राप्त की है । सामान्यतः चरित्रगत विविधता आदि की दृष्टि से संस्कृत में मृच्छकटिक को महत्व दिया जाता रहा है, किन्तु मुद्रा० उससे किसी भी प्रकार पीछे नहीं है । मृच्छकटिक के समान न केवल इसमें सार्वदेशिक पात्रों का विनियोग हुआ है, प्रयितु चरित्र-

१. वही, ७।१५,

२. मुद्रा० भूमिका : प्रो० ध्रुव, पृ० १६,

३. हृष्टदेव : इन्द्रोऽक्षशन दु दि स्तडी श्रौंक मुद्रा० ११५-२३,

गत विविधता का भी यही अभाव नहीं है ।<sup>१</sup> मुद्रा०, क्योंकि एक पठ्यन्त्र-प्रधान राजनीतिक नाटक है अत इसमें सभी से सम्बन्धित अनेक विधि पात्रों की अवतारणा हुई है । मुख्यतः इसमें विशाखदत्त न वर्ग भावना के आधार पर परस्पर विरोधी युगल पात्रों का विनियोग किया है जिससे एक और उसे सधर्प-प्रधान राजनीतिक वातावरण के निर्माण में सहायता मिली है तो दूमरा और चरित्र विकास को भी पर्याप्त अवसर मिला है । मुद्रा० में दो राजा हैं, दो मनी हैं तथा दो मित्र हैं । नि मेन्देह, सस्कृत नाटकों में यह द्वन्द्वपात्रों की अवतारणा सर्वथा अतृष्णी है ।

मुद्रा० में चिह्नित विशाखदत्त का चाणक्य महात् कूर्मीतिक, दृढप्रतिज्ञ, निष्पृह तथा वत्सल है । उसमें अपार मन्त्रशक्ति तथा अटूट बुद्धिवल है । उसवे कार्य इतने पचीद हैं तथा अक्षर-अक्षर इतना रहस्यपूरण है कि फल आने पर ही उसका प्रयोजन तथा साधेकर्ता ज्ञात होती है । राक्षस भी महात् नीतिज्ञ, निष्वार्थ तथा दृढ प्रतिज्ञ है किन्तु उसमें भावुकता तथा हृदयपक्ष अधिक है जो कि राजनीति के लिलाडी को उपयित नहीं होता । यही कारण है कि वह नीति के खेल में बाजी खो देता है । ढा० व्यास के शब्दों में चाणक्य स्पष्ट बुद्धि, आत्मविश्वासी तथा अप्रमत्त है; राक्षस भावुक औसत तथा गलती करने वाला है । चाणक्य की नीति गुप्त है, वह किसी पर विश्वास नहीं करता, राक्षस अप्पत है, दमापूरण है तथा हर एक पर विश्वास करता है । यह हर एक पर विश्वास करना ही राक्षस का पतन कराता है<sup>२</sup> वैसे चाणक्य में भी मानवसुलभ हृदय है, अनेक वह नन्दों के तिरस्कार से तिलमिला, उठना है । वह चन्द्रगुप्त वा सहृदय गुरु है, तथा शिष्यों की मन स्थिति वा पारदर्शी भी; किन्तु उसका राजनीतिक व्यक्तित्व गमोर तथा कठोर है; जबकि राक्षस इतना अधिक भावुक है कि मृत नन्दों की स्वामीभक्ति के बारण अनेक बठिनाइयों को भेलते हुए भी चाणक्य से प्रतिशोध लेने को समझ होता है और मित्रप्रेम के कारण ही आत्मसमर्पण करके चाणक्य के सामने घुन्ने टेक देता है ।

यही नहीं, वल्कि विशाखदत्त का चाणक्य कर्मवादी है अतएव वह भाग्य पर विश्वाश रखने वालों को मूर्ख मानता है ।<sup>३</sup> वह इतना बुद्धिवादी भी है कि बुद्धिवल के रहते अनन्त शत्रुमन्य को भी कुछ नहीं समझता, <sup>४</sup> जबकि राक्षस निरा भाग्यवादी है और भाग्यवादी राजनीति का सच्चा लिलाडी नहीं हो सकता । यद्यपि विशाखदत्त

१ वही पृ० ८५,

२ स० क० दर्शन पृ० ३७३,

३ देवभविद्वान्स - प्रमाणयन्ति मुद्रा०,

४. मुद्रा० १२६,

का चाणक्य कोधी अवश्य है, किन्तु उसका कोध आत्मसम्मान पर ग्रांच आने पर ही व्यवत होता है। इसके अतिरिक्त विशाखदत्त ने इस कोध व्यक्ति द्वारा उसके प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्तित्व को भी मूर्तंहृष देने की सफल चेष्टा की है।

चन्द्रगुप्त वा चरित्र भी मलयकेतु के ठीक विपरीत है, और इस विपरीत चरित्र-योजना द्वारा नाटककार ने चन्द्रगुप्त के चरित्र को जीवन्त रूप दिया है। विशाखदत्त का चन्द्रगुप्त एक योद्धा, पुरुषार्थी उदात्तचरित्र तथा आज्ञा-पालक है। वह इतना विनम्र है कि प्रतिद्वन्द्वी राक्षस भी उसकी विनम्रता तथा गुरुभक्ति का प्रणासक है; जबकि मलयकेतु अहंमन्य, उद्भृत, राज्यलोलुप तथा उच्छ्रुत खल है। वह डतना अविवेकी है कि शत्रु के जाल में फौंफकर हितेपी राक्षस को अपशब्दों से तिरस्कार करके निष्कासित कर देता है। इसी प्रकार विशाखदत्त ने अन्य पात्रों को भी सजीव तथा प्राणवान रूप दिया है। यहाँ तक कि विद्वानों के ग्रनुसार मुद्राराक्षस के पात्र तथा मृच्छकटिक से भी अधिक जीवन्त हैं।<sup>१</sup> वस्तुतः मुद्रा० के सभी पात्र वैयक्तिकता से सम्पन्न हैं तथा सभी का सफल चरित्र-चित्रण हुआ है। वह विशाखदत्त की सशक्त लेखनी का चमत्कार ही है कि वह गुह गंभीर विषय को विना हल्के-फुल्के बातावरण के लोकप्रिय बनाने में सफल हुआ है।

मुद्रा० के नायक के सम्बन्ध में भी पर्याप्त विवाद है। कुछ विद्वान् चन्द्रगुप्त को नायक मानते हैं तो कुछ राक्षस को और कुछ चाणक्य को। डा० देवस्थली ने राक्षस को ही नायक माना है।<sup>२</sup> सामान्यतः वे नाटक के शीर्षक तथा उसके भावुक पक्ष एवं संघर्षजील व्यक्तित्व आदि के कारण उसमें पक्षपात दिखाते हैं, किन्तु वास्तविकता यह है कि वह प्रतिनायक है। भावुकता की अधिकता एक राजनीतिक व्यक्तित्व की टृटि ने उसकी कमज़ोरी है। इसी प्रकार उसका सतत संघर्ष करना तथा उत्थान-पतन से निकलकर भी सफलता प्राप्त न करना उसकी अशक्ति तथा पराजय का ही द्योतक है। उसे नायक मानने पर वास्तव में मुद्रा० का कोई महत्व ही नहीं रह जायगा और न तब इसका अंगीरम बीर रहेगा। हाँ, भारतीय सिद्धान्त के पक्षपाती चन्द्रगुप्त को अवश्य नायक मानना चाहेंगे, किन्तु नाटक के सूझम अव्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि विशाखदत्त ने चाणक्य को ही नायक मानकर नाट्य-सृजन किया है। चन्द्रगुप्त चाणक्य से अत्यन्त गीरण है, तथा वह उसका आज्ञा-पालक मात्र है। नाटक में उसकी भूमिका महत्वपूरण नहीं है। अतः चाणक्य को ही नायक मानना उचित समझते हैं। क्योंकि वह आदि से अन्त तक समस्त नाटक पर छाया रहता है तथा चन्द्रगुप्त की सफलता का उसी को श्रेय है।

१. देखो हिन्दू श्रांक संस्कृत लिङ्ग०, दासगुप्ता, पृ० २६४,

२. इन्द्रोडशन टू दि स्टडी श्रांक मुद्रा देवस्थली, पृ० ६६-१०१,

## शैली :

विशाखदत्त की शैली विषयानुरूप पौरूष प्रधान तथा समस्त पर ग्राहावरहीन है। भाषा पात्रों के अनुकूल है, अतएव शौरमनी, मार्गधी तथा महाराष्ट्री—तीन प्राकृतों का प्रयोग किया है। विशाखदत्त ने मुद्रा० म लक्षण को प्रभुवता नहीं दी है। वेसे, इसमें शरद् वरण आदि के प्रसग में काव्यात्मक स्थलों का भी विनियोग हुआ है, किन्तु वह भी नाट्यप्रवाह म वाघक नहीं बने हैं। नाटक के काव्यात्मक स्थल अलकार से खोभिल न होकर प्रासादिक तथा मूल विषय की अभिव्यजना के सहयोगी बनकर ही आये हैं। धून भी शैली के अनुरूप हैं, अतएव अग्नवरा तथा शार्दूलविक्रीडित जैसे धन्दों का प्रयोग हुआ है, जिनसे गम्भीर वातावरण के निर्माण में पर्याप्त सहायता मिली है। मुद्रा० का मुख्य रूप वीर है, किन्तु यहाँ वेणीसहार के समान वीर की निष्पत्ति नहीं हुई है, जहाँ रत्तपात, मार-घाड, गर्जन-तर्जन तथा शस्त्रास्त्रों की टकार होती हो। यहाँ तो वीद्विक सधर्ष तथा राजनीति के दावपेचों का ही प्रदर्शन हुआ है। कीय के अनुसार इसमें भारतीय राजनीति को यथार्थत व्यावहारिक प्रयोग हुआ।<sup>१</sup>

वस्तुत विशाख की शैली व्यक्तित्व प्रधान है। इससे न केवल उम्रका व्यक्तित्व सामने आता है, अपितु पात्रों के जीते जागते व्यक्तित्व को उभासने की भी सफल चेष्टा की है। इसपे दो मत नहीं कि मुद्रा० म चाणक्य के व्यक्तित्व के अनुरूप सक्षालीन राजनीति का सफलता के साथ मूर्त्तरूप दिया गया है। इसके अतिरिक्त, घटना, पात्र तथा सम्बन्ध वस्तु सभार मुनियोजित सुसम्बद्ध तथा लक्ष्योन्मुखी है। नाट्याधारण में ग्रामाधारण त्वरा है, पद्यत्र-प्रधान राजनीतिकता से मपृक्त घात प्रतिघात के द्वारा वीर की सहज अभिव्यजना हुई है, औजस्वी वातावरण का निर्माण हुआ है, प्राणवत्ता एव रमवत्ता का विनिवेश हुआ है और इसी का परिणाम है कि मुद्राराक्षस में इतिहासक की भी सहस्र अभिसृष्टि हुई है।

सामान्यत मुद्रा० का नाट्यविधान हस्यात्मक है। कुछ विद्वानों न चारणक्य तथा राक्षस की लम्बी लम्बी स्वोक्तियों को इस हृष्टि से दोष माना है।<sup>२</sup> किन्तु वास्तविकता यही है कि विशाखदत्त न उनका प्रयोग उन पात्रों के व्यक्तित्व को ध्यक्त करने के लिये इस प्रापार किया है कि वह दोष नहीं प्रतीत होती। वह उनकी मनःस्थिति की द्योतना है। मुद्रा० की घटनाओं म तीक्ष्णा तथा गत्यात्मकता आदि इसकी कुछ मुख्य विशेषतायें हैं। जिनके फलम्बरूप कुतूहल बना ही रहता है और विषय की गम्भीरता का आभास नहीं होता। वस्तुविधान की हृष्टि से यदि दखा जाय तो कृत्रिम

१. सस्कृत ड्रामा पृ० २०८,

२. हिंदी औंक सस्कृत लिट० दासगुप्ता, पृ० २७०,

कलह, चन्दनदास का महान् उत्सर्ग तथा राक्षस के आत्म-समर्पण का हृश्य अत्यन्त प्रभावोत्पादक तथा सर्वोत्कृष्ट है। निष्कर्पतः यह नाटक प्रत्येक हृष्टि से मौलिक तथा सफल है।

## सांस्कृतिक चित्रण

मुद्राराक्षस एक विशुद्ध राजनैतिक नाटक है। अतः लेखक को इसमें तत्कालीन सस्कृति के सर्वांगीण चित्रण का यथोचित अवसर नहीं मिल सका है, तथापि कुछ विद्वानों ने अत्यन्त सूक्ष्म पर्यवेक्षण द्वारा तत्कालीन समाज की रूपरेखा दी है।<sup>१</sup> अतः हम यहाँ उसकी पुनरावृत्ति उचित नहीं समझते। तथापि संक्षिप्त सर्वोक्षण के रूप में विशेष विन्दुओं का निर्देश करना अप्राप्तिगिक भी प्रतीत नहीं होता। इसके अतिरिक्त, क्योंकि मुख्यतः इसमें राजनैतिक सिद्धान्तों, विचारों, मान्यताओं एवं पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग हुआ है तथा अधिकांशत इसका रूपायन अर्थशास्त्र सापेक्ष है। परन्तु प्र० ध्रुव, श्री तंलंग तथा पंडित आदि विद्वानों ने तुलनात्मक तथा समीक्षणात्मक हृष्टिकोण से इसकी सब राजनैतिक सवित्ति पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला है।<sup>२</sup> अतः उसका भी विष्टपेपण करना महत्त्वपूर्ण प्रतीत नहीं होता। इसलिये यहाँ हम मुख्यतः राजनैतिक वातावरण के परिप्रेक्ष्य में ही तत्कालीन समाज तथा राजनैतिक स्थिति का संक्षिप्त एवं संसिलिष्ट विहंगावलोकन करना उचित समझें।

मुद्राराक्षस कालीन समाज में वर्णव्यवस्था थी, किन्तु वर्णों की स्थिति, रूप तथा कर्म में पर्याप्त अन्तर आ गया था। ब्राह्मण दान-दक्षिणा लेते थे, नैमित्तिक भोजन भी करते थे; किन्तु उनका पहिले जैसा सम्मान तथा स्थान न था। राजनैतिक क्षेत्र में ब्राह्मणवध निन्द्य न था। ब्राह्मण सेनापति, मंत्री तथा सिपाही भी होते थे। चारणक्य पंडित, विद्वान् तथा निस्पृह अवश्य था, किन्तु उसमें ब्राह्मण सुलभ कठुना का अभाव था। वैश्यों को श्रेष्ठी, शब्द प्रयुक्त है तथा मुद्रा० में चन्दनदास प्राकृत भाषी है। अतः श्री राय का अनुमान है कि संभवतः इस समय वैश्यों का स्तर निम्न हो गया था।<sup>३</sup> किन्तु मुद्रा० में कायस्थ शकटदास को आर्य कहा है तथा वह संस्कृतभाषी है। इससे ज्ञात होता है कि समाज में कायस्थों का वैश्यों से उच्च स्थान था। वंसे कायस्थ लेखक तथा बुद्धिमान होते थे। मृच्छा० में चारुदत्त को श्रेष्ठी शब्द तो प्रयुक्त है पर यह संस्कृत भाषी है। अतः जान पड़ता है कि अब समाज में पर्याप्त अन्तर आ चुका

१. हृष्टव्य : इन्ट्रोडक्शन टु दि स्टडी ऑफ मुद्रा० देवस्थली पृ० १२८-४१,

२. हृष्टव्य : उपर्युक्त विद्वानों द्वारा संयादित मुद्रा० तथा मुद्रा० सं० आर० एस० वालिस्वे, पृ० २८-४३ तथा नोट्स पृ० १५-१६, आदि,

३. मुद्रा० : श्री शारदारंजन राय, पृ० १७,

था। नाटक में वृपल शब्द 'अवश्य' प्रयुक्त है, पर इसका तात्पर्य शूद्रों से नहीं है।<sup>१</sup>

मुद्रा० से तत्कालीन मित्र-मित्र, पति पत्नी तथा पिता पुत्र के सामाजिक सर्वधों पर भी प्रकाश पड़ता है। उम समय मित्र एक दूसरे को हर्ष फूर्खे प्राण त्याग करने को प्रस्तुत कहते थे।<sup>२</sup> भयकर दोग से पीड़ित, राजक्रोध के पात्र तथा स्त्री में प्रासरण व्यक्ति जिम प्रनार ग्रन्ति प्रवेश कर जाते थे उमी प्रसार एक मित्र दूसरे मित्र के नष्ट होने पर ग्रन्ति में प्रविष्ट हो जाता था।<sup>३</sup> पत्नी का पति सर्वमृत होता था, अत पति की मृत्यु के बाद स्त्रियाँ भृती होती होना थे यस्वर समझनी थी।<sup>४</sup> पुत्र भी पिता की आज्ञा पालन तथा दक्ष्यापूर्ति को कठिवद्ध होते थे।<sup>५</sup> विवाह सम्धा के सम्बन्ध में ज्ञात होता है कि कुलवधू बढ़ी में समादर रखती थी।<sup>६</sup> गोवान्तर में पुनर्विवाह हो जाते थे। पुनर्जन्म में भी विश्वामय था। इसके अतिरिक्त शिखा खोलकर ब्राह्मण द्वारा प्रतिज्ञा वरना, ग्रहण में विश्वास, वामाक्षिस्पदन तथा क्षयरात्र-दर्शन को अनिष्ट सूचक मानना,<sup>७</sup> मर्म दर्शन को शभ मानना, आद्व तथा दान में विश्वास आदि लोक मान्यतायें भी प्रचलित थी। गामान्यत ज्योतिष आदि में धर्मिक विश्वामय था। भवन-प्रवेश,<sup>८</sup> रणयात्रा<sup>९</sup> तथा साधारण गमनागमन<sup>१०</sup> में भी लम्ब, मूर्त्ति, नक्षत्र तथा शकुन का घ्यान रखते थे।

धर्मिक दृष्टि से अवनारकाद का प्राकृत्य था। जिव, विष्णु वराह तथा सूर्य आदि का नाटक में चलेय हुआ है। इसके अतिरिक्त यमउपासन की नाटक में महस्य पूर्ण अवनारणा हुई है। सामान्यत ब्राह्मण धर्म के अतिरिक्त जैन तथा बौद्ध धर्म के प्रति भी विश्वासदस न उदारता व्यक्त की है, तथापि जान पड़ता है कि जैन धर्म के प्रति धृष्णा होती जा रही है। धमणक यो अनिष्ट सूचक माना जाता था तथा उमवा परिहास भी रिया जाता था। वैसे बौद्धों को अज्ञानरोग का चिकित्सक भी बहा

१. विशेष देखिये, हमारा इसी ग्रन्थाय का ऐति० विवेचन,

२. मुद्रा० ११५,

३. वही, ११६,

४. वही ७१३-४,

५. वही, ६१५,

६. वही ६१८,

७. वही ५११-२,

८. वही २११-१६,

९. वही ५१८-२१,

१०. वही ५१२-३,

है।<sup>१</sup> विशाखदत्त रवयं ब्राह्मण धर्म में निष्ठा रखता था तथा उसने कट्टर ब्राह्मण चारणक्य के व्यक्तित्व के अनुरूप ही नाटक में ब्राह्मण-धर्म-सापेक्ष वातावरण की अभिसृष्टि की है।

मुद्रा० में मौर्यकालीन पाटलिपुत्र के सुगांग प्रासाद का भी उल्लेख हुआ है तथा तत्कालीन ऐतिहासिक उत्सव “कोमुदी महोत्सव” का भी वर्णन है।<sup>२</sup> इससे जात होता है कि यह एक उत्सव था जिसमें नागरिक स्त्री पुरुष ही नहीं अपितु राजा भी सोहसाह सम्मिलित होता था। मुद्रा० से यह स्पष्ट है कि यह उत्सव शरद में संभवतः कार्तिक की पूर्णिमा को मनाया जाता था। इसके अतिरिक्त भौगोलिक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण उल्लेख कुलूत, मलय, काश्मीर, सिन्धु तथा पारस देश का और खस, मगध, गान्धार, चेदि, हुगा, शक, यवन, किरात, काम्बोज, पारसीक तथा बाह्लीक आदि का हुआ है।<sup>३</sup> अनेक विद्वानों ने इनकी ऐतिहासिकता तथा स्थिति के संबंध में विचार भी किया है,<sup>४</sup> किन्तु हुरा आदि के संबंध में मतभेद है। अतएव कुछ विद्वानों ने कुछ उल्लेखों को अन्तिहासिक माना है।<sup>५</sup> किन्तु वास्तविकता यह है कि उपर्युक्त उल्लेखों में सामान्यतः यद्यपि मौर्यकालीन एवं वस्तु सापेक्ष देश तथा जाति का ही निर्देश किया गया है; तथापि यदि वोई १-२ उल्लेख ऐसे हो गये हों, जिनका उस काल में अस्तित्व संदिग्ध है तो उसे नाटककार के देशकाल का प्रभाव ही माना जा सकता है और वह सम्भव होने से क्षम्य है। हम तो यह स्पष्ट कर चुके हैं कि संस्कृत के नाटकों में प्रायः नाटककार के देशकाल सापेक्ष उल्लेखों की ही बहुलता होती है, किन्तु विशाखदत्त ने अर्थशास्त्र आदि का आश्रय लेकर यथासम्भव मौर्यकालीन वातावरण के अभिसृजन की सफल चेष्टा की है तब भी यदि कोई देश-काल विरुद्ध उल्लेख हो गया है तो उसे विशेष महत्त्व दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।

विशाखदत्त ने अपने ऐतिहासिक नाटक में राजनैतिक तथा ऐतिहासिक वातावरण का निर्माण जिस सफलता से किया है उससे मौर्यकालीन राजनीति का सजीव चित्र आँखों के सामने उत्तर आता है। मुद्रा० के राजनैतिक चित्रण से यह प्रकट होता है कि वह युग अभिचार का युग था। उसमें पड़यन्त्रों की प्रचुरता थी। कूटनीति तथा वृद्धि के आश्रय से ही राजनीति के खेल खेले जाते थे। वैसे, वह नृपत्र का युग

१. मुद्रा० ४१८, ५१२,

२. देखिये, मुद्रा० २१०, तथा ८० अंक

३. वही ११२०, २१२-१३, ५११ आदि,

४. दृष्टिव्य, मुद्रा० : पंडित तथा तैलंग द्वारा संपादित,

५. मुद्रा० : पंडित, प० २११,

या । वही मुख्य प्रकृति होना था,<sup>१</sup> किन्तु वह स्वतंत्र नहीं, अपितु पराधीन प्राप्य होना था ।<sup>२</sup> राज्य में राजा के बाद सचिव वा ही स्थान था, तथमार उसी पर होता था । वही राज कायों का नियमन करता था ।<sup>३</sup> किन्तु राजा कभी-कभी आमात्य का निरस्कार भी कर देता था तथा मरवा भी सकता था । मुद्रा० में तीन मिद्धियों का उल्लेख हुआ है । सचिवायत्, राजायत तथा उभयायत् सिद्धि ।<sup>४</sup> नाटक में स्पष्ट है कि तत्कालीन राज्य उभयायत ही था ।<sup>५</sup> प्रभुशक्ति तथा मन्त्रशक्ति दोनों के सहारे ही राज्य स्थित रह सकता है । वैसे, राजा का घर्म प्रजारक्षण था तथा वही राज्य के प्रति उत्तरदायी था,<sup>६</sup> किन्तु राजा की त्रुटि वा दायित्व मन्त्री पर ही होना था ।<sup>७</sup> पर राजा वा गोरख इसी में था कि वह मन्त्री के परामर्जन को महत्व द ।<sup>८</sup> राजसेवा भवावह होती है । राजा और सर्वे को मुद्रा० में एक दोटि में रखा है ।<sup>९</sup> राष्ट्रचिन्तक तथा पाण्डुष्पचिन्तक ही राज सेवा कर सकता था ।<sup>१०</sup> सधिविग्रह आदि गुणों तथा साम-दाम-दण्ड-भेद रूप उपायों द्वारा आमात्य ही राज्य सचालन में समर्थ होना था ।<sup>११</sup> चाणक्य भी अहनिश इसी में चिन्तनस्त रहता था ।<sup>१२</sup> वैसे, इस समय भी पितृ परम्परा से राजनीति चलता था,<sup>१३</sup> पर उत्तराधिकारी आयोग होने पर उसे राज्य में वचित होना पड़ता था । चाणक्य के समय राजा वा अभिजन हाना आवश्यक था । मन्यथा गोत्रान्वर का व्यक्ति भी राज्याधिकारी हो सकता था ।<sup>१४</sup> राज्यकानि मत्रियों के इशारे पर हो जाती थीं । कभी कभी मन्त्री म्वेच्छा से भी राष्ट्र तथा राजा के हित की बासना में पदत्वाग न देते थे तथा मन्त्री पद की प्रतीक तलवार को दूसर को सौंप देते थे ।

१. मुद्रा० ११५-१६,

२ वही, ३१४,

३. यही, ११५-१६, ३१२३-२४,

४. वही, ३१६-२०,

५ वही, ४१२-१४,

६ वही, ३१४ आदि

७. स दोष सचिवस्मेव यदसत् कुरुनृप ३१३२,

८. वही, ३१३३,

९. वही २११-२,

१०. वही

११. वही ६१४-५,

१२. वही ७११३,

१३. वही ४१५,

१४. वही ६१५,

नाटक से यह भी ज्ञान होता है कि चारणक्य के समय द्वैराज्य के शासन-विवान की अपेक्षा एकत्रंत्र को ही अच्छा समझा जाता था।<sup>१</sup> पर्वतेश्वर को इसी कारण मरवा दिया गया था। राष्ट्रीय भावना का महत्व अधिक था। दण्ड व्यवस्था कठोर थी। बगावत करने वालों को प्राणहर दण्ड दिया जाता था। या तो उन्हें जिन्दा गढ़वा दिया जाता था या हाथियों से कुचलवा दिया जाता था।<sup>२</sup> अपराधियों को जेल में बन्दी बनाया जाता था। राजाओं के पास दुर्गं तथा विशाल सेना होती थी। हाथी तथा घुड़सवार आदि सेना के ग्रंग होते थे। स्वदेशी सैनिकों के अतिरिक्त बाहर के मुख्यतः पहाड़ी सैनिकों का महत्व ज्यादा था। संन्यावास पृथक् होता था। पड़यंत्रों के समय संन्यावास में प्रवेश तथा निर्गमन निपिद्ध हो जाता था। राज-मुद्रा या मुद्रित पत्र लेकर ही श्रा जा सकते थे।<sup>३</sup> संन्य-प्रयाण व्यूहवद्ध होते थे। सेना भी कोष के समान एक साधन मानी जाती थी। नाटक में कालपाणिक तथा दण्डपाणिक नामक अधिकारियों का भी उल्लेख है।<sup>४</sup> सम्भवतः ये मुलिस अधिकारी नगराध्यक्ष होते थे। इस समय राज्य-संचालन, शासन-व्यवस्था तथा सधि-विग्रह आदि में गुप्तचरों का बहुलतः आश्रय लिया जाता था। गुप्तचर अनेक भाषानिषुण तथा विभिन्न वेषधारण पद्ध होते थे। तीक्ष्ण-रस, विचूर्ण, विपरल, वियकन्या, यंत्रोरण तथा कूटलेख आदि का नाटक में व्यावहारिक प्रयोग हुआ है। उस समय सुरंगों का भी प्रयोग होता था। विद्वानों के ग्रनुसार सुरंग खोदने की परम्परा सिक्कन्दर के बाद प्रचलित हुई। संक्षेप में, इतना ही कहा जा सकता है कि कौटिल्य के ग्रथंशास्त्र में जिस राजनीतिक विचारधारा का विस्तृत उल्लेख हुआ है, विशालदत्त ने मुद्रा<sup>०</sup> में नाटकीय रूप देकर उसका सफल तथा यथार्थ व्यावहारिक प्रयोग करके दिखला दिया है।

### मुद्राराक्षस का महत्व :

उपर्युक्त सक्षिप्त समीक्षण के पश्चात् विचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि समस्त संस्कृत नाट्य-साहित्य में मुद्राराक्षस का अद्वितीय महत्व है तथा अपना निजी स्थान है। अभिज्ञानशाकुन्तल को यदि छोड़ दें तो भवभूति के उत्तररामचरित में रससिद्धि भले ही मिल जाय, पर नाटकीयता, चरित्र-चित्रण की सफलता एवं प्रभावान्विति का अस्तित्व नहीं माना जा सकता। संस्कृत के सुप्रसिद्ध और रसप्रधान नाटक वैणीसंहार को यदि लें, तो वह भी मुद्रा<sup>०</sup> की तुलना में असफल ही दीख पड़ता है।

१. मुद्रा० ३।२४-२५,

२. वही ५।२१-२२,

३. वही ५।८-१०,

४. वही १।४-५,

उसमें न तो मुद्रा० जैसी गत्यात्मकता है, न व्यापारान्विति ही है। यही नहीं, बल्कि इसका अनुविधान दोषपूर्ण है, शैली में वृत्तिमता तथा कलात्मक खिलवाड़ अधिक है तथा दृश्यात्मकता का अभाव है। भट्टनारायण ने इसमें मुख्यत शैली के चमत्कार द्वारा वीर रस की उद्भावना करनी चाही है, परं जिस वीर की मुद्रा में उद्भावना हुई है। उसमें इसका सर्वथा अभाव है। चरित्र-विशेषण की दृष्टि से स्त्रीता नाट्य-साहित्य में मृच्छ० को महत्व दिया जाता है। किन्तु हम स्पष्ट कर चुके हैं कि चरित्र-गत विविधता प्रादि की दृष्टि से मुद्रा० उसमें किसी भी प्रकार कम नहीं है। बल्कि दूसरी ओर श्रोजस्वी एवं संशक्त शैली, गत्यात्मकता एवं प्रभावऐक्य के कारण मुद्रा के चरित्र अधिक जीवन्त है।

स्त्रीता के ऐतिहासिक नाटकों में प्रतिज्ञायोगन्धरायण अवश्य ऐसा है जो वीर-प्रधान है जिसमें स्त्री पात्र का अभाव है और जिसमें घड़यत्र तथा कूटनीति का ही विलास है। किन्तु इसमें भी न तो ऐतिहासिक नाटकों की अनिवार्यता के अनुरूप उत्तमा ओजस्विता है न गत्यात्मकता है और न सघर्ष, धातप्रतिधात तथा अन्तदृढ़ि में सपृक्त वातावरण है। अतः हम यही मानते हैं कि समस्त स्त्रीता नाट्य साहित्य तथा ऐतिहासिक नाटकों में मुद्रा० ही एक पात्र ऐसा नाटक है जो प्रणय के धारातल से सपृक्त विशुद्ध राजनीतिक तथा ऐतिहासिक वातावरण में विनष्ट है। जिसमें नाट्य-मूलम नाटकीयता, प्रभावात्मकता, कार्यव्यापार की त्वरा एवं शैली में ओजस्विता, तोषणता तथा यथार्थता है। जिसकी शैली में गामीय की गरिमा है, कथा धारा में समरसता तथा यथार्थपर्कता है, एवं दर्शक के गठन में एक अद्भुत मौलिक व्यवस्था है।

अन्त में, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसके ऐतिहासिक महत्व का मूल्यांकन करें तो वह अवश्य विवादास्पद ठहरता है। हरिकृष्णदेव ने इसे ऐतिहासिक मूर्खताप्रेरण से पूर्ण माना है,<sup>१</sup> तो कौथ मटोदय इसे बढ़त सदिग्द भानते हैं।<sup>२</sup> जबकि श्री यामस इसे मौर्यवंश की स्थापना से सबधित घटनाओं की विहगम रूपरेखा से युक्त मानते हैं।<sup>३</sup> यद्यपि हम इसकी ऐतिहासिकता पर विस्तार से विचार प्रक्रिया कर चुके हैं और उससे स्पष्ट हो चुका है कि इसकी एकाधिक घटनायें न वेदवाक् विवादास्पद हैं, अपितु सदिग्द भी हैं। किन्तु यह एक नाटक है तथा इसकी रचना ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हुई है। अतः इसमें वित्तनी ऐतिहासिक घटनायें हैं इसकी अपेक्षा यह देखना अधिक महत्वपूर्ण है कि नाटककार ने इसमें इतिहास को भ्रष्ट तो नहीं किया है? हम सम-

१ स्त्रीता द्रामा, कीथ, पृ० २०५, फुटनोट,

२. इ० हि० ववा, वात्यूम ८ पृ० ४७६,

३. कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, वात्यूम १, पृ० ४६७,

भते हैं कि विशाखदत्त ने इतिहास को भ्रष्ट नहीं किया है। यही नहीं, वल्कि उसने नन्दोग्मूलन की सुप्रसिद्ध शात घटना के भी आगे की अज्ञात घटनाओं को संभाव्यता एवं औचित्य के आधार पर यथार्थ एवं सजीव रूप में विनयस्त करके भारतीय इतिहास में एक अध्याय जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया है, और यही इसकी उपलब्धि एवं सफलता है। अतः हम मुद्राराक्षस को इतिहास-नस से युक्त, ऐतिहासिकता से संयुक्त उच्च कोटि का ऐतिहासिक नाटक स्वीकार करते हैं और हमारा विश्वास है कि इस प्रकार के सफल ऐतिहासिक नाटक न केवल संस्कृत में, अपितु अन्य भाषाओं में भी विरल है।

### (आ) देवीचन्द्रगुप्तम् (अपखण्ड) :

देवीचन्द्रगुप्तम् नाटक अपखण्ड के रूप में प्राप्त हैं। वं० रामकृष्ण कवि ने “शृंगार प्रकाश” से दो उद्धरण खोजकर (विशाखदेव) विशाखदत्त की इस ऐतिहासिक कृति का प्राकट्य किया। सर्वप्रथम १६२३ में फैंच विद्वान् सिलवर्भेदी ने “नाट्य दर्शण” से भी कुछ उद्धरण प्राप्त करके इस पर प्रकाश डाला, वाद में श्री वनर्जी ने भी प्रकाश डाला। इसी प्रकार ‘नाटक लक्षणरत्नकोण,’ अभिनवभारती आदि से कुछ उद्धरण मिले। इन सब के आधार पर नाटक की कुछ रूपरेखा निश्चित हुई, उन पर आधारित संभावित कथानक इस प्रकार है।

### नाटक का कथानक :

रामगुप्त एक बार किसी शकपति से परामर्श होकर इस प्रकार विर गया कि संघि की शर्तों को स्वीकार करने पर ही वह मुक्त हो सकता है। संघि की शर्तों के अनुसार उसे अपनी पत्नी ध्रुवदेवी शकपति को देनी है तथा अपने सरदारों की पत्नियाँ उसके सरदारों को। रामगुप्त ने इन शर्तों को स्वीकार कर लेता है। ध्रुवदेवी इस बात से बहुत दुखी होती है। चन्द्रगुप्त उसकी इस अवस्था को देखकर छुटकारे का उपाय सोचने लगता है और वह वैताल-साधना का निश्चय करता है। किन्तु विद्वापक आत्रेय के इस प्रश्न पर कि वह क्या रात्रि से बाहर जा सकेगा, उसका विचार जाता रहता है। तभी माधव सेना की दासी आती है और उसके जाने का समाचार कहकर तथा ध्रुवदेवी के वस्त्राभूपरण वहीं छोड़कर ध्रुवदेवी को खोजने निकल जाती है। वस्त्राभूपरणों को देखकर चन्द्रगुप्त के मन में छद्मवेश का विचार आता है। विद्वापक अकेले शत्रुघ्निविर में जाने को तत्पर चन्द्रगुप्त से जब आशंकित होकर पूछता है, तब नायक चन्द्रगुप्त एकचारी सिंह से उदाहरण देता हुआ अपने पराक्रम, साहस तथा दृढ़ निश्चय को बतलाता है।—द्वितीय अंक के प्रारम्भ में प्रजा को आश्वासन देने के लिये ध्रुवदेवी को शत्रु को देने को प्रस्तुत रामगुप्त ध्रुवदेवी के वेश में शत्रुघ्नि चन्द्रगुप्त के प्रति मातृस्नेह प्रकट करता है। तभी

ध्रुवदेवी भी नेपथ्य में उपस्थित होकर उनकी बातें सुनती हैं तथा अन्य स्त्री की आशंका से मनोव्यवहा व्यक्त करती है। अन्त में चन्द्रगुप्त स्त्रीवेश में शशु के वध के लिये धनु गिरिर में चला जाता है—तृतीय में रामगुप्त के शिविर में बुद्ध साधारण पात्र चन्द्रगुप्त के साहस का व्याखान करते हैं, पर इसका कोई महत्त्वपूर्ण अश प्राप्त नहीं है। इस भक्त में शक्तवध ही जाता है। चन्द्रुं श्रवक में माधव सेना के प्रति चन्द्रगुप्त की आसक्ति व्यक्त होती है। पचम में अपने यपाय की आशका से चन्द्रगुप्त की छृतबोन्मत्त के रूप में अवतारणा है तथा वह जय शास्त्र के साथ राजकुल प्रवेश के सकल्प को व्यक्त करता है। यहाँ उन्मत्त वेश में उसके राजकुल प्रवेश की सूचना भी मिलती है। आगे का इतिवृत्त अज्ञात है।

देवी० के उपर्युक्त प्राप्त उद्धरणों में स्पष्ट है कि यह नाटक ५ अक्ष से बड़ा रहा होगा, वयोङ्कि ५ वें अक्ष के उद्धरणों से नाटक का उपसंहार प्रतीत नहीं होता। उपलब्ध उदाहरणों के आगे के वृत्त में रामगुप्त का वध हुआ होगा। शीघ्रके अनुसार अन्त में ध्रुव देवी का चन्द्रगुप्त के साथ परिणय आदि भी हुआ होगा। अत कम से कम इसमें ६—७ अक्ष रहे होगे। प्र० ध्रुव का भी यही मत है।<sup>१</sup>

### देवचन्द्रगुप्त की ऐतिहासिकता :

प्रस्तुत नाटक में चन्द्रगुप्त तथा ध्रुवदेवी दोनों गुप्त ऐतिहास के सुप्रसिद्ध पात्र हैं। सुत्रधारिणी डा० राघवन् के अनुसार सभवत मालविकारिनमित्र की पढिता वीरिकी जंसी है जो कि रानी के साथ रहती है।<sup>२</sup> माधवसेना गणिका है तथा आत्रेय विद्यूपक। डा० राघवन् के अनुसार यह प्रकरण है।<sup>३</sup> अतः इसका समस्त ऐतिवृत्त ऐतिहासिक नहीं हो सकता, तथापि नाटक के उपलब्ध अश से यह स्पष्ट है कि इसमें नाटकार ने लोगसंघर्ष के रूप में चन्द्रगुप्त, रामगुप्त, ध्रुवदेवी से संविधित ऐतिहासिक वस्तु का मुख्यतः विनियोग किया है। किन्तु नाटक के दो अन्य पात्र रामगुप्त एवं शक्तपति तथा उनसे सम्बन्धित व्यानाक की ऐतिहासिकता विदादास्पद है। इनको अनेतिहासिक मानने वाले विद्वानों के अनुसार गुप्तवश के लेखों से प्राप्त वश वृद्धि में रामगुप्त का वही भी उल्लेख नहीं है। उसमें समुद्रगुप्त के पश्चात् चन्द्रगुप्त का उल्लेख है। अतएव यह ऐतिहासिक नहीं है। किन्तु अन्य विद्वानों ने इसकी ऐतिहासिकता के समर्थन में अनेक प्रयारण एवं क्रिये हैं।

श्री गुलेरी ने (ना० प्र० परिका में) “उसो के साथ ध्रुवस्वामिनी” शीघ्रक

१. मुद्रा० मूमिका, ध्रुव, पृ० १५,

२. दि सौशल प्ले इन सस्कृत : राघवन्, पृ० ६,

३. वही, ११,

लेख में १०वीं सदी के राजशेहर की काव्यमीमांसा से एक उद्धरण दिया है। उससे ज्ञात होता है कि हिमालय के इत्स्ततः रातिकेनगर पर खस्तिपति द्वारा घेर लिये जाने पर खंडित-साहस शर्मगुप्त ने उसे ध्रुवस्वामिनी<sup>१</sup> दी। डा० भंडारकर ने इस उद्धरण में उल्लिखित खस का शक ही परिवर्तित हृष माना है<sup>२</sup> तथा श्री उपाध्याय ने शर्म को राम का दूसरा नाम।<sup>३</sup> इस प्रकार इस उद्धरण से नाटक के कथानक की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश पड़ता है। डा० सदाशिव ग्रलटेकर ने पष्ठ सदी के हृषंचरित से भी उद्धरण खोजा है। उसमें स्पष्टतः अरिपुर (शशुपुर) में स्त्रीवेश में में चन्द्रगुप्त कामुक-पति को कुचल डालने का संकेत है।<sup>४</sup> नवीं सदी के सुप्रसिद्ध टीकाकार शंकर की टीका में इसी उद्धरण को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि शकपति ने चन्द्रगुप्त की भाभी ध्रुवदेवी की याचना की, तब चन्द्रगुप्त ने ध्रुवदेवी के वेश में स्त्रीवेश से युक्त अन्य लोगों के साथ उसे मार दिया।<sup>५</sup> इसी प्रकार चारक की १२वीं सदी की टीका “आयुर्वेद दीपिका” (४।१०) में चक्रपाणि ने चन्द्रगुप्त द्वारा उन्मत्त के व्याज में भ्रातादि के वध का संकेत दिया है।<sup>६</sup>

इनके अतिरिक्त कुछ अन्य ऐतिहासिक साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रकूट के थ्रमोघवर्पं प्रथम के (द्वीं सदी के) संजनताम्बपत्र के लेख से ज्ञात होता है कि किसी दानी गुप्तराजा ने अपने भाई को मारकर उसका राज्य तथा पत्नी का अपहरण कर लिया।<sup>७</sup> यद्यपि इसमें राजा का नामोल्लेख नहीं है, तब भी उसका स्पष्ट संकेत चन्द्रगुप्त की ओर है। इसी प्रकार १२वीं सदी के इतिहास भं्य “मुजमुलत्तवारीख”

१. दत्तारुद्धगतिः खसधिमपतये देवी ध्रुवस्वामिनीम्,  
यस्मात् खडितसाहसो निवृते श्रीशर्मगुप्तो (सेन) नृपः ।  
तस्मिन्नेव हिमालेय गुरुगुहाकोणात्कृष्णतिक्तन्नरे  
गीयन्ते तव कर्तिकेय नगरस्त्रीराणं गर्हे : कीर्तयः ॥ राजशेखर०,
२. मालवीय काम० वाल्यूम, पृ० १६४,
३. गुप्त सा० इति० : वासदेव उपाध्याय, भाग १, पृ० ७३,
४. अरिपुरे (गिरिपुरे) च परकलत्रकामुककामिनी वेषगुप्तो गुप्तशचन्द्रगुप्तः  
शकपतिमध्यात्यय् । हृषंचरित्,
५. शकानामाचार्यः शकाधिपतिः : चन्द्रगुप्तमातृजायां ध्रुवदेवीं प्रार्थयमानः  
चन्द्रगुप्तेन ध्रुवदेवीवेषधारिणा लीवेषजनपरिवृतेन व्यापादितः ।
६. लपेत्यधीयते— भ्राता दिवधेन— चन्द्रगुप्त इति ।
७. हत्वा भ्रातरमेव राज्यमहरद्वे धीच्छ्रीनन्ततथा । लक्ष्यकोटिमलेखयत्किल कलीदाता  
च गुप्तान्वयः ।

## ३८२ सस्कृत के ऐतिहासिक नाटक

में राम का स्वाल तथा (चन्द्रगुप्त) विश्वादित्य का वरकमारीस के स्वप्न में उल्लेख करते हुए देवी० वे कथानक से लगभग मिलती-जुलती कथा दी है ।<sup>१</sup>

उपर्युक्त उल्लेखों से ज्ञात होता है कि (१) रामगुप्त ग्रक्तिहीन राजा या तथा उसे शकमुख्य ने घेर लिया था । (२) रामगुप्त चन्द्रगुप्त का बड़ा भाई था तथा घृवदेवी उसकी परिणीता पत्नी । (३) सधि के रूप में घृवदेवी वी याचना करने पर चन्द्रगुप्त ने स्त्रीवेश में कामुक शकपति को मारा । (४) चन्द्रगुप्त ने ही उन्मत्त के वेश में भाई को भी मारा । इस प्रकार इन सब प्रमाणों से देवी० के पात्र रामगुप्त तथा शक से सम्बन्धित कथानक वी ऐतिहासिकता प्रकट प्रकट हो जाती है । यद्यपि श्री रापाध्याय के अनुसार चन्द्रगुप्त ने सभ्यत माई की हत्या नहीं की, अपितु उसके प्रेरणों ने की होगी ।<sup>२</sup> किन्तु नाटक से यही घटनित होता है कि अपाय की आशका से स्वयं चन्द्रगुप्त ने ही उन्मत्त के वेश में हत्या की थी । इसके अतिरिक्त का जहाँ तक सम्बन्ध है, वहाँ नाटक से यह स्पष्ट है कि दोनों भाइयों में पहिले घनिष्ठ प्रेम था,<sup>३</sup> पर शकराज की मृत्यु के बाद अवश्य मनोमालिन्य दृश्या होगा ।<sup>४</sup> ढा० सहूल के अनुसार इसका कारण यह है कि या तो रामगुप्त चन्द्रगुप्त को असाधारण सामर्थ्यशाली होने से अपने लिये खतरनाक समझन लगा हो, या चन्द्रगुप्त के हृदय में राज्यतिहासन के लिये स्वभावत महत्वाकांक्षा जागी हो ।<sup>५</sup> श्री सहूल ने आगे लिखा है कि राम जैसे निर्वल शासक को पाकर मत्रियों के आत्मसम्मान को डेस लगी होगी तथा प्रजा ने भी शक के सभावित शाकमणि से सुरक्षा के लिये योग्य शासक की आवश्यकता अनुभव की होगी । अतएव उन्होंने चन्द्रगुप्त का समर्थन किया होगा ।<sup>६</sup> जो भी हो, यह तथ्य है कि रामगुप्त मारा गया । उसके राय वा अधिकारी चन्द्रगुप्त ही था, अत उसने राज्य को अधिकृत कर लिया ।

इसी प्रकार नाटक से यह स्पष्ट है कि रामगुप्त तथा घृवदेवी में पहिले पति-पत्नी सुलभ सामान्य सम्बन्ध था । किन्तु रामगुप्त की मृत्यु के बाद चन्द्रगुप्त से घृवदेवी का विवाह भी हुआ । आपातक यह अवश्य अनुचित प्रतीत होता है, किन्तु यह उस समय प्रचलित नियोग प्रया के सर्वेषां अनुकूल था । मुख्यत राम एक तो निर्वल

१. दृष्टव्य गुप्त सा० इति०, भाग १, पृ० ७०-७१,

२ गुप्त सा० इति०, भाग १ पृ० ७५,

३ दृष्टव्य : समीक्षाप्यए ग्रादि,

४ जे० वी० ओ० अरा० एस०, वाल्मीकि, १४, १६२८, पृ० २३३,

५ देखिये समीक्षाप्यए, ढा० कर्हैपा लाल सहूल के लेख,

६ वही,

तथा विशाखदत्त के शब्दों में नपुंसक था। उसने ध्रुवदेवी का घोर तिरस्कार भी किया। दूसरे, घाद में यह मारा भी गया। अतः देवर चन्द्रगुप्त के साथ ध्रुवदेवी का परिणाय न केशल शास्त्र-सम्भव था, प्रपितृ व्यावहारिक भी।<sup>१</sup>

उपर्युक्त प्रमाणों के आधार पर देवी<sup>०</sup> की ऐतिहासिकता मुव्यक्त होने पर भी रामगुप्त की मुद्रा आदि के अभाव के कारण उसे ऐतिहासिक न मानने वालों का समाधान करते हुए इतिहासकारों ने काच की मुद्राओं को राम की माना है।<sup>२</sup> अतएव श्री भंडारकर ने वास्तविक नाम काच माना है, राम उसका अशुद्ध।<sup>३</sup> श्री बल्टेकर तथा श्री उपाध्याय ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि शिलालेखों में प्रायः मुख्य वंशशृंग का ही उल्लेख है, जैसाकि चन्द्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त प्रवर्म का उल्लेख है। किन्तु गोविन्द गुप्त का नहीं। जबकि उपलब्ध मुद्राओं के आधार पर उसकी ऐतिहासिकता निःसंदिग्ध है। यदि राम का भी कोई पुत्र होता तो उसका भी उल्लेख अवश्य होता। इसके अतिरिक्त एगण के लेख से यह स्पष्ट है कि समुद्र-गुप्त के कई पुत्र थे। अतः उनमें से एक राम ही रहा होगा। राम बड़ा था, पर कायर था अतः सम्भव है यह केवल किसी प्रान्त का शासक ही रहा होगा, जबकि पराक्रमी चन्द्रगुप्त समुद्रगुप्त को अपेक्षाकृत अधिक प्रिय था अतएव उसे उत्तराधिकारी घोषित किया।<sup>४</sup> इस प्रकार डा० बल्टेकर, भंडारकर एवं वासुदेव उपाध्याय आदि प्रमेक विद्वानों ने इसकी ऐतिहासिकता प्रमाणित की है।

किन्तु, वह शकमुख्य कौन था जिससे राम का युद्ध हुआ? श्री वनजी के अनुसार यह मथुरा का शासक था, पर अन्य विद्वान् इसे ठीक नहीं मानते।<sup>५</sup> डा० बल्टेकर के अनुसार यह पश्चिमी शक क्षत्रप था।<sup>६</sup> इसका शासन सीराप्ट में था। प्रो० ध्रुव के अनुसार भी नाटक में सीराप्ट विजय का निर्देश है।<sup>७</sup> नाटक में इस संघर्ष का स्थान अलिपुर लिखा है।<sup>८</sup> पहिले कुछ विद्वान् इसका शुद्ध रूप अरिषुन्न या

१. विशेष दृष्टव्य : समीक्षायरण : सहल : “क्या रामगुप्त और चन्द्रगुप्त परस्पर अनुरक्त थे।” गुप्त सा० इति० भाग १, पृ० ७५-७७,
२. गुप्त सा० इति० भाग १, पृ० ६६-६७, ७२-७३,
३. मालतीय काम० बाल्यम्. पृ० १२६,
४. दृष्टव्य : जे. बी. ओ आर. एस. १५, १६२६, पृ० १३४-३६, गुप्त सा० इति०, भाग १, पृ० ७७,
५. गुप्त सा० इति०, भाग १ पृ० ७३,
६. जे. बी. ओ आर. एस., भाग १४, पृ० २५,
७. मुद्रा० : ध्रुव, सूमिका, पृ० १५,
८. शब्दो स्कन्धाकारं अलिपुर....।

नलिनपुर मानते थे तथा कुछ गिरिषुत्र या अलिपुर ही ।<sup>१</sup> इसकी स्थिति कुछ ने काठियावाड़ के जूनागढ़ में मानी है ।<sup>२</sup> किन्तु भडारकर के अनुसार मजूलमूत्रवारीख से यह युद्ध पर्वत-प्रदेश पर हुआ प्रतीत होता है ।<sup>३</sup> राजशेखर के उद्धरण से भी यही ज्ञात होता है कि यह युद्ध हिमालय प्रदेश में हुआ था । उसमें इसका स्थान कार्तिकेय नगर लिखा है । इस गौमती की धारी के उत्तर में अल्मोड़ा जिले बैजनाथ ग्राम के पास स्थित माना जाता है ।<sup>४</sup> भडारकर के अनुसार कार्तिकेय नगर क्तुंपुर प्रदेश में स्थित था जो कि समुद्रगुप्त का एक प्रत्यन्त प्रदेश था ।<sup>५</sup> जो भी हो, इससे इतना स्पष्ट है कि यह युद्ध पर्वत प्रदेश में हुआ । इसी आधार पर श्री वासुदेव उपाध्याय ने लिखा है कि पश्चिमी क्षत्रिय कितने ही बल में बयों न बढ़ गये हो पर यह सम्भव नहीं कि क्षत्रियों ने सौराष्ट्र से आकर हिमालय में राम का सामना किया हो उस समय पंजाब में छोटे कुपाणों का राज्य था, अत यह अधिक सम्भव प्रतीत होता है कि पंजाब में शासन करने वाली किसी बाहरी जाति ने हिमालय के पर्वतीय प्रदेश में रामगुप्त से युद्ध किया हो ।<sup>६</sup> हम भी श्री उपाध्याय के मत से सहमत हैं । वस्तुत नाटककार वी असावधानी या साधारणतया बाहरी जाति के लिये एक शब्द प्रयुक्त होने के कारण ही नाटक में यह शब्द प्रयुक्त हो गया है । इसकी पुष्टि विशाल के दूसरे नाटक मुद्रा<sup>०</sup> से भी होती है । उसको भी व्यापक होने से शक शब्द का प्रयोग इसी प्रकार हुआ है ।

यही नहीं, बल्कि हाल ही में श्री वृष्णिदत्त वाजपेयी ने रामगुप्त की ऐतिहासिकता के सम्बन्ध में कुछ नवीन तथ्यों का उद्घाटन किया है । उन्होंने लिखा है कि पूर्वी मालवा में मुख्यत एरण तथा विदिशा में रामगुप्त की कुछ ताम्रमुद्रा प्राप्त हुई है, जिन पर गद्द तथा कुछ पर शेर उत्कीर्ण है ।<sup>७</sup> प्रो॰ वाजपेयी के अनुसार सम्भवत रामगुप्त को एरण का शासक भी नियुक्त किया था । जैसे भी गुप्तों का एरण से धनिष्ट सम्बन्ध रहा है । उन्होंने अनेक तकों के आधार पर इन मुद्राओं को गुप्तवशी रामगुप्त भी माना है । उनकी सभावना है कि सम्भवत देवी<sup>०</sup> की घटना भी विदिशा में घटी हो । उन्होंने सांची और एरण के शब्दुमार के शिलालेख तथा

१. देखो, इ० ए० १६२१, जुलाई, पृ० १८१-३, तथा मुद्रा<sup>०</sup> मूमिका, ध्रुव पृ० १६,
२. मुद्रा<sup>०</sup> यही, फुटनोट,
३. मालवीय काम<sup>०</sup> वाल्पूम, पृ० १६५,
४. यही, पृ० १६४,
५. यही, पृ० ५, १६६,
६. गुप्त, सा० इति० भगी० १, पृ० ७३-७४,
७. विरोप हाष्टव्य : इ० हि० व्या० वाल्पूम, ३८, न० १, १६६२, पृ० ८०-८५,

पश्चिमी क्षत्रप के सिवकर्णों के आधार पर इसे पुष्टि करने का प्रयत्न किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने और भी संभावित प्रश्नों का समाधान करने की चेष्टा भी की है। वैसे इन नवीन खोज से यह पुनः प्रमाणित हो जाता है कि रामगुप्त ऐतिहासिक व्यक्ति है तथा देवी० का कथानक भी। पर जब तक इतिहासकार किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचते, नाटक का ऐतिहासिक समालोचन असम्भव है। हमारा तो यह विश्वास है कि नाटक के सम्पूर्णहृष में उपलब्ध होने पर ही गुप्त इतिहास से सम्बन्धित और भी अधिक और निश्चित नई जानकारी हो सकेगी।

### सामान्य समालोचन :

देवीचन्द्रगुप्तम्, जैसा कि हम लिख चुके हैं, एक प्रकरण है। यद्यपि यह शंका हो सकती है कि इसका नायक ब्राह्मण, वैश्य तथा मंत्री आदि न होकर एक राजा क्यों है? डा० राघवन् ने अभिनवभारती का निर्देश देते हुए इसका समाधान किया है।<sup>१</sup> किन्तु हमारी मान्यता है कि नाटक में चित्रित चन्द्रगुप्त राजा नहीं है। अतः उसकी स्त्रीवेश में तथा उन्पत्तवेश में रंगमन्त्र पर अवतारणा की है और यही कारण है कि नाटककार ने उसे नायक बताया है। इसकी एक नायिका कुलजा है, एक गणिका। यह मृच्छकटिक के समान अनेकविध घटना तथा चरित्रों से संकुल नहीं है।<sup>२</sup> डा० राघवन् के अनुसार इस प्रकार का कथा विन्यास करके भी यह अत्यन्त प्रभावशाली तथा अन्वितियों से युक्त है।<sup>३</sup> सुगठित योजना द्वारा इसने महात्र सफलता ही प्राप्त नहीं की है, अपिन्तु छद्मवेश, हत्या, वैतालसाधना तथा पागल के अभिनय द्वारा प्रकरण-सुलभ रोचकता की उद्भावना भी की है।<sup>४</sup> नाटक के उपलब्ध अंश से चन्द्रगुप्त के उदात्त तथा साहसी चरित्र पर भी अच्छा प्रकाश पड़ता है। इसी प्रकार ध्रुवदेवी की सहिष्णुता पतिभक्ति तथा नारी सुलभ स्वाभिमान के साथ तत्कालीन स्थियों की दशा पर भी प्रकाश पड़ता है। निःसन्देह द्वितीय अंक का छद्मवेशी चन्द्रगुप्त, रामगुप्त तथा नेपथ्य में स्थित ध्रुवदेवी का संभापण विशालदत्त की नाट्य-कुशलता का सर्वोत्तम उदाहरण है। इस योजना में नाटककार ने मार्मिक मनो-वैज्ञानिक स्पर्श किया है। डा० राघवन् ने कवि की सौन्दर्यात्मक तथा भावनात्मक अभिव्यक्ति को भी सराहा है।<sup>५</sup> वैसे यह भी मुद्रा० के समान युद्ध के बाद खुलता है,

१. देखो, दि सोशल प्ले इन संस्कृत : राघवन, पृ० ११,

२. वही,

३. वही,

४. वही,

५. दि सोशल प्ले इन संस्कृत, राघवन् पृ० ११,

## ४८६ : संस्कृत के ऐतिहासिक नाटक

तथा इसमें भी सर्वप्रथम स्त्रोक्ति के माध्यम से ही नायक की अवतारणा है। किन्तु यह उसकी अपेक्षा, यही नहीं अपितु शंखी आदि की हृष्टि से अन्य राजनीतिक नाटकों की अपेक्षा अधिक अभिव्यजनात्मक है। सम्पूर्ण रूप में इसकी उपलब्धि हीने पर, हमारा विश्वास है कि मृच्छकटिक के समान सास्कृतिक, ऐतिहासिक तथा साहित्यिक हृष्टि से संस्कृत-नाटक-साहित्य का महत्व बढ़ने की पूरी-पूरी सभावना है।

---

## तृतीय-खण्ड

संस्कृत के मध्यकालीन तथा  
आधुनिक ऐतिहासिक नाटक

## कौमुदी महोत्सव एवं हस्मीरमदमर्दन

### (१) कौमुदी-महोत्सव

सर्वप्रथम कौमुदी-महोत्सव नाटक को एक हस्त-प्रति के आधार पर श्री राम-कृष्ण कवि ने १६२७ में “जनरल ऑफ दि आन्ध्र हिस्टोरिकल सोसायटी वाल्यूम २ व ३ में प्रकाशित करवाया था। इसके पश्चात् म० म० एस० के० रामनाथ शास्त्री के सहयोग से श्री रामकृष्ण कवि ने ही १६२६ में दक्षिण भारतीय ग्रन्थमाला सं० ४ से इसे “कौमुदी महोत्सव—एक ऐतिहासिक नाटक” शीर्षक से संपादित किया।

### नाटक का नाम :

प्रस्तुत नाटक में ग्रन्थ नाटकों के समान प्रस्तावना में नाटक का नाम नहीं दिया है। सम्पादकों ने भूमिका में बतलाया है कि नाटक की हस्तप्रति के अन्त में लेखक ने “कौमुदी-महोत्सव” लिखा है तथा प्रस्तावना में “पुनरपरः प्रत्यासीदति कौमुदी-महोत्सवः” वाक्य मिलता है।<sup>१</sup> इसमें विशेष रूप से “पुनः, अपरः” शब्द से इसी नाम की ओर महत्वपूर्ण संकेत है। अतएव उन्होने इसको “कौमुदी-महोत्सव” के नाम से प्रकाशित किया है। प्रस्तावना के अनुसार इसका अभिनय कल्याणवर्मन के राज्याभियक्त के समय हुआ था।

### नाटककार

नाटक की प्रस्तावना में लिखित लेखक के नाम के अक्षरों को कोड़ों द्वारा खा लेने के कारण नाटककार का नाम भी विवादास्पद है। मूल नाटक की प्रस्तावना में केवल अवशिष्ट दो शब्दों के साथ वाक्य पूरा हुआ है—“.....क्या निवड़म्”। सपादकों के अनुसार ‘कीटभृत्ता वशिष्ट’ टुकड़ों के सूधम देखने से रिक्त स्थान पर “ज” अक्षर प्रतीत होता है। क्योंकि रिक्त स्थान को दो अक्षर अपेक्षित हैं और उन शब्दों से वह स्त्री प्रतीत होती है अतः उनका अनुमान है कि वहाँ “विजिज” या

१. कौ० म० भूमिका, पृ० १,

‘विजय’ होना चाहिए। इसी अनुमान पर वाक्य को “विजयव्या निवदम्” के रूप में पूर्ण किया गया है।<sup>१</sup> स्पष्ट है कि इसकी लेखिका स्त्री थी। उसका नाम विजिजवा या विजजवा था।

किन्तु यह केवल अनुमान है। इसकी पुस्ति में उन्होंने लिखा है कि नाटक के चतुर्थ प्रक में ‘विजया’ नाम का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है।<sup>२</sup> किन्तु हमें विजया तथा विज्ञा का दोई सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता है। विज्ञा विद्या का प्राकृत रूप प्रतीत होता है।<sup>३</sup> इसके अलावा, चतुर्थ अक वे उसी श्लोक में “श्रीमन्तो भगवन्तावनन्त नारायण” त्रिवेद्मस् के मुख्य देवना हैं। अत अनुमानत या तो इसमें लेखिका के नाम की ओर संकेत है या विजया नाम की किसी भक्त रानी का संकेत है। दासगुप्ता के अनुसार चन्द्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका इसकी लेखिका कहापि नहीं हो सकती। इसकी लेखिका दड़ी के पश्चात् होना चाहिए। श्री दासगुप्ता इसका तात्पर्य देवना से ही मानते हैं।<sup>४</sup> उनके अनुसार विजिजका तथा विज्ञा मेरे लेखिका कौन थी, यह भी निश्चय नहीं है। श्री चट्टोपाध्याय भी विजया या विजया भट्टारिका को लेखिका नहीं मानते।<sup>५</sup> विन्दनिट्ज ने भी इसका विजयका से साम्य स्वीकार किया है, विजया या भट्टारिका विजया से नहीं।<sup>६</sup> अत सामान्यत विजयका की इसकी लेखिका का मानी जाती है।

किन्तु, नाटक की प्रस्तावना मेरी ही “हृषीवलक्षिणीरिका” शब्द भी उल्लिखित है।<sup>७</sup> इसी उल्लेख को लक्ष्य करते श्री जायसवाल ने भडारकर के अनुसार इसकी लेखिका विशेषिका तथा उसका पिता कृपीवल माना है।<sup>८</sup> इसी श्लोक के चतुर्थपाद में उल्लिखित शब्द “कलभमजरीम्” का श्री जायसवाल कलम अर्थात् लेखिकी से तात्पर्य प्रहणे करते हैं। श्री भट्टोपाध्याय ने पयान अनुशीलन के पश्चात् श्री जायसवाल की मानवना को निरापार तथा व्यं ठहराया है।<sup>९</sup> विन्दनिट्ज भी इस पक्ष में

१. वही, पृ० १-२,

२. कौ० म० ४१६,

३. वही, मूलिका, पृ० १,

४. हिस्ट्री ऑफ सस्त्रत तिट्ड० : दासगुप्ता, पृ० ४७७ तथा फुटनोट,

५. इ० हि० ववा० १४, १६३८, पृ० ६०३,

६. कु० स्वा० वाल्मीकी, पृ० ३६१, पुटनोट,

७. कौ० म० १३,

८. दृष्टव्य : एनालिस० ३०-३१, वाल्मीकी १२, पृ० ५०, तथा जे. थो. घार. एस १६, १६३८, पृ० ११८,

९. इ० हि० ववा० १६३८, १४, पृ० ५८३,

नहीं है।<sup>१</sup> विज्जका नाम की लेखिका संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध है। उसके अनेक पद्य सुभाषित ग्रन्थों में संग्रहीत हैं। राजशेखर ने भी उसकी प्रशंसा की है। किन्तु, किशोरिका का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त उस श्लोक से भी वह लेखिका प्रतीत नहीं होती। अतः हम भी यही स्वीकार करते हैं कि इसकी लेखिका किशोरिका नहीं है। मुख्यतः जब तक अन्य प्रति या अन्य साक्ष्य नहीं मिलता, निराधार कल्पना करना उचित प्रतीत नहीं होता।

### नाटककार का समय :

हम कौमुदी महोत्सव की लेखिका विज्जका या विज्जका को ही स्वीकार करते हैं, किन्तु दुर्भाग्यवश उसके सम्बन्ध में नाम के अतिरिक्त अधिक और कुछ भी ज्ञात नहीं होता है। नाटक की कथावस्तु की ऐतिहासिकता भी पर्याप्त विवादास्पद है। अतः नाटक का समय निर्धारित करना अत्यन्त कठिन है। तथापि अन्यान्य सभी अन्तः वाह्य साक्ष्यों के आधार पर इसका समय निर्धारित करने का प्रयास किया गया है।

श्री जायसवाल ने कौमुदी-महोत्सव की समग्र कथावस्तु को ऐतिहासिक मान कर नाटक के पाव्र चंडसेन का चन्द्रगुप्त प्रथम से साम्य स्वीकार किया है। अतः उनकी मान्यता है कि नाटक का रचनाकाल गुप्तकाल से पूर्व नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त नाटक की सामाजिक तथा सांस्कृतिक दशा, उन्नत चित्रकला, भास के प्रभाव तथा कालिदास के आधार पर भी वे इसे कालिदास के निकट स्वीकार करते हैं। श्री जायसवाल की मान्यता है कि नाटक उस समय की रचना है जबकि पाटलिपुत्र में दत्तक के सूत्र-ग्रन्थों को स्त्रियाँ पढ़ा करती थीं, वे परिवर्जिका हो जाती थीं। हिन्दू देवी-देवताओं की प्रवलता थी। वरणीश्वर वर्म के प्रति निष्ठा थी। उदयन तथा अविभारक सुपरिचित थे। शीनक तथा वन्धुमति की कथा प्रचलित थी। इन सबसे इसका समय भास की अपेक्षा कालिदास के निकट ही अधिक बैठता है। शैली आदि साहित्यिक विशेषताओं के पर्यवेक्षण के पश्चात् वह इसका रचनाकाल गुप्तकाल में अर्थात् ३४० ई० मानते हैं।<sup>२</sup> जायसवाल का मत अन्य अधिकांश विद्वानों को मान्य नहीं है। प्राच्य-पाश्चात्य अनेक विद्वानों ने अन्तः वाह्य साक्ष्य के आधार पर अपने-अपने पृथक् मत दिये हैं, उनका सर्वप्रमुख आधार इसकी ऐतिहासिकता कथा-वस्तु है। इसके सम्बन्ध में हम प्रकाश ढालेंगे। किन्तु हमारी यह मान्यता है कि इसकी वस्तु के आधार पर मत प्रतिपादन करना, तब तक अनुचित है, जब तक कि उसकी

१. छ० स्वा० वाल्यूम, पृ० ३६१ फुटनोट,

२. दृष्टव्य : एनाल्स० ३०-३१, भाग १२, पृ० ५१,

प्रामाणिकता सर्वसम्मत रूप से स्वीकृत न हो जाय। अतः अन्यान्य साक्षयों के आधार पर ही तिथि-निर्णय करना उचित है।

कौमुदी-महोत्सव के अनेक स्थलों में इस पर कालिदास का प्रत्यय प्रभाव लक्षित होता है। इसमें भास के अविभारक का उल्लेख है तथा उसकी कथा वस्तु की ओर भी सबेत किया है। इसमें “शोनकाभिव बन्धुमती” के रूप में दण्डी की अवन्ति-सुन्दरी का प्रभाव भी स्पष्ट है। इस प्रकार अनेक विद्वानों ने इम पर अनेक कवियों का प्रभाव खोज निकाला है।

डा० दशरथ शर्मा ने भाषा, भाव, चन्द्र आदि की इटि से कालिदास के साथ साम्य देखा है। यद्यपि उन्होंने इसके समय का निर्देश नहीं किया है, तथापि उनकी मान्यता है कि कालिदास का प्रभाव स्वीकार करने पर इसका समय गुप्तकाल से पूर्व ही छहरता है। क्योंकि ये जायसदाल के मानान कालिदास की गुप्तकाल में नहीं मानते हैं।<sup>१</sup> प्रो० मनकड ने भी कालिदास का प्रभाव विस्तार से स्वीकार किया है। डा० शर्मा ने विन्टनिट्रज की आलोचना करते हुए यह भी लिखा है कि अविभारक का उल्लेख करने से नाटक को बाद का नहीं माना जा सकता।<sup>२</sup> क्योंकि अविभारक का उल्लेख वात्स्याशन में भी है। इसी प्रकार वे अवन्ति सुन्दरी का प्रभाव भी स्वीकार नहीं करते। इनका कथन है कि अवन्ति सुन्दरी भी विशेष मौलिक न होकर विभिन्न ज्ञोती से सग्रहीत है। इनकी मान्यता है कि कौमुदी-महोत्सव तथा अवन्ति-सुन्दरी दोनों ने ही समान ज्ञोतीं में इम प्रसग का सप्रह किया है। उनके अनुमार नाटक के उल्लेखों से प्रतीत होता है कि लेखिका कुरमी-अविभारक के समान ही शोनक-विन्दुमती की प्रेमकथा से परिचित थी।<sup>३</sup>

डा० शर्मा इस पर मुद्राराजस के प्रभाव को भी स्वीकार नहीं करते, और न विट् के उल्लेख के कारण ही बाद का मानते हैं।<sup>४</sup> उनकी मान्यता है कि विट् का रूप प्राचीन नाटकों में भी खोजा जा सकता है। श्री शर्मा चडसेन को चन्द्र प्रयम मानकर इसकी ऐतिहासिक वर्णावस्तु तथा प्रस्तावना से बल्याएवम्<sup>५</sup> के समय अभिनीत होने के उल्लेख के कारण गुप्त-कालीन तथा उससे भी पूर्व मानते हैं न कि बाद का। रामकृष्ण कवि ने कालिदास, भारद्वि, भास, दण्डी आदि के प्रभाव की ओर सबेत किया है।<sup>६</sup> श्री चट्टोपाध्याय ने

१. हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, पृ० २१०,

२. जे थो ओ आर. एस वाल्यूम २२, १६३६, पृ० २७८,

३. बही, पृ० २८०,

४. बही, पृ० २८१,

५. कौ० म० मूमिका, पृ० ३,

भी इसी प्रकार मुद्राराक्षस, नागानन्द, हर्षवर्ति, भवभूति, रत्नावली का प्रभाव सोजा है।<sup>१</sup> पर श्री चट्टोपाध्याय, जायसवाल द्वारा प्रतिपादित ऐतिहासिकता में श्रद्धा नहीं रखते।

श्री चट्टोपाध्याय के अनुसार नाटक के प्रथम अंक के प्रथम श्लोक आदि के स्थलों से लेखिका पर शंकराचार्य का प्रभाव परिलक्षित होता है।<sup>२</sup> इसके साथ ही मुद्राराक्षस के प्रभाव के कारण, (क्योंकि ये मुद्राराक्षस का समय अवन्तिवर्षन् के समय में मानकर पष्ठ शतक मानते हैं) कीमुदी महोत्सव को पष्ठ शतक की पश्चात्वर्ती रचना मानते हैं और दंडी के प्रभाव के कारण सप्तम शतक के पश्चात् मानते हैं। अतः इनके अनुसार यह सप्तम से पूर्व का नहीं हो सकता। दूसरी ओर श्री चट्टोपाध्याय के अनुसार राजशेखर ने विजजका का उल्लेख किया है, अतः नवम् शतक इसकी अंतिम सीमा है किन्तु इनके अनुसार राजशेखर द्वारा उल्लिखित विजजका से इसका साम्य असंभव है। अतः यह इसे मुद्राराक्षस तथा शंकराचार्य के बाद होने से सप्तम के बाद का मानते हैं, गुप्तकाल का नहीं।<sup>३</sup>

श्रीकृष्णमाचारियर कीमुदी महोत्सव के अनेक स्थलों से मुद्राराक्षस, रत्नावली, तथा वृहत्कथा-श्लोक-संग्रह का साम्य स्वीकार करते हैं तथा कालिदास भास एवं दंडी आदि का प्रभाव मानते हैं, तथापि नाटक में दत्तक, गोनिकपुत्र, मूलदेव, आत्ययिक दूत जैसे प्राचीन शब्दों का प्रयोग है। अतः इसका समय चतुर्भार्गी के समय अर्थात् पंचम तथा पष्ठ शतक मानते हैं।<sup>४</sup> डा० दासगुप्ता जायसवाल द्वारा प्रतिपादित ऐतिहासिकता में विश्वास नहीं करते और न नाटक में प्रयुक्त दत्तक, गोनिक आदि शब्दों को तिथि-निर्वारण में महत्वपूर्ण मानते हैं। किन्तु वह कालिदास, भारवि, दंडी तथा भवभूति के प्रभाव के आधार पर इसका समय अष्टम शतक मानते हैं।<sup>५</sup> विट्टनिट्ज भी भास, कालिदास, दण्डी तथा विश्वासदत्त आदि का प्रभाव स्वीकार करते हैं। अतः इसे चतुर्थ शतक में न मानकर नाटक में दत्तक शब्द तथा विट के उल्लेख के आधार पर वहुत बाद का मानते हैं।<sup>६</sup>

**निष्कर्ष—**उपर्युक्त मतों का पर्यवेक्षण करने के बाद हम किसी निष्कर्ष पर पहुँचने की चेष्टा भी कर सकते हैं। सर्वप्रथम, गुप्तकालीन या इससे भी पूर्व मानते वाले श्री जाय-

१. हृष्टव्यः इ० हि० ब्वा० १६३८ भा० १४, पृ० ५६६-६०५,

२. वही, पृ० ५६२-६०५,

३. वही,

४. हिस्ट्री ऑफ बलासीकल संस्कृत लिट०, पृ० ६००,

५. हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिट०, पृ० ४७७,

६. कृ० स्वा० बाल्मू, पृ० ३६२,

## ३६४ सस्कृत के ऐतिहासिक नाटक

सदाच तथा ढा० शर्मा का प्रमुख आधार कथावस्तु की ऐतिहासिकता है। किन्तु, जैसाकि हम आगे स्पष्ट करेंग, नाटक की कथावस्तु की ऐतिहासिकता का पूर्ण निश्चय यिना विभी अन्य मुद्द वालीन रचना मानने के पक्ष में नहीं है। अत इस कथानक की ऐतिहासिकता के आधार पर गुप्तवालीन रचना मानने के पक्ष में नहीं है। दूसर, ढा० शर्मा ने विन्टनिट्ज की समालोचना करते समय यिना विभी मुद्द तक के व्यष्टत मात्र किया है, उससे हम आपवस्त नहीं हैं। यदि हम अविमार्क का उल्लेख मात्र भी लें तो यह अविमार्क भी तो भास की रचना है और यह उसका भी प्रभाव सम्भव है। इसके अलावा यह भी कहा जा सकता है कि यह न टक तात्परित्य आदि की दृष्टि से भास के समालोचनीन है। विन्टु वास्तविकता यह है कि यह भालवार की कृति है। अत उस पर लघु प्रस्तावना, नान्दी का अभाव तथा स्थापना आदि प्रादेशिक नाट्य शिल्प का ही प्रभाव है। चौथे ढा० शर्मा न यहान वरते समय भभावनाएँ का ही आरथ्य लिया है। किन्तु यह, उनके प्रतिकूल म्बीकृति के लिए भी समावनाओं का आरथ्य नेता चर्चित नहीं है। वास्तविकता यही है कि बोमुदी महोत्सव पर भास, कलिदास, भारवि, भवभूति, दडी आदि का स्पष्ट प्रभाव है, कोमुदी महोत्सव के शिल्प एवं मरलता के कारण इसकी प्राचीनता का आभास अवश्य होता है। पर वह इसकी प्रादेशिक विशेषता है।<sup>१</sup> नाटक की वस्तु योजना इतनी शिखिल तथा विशृखल है कि यह प्रतीत होता है मानो इसका किसी अवसर विशेष के लिए शोधतावश रूप-विवान किया गया हो। अत शिल्प विधान के आधार पर इसे प्राचीन रचना मानना चर्चित प्रतीत नहीं होता।

रचनाकाल के सम्बन्ध में श्री रामकृष्ण कवि ने नाटक की भूमिका में एक सरेत दिया है।<sup>२</sup> कोमुदी महोत्सव में भगवान अनन्तनारायण का उल्लेख है।<sup>३</sup> यह निवेद्य के प्रमुख देवना हैं तथा चन्द्रिका-जनमजय के लेखक भी हुए हैं पर इसमें द्विवचन होने के कारण कुछ विद्वान् इस शब्द के आधार पर बोर्ड निष्कर्ष निकालने में अ पत्ति करते हैं। इसी प्रकार भरतवाक्य में “नृत्तारम्भप्रविततशिखश्चष्टताम् नीलकण्ठो” म नीलकण्ठ शब्द प्रयुक्त है। नीलकण्ठ कल्याण सोग्धिका का लेखक था। नीलकण्ठ का समय लगभग ८५० ई० है। इस आधार पर यह नाटक तबम् शतक का होना चाहिए किन्तु श्री रामकृष्ण शीली तथा शिल्प के अन्तर के कारण यह समय मनाने को प्रस्तुत नहीं है। जो भी हो पर उपर्युक्त भमालोचना से इतना स्पष्ट है कि कथावस्तु की ऐतिहासिकता के आधार पर इसे गुप्त वालीन मानना

<sup>१</sup> हृष्टव्य, कौ० म० मूलिका, पृ० २,

<sup>२</sup> वही,

<sup>३</sup> वही, ५।१६,

कथमपि उचित नहीं है। मुम्यतः जबकि हमें इसकी ऐतिहासिकता में पर्याप्त सन्देह है। अतः कालिदास विशाखदत्त तथा दंडी आदि के प्रभाव के आधार पर इसे सप्तम के बाद की रचना मानना ही उचित प्रतीत होता है।

### नाटक का कथानक

कौमुदी महोत्सव नाटक के कथानक में राजनैतिकता तथा धार्मारिकता का मिश्रण है। प्रथम तीन अंकों में धार्मारिक कथा है। चतुर्थ में राजनैतिक है। पंचम में पुनः धार्मारिक इतिवृत्त का उपसंहार है। संक्षेप में, अंक-क्रम में कथा निम्न-प्रकार है :

प्रथम अंक में स्यावना के अनन्तर मुनिशिष्य प्रवेश करके यह सूचना देता है कि विन्ध्य में पम्पासर के समीप परम्परागत मित्र कुंजरक के किटिकन्या नामक दुर्ग में कुमार-कल्याण-वर्मा प्रच्छन्न रूप से निवास कर रहा है तथा वैरिवर्ग द्वारा अधिकृत राज्य की प्राप्ति के उपाय से मत्रगुप्त पाटलिपुत्र गया हुआ है। इस संक्षिप्त सूचना के साथ ही विष्णुभक्त समाप्त होता है। कुमार प्रवेश करके सखियों के साथ समीपस्था राजकुमारी कीर्तिमही को देखकर आकृष्ट होता है। पूछते पर कुमार को ज्ञात होता है कि कीर्तिमती शूरसेन के राजा कीर्तिसेन की पुत्री है जो यहाँ चण्डिकायतन में विन्ध्यवासिनी की आराधना के लिए आई हुई है। यहाँ विदूपक आकर यह सूचना भी देता है कि शवर एवं पुलिन्दों के कुंजरक ने मत्रगुप्त को सहप्रोग का आश्वासन दिया है।

द्वितीय अंक के प्रवेशक में मधु-मंजरिका तथा भामिनिका के संभापण द्वारा राजकुमार के प्रति आसक्ति तथा उसके द्वारा पटान्त पर राजकुमार का चित्र बनाने की सूचना मिलती है। तत्पश्चात् योगसिद्धि प्रवेश करती है। उपसे ज्ञात होता है कि स्वजनों के दिवंगत हो जाने पर निर्वेद के कारण यह प्रवृत्या ग्रहण करके राज्य-राज्य भटकती हुई स्वेच्छा से मथुरा आकर कीर्तिसेन की रानी राजन्वती के साथ रहने लगी और अब उसी की पुत्री को लेकर तपोवन आयी हुई है। जब तक उसको अनुरूप पति प्राप्त नहीं होता उसी के साथ रहेगी। इसी बीच आकाशगामी श्येन के पंजे से राजकुमारी द्वारा निर्मित चित्रपट गिरता है। परिवाजिका उसे देख कर पूर्व स्मृति के जागने से मूर्छित हो जाती है। निपुणिका आकर उसे सान्त्वना देती है। विदूपक भी इस हश्य को देख रहा है। परिवाजिका सम्भावना करती है कि महादेवी ने पति लोक को जाते समय जो कल्वाणश्री मुझे सौंपा था, सम्भव है सुरक्षा के कारण वह इतना बड़ा हो गया हो। निपुणिका बतलाती है कि ऐसा ही

राजकुमार राजकुमारी ने देखा, तभी उसने वह चित्र बनाया है। परिद्राजिका बतलाती है कि पहले सुन्दरवर्मा नाम का मार्गदैश्वर था। उसको रानी मदिरावती थी। उसी की धारी यह परिद्राजिका है। दुर्भाग्य से उस राजकुन के नष्ट होन पर प्रवृत्त्या लेकर मयुरा में आकर रहने लगी। उसी निपुणिका इस कुमार के प्रति राजकुमारी की आसन्नित का वृत्तान्त सुनाती है कि विद्युपक आकर राजकुमारी की आसन्नित के सबध में बतलाता है। इसे सुनकर परिद्राजिका अपनी गोद में बड़े हुए इन दोनों के सम्मिलन बराने का सबल बरती है और चित्रपट पर एक छन्द लियकर उसे विद्युपक को देनी है।

तृतीय अक्ष म विरहातुर कुमार के पास विद्युपक जाकर चित्रपट दियाता है तथा योगसिद्धि के सम्बन्ध म बतलाता हुआ उसमे भी चित्र बनाता है।

चतुर्थ अक्ष में बद्धमानक तथा आर्यरक्षित पाने हैं। दोनों के समापण से जात होता है कि पहले मार्गध के क्षत्रिय राजा सुन्दरवर्मन के पुत्र होने से उसने चण्डसेन को गोद ले लिया, किन्तु वाद में कल्याणवर्मन पैदा हुआ। चण्डसेन ने राज्यलोग के मार्गधकुल के बैरी लिच्छवियों से सबध स्थापित करके उनकी सहायता से कुमुमपुर को छोर लिया, पुढ़ हुआ, बृद्ध मुन्दरवर्मन ने पुत्र होने के कारण चण्डसेन नहीं मारा और स्वयं मारा गया। चण्डसेन राजा बन बैठा। अनेक बृद्ध मत्रियों न आत्महत्या करली। अनेक स्त्रियां महारानी के साथ जल मरी। राजा का मत्री मत्रगुप्त द्यिप कर राजकुमार को लेकर विनय धर धारी के साथ बन म भाग निकला और विन्द्य की शरण ली। मत्रगुप्त अन्य साथी सेनापति आदि के साथ चण्डसेन के राज्य को उलटन का प्रयत्न करते हुए उचित समय की प्रतिक्षा भरना रहा। एक और उसन सीमावर्ती कु जरक को माय लिया दूसरी ओर प्रजा मे मुन्दरवर्मन के गुरुणों का पनुमरण करा के प्रजा को चण्डसेन के विरोध मे कर दिया। एक बार सना है सहित चण्डसेन के नगर स बाहर चल जाने पर<sup>१</sup> सीमावर्ती शवगुलिदो के द्वारा राज्यताति हुई और समर्थन के सहयोग से कल्याणवर्मा को राज्य पर प्रतिष्ठित कर दिया गया। पन्चम अक्ष में चण्डसेन दी मृग्यु होन के कारण तथा कल्याणवर्मन के राजपत्नी पर राज्याधिपेक्ष का आयोजन होता है। उसी कुमुमपुर मे “महोत्पद” के आयोजन की घोषणा होनी है। इसी समय बीनिमती का विवाह होता है तथा दानों के मयुरमिलन के साथ नाटक समाप्त होता है।

१ श्री ज्योतिस्थाल का अनुमान है कि इस समय चन्द्रगुप्त समवतः अमरवर्षटक तथा शीहिताम से द्वितीयहियों को दबाने में सका हुआ था। दृष्टव्य जे वी श्रो आर. एम. १६३३, भाग १६ पृ० ११८,

## नाट्यरचना की परिस्थिति एवं नाटक का महत्व

प्रस्तावना से ज्ञात होता है कि पाटिलिपुव के कल्याणवर्मन् के नव-राज्याभिषेक के समय ही कौमुदीमहोत्सव के समय प्रस्तुत नाटक का अभिनय हुआ। इसमें कितना सत्य है, कुछ नहीं कहा जा सकता। यद्यपि प्रस्तावना में स्पष्टतः नाटक के अभिनय का उल्लेख नहीं है। यहाँ “कौमुदी महोत्सवारम्भ” का ही निर्देश है किन्तु अनुमानतः अप्रत्यक्ष रूप से लेखिका का अभिप्राय यहाँ नाटक के अभिनय से ही है। यदि यह ठीक है तो कुछ आश्चर्यजनक भी प्रतीत होता है। जिम पात्र की लेकर, जिन घटनाओं को सौंजोकर नाट्य-रूप दिया गया है, उस नाटक का उसी घटना के समय अभिनय किया जा सकना सर्वथा असम्भव सा ही प्रतीत होता है और यदि यह सभव है तथा सत्य के निकट है तो नि सन्देह किसी कुशाग्रवृद्धि लेखिका की समधिक सफलता है जिसने अभियेक तक की घटनाओं को रूपाधित कर इसे राज्याभिषेक के समय ही अभिनेताओं को प्रस्तुत किया। नाटक के कलेवर तथा वस्तुयोजना पर यदि सूक्ष्म-दृष्टिपात करे तो प्रस्तावना का वक्तव्य सत्य प्रतीत होता है।

नाटक की वस्तुयोजना से ऐसा प्रतीत होता है कि इसका विन्यास ग्रन्थविक शीघ्रता में किया गया है।<sup>१</sup> यही कारण है कि नाट्य-योजना बहुत शिथिल एवं विश्रृंखल है। कहीं प्रेम कथा की थेकली लगायी गयी है तो कहीं सांकेतिक राजनीतिक घटनाओं की। न कोई रस उभर पाया है, न किसी पात्र का चरित्र। न भाषा में शक्ति है न घटनाओं में गत्यात्मकता। केवल यह इसी शीघ्रतावश बेडोल सा नाटक भर वन गया है। यही नहीं, बल्कि इसी कारण लेखिका ने बहुलतः भास, कालिदास, भव ति, दंडी आदि से भाव, भाषा छन्द, आदि को ज्यों का त्यों ही ले लिया है। यही कारण है कि इसमें साहित्यिक दृष्टि से कोई विशेषता परिलक्षित नहीं होती। नाटक में सरलता तथा प्राचीन परिपाठी के अनुरूप शिल्प-प्रयोग होने के कारण कुछ विद्वान् इसे प्राचीन मानकर बैदर्भी एवं पांचाली रीति, प्रसाद गुण आदि अनेक विशेषताओं का आरोप करने का प्रयास करते हैं, किन्तु वास्तविकता यह है कि प्रस्तुत नाटक मालवार की प्रादेशिक विशेषताओं के कारण तद्वे शीय शिल्प से सयुक्त है तथा अभिनेताओं के लिए विशेष-रूप से लिखित होने से इसमें सारल्य है। भाषा की स्वाभाविकता है, किन्तु नाट्यकला की दृष्टि से नाटकीय यथार्थता, वस्तु-संविधान की परिपक्वता, चरित्र-गत विशेषता, घटनीयता, गत्यात्मकता तथा काव्यात्मकता आदि के अभाव के कारण इसका साहित्यिक दृष्टि से विशेष महत्व नहीं है।

१. श्री जायसवाल ने भी यह स्वीकार कर लिया है कि इसकी रचना श्रावश्यकता पड़ने पर कुछेक सप्ताह के अत्यन्त सीमित समय में ही प्रतीत होती है।  
दृष्टिव्य एनाल्स० ३०-३१ वाल्यूम, १२, पृ० ५१,

नि सन्देह कोमुदी-महोत्सव का महत्व ऐतिहासिक उपादेयता के कारण माना जा सकता है। किन्तु इसके इतिवृत्त की ऐतिहासिकता के सबध में पर्याप्त विवाद है। जो भी हो, इसके सम्पादक ने इसे "एक ऐतिहासिक नाटक" के रूप में समादित किया है। लेखक ने इसका रूप विधान राजनीतिक पृष्ठभूमि में किया गया है। इसके पात्रों को ऐतिहासिक रग से रगा गया है। ऐतिहासिक स्थान आदि के विनियोग से ऐतिहासिक वातावरण की सृष्टि की गयी है, अतः इसका ऐतिहासिक विश्लेषण करना आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है।

### कोमुदी महोत्सव की ऐतिहासिकता तथा काल्पनिकता :

कोमुदीमहोत्सव नाटक का कथासूत्र दो भागों में उपनिवद्ध है। प्रथम द्वितीय, तृतीय तथा पचम अक में कुमार बल्याश्वर्मन् तथा कीर्तिमती की प्रेमकथा उपनिवद्ध है। चतुर्थ में राज्याप्हरण तथा राज्य-आदि आदि से सबधित राजनीतिक कथा वर्णित है। प्रथम भाग की प्रेम-कथा तथा प्राणय-मिलन का कोई भी ऐतिहासिक आधार उपलब्ध नहीं है। द्वितीय भाग के रूप में चतुर्थ अक म वर्णित राजनीतिकता की ऐतिहासिकता के सबध में पर्याप्त विवाद है। न कथासूत्र की ऐतिहासिकता का निश्चय है, न पात्रों की ऐतिहासिकता का। राजनीतिक कथाश की ऐतिहासिकता को खोज मिलने पर, उसी से सम्बन्धित प्रेमकथा का भी यत्किञ्चित् ऐतिहासिकता प्रकट हो सकती है। अत यहाँ मूलत उसी पर विचार दरता आवश्यक है।

सामान्यत कोमुदी महोत्सव के प्रवाशन के साथ ही भारतीय एव पाश्चात्य ऐतिहासिकारों ने इसकी ऐतिहासिकता पर विचार प्रकट करना प्रारम्भ किया। कुछ ने ऐतिहासिकता के समर्थन में ग्रनेक तत्त्वों का प्रस्थापन किया है तो कुछ ने उनका निरास किया। तभी से आत्र तक निरन्तर यह समस्या अधिकाधिक उलझनी ही गई है, और आज भी इसकी ऐतिहासिकता एक समस्या के रूप में विचारकों के सम्मुख उपस्थित है। यहाँ सक्षेप में हम सभी मतों का निर्देश देकर कुछ निष्परं निरालने की चेष्टा करेंगे।

डा० वाशी प्रसाद जायसवाल ने प्रारम्भ से ही ग्रनेक पत्र-पत्रिकाओं में इसकी ऐतिहासिकता के पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत किए तथा उसी अपने भनवद के अनुसार अपने "भारतवर्ष के इतिहास" में इसका सशोधित रूप में उल्लेख किया है। इनके भतिरिक्त डा० दशरथ शर्मा आदि ने भी श्री जायसवाल के समर्थन में ग्रनेक तथा पत्र-पत्रिकाओं में सेवा लिखकर ऐतिहासिकता की पुष्टि की है।<sup>१</sup> सक्षेप में इनके तर्क इस प्रकार हैं—

१. दृष्टिक्षेप : जायसवाल-जे० वी० श्री० आर० एस०, वाल्मीकि १६, पृ० ११३-११, हिन्दी भाषा इण्डिया : ई० १५०-३५० ई०, एनालस ३०-३१ वाल्मीकि १२, पृ० ५१-५५ आदि; डा० दशरथ शर्मा को-जे वी० श्री० आर० एस० भाग २१, पृ० ७३; वही, भाग २२, पृ० १७६-१७८; तथा मनकड़ को-ए० वी० श्री० आर० आइ, वाल्मीकि, १६, पृ० १५५, आदि,

नाटक के अनुसार जिस समय कल्याणवर्मन छोटा था उसका वृद्ध पिता सुन्दरवर्मन् लिच्छवियों की सहायता लेकर आक्रमण करने वाले चण्डसेन द्वारा पाटलिपुत्र की रक्षा करता हुआ भार दिग्गा गया।<sup>१</sup> नाटक में सुन्दरवर्मन् को मगधकुल का वतलाया है, किन्तु स्पष्टतः उसके वंश का उल्लेख नहीं है। अनः जायसवाल का अनुमान है कि वह किसी लोक-परिवार (लोक फेमिली) का था।<sup>२</sup> नाटक के अनुसार चण्डसेन को (पुत्राभाव के कारण) सुन्दरवर्मा ने गोद लिया था किन्तु बाद में (कल्याण के उत्पन्न होने पर) स्वयं को मगधकुल का मानकर मगधकुल के वैरी लिच्छवियों के साथ सम्बन्ध स्थापित करके कुसुमपुर पर आक्रमण कर दिया।<sup>३</sup> इस अग्नि से भी जायसवाल ने तात्पर्य निकाला है कि गोद जाने पर ही चण्डसेन मगध से संबन्धित हुआ। किन्तु बाद में उसने स्वयं को मगध-कुल का व्यपदेश करके मगध-कुल द्वेषी लिच्छवियों से, जिन्हें नाटक में म्लेच्छ कहा है, सहायता प्राप्त कर पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। इससे स्पष्ट होता है कि वास्तव में चण्डसेन अन्य परिवार का था। उसने पुत्रकृत होने पर ही स्वयं को मगध-कुल का व्यपदेश किया।<sup>४</sup> नाटक में ही स्पष्टतः चण्डसेन को राजाओं में कारस्कर कहा है।<sup>५</sup> कारस्कर के सम्बन्ध में नाटक में वर्द्धमानक द्वारा यह भी कहलाया है कि ‘ऐसी जाति वाले को राज्यलक्ष्मी व्यों दी गयी।’<sup>६</sup> इससे स्पष्ट होता है कि वह निम्नवर्ण का था। वोधायन वर्मसूत्र के आधार पर श्री जायसवाल ने कारस्कर को निम्न जाति का वतलाया है।<sup>७</sup> डा० शर्मा ने भी इसका समर्थन करते हुए कारस्करों को वीकानेर का धारणीय जाट माना है।<sup>८</sup> जायसवाल इन्हें पंजाब के कवक-जाट मानते हैं जो श्राव भी पाए जाते हैं।<sup>९</sup> प्रभावती गुप्ता के एक शिलालेख में धारण-गोत्र का भी उल्लेख है।<sup>१०</sup> श्री जायसवाल इसी धारण गोत्र की आधुनिक धारण गोत्र वाले जाटों से समानता

१. कौ० म० पृ० १६, ३०, ३१,

२. वही, पृ० ३०,

३. एनाल्स १२, पृ० ५२ ५३,

४. देखिये, कौ० म०, पृ० ३०,

५. एनाल्स० भाग १२, पृ० ५३,

६. कौ० म० ४१६,

७. वही, पृ० ३०,

८. एनाल्स० भाग १२, पृ० ५३,

९. जे० वी० श्री० आर० एस० भाग २२ १६:६, पृ० २७८,

१०. हिन्दू ऑफ इण्डिया, पृ० ११६,

१०. गुप्त० सा० इति० भाग १, वासुदेव उपाध्याय, पृ० १६,

बतलाते हैं। इनके मनानुसार गुप्त लोग प्राची द्वोष्वर भारशिंहो की आधीनता में कोशाम्बी के ममीप चले गए। इस प्राची जायसवाल गुप्तों को शूद्र मानते हैं और चण्डसेन का चन्द्रगुप्त से साम्य मानते हैं।

श्री जायसवाल ने यह भी निखारा है कि कौमुदी महोत्सव के अनुमार उन्द्रमेन ने प्रजापीड़न किया, पितृतुल्य सुन्दरवर्मन को मारा तथा वह शत्रिय नहीं है।<sup>१</sup> उसने मगध शत्रु लिच्छवियों से सम्बन्ध किया है, अतएव उसे “हत्क” कहा गया है।<sup>२</sup> अल्बहनी के आधार पर भी ये गुप्तों को निर्देशी, दुष्ट-प्रकृति के स्वीकार करते हुए कहते हैं कि हिन्दू धर्मशास्त्र में ऐसे पितृहत्ता राजा को पदच्युति का विधान है, अत इसी परिप्रेक्ष्य में वाकाटकों के सहयोग से चण्डसेन को पदच्युत करके पाटलिपुत्र का राजा बनाया। इसी बारहण नाटक में वरणाधिम धर्म के उन्मूलक चण्डसेन का उन्मूलन करके बल्याणवर्मन के प्रति थद्वा प्रकट की है।<sup>३</sup> इनका यह भी अनुमान है कि इसी से लेखिका ने राजाओं को न कहने लाया शब्दों में लिच्छवियों को म्लेच्छ तथा चण्डसेन को वारस्कर कहा है।<sup>४</sup>

श्री जायसवाल का यह भी अनुमान है कि चण्डसेन, चन्द्रगुप्त प्रथम से अभिन्न था। उनका कथन है कि चन्द्रगुप्त उसका प्रादेशिक नाम था चण्डसेन वास्तविक नाम।<sup>५</sup> उनकी मान्यता है कि गुप्त योग्य में २७५ ई० में उदित हुए। प्रथम गुप्त राजा था बाद से घटोत्तम हुआ। चन्द्रगुप्त वे पिता घटोत्तम ने अपने नाम के साथ “गुप्त” नहीं लगाया था। चन्द्रगुप्त भी अपने प्रारम्भिक उत्थान बाल में (प्रावृत) चण्डमेन नाम से प्रसिद्ध था जैसाकि नाटक में है।<sup>६</sup> इन्तु चन्द्रगुप्त ने वैश-प्रवर्णन की भावना से ‘नेन’ हटाकर “गुप्त” जोड़ दिया।<sup>७</sup> इसी वे उदाहरण में अपने ऐतिहास में जायसवाल ने वसन्तदेव और वसन्तमेन को प्रमाण रूप से उढ़ात किया है।<sup>८</sup> इसी मान्यता की पुष्टि में वह नाटक में उल्लिखित लिच्छवियों से सम्बन्ध करने के प्रसार

१. जे० बी० श्रो० आर० एस० १६, १६३३, पृ० ११७,

२. को० म० पृ० ३०,

३. जे० बी० श्रो० आर० एस० भाग १६, १६३३, पृ० ११८,

४. को० म० पृ० २६, ५१,

५. जे० बी० श्रो० आर० एस० १६, १६३३, पृ० ११४,

६. एनाल्स० भाग १२, ३०-३१, पृ० ५४,

७. जे० बी० श्रो० आर० एस० भाग १६, १६३३, पृ० ११३,

८. एनाल्स० भाग १२, पृ० ५४, \*

९. हिन्दू शाँक इण्डिया, पृ० ११३-१४,

को उपस्थित करते हैं ।<sup>१</sup> डा० दशरथ शर्मा भी इसका समर्थन करते हैं ।<sup>२</sup> गुप्तलेखों तथा सिक्खों से लिच्छवियों के साथ विवाहसम्बन्ध की पुष्टि होती है । उनसे यह भी स्पष्ट है कि लिच्छवियों के सहयोग से ही गुप्तों ने राज्योन्नति की ।

कल्याण-वर्मन् ने यद्यपि चन्द्रसेन से राज्य छीन लिया था तथा नाटक में उसके मरने का भी उल्लेख है किन्तु नाटक में यह नहीं लिखा है कि वह समर्थकों ने मारा या सीमावर्ती लोगों ने । जो भी हो, नाटक से स्पष्ट है कि वह मर गया था, किन्तु जायसवाल की मान्यता है कि कल्याणवर्मन् भी ज्यादा समय राज्य पर आसीन नहीं रहा । लिच्छवियों ने अपने दोहित्र समुद्रगुप्त की उपेक्षा नहीं की होगी और अन्त में समुद्रगुप्त ने कल्याणवर्मन् को अपदस्थ कर दिया होगा ।<sup>३</sup> डा० शर्मा भी श्री जायसवाल के समर्थन में लिखते हैं कि चन्द्रगुप्त प्रथम के अतिरिक्त चण्डसेन और कोई नहीं हो सकता । यह वही चण्डसेन चन्द्रगुप्त या जिसने पितामह के नाम पर गुप्त वंश चलाया तथा पाटलिपुत्र पर शासन किया है । यह इतिहाससिद्ध है । इनका प्रमुख तर्क है कि चण्डसेन तथा चन्द्रगुप्त में शाविदक साम्य है । चण्डसेन चन्द्रगुप्त का प्राकृत रूप है ।<sup>४</sup> इन्होंने इस प्राकृत रूप के लिए सातवाहन राजाओं के शिलालेख को प्रस्तुत किया है, तथा चण्डसेन और चन्द्रसिंह के साम्य को क्षेमेन्द्र का उदाहरण दिया है ।<sup>५</sup> इसके अतिरिक्त अन्तः साक्ष के रूप में लिखा है कि नाटक (४१) में प्राकृत रूप “चंदब्ब” का सस्कृत रूप चन्द्र इव लिखा है अतः अनुमानतः चन्द्र का चण्ड ही प्राकृत रूप है । शर्मा ने इसी श्लोक में राजा की ओर छिपे अर्थ को भी खोजा है, “सधुभुखनिवर्तितमुदयरागम्” में उदय तथा निवर्तित शब्द से लिच्छविकुमारी के विवाह से हुए उदय से सम्बन्ध जोड़ते हैं ।<sup>६</sup>

जायसवाल ने यह स्वीकार किया है कि नाटक से कल्याणवर्मन् के जीवन की कथा के सम्बन्ध में ग्रन्थिक जानकारी नहीं होती है और न तत्कालीन मंत्रगुप्त ग्रादि के सम्बन्ध में ही ।<sup>७</sup> तथापि इन्होंने यह माना है कि नाटक में कल्याणवर्मन् के पिता ने अपने को मगधकुल का कहा है । उसी का समुद्रगुप्त द्वारा उल्लिखित “कोटकुञ्ज” शब्दसाम्य है । इसके संस्थापक का नाम कोट प्रतीत होता है । संभवतः कोट के

१. कौ० म० पृ० ३०,

२. जे० बी० ओ० आर० एस० भाग २२, पृ० २७८,

३. हृष्टब्य, एनाल्स भाग १२, पृ० ५४,

४. जे० बी० ओ० आर० एस० भाग २२, पृ० २७५,

५. वही, पृ० २७६,

६. जे० बी० ओ० आर० एस० भाग २२, पृ० २७५, तथा भाग २०, पृ० ७७,

७. एनाल्स० ३०-३१, भाग १२, पृ० ५२,

उत्तराधिकारी समुद्रसेन के समकालीन थे। इलाहावाद के शिलालेख में वारतव में “कोटकुनराज” ही शब्द है। इन्हीं मगधराजाओं के अन्त में “वर्मन्” तागता था। इनका अनुमान है कि यह परिवार निश्चित स्थिर में २००-२५० ई० पू० में रहा होगा।<sup>१</sup> उनकी यह भी मान्यता है कि पुराणों में सुन्दरवर्मन् का उल्लेख प्राप्त नहीं होता। इसका कारण यह है कि यह बोई छोटा परिवार था तथा इतने महत्व का न था कि उल्लेखनीय समझा जाए।<sup>२</sup> वीतिसेन के सम्बन्ध में जायसवाल वा भत है कि इसका नाम अन्यथा नहीं मिलता। अत यह शीघ्र ही भर गया होगा।<sup>३</sup>

श्री जायसवाल तथा द्वा० शर्मा के उपर्युक्त भत को अन्य अनेक विद्वानों ने नि सार ठहराया है। उनमें प्रमुख है विन्टनिट्ज, ए० एस० अल्टेर, के० सी० चट्टोपाध्याय, कु० शुक्रन्तलाराव, तथा भजूमदार आदि।<sup>४</sup> हम भी उनके भत में थदा नहीं रखते। मध्येप में हम यही उपर्युक्त मान्यताओं के निरास करने वाले तकों वा निर्देश करना उचित मानते हैं :—

श्री विन्टनिट्ज का कथन है कि नाटक राजनीतिक पृष्ठभूमि पर रचित अवश्य है विन्तु यह गुप्तकाल की समकालीन ऐतिहासिक रचना कदापि नहीं हो सकता। वयोर्कि इनिट्स में चतुर्षेन, मुद्रश्वर्मन्, करपाणवर्मन्, वीतिसेन आदि विभीत वाल नाम तक प्राप्त नहीं होता।<sup>५</sup> श्री जायसवाल तथा श्री शर्मा लिंच्छवियों के सम्बन्ध को मुख्य आधार मानते हैं। इनके भत में वह भी गलत है। विन्टनिट्ज ने लिखा है कि चन्द्रगुप्त प्रथम, जिसका पिता घटोत्कच स्वयं भगव का गासङ्ग था। पाटलिपुत्र की राजधानी से शासन करता था। इसके अतिरिक्त यह भी प्रकट है कि चन्द्रगुप्त गुप्तवंश में तीसरी पीढ़ी पर या और एक महाराजाधिराज था। अत यह कैसे सम्भव है कि उमका विश्वासयाती, परराज्यापहर्ता, निश्च चण्डसेन से साध्य हो सके।<sup>६</sup> श्री चट्टोपाध्याय ने लिखा है कि वौमुदीमहोत्सव वा ऐतिहासिक मानने के लिए मुदा,

<sup>१.</sup> एनाल्स० ३०-३१, भाग १२, पृ० ५२-५३ तथा ज० धी० औ० आर० एस० भाग १६ पृ० ११३.

<sup>२.</sup> एनाल्स० १२, पृ० ५५,

<sup>३.</sup> वही,

<sup>४.</sup> विशेष हृष्टव्य, कु० स्वामी वात्यूम, पृ० ३५६-६२, इ० कल्चर भाग ६, पृ० १००-१, इ० हि० वदा० भाग १४, ११३६, पृ० ५८२-६०८, इ० कल्चर, वात्यूम, १० पृ० २६-१०, वही वात्यूम ११, पृ० ८६ और वात्यूम ६, पृ० ४२-४३; यामन वात्यूम ११३६, पृ० ११५-२० आदि,

<sup>५.</sup> कु० स्वामी वात्यूम, पृ० ३६२,

<sup>६.</sup> वही,

शिलालेख, तथा अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। श्री जायसवाल लिच्छवियों के "सम्बन्ध" शब्द के आधार पर ऐतिहासिक मानकर चन्द्रगृष्ट प्रथम से सम्बन्ध जोड़ते हैं किन्तु, चट्टोपाध्याय के अनुसार नाटक में केवल लिच्छवियों के साथ सम्बन्ध का ही उल्लेख है,<sup>१</sup> न कि लिच्छवियों के साथ विवाह का।<sup>२</sup>

श्री चट्टोपाध्याय ने यह भी कहा है कि विशुद्ध पुरातात्त्विक प्रमाणों के आधार पर इतिहास जबकि यह स्वीकार करता है कि चन्द्रगृष्ट प्रथम का पिता घटोत्कच स्वयं एक महाराज था, तब चन्द्रगृष्ट का कृतकपुत्र चण्डसेन से साम्य मानना उचित नहीं है। अनेक पुरातात्त्विक प्रमाणों से घटोत्कच के बाद चन्द्रगृष्ट का महाराजाधिराज होना सिद्ध होता है जबकि नाटक में चण्डसेन का राज्यकाल सुन्दरवर्मन् के राज्य के अपहरण के पश्चात् ही प्रारम्भ होता है।<sup>३</sup> इसके अतिरिक्त नाटक में स्पष्टतः यह उल्लेख है कि चण्डसेन के मरने पर कल्याणवर्मन् का राज्याभिषेक हुआ।<sup>४</sup> साथ ही नाटक में चण्डसेन के वश के समूलोन्मूलन का भी संकेत है।<sup>५</sup> विद्वानों के अनुसार इसका तात्पर्य स्वयं चण्डसेन का अपने परिवार के उत्तराधिकारियों सहित नप्त हो जाना है।<sup>६</sup> जबकि ज्ञात इतिहास के अनुसार चन्द्रगृष्ट प्रथम अपने अन्तिम समय तक शाति के साथ रहा तथा उसके कई पुत्र भी थे। अगर चन्द्रगृष्ट प्रथम तथा चण्डसेन को एक भी माने तो भी इलाहावाद के अभिलेख तथा कौमुदी-महोत्सव का परस्पर प्रवल विरोध प्रकट है।<sup>७</sup>

श्री चट्टोपाध्याय ने कौमुदी महोत्सव से इलाहावाद के शिलालेख के साथ अनेक विरोधों का उल्लेख किया है। जैसे यदि चण्डसेन चन्द्रगृष्ट को एक ही माने तो इलाहावाद के शिलालेख में वर्णित चण्डसेन के आँसू प्रेम के प्रमाणित न होकर मृत्यु के समय के होने से दुःख के ही सिद्ध होगे।<sup>८</sup> दूसरे, शिलालेखों से चन्द्रगृष्ट की समृद्धि का ज्ञान होता है, न कि राज्यापहरण होने पर युद्ध में घायल होने का तथा घायल अवस्था में पुत्र से समस्त पृथ्वी-पालन करने के लिए कहने का। जैसाकि

१. कौ० म० पृ० ३०,

२. इ० हि० क्वा० भाग १४, १६३८, पृ० ५८६,

३. वही

४. कौ० म० ५११,

५. वही, पृ० ३६,

६. थामस वाल्यूम, पृ० ११६.

७. वही, पृ० ११६ तथा इ० हि० क्वा० १४, १६३८-पृ० ५८७,

८. इ० हि० क्वा० १४, १६३८, पृ० ५८८,

श्री जायसवाल मानते हैं। ऐसे ही अनेक कारणों से दोनों का साम्य असम्भव है। शिला-सेतु में उत्तराधिकारियों तथा उसके जीवन की शातिपूरण दशा का उल्लेख है, किन्तु जायसवाल न अपने इतिहास में उनका भिन्न ही अर्थ किया है जोकि सर्वथा अस्वाभाविक है। बास्तव में शिलालेख के उल्लेख के आधार पर चन्द्रगुप्त प्रथम से चण्डसेन का साम्य सर्वथा असम्भव है।<sup>१</sup>

श्री चट्टोपाध्याय ने श्री जायसवाल तथा ढाँ शर्मा द्वारा चण्डसेन तथा चन्द्रसेन शब्द के साम्य का भी निराम किया है।<sup>२</sup> सस्कृत का चन्द्र प्राकृत में चड़ कदापि नहीं वन सकता। कुमारी शकुन्तलाराव ने भी इसका विरोध किया है।<sup>३</sup> नाटक म प्राकृत रूप चदच्च का सस्कृत रूप चन्द्रइव लिखा है,<sup>४</sup> जबकि अन्यत्र नाटक में सस्कृत में ही नायक को चण्डमेन लिखा है। अन्य विद्वान् भी इस साम्य को स्वीकार नहीं करते।<sup>५</sup>

श्री चट्टोपाध्याय ने अनुसार चण्डसेन का चन्द्रगुप्त के साथ साम्य मानवार, कारस्कर (धारिणी जाट) मानना भी उचित नहीं है, तथा चण्डमेन को जन्म से कारस्कर मानना भी कौमुदी-महोत्सव के साथ न्याय नहीं है। नाटक से यह जात होता है कि लेखिका वा अभिप्राय, वही यही है कि चण्डसेन श्रव राजाओं में कारस्कर हो गया है।<sup>६</sup> नाटक में बारम्कर का तात्पर्य राजाओं के बीच विप्रवृक्ष के समान ही है। श्री चट्टोपाध्याय ने पाणिनि, भागवत और राजनिष्ठदु के उल्लेख के आधार पर यही अर्थ ठीक माना है।<sup>७</sup> नाटक में आर्यरक्षित ने उसे “विष्टतरुरिव पुत्रीकृतः” बहा है तथा उसके “शीलापराघ” का उल्लेख<sup>८</sup> किया है। स्पष्ट है कि जनता में वह अप्रिय था। अतएव यह शब्द प्रयोग किया।

कुमारी शकुन्तलाराव ने यह भी लिखा है कि कारस्कर धर्मश स्त्र के अनुमार नीच वर्ण के ये, जैसाकि नाटक में वर्णमानक के “कुत्रेट्ववरणस्य राजथी” शब्द से

१. इ०हि० व्या०, पृ० ५८६ तथा यामस वाल्यूम, पृ० ११७,

२. इ० हि० व्या० १४, १६३८, पृ० ५८६-६१,

३. इ० बलचर, भाग ६, ४२-४३ पृ० २३२-२३,

४. कौ० म० ४१२,

५. यामस वाल्यूम, पृ० ११६,

६. कौ० म० ४१६,

७. इ० हि० व्या० भाग १४, १६३८, पृ० ५६१, श्री चट्टोपाध्याय कारस्करों की दक्षिण का मानते हैं।

८. कौ० म० पृ० ३०,

स्पष्ट होता है। किन्तु इतिहास से चन्द्रगुप्त कहीं भी नीच प्रतीत नहीं होता। इतिहास के अनुसार वह घटोत्कच का उत्तराधिकारी था।<sup>१</sup>

श्री वासुदेव उपाध्याय ने गुप्तों के लिए प्रयुक्त कारस्कर शब्द की अपनी पुस्तक “गुप्त साम्राज्य के इतिहास भाग १” में चर्चा की है। उन्होंने गुप्तों को कारस्कर के आधार पर शूद्र मानने के सभी तर्कों का विस्तार से खंडन किया है। उपाध्याय ने लिखा है कि वास्तव में इस शब्द का शब्दार्थ कोई महत्व नहीं रखता। नाटक में प्रयुक्त यह शब्द चण्डसेन की जाति का सूचक नहीं है, प्रपितु इसे चण्डसेन के स्वामीद्वारा, देश-द्वारा तथा शीलापराध जैसे पापों के लिए प्राप्त उपाधि ही मानना चाहिए।<sup>२</sup>

धारण गोत्र के सम्बन्ध में ऐतरेय ब्राह्मण का प्रमाण देते हुए उन्होंने लिखा है कि प्राचीन तथा अर्वाचीन समय में ब्राह्मणों जातियाँ अपने पुरोहितों के गोत्र को ही अपना लिया करती थीं, तथा अपने गोत्र का नामकरण पुरोहित के गोत्र के नाम पर ही कर लिया करती थी। अतः यह सम्भव है कि यह धारण गोत्र पुरोहित के गोत्र से लिया गया हो। अतश्च इस शब्द के आधार पर जाटों से समता ठहराना महत्वहीन है।<sup>३</sup>

श्री उपाध्याय की मान्यता है कि सुन्दरवर्मद क्षत्रिय था। धर्म-शास्त्र के आधार पर समान जाति को ही गोद लेने का विधान है। अत चण्डसेन भी क्षत्रिय ठहरता है,<sup>४</sup> न कि शूद्र, जैसाकि जायसवाल मानते हैं।

उपाध्याय ने सिरपुर (रायपुर) मध्य प्रदेश की गुप्त राजा की एक प्रश्नस्ति को उद्घृत लिया है, उसमें गुप्त लिखा है, जिसके आधार पर गुप्त चन्द्रवंशी ही ठहरते हैं।<sup>५</sup> उपाध्याय ने “मंजु-श्रीमूलकल्प” आदि ग्रन्थों के आधार पर भी यह प्रमाणित किया है कि चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य को सोमवंशी क्षत्रिय कहा गया है।<sup>६</sup> उपाध्याय की यह भी मान्यता है कि जैन, बौद्ध (तथा ब्राह्मण) प्रमाणों के आधार पर लिच्छवि भी क्षत्रिय सिद्ध होते हैं।<sup>७</sup> समुद्रगुप्त ‘लिच्छवि दौहित्र’ था, अतः वह भी क्षत्रिय

१. ह० कल्चर, बाल्यम ६, पृ० २३४,

२. गुप्त सा० इति० उपाध्याय भाग १, पृ० २०,

३. वही, पृ० २०-२१,

४. वही, पृ० २१,

५. वही,

६. वही,

७. वही, पृ० २२-२३,

था। इससे प्रकट है कि गुप्त क्षत्रिय थे शूद्र नहीं।<sup>१</sup> और भी अन्यान्य प्रभाणों के आधार पर गुप्त क्षत्रिय सिद्ध होते हैं। गुप्त नाम केवल दासात्मक है “गुप्त-दासात्मक नाम”।<sup>२</sup> अत गुप्तों को शूद्र मानने की धारणा नितान निराधार है।

उपर्युक्त परिशीलन से स्पष्ट है कि कीमुदी महोत्तमव की ऐतिहासिकता का मुख्य आधारभूत पात्र चण्डसेन इतिहास-सम्मन न होने पर भी ऐतिहासिकता का अम उत्पन्न करता है। चण्डसेन से सम्बन्धित इतिवृत्त पर्याप्त विवादास्पद है तथा कल्पना पर आधारित है।

### सुन्दरवर्मन्, कल्याणवर्मन्, कीतिवर्मन् तथा मन्त्रगुप्त आदि की अनेतिहासिकता

विन्निटज, तथा श्री चट्टोपाध्याय आदि की मान्यता है कि इतिहास में चण्डसेन, सुन्दरवर्मन्, कल्याणवर्मन्, कीतिमेन, मन्त्रगुप्त आदि विसी के भी नाम तक वा उल्लेख नहीं है। अत इनसे सम्बन्धित घटन आँ को ऐतिहासिक मानना उचित नहीं है।<sup>३</sup> द्रास्तव में यदि कल्याणवर्मन् को ऐतिहासिक मान भी लें, तो उसके माध्य चड्डेन तथा समुद्रगुप्त न भी लिच्छवियों के युद्ध में कीतिमेन के एक सम्बन्धी होने से ग्रवश्य भाग लिया होगा, किन्तु इलाहाबाद-लेख में उसका भी नाम नहीं है।<sup>४</sup> इसी प्रकार वहाँ न सुन्दरवर्मन् का उल्लेख है न कीतिसेन का। यद्यपि जैसाकि हम लिख चुके हैं श्री जायसवाल ने सुन्दरवर्मन् के उल्लेखाभाव वा वारण छोटे तथा महंत्वहीन परिवार से सम्बन्ध बतलाया है तथा कीतिसेन के उल्लेखाभाव का कारण उसकी शीघ्र मृत्यु। पर, ये दोनों ही कारण आनुमानिक तथा अस्वाभाविक हैं। ऐसे अनुमान के आधार पर इतिहास को भुट्ठाया जाना असम्भव है। इसके अतिरिक्त जायसवाल ने मन्त्रगुप्त तथा कल्याणवर्मन् के उल्लेखाभाव का कारण ही कोई नहीं बतलाया। विसी भी आधार पर कल्याणवर्मन् जैसे नाटक के प्रमुख पात्र को समुद्रगुप्त के समकालीन नहीं माना जा सकता। इसके प्रतिरिक्त नाटक में चड्डेन के विश्व राज्यत्राति में सक्रिय भाग लेने वाले शवर, पुलिन्द आदि का उल्लेख है। चण्डसेन के वाद कल्याणवर्मन् से राज्य अधिकृत करने पर सम्भवत उसे इनके विरोध का सामना करना पड़ा होगा।

१. गुप्त सा० इति० भाग १;

२. वही, पृ० २४,

३. कृ० स्वासी वाल्यूम, पृ० ३६२, इ० हि० वया० १६, १६३८, पृ० ६१,  
यामस वाल्यूम पृ० ११६,

४ यामस वाल्यूम, पृ० ११६,

तथा इनको प्रतिशोध रूप में युद्ध करके दंड दिया होगा, किन्तु इलाहावाद-लेख आदि में इनका कहीं भी उल्लेख नहीं है।<sup>१</sup>

इसके अतिरिक्त विद्वानों के अनुसार नाटक में अनेकशः कीर्तिमेन को यादव-षंशी तथा मयुरा का शासक कहा है, किन्तु इतिहास से ज्ञात होता है कि गुप्तों से पूर्व मथुरा कुण्डानों के अधिकार में थी। उनकी संभावना है कि कुण्डानों से नारों के अधिकार में चाहे चली गई हो पर यादवों के अधिकार में न थी।<sup>२</sup> यदि सुदूर भूत की घटना के आधार पर मयुरा का शासक यादवों को कहा है तो वह भी इतिहास-विरुद्ध है। यद्यपि मिस्टर एडवर्ड पेरिस ने लिखा है कि चण्डसेन के बाद कल्याणवर्मन् राज्य पर अधिष्ठित हुआ, किन्तु लिच्छवियों ने कल्याणवर्मन् को ज्यादा समय राज्यासान नहीं रहने दिया होगा। उन्होंने अपने दौहित्र समुद्रगुप्त पर शीघ्र घ्यान दिया होगा। अतः या तो वह शीघ्र मारा गया या अपदस्थ कर दिया गया। यही कारण है कि समुद्रगुप्त ने कल्याणवर्मन् का विशेष महत्व नहीं समझा। अतएव प्रशस्ति में उल्लेख नहीं हुआ,<sup>३</sup> किन्तु श्री जगन्नाथ ने इस अनुसारत को निःसार बतलाया है। जगन्नाथ ने लिखा है कि समुद्रगुप्त के साथ कल्याणवर्मन् का सीधे संघर्ष न होने आदि की कल्पना करना महत्वहीन है। जबकि समुद्रगुप्त-प्रशस्ति में अन्य अनेक विरोधियों का उल्लेख हुआ है तब कल्याणवर्मन् का न होना अनैतिहासिकता का ही कारण है। वास्तव में कल्याणवर्मन् जिससे कि चण्डसेन का सामना अवश्य हुआ था, और सम्भव है, तथाकथित लिच्छवियों के युद्ध का भी ज्ञान समुद्रगुप्त को अवश्य होगा। किन्तु इलाहावाद-शिलालेख में इस सम्बन्ध में कोई उल्लेख न होना इस बात का प्रमाण है कि कल्याणवर्मन् गुप्तों के समकालीन नहीं था।<sup>४</sup> संक्षेप में उर्ध्वक्त्र अनुशीलन से स्पष्ट है कि जायसवाल आदि विद्वानों ने लिच्छवियों से सम्बन्धित भ्रामक कल्पना तथा कारस्कर आदि के कल्पित अर्थ के कारण ही नाटक के कथानक को ऐतिहासिक माना है, अन्यथा इनका सूक्ष्म अध्ययन करने पर तथा अन्य अनेक पुरातात्त्विक विरोध एवं पात्रों के नाम साम्य के अभाव आदि के कारण यह अनैतिहासिक ही ठहरता है।

कुछ अन्य विद्वानों ने भी कौमुदी-महोत्सव की कथावस्तु तथा पात्रों को अपने-अपने प्रकार से ऐतिहासिक मानने का प्रयास किया है—

१. आमस वाल्यूम, पृ० ११८,

२. वही, पृ० १२०,

३. दि मौखिक, पृ० ३८-३९,

४. आमस वाल्यूम, पृ० ११६,

(१) मिस्टर एडवर्ड परिस ने नाम के अन्न में वर्षद होने के बारण शब्द-सामग्र के आधार पर मुन्दरवर्मन् तथा कल्याणवर्मन् से योखरीवश का स्वीकार किया है।<sup>१</sup> किन्तु भारत में वमन् नामान्त अनेक राजा हुए हैं। सातवाहन के उत्तरकालीन अनेक राजाओं के नाम इसी प्रकार के थे। अत नाम के एक भाग मात्र की समानता के आधार पर वश निधारित करना उचित नहीं माना जा सकता।

(२) श्री वैलाल चन्द्र श्रोभा ने महरीली के चन्द्रगुप्त के लोहस्तम्भ के अभिलेख के आधार पर कोमुदीमहोत्सव के चण्डसेन से उसका साम्य स्वीकार किया है।<sup>२</sup> शिलालेख में चन्द्रगुप्त के सम्बन्ध में उल्लेख है कि उसने अपनी शक्ति के बल पर ही विशाल साम्राज्य प्राप्त किया। अत श्री श्रोभा का अनुमान है कि चण्डसेन के समान ही उसने अपनी संनिव योग्यता तथा उपलब्धि के आधार पर ऐसा किया होगा।

शिलालेख म पजाव तथा दक्षिणी मधुदत्त के चन्द्रगुप्त की विजय का उल्लेख है। इसी के आधार पर श्री श्रोभा का अनुमान है कि चण्डसेन के समान चन्द्रगुप्त ने भी लगभग समस्त उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया होगा। महरीली का शिलालेख चन्द्रगुप्त के पूर्व-पुरुषों के सम्बन्ध में तथा उत्तराधिकारी के सम्बन्ध में पूरणत मौन है। अत सम्भव है कि चन्द्रगुप्त ही अपन वश का प्रथम सत्यापक था तथा वही अग्निम भी। महरीली के शिलालेख के अध्ययन के बाद कुछ विद्वानों ने यह भी बतलाया है कि चन्द्रगुप्त न अपने अतिम समय म साम्राज्य स्वो दिया था। इस आधार पर चण्डसेन की चन्द्रगुप्त से समानता सुप्रकट है।

यद्यपि उपर्युक्त प्रकार से चन्द्रगुप्त-चण्डसेन का साम्य बतलाने की चेष्टा अवश्य की है किन्तु यह सभी तर्क बहुत हल्के हैं। स्वयं श्री श्रोभा एक और महरीली के चन्द्रगुप्त से चण्डसेन का साम्य सोजत हैं तो दूसरी ओर वह यह कहते हैं कि चन्द्रगुप्त प्रथम कुछ इतिहासकारा के अनुसार दक्षिण के किसी राजा के अधीनस्थ रहा था। यद्यपि वह चन्द्रगुप्त प्रथम के साथ चण्डसेन का साम्य बतलाना चाहते हैं, पर जान पड़ता है कि उनका स्वय का अपना कोई मत नहीं है। वस्तुत चन्द्रगुप्त प्रथम स साम्य तो सम्भव ही नहीं है। यद्यपि महरीली के स्तम्भ के चन्द्रगुप्त के साम्य म बहुत समय तक विवाद रहा है किन्तु भव सामान्यतः उसका साम्य चन्द्रगुप्त द्वितीय से माना जाने लगा है।<sup>३</sup>

१. हृष्टव्य दि योखरिज़ : इ० ए० पेरिस, पृ० १३, तथा २३-४१,

२. हृष्टव्य इ० हि० वाल्यूम ३२, जून तथा सितम्बर १९५७, पृ० ४२७,

३. दि गुप्ता एमायर, मुर्जी, त०० स०, पृ० ६६-६६,

यदि चण्डसेन के साथ साम्य पर विचार भी करेतो विजय, साम्राज्यवृद्धि तथा वंशोल्लेख के अभाव के कारण चन्द्रगुप्त से चण्डसेन की समानता नहीं मानी जा सकती। चण्डसेन से समानता के लिए देखना यह है कि कौमुदी महोत्सव के चण्डसेन से किमी के चरित्र तथा तत्सम्बन्धित घटनाओं में समानता है या नहीं तथा कौमुदी-महोत्सव में उल्लिखित अन्य पात्रों का उल्लेख है या नहीं। किन्तु इस सम्बन्ध में भी महरोली का शिलालेख पूर्णतः मौन है। इसके अतिरिक्त जवाकि विभिन्न इतिहासकार विद्वानों ने चन्द्रगुप्त तथा चण्डसेन का शास्त्रिक साम्य तक अस्वीकृत तथा त्रुटिपूर्ण सिद्ध कर दिया है, तो दोनों में साम्य मानना सर्वया अस्वाभाविक होगा।

सभी विद्वानों के मतों के अनुशीलन तथा नाटक के परिशीलन के पश्चात् हमें यही स्वीकार करना पड़ता है कि कौमुदीमहोत्सव की रचना राजनीतिक पृष्ठभूमि में अवश्य हुई है किन्तु इसे विषुद्ध ऐतिहासिक स्वीकार नहीं किया जा सकता है। नाटक के किसी भी पात्र तथा घटना की ऐतिहासिकता इतिहास से प्रमाणित नहीं होती। वास्तविकता यही है कि नाटक की लेखिका ने इसको किसी विशेष प्रयोजन तथा विशेष परिस्थिति में लिखा है। अत यदि इसकी रचना की पृष्ठभूमि की खोज पा लें तो इसके सभी विवावास्पद रहस्य स्वतः खुलते चले जाएंगे।

इस नाट्य-रचना की परिस्थिति के पर्यावरण के प्रमंग में दो वातों मुख्य रूप से उल्लेख कर चुके हैं :

(१) इसकी रचना प्रस्तावना के अनुसार नाटक के प्रमुख पात्र कल्याणवर्मन के राज्याभियेक के समय अभिनव के लिए की गई थी।

(२) कल्याणवर्मन को सम्बन्धित समग्र घटनाओं में प्रमुख रूप से अवतरित करने की एक मात्र आकांक्षा से स्वल्प समय में शीघ्रता से ही नाट्य-योजना की गई थी।

उपर्युक्त दोनों परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में देखने से स्पष्ट होता है कि लेखिका ने शीघ्रतावश जिस प्रकार अपने पूर्ववर्ती ग्रनेक भास, कालिदास, दंडी आदि कवियों तथा नाटककारों से भाषा, भाव, छव्व, शिल्प आदि ग्रहण किया है, उसी प्रकार कथावस्तु की हृष्टि से भी लेखिका ने अनेक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं के मूत्र संजोकर कल्याणवर्मन से सम्बन्धित प्रणय तथा विजयकथा के ताने वाने से नाटक का कथापट बुन दिया है। लेखिका शीघ्रतावश जिस तरह पूर्ववर्ती कवियों तथा नाटककारों से संग्रहीत सामग्री को आत्मसात् नहीं कर पाई है, उसी प्रकार इधर-उधर से संग्रहीत ऐतिहासिक घटनाओं को भी संतुलित रूप में संस्कार-परिष्कार करके विन्यस्त करने में असफल रही है। फलतः जिस प्रकार नाट्य-कला की हृष्टि से प्रांजलता तथा नाटकीयता आदि के अभाव में रसप्रवण नाट्यरूप का निर्माण न

होकर यह भौंडी सी रचना बनवार रह गई है। उसी प्रकार यद्यपि इसमें राजनीतिक धातावरण का गृजन हुआ है, 'राजनीतिक पृष्ठभूमि' का निर्माण हुआ है जिन्हु ऐतिहासिकता में व्यवस्था का अभाव रह गया है और पुनर्ष्व हमको यह स्वीकार करना पड़ना है कि कौमुदीमहात्मव में ऐतिहासिक विशुद्धता का अभाव इसी कारण है कि इसकी रचना किसी व्यवस्थित ऐतिहासिक घटना के आधार पर नहीं की गई है। यही कारण है कि इसमें कथाविन्याम में दैशिक तथा बालिक एकता के अभाव का सर्वप्रमुख दोष है। तथापि, विशृंखल रूप में उपन्यस्त कौमुदीमहोत्सव के कथासूत्रों को अनुमानिक रूप से खोजा जा सकता है।

(१) भारतवर्ष में प्राचीनकाल से मगध राज्य तथा उसकी राजधानी पाटलिपुत्र का राजनीतिक तथा ऐतिहासिक महत्व रहा है। इसी पाटलिपुत्र (या मगध) पर कई चन्द्रगुप्त नाम के ऐतिहासिक राजा अधिष्ठित हुए हैं। विशेष रूप से मगध के पड़ोसी निक्षेपी प्रतापी रहे हैं तथा इनके साथ मगध के राजाओं का (वैवाहिक) सम्बन्ध भी स्थापित हुआ है तथा इन्हीं की सहायता से मगध के अम्बुदप की ब्राह्मण भी प्रसिद्ध हैं। अनुमान होता है कि इन्हीं प्रमिद्ध कथाप्रो के आधार पर सेलिका ने चण्डमेन नामक पात्र की बल्णना की है तथा उसे उसी प्रकार की परिस्थितियों में चित्रित कर दिया है। इसके अतिरिक्त लेखिका चन्द्रगुप्त नामक पात्र का प्रयोग भी कर सकती थी, जिस तरह कि अन्य शुद्ध नाम वाले कीनिमेन आदि पात्रों का प्रयोग किया है किन्तु वैसा नहीं किया है। इसका बारगण यह प्रतीत होता है कि चन्द्रगुप्त के स्थान पर उसने कथानक के चरित्र के अनुरूप उपनाम भयश्वरता, पौरुषता आदि हेय भावों की अभिव्यक्ति के अभिप्राय से ही चण्डमेन नाम प्रयुक्त किया है। हमारा यह भी अनुमान है कि वास्तव में कल्याणवर्मन् का विसी चन्द्रगुप्त के झण्डा नहीं था, बल्कि किसी 'सेन' राजा के साथ ही कल्याणवर्मन् की अनवरता थी। अतएव चन्द्रगुप्त को चण्डसेन बनाकर अभीष्ट शशु की ओर इगित किया गया है। इसी कीर्तिसेन की भी "सेन" राजा के रूप में अवतारणा की है, तथा उसे चण्डसेन के सहायक के रूप में चित्रित किया गया है।

(२) भूरसेन की मयुरा इतिहास में प्रसिद्ध है। मयुरा पर यादवों का प्राचीन प्राचीनकाल में अधिवल्पत्य रहा है। इसी आधार पर मयुरा में यादव राजा कीर्तिसेन की बल्णना की गई है। समवत् इसी "सेन" राजा की पुत्री का मगध के राजा से सम्बन्ध हुआ है। इसी आधार पर मगध तथा मयुरा में सम्बन्ध की योजना है। कारण कीर्तिसेनी पूर्णतः कल्पित तथा प्रतीकात्मक पात्र है। कीर्तिसेन के नाम पर ही कीर्तिसेनी की बल्णना कर ली गई है।

(३) इतिहास से उत्तरी भारत में अनेक वर्मन् नामान्त वाले राजाओं का ज्ञान होता है। मोखरी एवं आनन्दवश के राजाओं के अन्त में भी "वर्मन्" जुड़ा हुआ

मिनता है। अतः सुन्दररमण्ट तथा कल्याणरमण्ट पात्रों के आस्तित्व पर विश्वास होता है। हमारा विश्वास है कि लेखिका निश्चित रूप से किसी कल्याणरमण्ट के आश्रित लेखिका थी। कुमारी शकुन्तलाराव जास्त्री ने यह लिखा है कि लिङ्छवी नेपाल में शासन करते थे, अतः सम्भव है नाटक में उसी भूमि का इतिहास लिखा गया है।<sup>१</sup> जो भी हो, यह निश्चित है किसी रूप में यह सभी घटनाएँ उत्तरी भारत से सम्बन्धित हैं।

इस प्रकार हमारा विश्वास है कि लेखिका ने अपने पूर्ववर्ती इतिहास की कुछ प्रसिद्ध घटनाओं से आधार ग्रहण करके कल्पना द्वारा ऐतिहासिकता के आरोप करके कथानक गढ़ लिया है। पात्रों को भी इतिहास के रंग से अनुरंजित करके मांसल तथा सजीव बनाने की सफल चेष्टा की है। नाटक के समग्र कथानक को हम ऐतिहासिक नहीं मान सकते। हमारा अनुमान है कि लेखिका ने अपने आश्रयदाता या सुपरिचित सम्बन्धित कल्याणरमण्ट के चरित्र से सम्बन्धित प्रगाण-कथा से राजनीतिक कथा को संयुक्त करके नाट्यवृद्ध कर दिया है। तथांि नाटक में लेखिका ने यह निर्देश दिया है कि यह मगध-राजा के अन्तःपुर से सम्बन्धित घटनाओं का नाट्य-रूप है। नाटक में पाटलिपुत्र तथा लिङ्छवियों के सम्बन्ध आदि का ऐतिहासिक उल्लेख है। पात्र भी ऐतिहासिक नामों के रूप में प्रयुक्त हैं। अतः हम इसे विशुद्ध ऐतिहासिक नाटक नहीं मान सकते। लेखि.। ने अपनी लेखिनी द्वारा सफल राजनीतिक वातावरण की अभिसृष्टि की है। पात्र तथा घटनाओं पर ऐतिहासिकता का आरोप किया है। घात-प्रतिघात के द्वारा कथानक को गति देने की चेष्टा की है। अतः हम इसे राजनीतिक पृष्ठभूमि पर आश्रित कल्पना-प्रधान ऐतिहासिक नाटक ही मान सकते हैं।

हमें यह मानने में संकोच नहीं कि कौमुदी महोत्सव की पृष्ठभूमि ऐतिहासिक है। एकाधिक घटनाएँ भी सुझात इतिहास की ओर संकेत करती हैं। नाटक के पात्रों का चरित्र भी ऐतिहासिक चरित्रों के अनुरूप चित्रित किया गया है किन्तु कथानक का सूत्र तथा पात्र इतिहास सम्मत तथा क्रमपूर्ण न होने के कारण इसकी ऐतिहासिकता विवादास्पद है। कौमुदी-महोत्सव में विशुद्ध राजनीतिक घटनाचक्र न होकर राजनीतिक पड़यन्त्र तथा श्रांगारिक घटनाओं का चित्रण है। यह चित्रण भी असंतुलित है। यहाँ न राजनीतिक घटनाओं का ही विकास हुआ है न प्रणयकथा का ही। किन्तु यह अवश्य स्वीकार करना पड़ता है कि लेखिका ने इधर-उधर की घटनाओं तथा पात्रों को एकत्र करके भी ऐतिहासिकता की सुष्टि बड़ी सफलता से की है। राजनीतिक घात-प्रतिघात के वर्णनमात्र से कथानक में जीवन डालने की चेष्टा की है। वातावरण में ऐतिहासिकता तथा सरसता का संचार किया है।

नि सदैह अत मे, हमे यही न्वीकार बरता पड़ता है कि कौमुदी महोत्तम ऐतिहासिक शैली मे लिखा गया सामान्य नाटक है, जिसे हम कल्पना प्रधान ऐतिहासिक नाटकों की श्रेणी मे रखना ही उचित मानते हैं। किन्तु इस नाटक की विशेषता यह है कि यह नाटक काल्पनिक इतिहास पर आधारित होने पर भी सशक्त ऐतिहासिक नाटक की शैली मे रखित है। अत् यह ऐतिहासिक नाटक होने का अम उत्पन्न करने मे सर्वथा समर्थ है, और ऐतिहासिक वातावरण से प्रापूरित होने से इतिहासरत का भास्याद कराने मे भी सफल छहरता है।

## (२) हम्मीरमदमर्दन

“हम्मीरमद-मर्दन” नाटक मध्यकालीन ऐतिहासिक नाटकों मे विशेष महत्त्व-पूर्ण है। इस नाटक से १३वीं सदी के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। मुख्यत यह क्योंकि मध्यकालीन रचना है तथा इसकी रचना ऐतिहासिक हृष्टिकोण से, ऐतिहासिक शैली मे ही की गई है। अत इसका महत्त्व और भी बढ़ गया है।

### रचनाकाल एवं रचनाकार :

इस नाटक के अन्त म “सम्बत् १२८६ वर्षे आपाठ अदि ६ शनि हम्मीरमदंन नाम नाटकम्” लिखा है। अत इसका समय १२७६-१२८६ के बीच अर्थात् मन् १२१६ से १२२६ के बीच माना गया है।<sup>१</sup> हम्मीरमदमर्दन की रचना जयसिंह सूरी ने की है। वैसे, जयसिंह सूरि नाम के एकाधिक विद्वान् हुआ है<sup>२</sup> किन्तु नाटक का लेखक जयसिंह सूरी वीर सूरी का विष्य तथा खम्बात के मुनि सुब्रत के मन्दिर का आचार्य था। नाटक की प्रस्तावना मे वस्तुपाल तेजपाल प्रशस्ति तथा प्रस्तुत नाटक की रचना परिच्छितियों तथा वारणी पर विस्तार से प्रकाश ढाला गया है। उससे ज्ञात होता है कि वस्तुपाल के पुत्र जयसिंह की प्रसन्नता के लिए स्तम्भ-तीर्थ में भीमेश्वर के यात्रा-महोत्सव के समय प्रदर्शन के उद्देश्य म यह नाटक लिखा गया था। इसकी रचना स्वयं जयसिंह सिंह ने करवायी थी। प्रस्तावना मे इस नाटक को वीरधवल के साधात् शरीरी पश्च के रूप मे उल्लेख किया है। स्पष्ट है कि इस नाटक मे वीर धवल तथा उसके मत्रि वस्तुपाल एवं तेजपाल से सम्बन्धित ऐतिहासिक घटनाओं को नाट्यबद्ध किया गया है।

### नाटक का सक्षिप्त कथानक :

प्रस्तावना के अनन्तर वीरधवल तेजपाल के साथ वस्तुपाल की नीतिज्ञता की प्रशसा करता हुआ प्रवेश करके बतलाता है कि जिस समय वह यदुमहीपाल सिंहण

१. सस्कृत इन्डिया शीय, पृ० २४८,

२. विशेष देखो हम्मीर०, नोट्स पृ० २, तथा रासमाला (हिन्दी), पृ० २५२,

के आक्रमण से डर रहा था, तथा मालवराज से संहायता-प्राप्ति की सभी आशा क्षीण हो गयी थीं, तब वस्तुपाल के द्वारा ही कृतकरिपु लाट देश के राजा श्रीसिंह ने मेरी मित्रता प्राप्त की। इसी प्रकार पहले महनरेन्द्र के निग्रह-विग्रह में व्यग्र होने पर वस्तुपाल द्वारा प्रदर्शित नीतिज्ञता का प्रशंसा करता हुआ वर्तमान गम्भीर स्थिति के संबंध बतलाता है कि अब पुनः सिंहण, तुरण्णक वीर तथा मालव के राजा ने आक्रमण करने का उपक्रम किया है और वस्तुपाल ही इसे विद्युतित कर सकता है। तभी वस्तुपाल तेजपाल के पुत्र लावण्यसिंह के द्वारा नियुक्त गुप्तचरों की सफलता के सम्बन्ध में बतलाता है। तेजपाल पंचग्राम में युद्धेश्वर में प्रदर्शित वीरधबल के पराक्रम की प्रशंसा करता है। वीरधबल के द्वारा हम्मीर पर प्रयाण के सम्बन्ध में परामर्श करने पर वस्तुपाल इस आक्रमण से संभावित कठिनाइयों को बतलाता हुआ भावी संकट के प्रति चेतावनी देता है तथा पहले मारवाड़ के राजाओं को जीतने तथा अपने पक्ष में मिलाने का परामर्श देता है। द्वितीय अंक में लावण्यसिंह म्लेच्छराज के आक्रमण के समय वस्तुपाल की कूटनीति के कारण वीरधबल के आक्रमण की आशंका से आ मिले सीमसिंह, उदयसिंह तथा धारवर्ष से युक्त वीरधबल की शक्ति की प्रशंसा करता है। इसी प्रकार वह आ मिलने को उत्सुक भीमसिंह, विक्रमादित्य तथा सहजपाल के सम्बन्ध में तथा अनेक घोट-वडे राजाओं की आ मिली सेनाओं के सम्बन्ध में बताता है। तभी निपुणक लावण्यसिंह से मिहण्णदेव के स्कंधावार का समाचार कहता है कि कुशलक ने देवपाल के घोड़े को चुराकर सिंहण के सेना संचालक संग्रामसिंह को दे दिया है।

शीघ्रक ने भी सिंहण के पास पहुँच कर, हम्मीर के सेनाओं द्वारा गुर्जर सेना के नष्ट करने का समाचार कहा एवं वीरधबल द्वारा उसके विरुद्ध अभी अभी छिड़ने वाले युद्ध का समाचार कह कर, प्रयाणोत्सक सिंहण को ताप्ती के तट पर रोका। तभी सुवेग वहाँ तापसवेग में पहुँचा तथा सिंहण में आने पर भगने के कारण गुप्तचर की आशंका से फड़वा लिया। उसकी जटाओं में गुप्त लिपि में लिखित लेख था। उसमें देवपाल ने संग्रामसिंह को लिखा था कि हमने तुम्हें विजय के उद्देश्य से प्रश्व भेजा था। तुम्हें वहीं कटक में रहना चाहिए और जब हम गुर्जरों की भूमि पर प्रवेश करते हुए आक्रमण करें तब तुम्हें अपनी तलबार द्वारा अपने विता के बैरी के उत्तरण हीना चाहिए। “हूसरी और निपुणक ने कुशलक द्वारा संग्रामसिंह को कहलवा दिया कि राजा तुझ पर कुदू है। इसको सुनकर भयभीत संग्रामसिंह भाग गया। सिंहण भी मालकों की ओर कुदू होकर चला। देवपाल भी सामने आ गया, और दोनों में भयकर विग्रह हो गया। इस विघ्नकम्भक के बाद, वस्तुपाल राजा की वीरता तथा संग्रामसिंह के चरित्र एवं उसकी सिंहण पर विजय की प्रशंसा करता हुआ प्रवेश करता हुआ प्रवेश करता है। उसी से ज्ञात होता है कि संग्रामसिंह ने भी हमसे मित्रता पाने

के लिए प्रधान प्रधान भुवनक को भेजा है। तभी कुशलरु आकर बनलाता है कि सिन्धुगज प्रधानपुरुष के भेजन के रूप में विश्वारणा करके आकस्मिन् आक्रमण द्वारा स्तम्भपुरी को अधिकृत करके पूत्र-न्युपित अपने यथा को विशद करना चाहता है। तभी वस्तुपाल स्तम्भ तीयं की रक्षा के लिए सैन्य भेजता है तथा सग्रामसिंह के प्रधान को बुलाकर पूछता है तथा उसे असत्य बोलने पर निवाल देता है। निपुणक द्वारा यह जानकर कि सग्रामसिंह भही नदी को पार करने को लड़ता है, वस्तुपाल घबलकपुरी की सुरक्षा का प्रबन्ध करके शीघ्र व्यय स्तम्भतीयं छला जाता है।

तृतीय प्रक्रमे बमलक हम्मीर वीरो द्वारा मारवाड़ के भयकर नाश का विस्तार से बहाने करता हुआ बतलाता है कि मारवाड़ के राजा ने उससे युद्ध नहीं किया और न बोई क्षत्रिय प्रजारक्षण को सामने आया। फलत प्रजाजन आग में जलकर, कुएँ में गिर कर आत्महत्या करने लगे तथा कुछ शत्रु पर टूट पड़े। तब बमलक न लोगों से रक्षा के लिए वीरधबल के आने की बात को चिल्काकर बहा तो शत्रु भाग खड़े हुए। वीरधबल इसको भी वस्तुपाल की बुद्धि का माहृत्य बताता है पर हम्मीर द्वारा भय व्यक्त करन पर तेजपाल हम्मीर के भय को भी व्यर्थ बताता है, और वीरधबल समस्त गजवर्ग के साथ शत्रु को निरस्त करने को प्रयाण करता है। ततुर्थ में कुवान्यक तथा शीघ्रक दो गुप्तचर तुरष्क वेश में आते हैं। शीघ्रक बतलाता है कि तेजपाल ने उसे बगदाद के उलीफा के पास खर्पंखान के दूत के रूप में भेजा है। वही जाकर उसने भी लच्छीकार के गविष्ठ होने तथा आज्ञा न मानने की बात कही, जिससे कुछ सलीफा ने खर्पंखान द्वारा उसे बाध मँगाया। उधर कुवलयक ने कुरायाल तथा प्रतारप्सिंह भादि गुजरं यद्दलेश्वर समूह को यह वह कर कि वीरधबल तुम्हें मारे गये तुरष्क के समस्त देश को दे देगा, अत तुम्हें युद्ध के समय नहीं लड़ा चाहिय, फोड़ दिया। बाद में वित्ति भीलच्छीकार बतलाता है कि मुझ बहुत समय से शत्रुओं के साथ उलभा जानकर छल के साथ खर्पंखान ने मयूरा जनपद को द्रष्टव्य कर दिया है। उधर गुजरं राजा भी खर्पंखान के प्रयाण को जानकर उससे मिलन जा रहा है। तुर्कंराजा अपने प्रधान को यह भी बतलाता है कि उसने चर के द्वारा आक्रमण की सूचना पाने के बाद कुपित बगदाद के राजा को प्रसन्नता के लिए रादी बादी नामक के गुरुजनों को भेजा है। प्रधान के द्वारा खर्पंखान से युद्ध का परामर्श देने पर तुरष्कवीर स्ट होता है, पर तभी वीरधबल की सेना आक्रमण करती है और वह भाग जाता है।

पचम प्रक्रमे विरहित रानी जयतलन देवी के विनोद के उपायों को सोचता हुआ वचुकी आकर आकाशभायित के रूप में हम्मीर के पलायन से प्रसन्न वीरधबल के घबलक के प्रमाण की सूचना देकर देवी के पास जाता है। तभी वीरधबल तथा

तेजपाल घबलक के मार्ग पर आने वाले स्थलों का वर्णन करते हुए घबलक पहुँचते हैं एवं उद्यान में बीरघबल रानी से मिलता है। वस्तुपाल-आदि भी उनसे मिलते हैं और बीरघबल वस्तुपाल, पिता लावण्य प्रसाद तथा माता मदनदेवी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है। वस्तुपाल बीरघबल को मूचित करता है कि मीलच्छीकार के गुरु रादी कादी अपने मुख्य अधिकारी बज्जदीन के साथ समुद्र के रास्ते खलीपा से राज्य स्थापना हृषी प्रसन्नता को प्राप्त करके ग्रा रहे थे, उन्हें पकड़वा लिया है और घबले स्तम्भ-तीर्थ में बन्दी है। मीलच्छीकार उनकी मुक्ति के लिए प्रायः मंत्रियों को भेजता रहता है। इसी प्रकार मीलच्छीकार के साथ आजन्म के लिए शांति की सन्धि करली है। इसके पश्चात् वह नगर में प्रवेश करता है और महल में पहुँचकर, शिवजी के मन्दिर में जाता है जहाँ भक्तिपूर्वक स्तुति करता है। शिवजी वरदान मांगने को कहते हैं। वह वस्तुपाल तथा तेजपाल के द्वारा सभी उपलब्ध होने से संतुष्ट कहलाता है, अन्त में आशीः रूप भरतवावय के साथ नाटक समाप्त हो जाता है।

### हम्मीर मदमदेन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :

हम्मीर मद-मदेन नाटक की घटनाएँ प्रायः ऐतिहासिक हैं। इसमें गुजरात के चालुक्यों के समकालीन इतिवृत्त को आधिकारिक कथा के रूप में उपजीव्य बनाया है। गुजरात के इतिहास में भीम द्वितीय एक सुप्रसिद्ध राजा हुआ है। भीमसिंह द्वितीय ने ११७८-१२४१ ई० अर्थात् ६३ वर्ष राज्य किया।<sup>१</sup> जिस समय भीम राज्य पर बैठा, वह निरा वालक था। अतः भीम के राज्यारोहण के समय परिस्थिति का लाभ उठाकर उसके माडलिक शासकों ने विद्रोह कर दिया, किन्तु उप समय अरणोराज ने, जो कि कुमार-पाल का सामन्त रहा था, विद्रोहियों से लड़ते लड़ते प्राणों का विद्वान घटना के फनस्त्रलय ही वाघेला वंश का भविष्य उज्ज्वल हुआ। वाघेला वंश के संस्थापक अरणोराज के पुत्र लावण्यप्रसाद (लावण्यसिंह व लवण्यप्रसाद) तथा उसके पौत्र बीर-घबल ने ही वाघेला वंश के उज्ज्वल भविष्य का निर्माण निया।<sup>२</sup> भीम के समय में ही लवण्य प्रसाद तथा बीर-घबल स्वामिभक्ति के साथ गुजरात के राज्य को व्यवस्थित करने में जुट गए। बीरघबल ने अनेक प्रदेश जीतकर अपने पराक्रम का परिचय दिया।<sup>३</sup> इसी बीरघबल से सम्बन्धित ऐतिहासिक घटनाओं का इस नाटक से वर्णन है। स्पष्ट है कि बीरघबल भीम के प्रधान लवण्यप्रसाद का पुत्र था। बीरघबल की माँ का नाम मदनराजी था। इसका नाटक में भी उल्लेख है। इनके अधिकार में व्याघ्रपली (नाघेल) और घबलगढ़ या घीलक थे।<sup>४</sup> आवू के तेजपाल

१. ग्लो० गु० : मुशी पृ० १६८,

२. चा० गु० मञ्जुमदार, पृ० १३६ तथा १६२ भी,

३. रासमाला (हन्दी), पृ० २७४, फुटनोट,

४. वही, पृ० ३१६,

द्वारा निर्मित मंदिर के एक लेख में वीरधबल को महामण्डनेश्वर तथा राणा लिखा है।<sup>१</sup> श्री वे एम मुश्ती के वीरधबल का जन्म ११८० में हुआ था तथा इसने सम्बद्ध १२७६-१२९५ अर्थात् सदृ १२१६-२० में १२३८-३९ तक राज्य किया।<sup>२</sup>

हम्मीरमदमदंन से जान होता है कि वीरधबल का शासनकाल सधर्यं वा काल था। चालुक्यों को वारम्बार मारवाड़, भासवा, पादव तथा अनेक भुसलभानों के अनेक आक्रमणों का सामना करना पड़ता था। मुख्यतः पहोसी परमार तथा यादवों के खतरनाक आक्रमणों न गुजरात की राजनीतिक स्थिति को विश्रृत्खलित कर दिया था, बिन्तु वीरधबल के अत्यन्त नीतिज्ञ स्वामीमत्त मत्ती घस्तुपाल तथा तेजपाल ने वीरधबल के राज्य की एक ढाल दे समान रक्षा की। प्रस्तुत नाटक में घस्तुपाल तथा तेजपाल की नीति कुशलता की पृष्ठपृष्ठि म ही वीरधबल से सबधित मुख्य राजनीतिक घटनाओं का उल्लेख किया गया है।

### हम्मीरमदमदंन ऐतिहासिकता

हम्मीरमदमदंन के कथानक से स्पष्ट है कि जयसिंह सूर का दृष्टिकोण अत्यन्त प्रशस्तियों वी रचना के समान ही, इस नाटक में ऐतिहासिक प्रशस्तिपरक रहा है, अत इस नाटक को भी हम 'नाट्य-रूपात्मक प्रशस्ति' वह सङ्कते हैं। पश्चात्वर्ती अनेक नाटककारों ने ऐसे नाटक रचे हैं। मुख्यतः ऐसी रचनाएँ समकालीन इतिवृत्त को ऐकर लिखी गई हैं। इनका उद्देश्य तत्वालीन राजनीतिक घटनाओं पर आधित नाटक का तत्वालीन समाज के सम्मुख अभिनय कराने का कर रहा है। इनमें किंचित अतिरजना भजे ही हो, बिन्तु निराधार घटनाओं के विनियोग की सम्भावना कम रहती है। मुख्यतः हम्मीर-मद-मदंन में ऐतिहासिक उद्देश्य ही प्रधान रहा है। वल्पना प्रयोग इतिहास वी घटनाओं को ऐतिहासिक रूप प्रदान करने, घटनाओं में ऋम-वद्धता लाने, नाट्यरूप में रग भरने तथा प्रभाव एवं प्रवाह की अभिवृद्धि के ही लिए हुआ है, निरग्ंत तथा निरर्थक नहीं। इसी प्रकार यह भी स्पष्ट है कि नाटक में गुच्छार आदि वी छोड़ कर समस्त प्रमुख पात्र ऐतिहासिक हैं।

इसमें विशित ऐतिहासिक घटनायें परस्पर गुप्ती हुई हैं। अत निरपेक्ष रूप से उन पर विचार करना असम्भव सा है। इसकी कुछ घटनायें भूतकालीन हैं तथा कुछ वर्तमानकालीन।

इतिहास से प्रवक्ट है कि उस समय यादवों ने वारम्बार लाट पर आक्रमण किये, चालुक्यों ने अपने लुप्त प्रदेशों को प्राप्त करने के प्रयत्न किये, इस प्रकार देश

१. रासमाला, पृ० ३१६,

२. वही, पृ० ३१५, विद्वान् वीरधबल का राज्यकाल २२ वर्ष ही मानते हैं, देखो, वही, पृ० ३४४ की टिप्पणी,

कई जातावदी तरु युद्धसेन बना रहा।<sup>१</sup> नाटक से ज्ञात होता है कि सिंह यादवों तथा भलवों से अधिक बलिष्ठ था।<sup>२</sup> चाहू मजूमदार ने इसी आधार पर यह भी लिखा है कि इस समय देश चौहान सिंहों के अधिकार में आ गया था,<sup>३</sup> किन्तु उसे भी अनेक आक्रमणों का सामना करना पड़ा तथा सन्धि-विग्रह करने पड़े। नाटक में एक ऐसी ही घटना का वर्णन प्राप्त है। इसमें प्रस्तावना के अनन्तर वीरध्वल वस्तुपाल की नीति-चातुरी की प्रशंसा करता हुआ बतलाता है कि जिस समय वह सिंहरण के आक्रमण से डर रहा था तथा मालवराज से सहायता प्राप्ति की सभी आशा क्षीण हो गयी थीं, उस समय वस्तुपाल के द्वारा ही कृतकरिपु लाट देश के राजा सिंहरण ने मेरी मित्रता प्राप्त की।<sup>४</sup> यादवराज सिंहरण जैतुगी का पुत्र था। देवगिरि पर इसने ११६६ से १२४७ तक राज्य किया।<sup>५</sup> पड़ीसी राजाओं के प्रति इसका व्यवहार अत्यन्त कठोर था तथा उसके सेनापति एवं पुत्र ने भी गुजरात पर आक्रमण किये थे<sup>६</sup> तथा उस समय के प्रतापी राजा चौहान सिंहों से भी विग्रह होते रहते थे। नाटक में उसके तेज तथा प्रजा की प्रशंसा की है। मालव राजाओं के साथ भी सिंह के मित्रतापूर्ण सम्बन्ध थे,<sup>७</sup> किन्तु सिंहरण ने जिस समय उस पर आक्रमण किया और उसे मालवा से सहायता प्राप्त न हो सकी तब विवश होकर आपटर्शा में उसे वीरध्वल (गुर्जर चालुक्य) से मित्रता करनी पड़ी।

नाटक से यह ज्ञात होता है कि कुछ समय पश्चात् सिंह के भतीजे संग्रामसिंह ने सिंहरण को पराजय के रूप में दण्ड दिया था।<sup>८</sup> नाटक से यह भी ज्ञात होता है कि सिंहरण ने गुर्जरों के शत्रु संग्रामसिंह को वीरध्वल के विरुद्ध सहायता दी थी।<sup>९</sup> संग्रामसिंह सिन्धुराज का पुत्र तथा सिंह की भतीजा था। नाटक में इसे देवपाल का महामडलेश्वर कहा है।<sup>१०</sup> वसन्तविलास तथा कीर्ति-कीमुदी में इसे शंख कहा है। किन्तु इन तीनों में समान रूप से इसे सिन्धुराज कहा है।<sup>११</sup> वस्तुपालचरित्र में लिखा

१. चाहू गुरु अशोक कुमार मजूमदार, पृ० १४६,
२. हम्मीर, ११३,
३. चाहू गुरु : मजूमदार, पृ० १४६,
४. हम्मीर० ११३,
५. श्री मुंशी १२०६ ई० से राज्य करना मानते हैं : ग्लो० गुरु पृ० २१४,
६. चाहू गुरु मजूमदार, पृ० १५०,
७. ग्लो० गुरु मुंशी, पृ० २१४,
८. हम्मीर० २१३,
९. वही, ११७-१८,
१०. वही २१५-१६, पृ० १७,
११. चाहू गुरु मजूमदार, पृ० १५३,

है कि सिंह भट के भाई सिंधुराज का पुत्र शशि था, जिसे वस्तुपाल ने जीता।<sup>१</sup> सुकृतकीनिकलोननी म तो स्पष्टत शशि को संग्रामसिंह लिखा है।<sup>२</sup> वसन्त विलाम में शशि को चाहमान भी लिखा है<sup>३</sup> कीर्तिकोमुदी में इसके पूर्वजों के परपरागत सम्बन्ध स्तम्भ सीर्य से बतलाया है।<sup>४</sup> सिंधुराज की भी वीरघबल से शत्रुता थी। नाटक में संग्रामसिंह को अपने पिता के बैरी होने के कारण वीरघबल के प्रति कुद्द बतलाया है। सभवत पिता के बैरे के कारण ही संग्रामसिंह की यह शत्रुता थी,<sup>५</sup> और वह अपने पिता के बैरे का प्रतिशोध लेने के लिए ही भौके की ताक मे रहता था। नाटक से प्रवक्त है कि जब वीरघबल यस्तरेन्द्र के साथ व्यग्र था अर्थात् मेवाड़ के राजाओं के विद्रोह को दग्धने के लिए मेवाड़ गया हुआ था, उसकी अनुपस्थिति में संग्रामसिंह ने आश्रमण की योजना बनाई। और सिंहण की सेना को भी साथ मिला लिया। मजूमदार ने कीर्ति-कोमुदी प्रादि साध्यों के आधार पर लिखा है कि लगभग १४वीं सदी के प्रारम्भ म संग्रामसिंह तथा सिंहण के इशारे पर यादबो ने लाट पर आश्रमण किया था, और जब लावण्यप्रसाद तथा वीरघबल न यादबो का प्रतिकार किया तो मारवाड़ के राजाओं ने सर उठाया और उनका सामना बरना पढ़ा। परिणामस्थल लावण्यप्रसाद उत्तर मारवाड़ को सिंहण से सन्धि बरनी ही पड़ी और इसी समय जब लावण्यप्रसाद उत्तर मारवाड़ को आगे पुत्र के साथ गया हुआ था संग्रामसिंह ने उसकी अनुपस्थिति म स्तम्भतीय पर आश्रमण कर दिया जिन्हु वस्तुपाल के बुँदि चातुर्य से संग्रामसिंह का मुँह की खानी पड़ी।<sup>६</sup> न तो सिंहण को प्रतिशोध का अवसर मिल सका और न संग्रामसिंह को ही। जिन्हु संग्रामसिंह इस घटना के बाद भी शात न बंडा।

नाटक से ज्ञात होता है कि वस्तुपाल से पराजित होने के कारण विरोध की परिवद्ध-भावना से उसन पुन मिहण को आश्रमण के लिए प्रो माहित किया।<sup>७</sup> इस बार शत्रुओं के साथ एक आश्रमण की उद्यत होन के कारण वीरघबल की स्थिति चिन्ताजनक थी। एक और मारवाड़ के राजाओं ने पुन उगावन शुरू बरदी थी और

१ वस्तुपाल चरित्र ५ २३४,

२. सुकृत ० १३६,

३ वसन्त ० ५।२५—६,

४. कीर्ति ० ४।७५, ८३,

५ हम्मीर ० १।१०—१८

६ चा० ग० पू० १६

७ चा० ग० मजूमदार पू० १४६

८ हम्मीर ० १।१८—१६,

परमार देवपाल भी आक्रमण का उपक्रम कर चुका था। दूसरी ओर मुसलमान तुकं वीर के आक्रमण की भी आशंका थी।<sup>१</sup> श्री के. एम. मुंशी ने लिखा है कि संग्राम में पहली पराजय के बाद कुछ महीनों में ही सिहणु ने देवपाल के साथ स्तम्भतोर्य पर आक्रमण कर दिया।<sup>२</sup> किन्तु वीरघबल के महामात्य वस्तुपाल तेजपाल तथा उसके पुत्र लावण्यसिंह ने अपनी कूटनीति द्वारा इस स्थिति का सामना किया और भेदनीति द्वारा शत्रुओं को न केवल छिन्न-भिन्न कर दिया, अपितु संग्रामसिंह को<sup>३</sup> तथा मारवाड़ के राजाओं को<sup>४</sup> समर्पण भी करना पड़ा।

द्वितीय अंक में सुवेग तथा निपुणक द्वारा कियान्वित की गई वस्तुपाल की भेदनीति का विस्तार से वर्णन है। डा० मजूमदार ने लिखा है कि चालुक्यों के लिए पड़ोसी शक्तिशाली यादवों के आक्रमण अत्यन्त भयंकर थे।<sup>५</sup> यादवों ने चालुक्यों पर अनेक आक्रमण किए थे। विद्वान् ग्रन्थमें के शिलालेख के आधार पर दो प्रमुख आक्रमण मानते हैं। पर डा० राय, प्लीट, भंडारकर तथा मजूमदार में इन आक्रमणों के सम्बन्ध में मतभेद है।<sup>६</sup> अनुमानतः राम ने इस आक्रमण का नेतृत्व किया था।<sup>७</sup> प्रथम आक्रमण का वर्णन विस्तार से कीर्ति कौमुदी में भी प्राप्त है।<sup>८</sup> मजूमदार नाटक के आधार पर प्रथम आक्रमण का समय सं० १२८६ से पूर्व मानते हैं। नाटक में वस्तुगाल संग्रामसिंह के चरित्र की प्रशंसा करता हुआ उसकी सिहणु पर विजय का भी उल्लेख करता है।<sup>९</sup> नाटक से जात होता है कि संग्रामसिंह के पिता सिन्धुराज का अन्त यादवों के हाथों हुआ था, अतः वह भी इनसे प्रतिशोध लेना चाहता था। इसी के फलस्वरूप संभवतः बाद में संग्रामसिंह ने सिहणु को भी पराजित किया था। नाटक के अनुसार संग्रामसिंह ने स्तम्भपुरी को अधिकृत करके पूर्व-कलुपित यश को विशद करने की आकांक्षा से वीरघबल के साथ छल-मौत्री के पड़यंत्र द्वारा धोका देकर आक्रमण किया, किन्तु वस्तुपाल के पुत्र चरों ने मीके पर ही भेद की सूचना पा ली। फलतः संग्रामसिंह को मही नदी के पार करने से पूर्व ही वस्तुपाल स्तम्भपुरी-

१. ग्लो० गु० मुंशी, पृ० २१७, देखी 'सुकृत कीर्तिकल्लोलनी', १३८-४०,

२. हम्मीर० २१३८-३६,

३. वही २१७-६,

४. वही,

५. चा० गु० मजूमदार, पृ० १५०,

६. वही,

७. देखी वही, पृ० १५१,

८. वही, पृ० १५२,

९. हम्मीर० २१३१-३२,

१०. वही, २१५-१६,

## ४२० : सस्त्रत के ऐतिहासिक नाटक

की रक्षा के लिए पहुँच गया। सभवत इस युद्ध ये भी समर्पित हो पराजय का मुह देखना पढ़ा।<sup>१</sup> इसके बाद इसके वृत्तान्त की जानकारी नहीं होता।

नाटक से यह भी ज्ञात होता है कि वीरघबल वस्तुपाल के बुद्धि चानुर्य से मारवाड़ के राजाओं को भी निरस्त बरने में सफल हुआ। कीर्तिकोशुदी श्रादि के साक्ष्य के आधार पर इसकी ऐतिहासिकता प्रनट है। नाटक में इसका विस्तार म चलनेवाल है। नाटक वे अनुसार इन राजाओं के द्वा मिनते से वीरघबल की शक्ति और भी बढ़ गयी। इनिहासकारों के अनुसार मारवाड़ के इन राजाओं के साथ गुजरात की रक्षा की दृष्टि से वीरघबल के साथ संतिक गठबन्धन हुप्रा था। जयसिंह ने इस समन्वित शक्ति को आठ दिशाओं को जीतने में समर्थ आठ भुजाएँ बहा। हमारा विश्वास है कि इन सभी राजाओं ने हम्मीर के आक्रमण के समय वीरघबल की सहायता की थी। मारवाड़ के इन राजाओं का नाम्ब में उपर इस प्रवार चलनेवाल है।<sup>२</sup>

**सोमर्सिंह**—डा० मजूमदार ने (गोडाद जिले से प्राप्त) एक शिलानिम के अनुसार यह लिखा है कि समवत यह महाराजाधिराज था।<sup>३</sup> रासमाला के अनुसार यह यशोघबल का पुत्र था, तथा इसका महामठेश्वर के रूप में भी उल्लेख है।<sup>४</sup> किन्तु कि एम मुझी ने सोमर्सिंह को धारवर्ध का पुत्र<sup>५</sup> तथा इसका राज्यकाल १२३०-३६ माना है।<sup>६</sup>

**चदप्रसिंह**—डा० मजूमदार के अनुसार वीरिंपाल के पुत्र जवलीपुर चाहमान के साथ इसका सम्बन्ध है, जिसके सम्बन्ध म सुन्द वे शिलानिम म लिखा है कि उसने (उदयराज ने) तुरम्पों के अभिमान वो नीचा कर दिया तथा मिन्हुराज का ग्रन्त कर दिया था।<sup>७</sup> डा० दशरथ शर्मा ने बतलाया है कि यह समर्सिंह का उत्तरारिणी था तथा इसने १२ वर्ष के लगभग राज्य किया था। डा० शर्माजी भी इसकी राजधानी जवलपुर या जानीर का चलनेवाल बतते हैं।<sup>८</sup> डा० शर्मा ने यह भी लिखा

१. हम्मीर २१४-३६,

२. वटी, २१८-६,

३. चा० गु० मजूमदार, पृ० १५६,

४. रासमाला, पृ० ३४०,

५. ग्लो० गु० मुशी, पृ० २१६,

६. वटी पृ० २१३,

७. चा० गु० मजूमदार, पृ० १५६,

८. अ० चौ० हिं० शर्मा, पृ० १५८,

है कि उदयराज तथा वीरधबल में सन्धि भी थी, तथा उदयराज ने वीरधबल के बड़े लड़के वीरम के साथ अपनी लड़की का विवाह किया।<sup>१</sup> सम्भवतः इसी सम्बन्ध के कारण इसने हस्मीर के आक्रमण के समय वीरधबल की सहायता की थी। श्री के. एम. मुंशी उसका समय १२०५ से १२४६ मानते हैं।<sup>२</sup>

**धारवर्षः**—डा० मजूमदार के अनुसार आबू के परमारों के प्रधान का नाम धारवर्ष है। इसके अनुसार इसका साम्य चन्द्रावती के राजा से संभव है, जिसे गणराज ने हराया था।<sup>३</sup> श्री मुंशी ने उसे चन्द्रावती का मांडलिक राजा माना है।<sup>४</sup>

**जयतल्लः**—नाटक में उपर्युक्त मारवाड़ के राजाओं के अतिरिक्त जयतल्ल का भी उल्लेख है।<sup>५</sup> जयतल्ल ने हस्मीर के आक्रमण के समय अपनी तलवार की शक्ति के गर्व के कारण वीरधबल से मित्रता नहीं की और अन्त में हस्मीर ने इसे चुरी तरह कुचल दिया। मजूमदार ने इसका साम्य मेवाड़ के गुहिलोत राजा जेवरसिंह के साथ माना है जिसका समय १२१३-१५५६ ई० था।<sup>६</sup> श्री मुंशी ने इसे मेदपाट का राजा तथा इसका समय १२१३-१२५२ लिखा है।<sup>७</sup> जेवरसिंह वर्णारावल की २७वीं पीढ़ी में हुआ।<sup>८</sup> ग्रंथतपुर से प्राप्त हस्तलिखित सामग्री के आधार पर मजूमदार ने इसे महाराजाधिराज लिखा है।<sup>९</sup> श्री मुंशी ने यह भी लिखा है कि इस आक्रमण को इसने बाद में पीछे घकेल दिया।<sup>१०</sup>

**सोराष्ट्र का भीरसिंहः**—नाटक में एक अन्य राजा भीरसिंह का भी उल्लेख है, जिसने कि उस समय वीरधबल से मित्रता की।<sup>११</sup> नाटक में इसे “सुराष्ट्र सीमन्त-मणि” लिखा है। मजूमदार नाटक के उल्लेख के आधार पर इसे एक करद होने की सम्भावना करते हैं,<sup>१२</sup> किन्तु नाटक से कुछ ऐसा आभास नहीं होता। सुकृतकीर्ति-

१. अ० च० हि० : दशरथ शमा, पृ० १५०,
२. ग्लो० गु० मुंशी २१६,
३. चा० गु० पृ० १५६,
४. ग्लो० गु० पृ० १६६,
५. हस्मीर, पृ० २७५,
६. चा० गु० मजूमदार, पृ० १५६,
७. ग्लो० गु० पृ० २१६,
८. रासमाला, पृ० २३३, फुटनोट,
९. दृष्टच्य चा० गु० पृ० १५६,
१०. देखो, ग्लो० गु० पृ० २१६, फुटनोट,
११. हस्मीर० पृ० ११, ”
१२. चा० गु० पृ० १५६,

कल्लोलनी में उल्लिखित भीमसिंह से साम्य की भी छा० मजूमदार ने संभावना का है ।<sup>१</sup> इसके अलावा मजूमदार भीराष्ट्र से सेनापति के रूप में महस्यली आने वाले लूनिग (Luniga) के पुत्र भीमसिंह से भी साम्य की संभावना बरते हैं । के एम मु शो इसका साम्य भीम द्विनीय में मानते हैं ।<sup>२</sup> पर निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता ।

लाट देश के राजा विक्रमादित्य तथा सहजपाल —नाटक में उपर्युक्त घटनाओं के प्रसार भ ही लिया है कि विक्रमादित्य तथा सहजपाल घनिष्ठ मित्र थे, पर इनमें भेद करा देने के कारण इन दोनों न परस्पर रक्षार्थी के साथ बीरधबल से मंत्री की ।<sup>३</sup> श्री एम० भार० मठारकर की मान्यता है कि मिह और सहजपाल में समानता है ।<sup>४</sup> मजूमदार का मत है कि नाटक में शख को लाट का राजा नहीं कहा है तथा वसन विलास और कीर्ति-कीमुदी के गाढ़ी के आधार पर यह मानना पढ़ता है कि लाट दो भागों में विभक्त था । एक पर भडात से शख शासन करता था, दूसरे पर सहजपाल, जो कि समवत् शख का चाचा सिंह हो सकता है या उसका चचेरा लड़वा ।<sup>५</sup>

पचप्राम सप्तग्राम—नाटक के प्रथम भक्त में तेजपाल पचप्राम सक्ट के समय श्रीखो देखे बीरधबल के पराक्रम का सकेत करता है ।<sup>६</sup> इस बारे में नाटक से विशेष ज्ञात नहीं होता । चतुर्विशनिप्रवन्ध के दम्भुपालप्रवन्ध में इसके सबध में बहुत विस्तार से वर्णन किया है ।<sup>७</sup> प्रबन्धचिन्तामणी के अनुमार पिता के सामने पुत्र को २१ वार धायत होकर गिरना पड़ा, इन्तु समस्त शवुओं का समूलोन्मूलन कर दिया ।

तुर्हं और हम्मीर का आक्रमण—नाटक के प्रथम भक्त में ही तुरुष्क और के आक्रमण का उल्लेख है । उसके मदर्भ में रूप्ष्ट है कि यह आक्रमण सिद्धण तथा सिंह के द्वितीय आक्रमण के समय ही हुआ था ।<sup>८</sup> नाटक में बीरधबल द्वारा तुरुष्क के प्रतिशोध का विस्तार में वर्णन किया गया है ।

१. चा० गु० मजूमदार पृ० १४०,

२. ल्लो० गु० पृ० २१३,

३. हम्मीर, पृ० ११,

४. चा० गु० मजूमदार, पृ० १५४,

५. वही, पृ० १५४.

६. हम्मीर० पृ० ११,

७. दृष्टव्य, वही, नोट्स पृ० ३-८, तथा रातमाला, पृ० ३२०,

८. चा० गु० मजूमदार पृ० १५६,

नाटक में उल्लिखित ये घटना पर्याप्त ऐतिहासिक हैं। प्रवन्धचिन्तामणी में मेरु-तुंग ने उपर्युक्त घटना के एक अंश का उल्लेख किया।<sup>१</sup> उसमें मी म्लेच्छ राजा के गुरु के पकड़े जाने आदि का उल्लेख है, किन्तु नाटक की घटना से उसमें अन्तर है। राजशेखर ने प्रवन्धकोश में प्रकारान्तर से उपर्युक्त घटना का उल्लेख किया है।<sup>२</sup> प्रवन्धचिन्तामणि तथा प्रवन्धकोश की अपेक्षा हम्मीर-मद-मर्दन ही एकमात्र समकालीन रचना है। इनकी घटनाओं में अन्तर केवल उपनिवेश करने के वृष्टिकोण का है।<sup>३</sup> राजशेखर ने भी सुल्तान के सर्वधियों के बन्दी बनाने के कारण वस्तुपाल से सुल्तान के रूप होने की घटना का उल्लेख किया है।<sup>४</sup> मजूमदार का मत है कि इस वन्धक की घटना पर विश्वास करना कठिन है, किन्तु यह अवश्य संभव है कि दिल्ली के सुल्तान तथा इनके मित्रतापूर्ण सम्बन्ध हो गये हों।<sup>५</sup> रासमाला के अनुसार सुल्तान के आलिम (गुरु) को मवका-यात्रा के समय वीरघबल ने कैद कर लिया, तब तेजपाल ने उसे मुक्त कराया था। फलतः वस्तुपाल तथा तेजपाल पर सुल्तान की कृपा हो गयी थी।<sup>६</sup> इससे स्पष्ट होता है कि नाटक की यह घटना भी निर्मूल नहीं है।

किन्तु, म्लेच्छ-राज के नाम-साम्य के मम्बन्ध में वहूत मतभेद है। एस. आर. भंडारकर शाविद्व आधार पर मीलच्छीकार का साम्य इल्तुमिश से मानते हैं जोकि कुतुबुद्दीन का 'अमीर-इ-शिकार' शिकार के अधिकारी के पद पर था।<sup>७</sup> श्री ओझा का भी यही मत है। किन्तु<sup>८</sup> मजूमदार शाविद्व आधार इल्तुतमश तथा मीलच्छी-कार का साम्य स्वीकार नहीं करते, अपितु अन्य आधारों पर जैसे हम्मीर-मद-मर्दन नाटक में खर्परखान के वरण आदि के आधार पर साम्य स्वीकार करते हैं।<sup>९</sup> डा० वार्नेट तथा एच० सी० राय की भी को भी इस साम्य पर आपत्ति है। उनका मत है कि अमीर-ए-शिकार का सस्कृत रूप मीलच्छीकार नहीं हो सकता।<sup>१०</sup> दशरथ पार्मा का मत है कि मीलच्छीकार अमीर-ए-शिकार का सस्कृत रूप नहीं है, अपितु

- 
१. दृष्टव्य, चा० ग०० मजूमदार, पृ० १५७,
  २. वही,
  ३. वही, पृ० १५६,
  ४. वही,
  ५. वही,
  ६. रासमाला, पृ० ३१६-२०, टिप्पणी भी,
  ७. चा० ग०० पृ० १५६,
  ८. देखो, अ० च० हि० दशरथ शर्मा, पृ० १५२, फुटनोट
  ९. चा० ग०० पृ० १५६,
  १०. अ० च० हि० शर्मा, १५२, फुटनोट,

पेशाची रूप है। क्योंकि नाटक में भी दोनों शासक तथा मन्त्री पैशाची में ही बातें करते भी हैं।<sup>१</sup> डा० मजूमदार ने बतलाया है कि इसी भी मुसलमान इतिहासकार ने राजपूतों वे वही होने वा उल्लेख नहीं किया है। और मेस्तुग ने भी बहुताय द्वारा सुलतान के गुरुजनों को बचाने की ही बात लिखी है। अन वे नाटक में इसे वही बनाने की घटना को अविश्वस्त मानते हैं।<sup>२</sup> वह यह अवश्य मानते हैं कि खलीफा का द्रूत इस समय गुजरात में होकर ही गुजरा होगा।<sup>३</sup> पर बिना साध्य के इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता, तथापि नाटककार ने इस घटना का उल्लेख अत्यन्त स्वाभाविक रूप से किया है। मजूमदार के अनुसार भी सभवत इल्लुतमश के गुजरात पर आक्रमण के समय में घोटित घटनाएँ में से कोई ऐसी इतनी छोटी घटना हुई होगी जिसका जर्यमिह को तो जान था, पर जिसका कोई मुख्तिम इतिहासकार उल्लेख नहीं कर पाया।<sup>४</sup> जो भी हो, नाटक के बएन से इतना स्पष्ट है कि यह इल्लुतमश का सभवत दूसरा आक्रमण था। डा० शमर्ज का अभिभाव है कि यह आक्रमण इल्लुतमश ने लगभग विक्रम १२७८ के किया था।<sup>५</sup> शर्मा ने नाटकीय नटनाओं के आधार पर लिखा है कि इस समय मारखाड शादि के राजाओं ने बीरघबल के साथ मिलकर सघ का निर्माण किया था। और इल्लुतमश सभवतः घारवर्ष उदयसिंह, सोमसिंह तथा गुजरात की इस समग्रित शक्ति से समावित कठिनाई से यवगत हो गया था। तथा दूसरी और खलीफा को उससे फोड़ देन से खर्परखान ने उस पर आक्रमण कर दिया था और जब उसके सामने उसकी अपनी सीमा पर खर्परखान के आते हुए भय से वह विचिकित्सा में पड़ गया था और इसी कारणों से उसे बिना आक्रमण के ही लौटना पड़ा या लौटने के लिए विवर होना पड़ा।<sup>६</sup>

नाटक की घटना से स्पष्ट है कि लावण्यप्रसाद के पुत्र बीरघबल ने गुजरात इतिहास में महत्वपूर्ण कार्य किया था। भीम द्वितीय के समय बीरघबल ने अपेक्ष प्रदेश जीते तथा पराक्रम दिखाया। इसके उपलक्ष्य में जनता ने उसे गणहिनवाडा के भहाराजाविराज का पद ग्रहण करने वा अनुरोध किया पर उसने भीम के प्रति

१. डा० चौ० हिं० . दशरथ शर्मा पृ० १५२,

२. चा० ग० पृ० १५६,

३. वही,

४. वही,

५. जा० चौ० हिं० शर्मा, पृ० १५२,

६. वही,

कृतज्ञता प्रदर्शित करते हुए अस्वीकार कर दिया, तथा आजीवन राजा ही बना रहा।<sup>१</sup> आबू के प्राप्त शिलालेख में राजा के साथ इसे महामंडलेश्वर भी लिखा है।<sup>२</sup> वास्तव में वीरध्वल की सफलता के कारण उसके दोनों मन्त्री थे। इनके सम्बन्ध में अनेक ग्रन्थों में प्रामाणिक उल्लेख प्राप्त हैं।<sup>३</sup>

नाटक में उदयसिंह के सचिव, उदयनपुत्र यशोवीर का भी उल्लेख है।<sup>४</sup> रासमाला के अनुसार यह जाति का वैश्य तथा जावलिपुर के चौहानराजा का मंत्री था।<sup>५</sup> डा० शर्मा के अनुसार जालीर में इसने लगभग वि० सं० १२४८ से १२७८ तक शासन कार्य किया।<sup>६</sup> नाटक से भी वस्तुपाल इसका बड़े भाई के समान ग्रादर करता था।<sup>७</sup> यहाँ वस्तुपाल के बड़े भाई मल्लदेव का भी निर्देश हुआ है। नाटक से यह भी ज्ञात होता है कि तेजपाल के पुत्र लावण्यसिंह ने भी वीरध्वल के राज्यकाल में सक्रिय भाग लिया था। वस्तुपाल लावण्यसिंह की नीतिकुशलता की भूरि भूरि प्रशंसा करता है। नाटक की प्रस्तावना में वस्तुपाल के पुत्र जयन्तसिंह का भी उल्लेख है।<sup>८</sup> इसी के आदेश पर जयसिंह ने भीमेश्वर की यात्रा पर अभिनय के लिए प्रस्तुत नाटक लिखा। जयन्तसिंह का नाम जैव्रसिंह भी मिलता है। यह वस्तुपाल की प्रथम पत्नी ललता देवी का एक मात्र पुत्र था तथा वह १२७६ में खम्बात का गवनर था।<sup>९</sup>

वीरध्वल अत्यधिक लोकप्रिय राजा था। रासमाला में लिखा है कि उसकी मृत्यु पर १८२ नौकर भी उसके साथ जल गए थे। तेजपाल ने सेना की सहायता से इस क्रम को रोका।<sup>१०</sup> वीरध्वल का जन्म ११७० या ११८० या १२३७ ईस्वी तक

१. रासमाला, पृ० २७४, फुटनोट.

२. वही, पृ० ३१६,

३. विशेष हृष्टव्य, वसन्तविलास ३।३५-६२, सुकुत-संकीर्तन २।५१, ३।१-६२, वस्तुपाल-तेजपाल-प्रशस्ति ३५-५१, रासमाला, पृ० ३२२-४६, तथा हम्मीर० नोट्स आदि।

४. हम्मीर पृ० ४४,

५. रासमाला, पृ० ३४६,

६. अ० चौ० हि० पृ० १५४,

७. हम्मीर० पृ० ५४, ५।४६,

८. वही पृ० १,

९. हृष्टव्य, हम्मीर० नोट्स, पृ० १,

१०. रासमाला, पृ० ३२१,

माता जाता है।<sup>१</sup> नाटक के मन्त्र में अपने लालन पालन के लिए माता मदनदेवी तथा पिता श्रणोराजमूर्तु अर्यात् नवएग्रमाद के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन है।<sup>२</sup> रासमाला में मदनदेवी के सम्बन्ध में तथा वीरधबल के वात्याकाल के सम्बन्ध में कई कथा दी है।<sup>३</sup> नाटक से यह प्रश्न है कि प्रपन पिता तथा माता के प्रति अत्यन्त कृतज्ञ था, और इसी प्रवार वस्तुपाल के प्रति भी।

नाटक के पचम अक्ष मध्यवर्क को जाते हुए अत्यन्त सक्षेप में उमकी पत्नी जयततल देवी के मित्रन, नगर प्रवेश के समय स्वागत आदि का भी वर्णन है वह अत्यन्त स्वाभाविक है। विश्वास होता है कि जयमिह ने इमवा उल्लेख घटित घटना के आधार ही किया होगा। जो भी हो, प्रस्तुत नाटक में प्रारम्भ से अन्त तक ऐतिहासिक घटनाओं की ही भरमार है। कलमना का प्रयोग लेखक ने बहुत ही स्वतंत्र, विभारशेषा विभावरी (तृनीय अक्ष वा प्रारम्भ) आदि सायकालीन प्राकृतिक सुषमा के (द्वितीय अक्ष) वर्णन आदि में किया है, और वह भी सामिप्राय है। पचम अक्ष में घटलक वा प्रयोग करने समय मार्ग के ऐतिहासिक धार्मिक स्थानों का वर्णन भी काव्यात्मकता के लिए नहीं किया है। इनवा भी अभिप्राय ऐतिहासिक घटनाओं की ओर संकेत करता है।

मुख्य रूप से इसमें ऐतिहासिक घटनाओं की ऐतिहासिक धूरेषों की प्रशंसा ही की गई है। अत यह कभी व भी ऐतिहासिक प्रशस्ति सा प्रतीन होता है। वास्तव में इसमें सभी प्रमुखन ऐतिहासिक घटनाएँ हैं तथा उन घटनाओं को सलक न नाय्य रूप तो दे दिया है किन्तु इतिहास तथा नाट्यकला का सतुलन नहीं हुआ है, अन सबन इतिहास से बोकिन सा प्रतीन होता है। यही कारण है कि नाटकीयता तथा अत्यात्मकता का असाव है। सबादात्मक रूप से घटनाओं का वर्णन ही कर दिया गया है नाट्यकला वा मञ्जुल विनियोग नहीं है। अनेक हम इसे इतिहास प्रधान ऐतिहासिक नाटकों की श्रेणी में रखना ठीक समझते हैं। वास्तव में यहीं जयमिह सूरि का मुख्य प्रयोजन वीरधबल से सम्बन्धित ऐतिहासिक घटनाओं को प्रशस्ति परक छग से नाट्य रूप में उभनिवद्ध कर देना भर है इसमें अधिक कुछ नहीं। इस सबक होन पर यह अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि इस न टन में तत्त्वालीन राजाधों की जोड़ तोड़, तथा राजनीति का अच्छा चित्रण है। कम से कम गुप्तचरों के पद्यत्र तथा सन्धिविप्रह में सक्रियता वा पता चनता है। अत कीथ वा यह कथन

१. ग्लो॰ यु॰ पृ॰ १६८, २०६,

२ हम्मीर, पृ॰ ५५,

३. रासमाला, पृ॰ ३१७,

कि ऐतिहासिक दृष्टि से इसका महत्व नहीं है,<sup>१</sup> उचित नहीं है। वास्तव में १२वीं सदी के बौहान इतिहास को तथा गुजरात के इतिहास के लिये इसकी समधिक उपादेयता है। अतः इतिहासकारों ने इतिहास के सक्तार, परिष्कार के लिए इसका उपयोग किया है।

सांस्कृतिक एवं साहित्यिक पर्यावरण—सांस्कृतिक चित्रण की दृष्टि से भी हम्मीर-मद-मर्दन का महत्व है। प्रस्तावना में भीमेश्वर की यात्रा का उल्लेख है तथा पंचक श्रंक में धबलक के मार्गवर्णन में माउण्ट आवू, अचलेश्वर पीठ, वशिष्ठाश्रम, चन्द्रावती, कण्विती आदि के वर्णन का ऐतिहासिक तथा घार्मिक महत्व है। सरस्वती-महानदी, महाकाल आदि का भी वर्णन अत्यन्त उपयोगी है, किन्तु इन सबका सकेत मात्र हैं तथा ये इतिहास-प्रसिद्ध हैं। रासमाला में भी विस्तार से इनका वर्णन किया है।<sup>२</sup> अतः हम इनका उल्लेख उचित नहीं समझते।

हम्मीर-मद-मर्दन ह्वासकालीन नाटक है। साहित्यिक दृष्टि से हम्मीर-मद-मर्दन का यही महत्व है कि यह एक मध्यकालीन ऐतिहासिक नाटक है। नाट्यकला तथा काव्यात्मकता का इसमें सफल मिर्चा नहीं है। वस्तु-विन्यास ग्रसंतुलित है। पात्रों के चरित्रों पर वर्णन द्वारा प्रकाश डाला गया है। चरित्रगत विशेषताएँ कहीं भी स्वाभाविक रूप से नहीं उभर सकी हैं। नाट्य-योजना की अस्वाभाविक के कारण ही नाट्यरस का उन्मेप नहीं हो पाया है। इसलिये वस्तुतः हम्मीर-मद-मर्दन को वर्णनप्रधान नाट्यप्रबन्ध भी कहा जा सकता है। प्रस्तावना में यह निर्देश अवश्य है कि यह अभिनय के लिए रचा गया है, किन्तु इसके रूप-विवान से रंगमंच पर इसका रूपायित होना सर्वथा असम्भव प्रतीत होता है। भाषा जटिल, समस्त तथा भारी भरकम वाक्य बड़े २ तथा श्लोकों की बहुलता है। वर्णन विपणनुकूल तथा परिस्थिति के द्वातक होने पर भी लम्बे लम्बे प्रस्वाभाविक तथा जटिल है। अनुपयुक्त अलंकारों के आधिक्य से भाषा भी आत्मा दब गयी है। फलतः यह मात्र एक नीरस नाटक रह गया है। कीथ ने लिखा है कि इस नाटक का मुख्य उद्देश्य वस्तुपाल तथा तेजपाल की स्तुति-प्रशंसा मात्र है तथा उस वीरधबल की भी, जिसे ऐसे स्वामिभक्त सेवक प्राप्त हुए।<sup>३</sup> इसके अतिरिक्त यह भी स्वीकार करना पड़ता है कि लेखक को इस स्तुति-प्रशंसा में भी उतनी सफलता नहीं मिली है जितनी कि तत्कालीन राजनीति के स्फुट चित्रण में। अतः निष्कर्ष रूप में हम यह मानते हैं कि हम्मीर-मद-मर्दन नाटक दृश्य काव्य की दृष्टि ने ह्वासकालीन, अत्र उतने पर भी ऐतिहासिक नाटक की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

१. संस्कृत ड्रामा, पृ० २५०,  
२. रासमाला, पृ० ३२२-३२६,  
३. संस्कृत ड्रामा, पृ० २५०,

## अन्य मध्यकालीन ऐतिहासिक नाटक

### (१) प्रतिज्ञाचाणक्य (अपखडः उल्लेखप्राप्त)

अभिनवगुप्त ने अभिनवभारती में इस नाटक का दो बार उन्नयन किया है। प्रथम उल्लेख में नाटक का नाम प्रतिज्ञाचाणक्य तथा रचयिता का नाम महाकवि भीम का निर्देश दिया है। द्वितीय उल्लेख में प्रतिभाचाणक्य है :

(१) "प्रतिज्ञाचाणक्ये तन्महाकविना भीमेन राजापि विन्द्यकेतु ग्रन्थार इति भूयसा व्यवहृत ।" १

कही कहो—‘भवतु तनय लोके जातापशदपरपरा,

परिचयमयी वार्ता कीनिनिकृष्ट्य निकेतनी ।’ २

इतिसहाकविना भीमेन राजापि विन्द्यकेतु भूयसा व्यवहृत । ३

(२) “तदाभिधानयुक्तश्च प्रवेशको वाहूल्येन तापसवत्सराजप्रतिभाचाणक्य मुद्राराक्षसादिषु ।”..... ४

कहो-कहो ‘प्रवेशकवाहूल्येन तावत्तापसवत्सराजप्रतिभाचाणक्यमुद्राराक्षसादिषु’ ५

उपर्युक्त उद्धरणों से कुछ निष्ठर्य निकलते हैं—(१) यह नाटक प्रतिज्ञाचाणक्य तथा प्रतिभाचाणक्य दो नामों से प्रसिद्ध था। (२) इसका प्रमुख पात्र चाणक्य था तथा दूसरा पात्र विन्द्यकेतु भी था। अत कथावस्तु मुद्राराक्षस के

१. नाट्यशास्त्र अभिनवभारती स० रामकृष्णाकवि, बड़ोदा, वाल्यूम, २, १६३४ पृ० १६१.

२. देखो, प्रोसीडिग्स फिफ्य इ डिप्यन थ्रीरियन्टल कान्फ्रेंस, वाल्यूम १, १६३०, पृ० ७८६,

३. अभिनवभारती स० रामकृष्णाकवि, २, १६३४, पृ० ४२५,

४. देखो, प्रोसीडिग्स फिफ्य० (उपर्युक्त) पृ० ७८६,

समान राजनैतिक होगी । (३) प्रवेशक-वाहुल्य के कारण यह नाटक अभिनेय रहा होगा । (४) इसका रचयिता “भीम” महाकवि था ।

उपर्युक्त उद्धरणों के अतिरिक्त “मुभापितावली” तथा ‘सूक्तिमुक्तावली’ में भी “भीम” के नाम से कुल श्लोक प्राप्त हैं । विद्वानों का अनुमान है कि ये श्लोक नाटक से ही लिये गये हैं । विशेष रूप से सूक्तिमुक्तावली में उद्भूत “स्मेरासन्तु सभासदः…….” इत्यादि श्लोक के सम्बन्ध में धारणा है कि ये प्रतिज्ञाचारणक्य की प्रस्तावना का प्रतीत होता है ।<sup>१</sup> श्लोकों के अभिनाय के आधार पर यह सम्भव अवश्य है, किन्तु विना साक्ष के इस सम्बन्ध में दृढ़ता से कुछ नहीं कहा जा सकता ।

उपर्युक्त उद्धरणों के आधार पर कुछ विद्वानों का अनुमान है कि प्रतिज्ञाचारणक्य की कथावस्तु मुद्रा० के समान होगी तथा मुद्रा० में प्रदर्शित राधस के चरित्र के विपरीत इसमें चारणक्य के चरित्र को प्रदर्शित किया होगा । अतः विश्वास किया जाता है कि भीम ने यह नाटक मुद्रा० की प्रतिस्पर्धी (प्रतियोगी) रचना के रूप में लिखा । किन्तु हमारा मत कुछ भिन्न है । यह तो अवश्य है<sup>२</sup> कि इसका कथानक राजनैतिक होगा तथा इसमें चारणक्य तथा मलयकेतु के समान विन्द्यकेतु जैसे पात्रों का प्रयोग हुआ है । अतः भीम ने मुद्रा० से तो प्रेरणा ली होगी किन्तु हमारा यह भी अनुमान है कि प्रतिज्ञाचारणक्य की नाट्ययोजना भीम ने भास के प्रतिज्ञायीगन्धरायण के अनुकरण पर की होगी । इन दोनों नाटकों में नाम साम्य से यह ध्वनित होता है कि प्रतिज्ञायीगन्धरायण के समान प्रतिज्ञाचारणक्य में भीम का उद्देश्य चारणक्य के चरित्र को और भी सफलता से प्रदर्शित करना रहा होगा । इस सम्बन्ध में राजशेखर के एक श्लोक की ओर भी विद्वानों ने व्यान आकृष्ट किया है । राजशेखर ने एक श्लोक में कालिङ्गरपतिश्चक्रे भीमटः पञ्चनाटकीम् ।

कालिङ्गरपतिश्चक्रे भीमटः पञ्चनाटकीम् ।

तेषु प्रवन्धराजत्वं प्राप्त स्वप्नदशाननम् ॥३

इस श्लोक के आधार पर निष्कर्ष निकाले गये हैं कि भीम और भीमट एक ही व्यक्ति ही सकते हैं । (२) यदि दोनों एक हों तो कालिङ्गर के राजा भीमट का समय इतिहास के अनुसार दशम मंदी के पहिले था । (३) अभिनवगुप्त ने भीम को महाकवि कहा है । राजशेखर ने उसके ५ नाटकों का संकेत दिया है । अतः सम्भव है कि भीम ५ नाटकों का ही रचयिता था, उनमें से दो नाटक प्रतिज्ञा (प्रतिभा)

१. देखो, प्रोसीडिंग्स, फिफ्थ० पृ० ७८६,

२. प्रोसीडिंग्स ऑफ फिफ्थ इंडियन ओरियन्टल कांफ्रेन्स, भाग १, १९३०,

पृ० ७६०,

धारणक्य तथा स्वप्नदशानन भ्रत्यधिक प्रसिद्ध है। पर भीम तथा भीमट को निश्चित रूप से एक मानना असंभव है। कौथ के अनुसार इस विषय में निश्चित रूप से कुछ भी बहते का कोई हृषि ग्राधार नहीं है। इसमें ध्रुविक भीम के सम्बन्ध में ध्रुविक कुछ भी ज्ञात नहीं है। उपर्युक्त उद्धरणों के प्राधार पर भीम का समय भी निश्चित किया गया है। अभिनवगुप्त ने भीम को उद्भूत किया है अतः अभिनवगुप्त वा समय अर्थात् १०वीं सदी (उत्तरार्ध) भीम की अन्तिम सीमा है। इसके पहले की सीमा के सम्बन्ध में मुद्रा<sup>१</sup> का समय माना जा सकता है। अतः यह अष्टम सदी के बाद की रचना है। और यदि राजशेषर का उद्धरण सही है, तो इस ग्राधार पर कि उद्देशों का इतिहास ६वीं में शुरू हुआ है तथा उद्देशों वे समय कालिजर का पतन हो गया था<sup>२</sup> अतः भीम (भीमट) नवम् शदी के प्रारम्भ के या कुछ ही पूर्व रहा होगा। इस प्रकार अष्टम तथा नवम् के मध्य में भीम का समय माना जा सकता है।

## (२) “ललित-विग्रह-राज” (अपखण्ड) :

परिचय —श्री सोमदेव रचित ‘ललितविग्रहराज’ नाटक शिलालेख के रूप में उपलब्ध पहला ऐतिहासिक नाटक है। महाकवि सोमदेव ने ललितविग्रहराज की रचना शास्त्रमरी चौहान राजा विग्रहराज “चतुर्थ”, जो विं वीसलदेव के नाम से प्रसिद्ध है के सम्मान में की थी। सद १८७५-७६ में अजमेर के “ढाई दिन के भौंपडा” नामक स्थान से एकाधिक अन्य शिलालेखों के साथ नी नाट्यलेख भी खोजे गये थे, उनमें “ललितविग्रहराज” अन्यतम है।<sup>३</sup>

नाटक का समय—इस नाटक को रचना पुरातत्वविदों के अनुसार ११५३ ई० के लगभग हुई थी।<sup>४</sup> ग्राज भी गापूताना म्बूजियम, अजमेर में म्बूजियम भवन के पूर्व भाग के प्रकोण में नं० २५४ म यह नाट्यविभिन्न रखा हुआ है। हाँ कीलहानं ने इसे १८८१ ई० में इण्डियन एन्टीक्विरी, भाग २० में सफादित भी किया था।<sup>५</sup> किन्तु देवनागरी लिपि में ग्राज तक यह सपादित नहीं हुआ है।

१. सस्कृत ड्रामा, पृ० २३६,

२. श्रा० मा० इति० श्रिपाठी, पृ० २७६,

३. विशेष हृष्टान्यः अजमेर. हिस्टारिकल ए ए डेस्क्लिप्पिंग: दीवान बहादुर हरविलास शारदा, पृ० ६६-७५,

४. यही, पृ० ७५ तथा राजपूताना म्बूजियम, अजमेर में स्थापित शिलालेख।

५. देखो, ई० ए० १८६१, भाग २०, पृ० २०१,

**नाटक का कथानक—** ललितविग्रहराज नाटक के इस प्रपञ्च में तृतीय तथा चतुर्थ अंकों का अधिकांग भाग उपलब्ध है। प्राप्त नाटक शशिप्रभा तथा विग्रहराज के बारातालाप के साथ युरु होता है—शशिप्रभा की उक्ति से जात होता है कि दो प्रेमी विग्रहराज तथा देसलदेवी परस्पर अनुरक्त हैं। राजा को स्वप्नसमागम भी हुआ है कि वह प्रियाविरह से दुःखी है। देसलदेवी ने राजा के भावों को जानने लिये विश्वासपात्र सखी शशिप्रभा को भेजती है। शशिप्रभा देसलदेवी के समान ही राजा विग्रहराज को भी अत्यधिक अनुरक्त तथा विरहाकुन अवस्था में पाती है, और राजा के अनुराग तथा स्वप्नवृत्तान्त से देवलदेवी को ग्राशस्त करने को लौटना ही चाहती है कि राजा विश्व की व्रतिशयता के कारण तथा अपने जीवन के प्रति आशंकित होने के कारण, प्रिया समागम होने तक के लिये उसे रोक लेता है, तथा उसके स्थान पर अपनी विश्वासपात्र कल्याणावती द्वारा यह समाचार भेजता है कि तुरुष्केन्द्र ने हमारे विरुद्ध आक्रमण के लिये प्रस्तावन कर दिया है, ऐसा सुना जाता है। इस तुरुष्क के विरुद्ध युद्ध के प्रसंग से मैं जीव्र ही जाकर देवी को प्रसन्न करूँगा। “राजा शशिप्रभा के निवास ग्रादि की उचित व्यवस्था करने के लिये चला जाता है। यहाँ तृतीय अंक समाप्त होता है।

चतुर्थ अंक शकम्भरी विग्रहराज के शिविर से प्रारम्भ होता है। दो तुरुष्क चदी प्रवेश करते हैं। वे एक उस चर से मिलने पर राजकुल के सम्बन्ध में पूछताछ करते हैं, जिससे तुरुष्क ने शकम्भरी के शिविर में भेजा है। वह शिविर में प्रवेश करने तथा अन्य देखे गये वृत्तान्त के सम्बन्ध में कहता है कि सोमेश्वर देव के दर्शन के लिये जाने वाले साथ के साथ उसने प्रवेश किया तथा यहाँ भिक्षाटन करता रहा। वह यह भी बतलाता है कि चाहमान की सेवा में एक हजार हाथी, एक लाख घोड़े तथा दस लाख लड्डाकू पंदल हैं। वह यहभी बतलाता है कि उसकी सेना इतनी अधिक है कि पास में स्थित सागर भी सूख जाय। इसके पश्चात् वह राजकुल को बतलाकर चला जाता है। तब बंदी राजकुल में वहाँ पहुँचते हैं जहाँ कि राजा उस चर की प्रतिक्षा कर रहा है, जिसे कि उसने तुरुष्क हम्मीर के शिविर में भेजा है। इसी धीरे चर भी लौट जाता है और राजा को शत्रु की सेना तथा कार्यों के सम्बन्ध में सूचना देता है। वह यह भी बतलाता है कि शत्रु की सेना में अमर्ल्य हाथी, रथ, घोड़े तथा पंदल हैं। शत्रु के शिविर में अनेक प्रवेश-निर्गमन के मार्ग हैं, तथा शत्रु-शिविर पूर्णतः सुरक्षित है। वह यह भी बतलाता है कि पहिले वह तव्वर से तीन योजन दूर था, किन्तु अब एक योजन ही रह गया है, तथा वहाँ यह किवदन्ती है कि युद्ध के लिए समस्त सेना जो तैयार करके हम्मीरसेन यहाँ दूत भेजेगा। राजा समाचार सुनने के बाद चर को भेज देता है तथा मामा सिंहवल को ढुलाता है। मिहवल तथा मंशी श्रीधर के साथ परामर्श करता हुआ सिंहवल से अपने कर्तव्य के सम्बन्ध में पूछता

## ४।२ स्वतंत्रता के ऐनिहासिक नाटक

है। सिंहवल शशु शिविर पर शीघ्र ही माझमणि का परामर्श देता है, तथा भग्नी अर्थशास्त्र आदि के साध्य के अनुसार बनवान शशु से न लड़ने का परामर्श देते हैं। किन्तु राजा भित्री की रक्षा के अपने कर्तव्य के कारण स्वाभिमान के साथ युद्ध का निश्चय बरता है। सिंहवल भी उसे प्रोत्साहित करता है। इसी बीच हम्मोर वा दूत आ पहुँचता है। दूत राजकुल में प्रवेश करता हुआ विग्रहराज के प्रताप, प्रभाव, ऐश्वर्य तथा वैपव का बएन करता हुआ अत्यधिक पर्याकुल हो जाता है तथा अपने को कर्तव्यपान म असमर्थ सा पाता है—‘यहीं शिलालेख पर उत्कीर्ण नाटक समाप्त ही जाता है।

**साहित्यिक समालोचन—** ललितविग्रहराज नाटक के उपर्युक्त कथानक पर निवद्ध दो अका के अपवर्ण ही उत्कीर्ण रूप के प्राप्त हैं। निश्चिन रूप से नहीं कहा जा सकता कि सभग्र नाटक म कितने अक्षर हैं होते। अनुमानत यह नाटक ५ अक्षर से कम का नहीं होगा। किन्तु उपतब्ध दोनों अपवर्ण बीच के हैं जहाँ कि कथानक का विन्यास प्रथम के पश्चात् प्राप्त्याशा तथा नियतान्ति के रूप से चरम उत्कर्ष पर है। इसी अपूरणता के आरण इसका साहित्यिक तथा ऐतिहासिक मूल्यानन विसी सीमा तक भले ही सम्भव हो, किन्तु सर्वांगीण विवेचन सर्वथा अमर्भव होगा।

साहित्यिक दृष्टि से ललितविग्रहराज नाटक १२वीं सदीकी उत्कृष्ट रचनाओं में से एक है। नाट्यकला के परिप्रेक्ष्य से अवलोकन करने पर जात होता है कि नाटक-कार नाट्यकला म सिद्धहस्त है। प्रणयप्रवान ग्रामानक को समकालीन राजनीतिक कथानक ने मुश्किल करके इस प्रकार उपन्यास किया है कि दोनों में अत्यधिक तादादात्य होन के कारण कहीं भी शिथिलता का आभास नहीं होता है। नाटककार का भाषा पर पूण अधिकार है। स्वतंत्र प्राकृत दोनों का ही समान धर्मिकार से प्रयोग किया गया है। नाटक के प्राप्त अश में पद्य गद्य से कुछ कम हैं, सभी पदों का विनियोग शोचित्यपूर्वक व्याक के अग्र के रूप में ही किया गया है। निष्प्रयोजन पदों की येकली कही नहीं लगाई गयी है। राजा की उत्कृष्टि के रूप में निवद्ध कुछ पद लालित्य की दृष्टि से बहुत सुन्दर बन पढ़े हैं। भाषा में लोच, स्तिथिता, सुकुमारता तथा शालीनता है। सवादों के द्वारा ही कथा-भाग को आगे बढ़ाया गया है। सवाद छोटे छोटे तथा नाटक में प्रवादोत्पादक और प्रभावोत्पादक हैं नि सदेह सोमनाथ ने ललितविग्रहराज की रचना करके न केवल अपने आथर्यदाता बीसलदेव के वश को अमर बनाया है, अपित अपनी नाट्यकला की सफलता के द्वारा वह स्वयं भी अमर हो गया है।

**ऐतिहासिक समालोचन—** ललितविग्रहराज नाटक ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। विग्रहराज बीमलदेव सुप्रसिद्ध चौहान शासक था। यह अर्णोदाज के

वाद जुगदेव को अपदस्थ करके लगभग ११५२ ई० में राज्य पर बैठा तथा इसने लगभग ११६४ ई० तक शासन किया।<sup>१</sup> विग्रहराज तथा देसलदेवी की प्रणयकथा ही नाटक में आधिकारिक कथा के रूप में वर्णित है। सोमदेव के अनुसार देसलदेवी वसन्तपाल की पुत्री थी।<sup>२</sup> वसन्तपाल इन्द्रपुर का शासक बतलाया जाता है। किन्तु डा० कीलहार्न का वसन्तपाल दिल्ली के तोमरों से सम्बन्धित होने की संभावना करते हैं। सिहबल तथा श्रीधर भी ऐतिहासिक पात्र प्रतीत होते हैं। अन्य पात्र कल्पित हैं।

ललितराजविग्रह के उपलब्ध अपखंड में नायक-नायिका से सम्बन्धित प्रणय-कथा आधिकारिक होने पर भी स्वत्प मात्र हैं। यहाँ प्रासंगिक कथा ही अधिक मात्रा में हैं। इस नाटक में तुर्हज्ज हमीर के आक्रमण तथा युद्ध की परिस्थिति का तो चित्रण है, किन्तु जिस प्रकार नाटक समाप्त होता है, उससे यही ज्ञात होता है कि विग्रहराज तथा हमीर में युद्ध नहीं हुआ होगा। किन्तु देहली के सुप्रसिद्ध शिवालिक स्तम्भ के प्रभिलेख (११६४ ई०) से ज्ञात होता है कि विग्रहराज ने मुसलमानों के विरुद्ध सफल युद्ध लड़े थे तथा उन्हें हिन्दुस्तान के बाहर खदेढ़ दिया था। शिवालिक के प्रभिलेख के अनुसार विग्रहराज ने विघ्य तथा हिमाल के बीच के प्रदेश (आर्यविं) को मुसलमानों से विहीन करके, सच्चे अर्थ में आर्य भूमि बना दिया था।<sup>३</sup> संभव है इस उल्लेख में कुछ अतिरिक्त भी हो, तथापि, यह तो अनेक, सुट्टः साक्ष्यों से प्रकट है कि वह अत्यधिक पराक्रमी शासक था। विग्रहराज ने आसपास के जालौर, पाली आदि अनेक स्थानों को जीता तथा आक्रमण करके ११५५ और ११६३ बीच में दिल्ली को जीता था।<sup>४</sup> डा० त्रिपाठी का अनुमान है कि यह उसने विजयचन्द्र गाहड़वाल से<sup>५</sup> जीती होगी।

ललितविग्रहराज नाटक के विभिन्न उल्लेखों से भी यह प्रकट होता है कि विग्रहराज बीसलदेव प्रतापी शासक था। नाटक में जिस समय मंत्री श्रीधर अर्यशास्त्र

१. अजमेर : हिस्टारिकल ऐंड डस्ट्रिक्टिव : शारदा, पृ० १४४, प्रा० भा० इति० त्रिपाठी, पृ० २५०,
२. राजा-कल्याणपति, ऋजस्व अवनिपते : वसन्तपालस्य पुत्रीमस्मद्वचनावनुमोदयितुम्'',
३. इ० ए० वाल्यूम २०, पृ० २०३, फुटनोट,
४. अजमेर० हर विलास शारदा, पृ० १४४,
५. वही,
६. प्रा० भा० इति० त्रिपाठी पृ० २५०,

वे साधय को प्रस्तुत करते हुये वलशाली ग्रन्थ से युद्ध को अनुपाय घोलाना है, तो विग्रहराज उसके परामर्श को कायरता का दोनों मानव उसकी अवहेनना करता है, तथा मिहशुल के परामर्श के अनुमान युद्ध को सन्नद्ध होता है। वह कर्तव्य के पीछे प्राणों वे बलिदान को भी कुछ महत्व नहीं देता।<sup>१</sup> हम्मीर के दूत के प्रवेश के समय के बर्एंनों से भी विग्रहराज का प्रताप तथा प्रभाव स्फुट हृषि में अच्छ होता है।

इसी प्रकार नाटक में हम्मीर तथा विग्रहराज की संग्रामक्षिति का उल्लेख भी महत्वपूर्ण है। नाटक में परिणामित सख्ता को पर्याप्त विश्वस्त नहीं माना जा सकता, तथापि उससे सेना को विश्वालता का अनुमान अवश्य लग जाता है। इसी प्रकार नाटक से यह भी स्पष्ट होता है कि शिविरों में सुरक्षा की हाप्ति से प्रवेश निगमन के अनेक मार्ग होते थे तथा गुप्तचरों वा भी प्रपोग होता था। इतिहासांग वी मान्यता है कि भारतीय इतिहास में विग्रहराज ही सर्वप्रथम परामर्शी चौहान था, जिसका न वेवल राजस्थान या चौहानों के इतिहास में, अपितु समस्त भारतीय इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान है। विग्रहराज के परचान् ही दूसरा चौहान पृथ्वीराज हुआ, जिसने भारतीय इतिहास को प्रमाणित किया।<sup>२</sup> नाटक से यह भी प्रकट है कि विग्रहराज चौशतदेव प्ररामर्शी शासक ही नहीं था, वह सहृदय प्रेमी भी था तथा मोमदेव जैसे कवियों का आश्रयदाता भी। इसके अतिरिक्त उसी के द्वारा इच्छित “हरकेलि नाटक” से यह भी प्रकट है कि चहम्मदम बड़ि था।<sup>३</sup> ढाँ शीलहार्न ने विग्रहराज की इस नाट्यरचना को कालिदास और भवभूति की काव्यकीनि की प्रतिस्पर्धा बतलाते हुए लिखा है—

Actual and undoubt d Proof is here offered to us of the fact that powerful Hindu rulers of the past were eager to compete with Kalidas and Bhavabhuti so poetical fame.<sup>४</sup>

(३) करणसुन्दरी—यह विल्हेम रचित सुप्रसिद्ध नाटक है। इसका रचना काल लगभग १०८०-६० ई है। इस चार अंक की नाटिका में अपने आश्रयदाता गुजरात स्थित अण्डिलवाहृ<sup>५</sup> के चौनुक्य राजा कण्ठदेव श्रैलोदयमल्ल (१०६४-६४) का अण्डिक के राजा जपकेश्वर की बन्धा के साथ बृद्धावस्था में हुए विवाह के दृढ़ को उदात्तशंखी म नाट्यवद्व विया गया है। विल्हेम एव उसकी कृतियों पर

१. लतितयिग्रहराज चतुर्थ अक,  
२. अजमेर० शारदा प० १४४-४५,

३. यही, प० ७८, १४५,

४. इ० ए० भाग २०, १८८१, प० २०१.

५. आधुनिक ‘पाटन’,

ऐतिहासिक तथा साहित्यिक परिशीलन अनेकाशः विस्तार से हो चुका है, अतः यहाँ स्थानाभाव के कारण परिचय मात्र देना ही उचित समझते हैं, पिष्टपेपण करना नहीं।

(४) “पारिजात मंत्री” “(ग्रूण्)” पारिजात मंजरी सर्वप्रथम स्वर्गीयं श्री काशीनाथ कृष्ण लेले को नवम्बर १६०३ में, मालव नरेशों की प्राचीन राजधानी “धार” की भग्नावशेष भोजशाला से एक शिलाखड़ के रूप में प्राप्त हुई। परिजात मंजरी के समग्र ४ अंक दो काले रंग के शिलाखड़ों पर उत्कीर्ण थे, किन्तु उनमें से आज एक ही शिलाखड़ प्राप्त है तथा उस पर प्रारम्भ के दो अंक उत्कीर्ण हैं। दूसरा शिलाखड़ आज भी टुकड़ों के रूप में प्रायः नष्ट भ्रष्ट होकर फर्ज में इतरंततः लगा हुआ प्रतीत होता है। अतः पारिजात मंजरी हमें केवल दो अंकों में उपलब्ध है। इसे हुल्टज ने सर्वप्रथम “एपिग्राफिआ इंडिका” वाल्यूम ८ में वेस्तुत भूमिका के साथ पृष्ठ १६—१२२ में सम्पादित किया तथा १६०६ में पुस्तकाकार भी। वाद ये विक्रमस्मारक समिति ने भी मूलरूप में इसे प्रकाशित किया है। और अब भोज-प्रकाशन, धार, से यह १६५२ में प्रकाशित हो चुकी है।<sup>१</sup>

प्रो० हुल्टज ने परिजात मंजरी के अतिरिक्त इसको “धार-प्रशस्ति” के रूप में उल्लेख किया है, किन्तु इसकी प्रस्तावना में इसका दूसरा नाम “विजयश्री” भी लिखा है।<sup>२</sup> नामा “विजयश्री” पारिजातमंजरी का रूपान्तर है। अतः दोनों एक ही हैं। अतश्च यह पारिजातमंजरी तथा विजयश्री दोनों नामों से प्रसिद्ध है।

नाटिका का रचीयता तथा समय—पारिजातमंत्री के रचीयता राजगुरु श्री मदन है। मदन कवि प्रतिद्वं जैन विद्वान् आणाधर के शिष्य थे। प्रस्तावना में इन्हें गोडवंशी (गोड देश के गोड ग्राहण) गंगाधर का वंशज कहा है।<sup>३</sup> मंदन कवि अर्जुन वर्मा के आश्रित राजगुरु थे। अर्जुनवर्मा के तीन ताम्रपत्रों भी प्राप्त हैं, जिनका समय क्रमांकः १२११, १२१३, तथा १२१५ है।<sup>४</sup> इन सभी ताम्रपत्रों के रचीयतां भी मदनदेव हैं। यही मदनदेव नाटककार हैं। अतः स्पष्ट है कि पारिजातमंजरीं एक समकालीन रचना है और इसका रचनाकाल १२१३ या १२१५ माना जा सकता

१. दृष्टच्यः पारिजातमंजरी, भूमिका, पृ० १, हमने यहाँ इसी संस्करण का प्रयोग किया है :
२. पारिजातमंजरी, पृ० २,
३. वही पृ० २,
४. ए० इ० वाल्यूम, ७, पृ० ६८,

है।<sup>१</sup> मदनकवि वेदल राजगुरु ही नहीं थे, अपिनु अञ्जुनवर्मा के उपाध्याय प्रर्थात् शिक्षक भी थे। अपनी विद्वता के कारण इन्हे 'वाल सरम्बनी' भी कहा जाता था।<sup>२</sup> अञ्जुनवर्मा ने अमरशत्रु वी अपनी टीका रसिन-सजीवनी में अपने (गुह) उपाध्याय भदन का एक शादूलविक्रीदित भी उद्भूत किया है तथा इन्हे कई अन्य श्लोकों का लक्ष्य भी कहा है। स्पष्ट है कि इसने पारिजातमजरी के अतिरिक्त और भी काव्य आदि लिखे होंगे प्रस्तावना में इसे अभिनव कृति लिखने से भी यही प्रकट होता है।<sup>३</sup>

**नाटक का कथामक**—गुजरात के राजा जयसिंह के साथ युद्ध करते समय परमार राजा अञ्जुनवर्मन के पराक्रम से आश्चर्यचकित होकर दबतायो के द्वारा पुष्प-वृष्टि करते समय एक पारिजातमजरी अञ्जुनवर्मा के वक्षस्थल पर गिर और एक दामिनी के रूप म परिणत हो गयी, तभी आकाशवाणी से इस कल्याणी विजयधी के उपर्योग का आदेश हुआ। वास्तव म यह कोई स्वर्गीय घटना नहीं थी, अपितु चालुक्य राजा के एक जयधी नाम की कन्या थी, वह अमीष्ट वर प्राप्त न होने के कारण मर गई थी। पुन उमी का पारिजातमजरी के रूप म आविर्भाव हुआ और वही इस स्त्रीलूप म परिवर्तित हो गई। राजा अञ्जुनवर्मा ने लोक लज्जा आदि के बारण (या पटरानी सर्वकला की आँखों से दूर रखने के उद्देश्य से) उम (विजयधी) पारिजात मजरी को उद्यानपाल कुमुमाकर को तथा कुमुमाकर ने अपनी पत्नी वसन्त-लोना को दे दिया। इस प्रकार वह धारागिरि के लीलोद्यान में पहुँच गई जहाँ उसके रहने-सहने की समस्त व्यवस्था कर दी। इसके पश्चात् सपरिजन राजा रानी के वसन्तोत्सव मनाने के विस्तृत वर्णन के साथ वसन्तोत्सव नामक प्रयम शब्द समाप्त होता है।

द्वितीय मे धारागिरि लीलोद्यान मे ही रानी सर्वकला के आग्रहक तथा माधवीलता के विवाह का आयोजन किया। सेवक सेविकायो न इस अवसर पर विरहिणी परिजात मजरी के साथ विरही राजा के गुप्तमिलन की व्यवस्था की। वसन्तसेना ने द्वितीय उल्लब्धों मे परिजातमजरी को इस प्रकार दिया कि रानी के "ताढ़क" नामक कर्णकुण्डल मे प्रतिविम्बित परिजातमजरी को राजा न देसा। फलत राजा प्रसन्न हुआ, इन्तु पूल्लब्धों मे उसके छिप जाने पर प्रतिविम्बित न देख पान से से कभी कभी निराश भी। रानी को राजा की ऐसी दशा देखकर सन्देह हुआ और वह सब रहस्य को समझ कर निरस्कार की भावना से कम्फलेखा के साथ निकल

१ इ०-ए० वाल्यूम ३५, १६०६, पृ० २३५,

२ पारिजातमजरी, इन्टोडशन पृ० २,

३ पारिजातमजरी पृ० २,

गई। इस घटना से अप्रसन्न होकर पारिजातमंजरी भी वसन्तलीला के साथ निकलने को उद्यत हुई। उसके साथ राजा ने प्रणायाभिसार किया। तभी कनक-लेखा रानी के करणभूपणों को लेकर आयी और राजा को व्यंग्यात्मक संदेश दिया। राजा भी रानी के फ्रेंघ के कारण को समझ कर एवं विवश होकर पारिजात-मंजरी को सकहण सान्त्वना देकर चला गया। परिजात-मंजरी ने दुखित होकर आत्मघात का निश्चय किया, किन्तु वसन्तलीला ने उसे बचाने का निश्चय किया। इस प्रकार ताढ़क दर्पण नामक यह श्रक समाप्त होता है।

कथानक को ऐतिहासिक—पारिजातमंजरी की प्रस्तावना के अनुसार इसका सर्वप्रथम अभिनय वसन्तोत्सव पर धार के सरस्वती भंदिर में, जिसे शारदा भवन तथा भारतीभवन कहा जाता था, हुआ।<sup>१</sup> प्रस्तुत नाटिका वास्तव में एक “प्रशस्ति” है। नाटिका के प्रथम इलोक में लेखक इस ओर सकेत करता हुआ लिखता है कि भोज के गुण प्रभाव को लिखकर वर्णन करना कठिन है। तब भी अर्जुनवर्मा के रूप में भोज के ही अवतार लेने के कारण, उसके गुण-प्रभाव का आस्वाद लिया जा सकता है। इसी कारण उनको इन दो शिलाओं में अंकित किया जा रहा है।<sup>२</sup> प्रकट है कि भद्रनकवि ने अर्जुनवर्मा के गुणमहात्म्य-वर्णन के लिए ही प्रस्तुत नाटिका की रचना की थी, तथा शिलाओं पर उत्कीर्ण कराया गया था। इससे यह भी अनुमान होता है कि इस नाट्य-प्रशस्ति का प्रदर्शन तथा शिलांकन इसके नायक अर्जुनवर्मा के समय में ही हुआ होगा।<sup>३</sup> यही कारण है कि इसका ऐतिहासिक यहत्व भी बढ़ जाता है। उपलब्ध शिला पर उत्कीर्ण द्वितीय अंक के अन्तिम इलोक से हमें यह भी जात होता है कि “सौहाक नामक सुप्रसिद्ध शिल्पी के पुत्र रामदेव ने इस प्रशस्ति को शिला पर अंकित किया है।”<sup>४</sup>

पारिजातमंजरी एक नाटिका है। इसके कुमुमाकर, वसन्तलीला आदि अन्य अधिकांश पात्र काल्पनिक हैं अतः इससे ऐतिहासिक तत्वोलब्धि की विशेष ग्राशा नहीं की जा सकती। पर, इसके नायक-नायिका दोनों ऐतिहासिक यत्कि हैं। प्रशस्तिकार ने प्रसंगवश अर्जुनवर्मा से सम्बन्धित तथा कुछ अन्य ऐतिहासिक घटनाओं का भी उल्लेख किया है।

१. पारिजातमंजरी, पृ० २

२. वही, १११,

३. ए० ई० बाल्यूम ८, पृ० ६६,

४. पारिजातमंजरी २१७६,

नाथ्य-प्रशस्तिवार ने नायक का नाम अजुंन तथा अजुंनवर्मा लिखा है। यह धारा का परमारवशी तथा धारा-नरेश भोज का वंशज राजा था।<sup>१</sup> नाटक में इसे सुभट्टवर्मा का पुत्र कहा है।<sup>२</sup> यह तथ्य ताम्रपत्रों से भी स्पष्ट होता है।<sup>३</sup> सुभट्टवर्मा के पश्चात् अजुंनवर्मा १२१० ई० म गढ़ी पर बंधा था यह भोज की द्वी पीढ़ी में हुआ।<sup>४</sup> मदनकवि न अजुंनवर्मा को भोजदेव के ममान ही लिखा है एवं अवतार भी माना है।<sup>५</sup> नाटिका में भोज का वृण्ण के साथ तथा अजुंनवर्मा का अजुंन के साथ साम्य बतलाया है।<sup>६</sup> नाटिका में यह भी बतलाया है कि भोजदेव ने बनकुरी के गागेयदेव को पराजित किया था, तथा अजुंनवर्मा न गुर्जरपति जयसिंह को पराजित किया।<sup>७</sup>

नाटिका की कनिष्ठा नायिका है। इसकी उत्पत्ति से सम्बन्धित प्रारम्भिक वर्णन से यह काल्पनिक प्रतीत होती है। आलक्षणिक तथा प्रतीकात्मक वर्णन से वास्तविकता का सहज ही ज्ञान नहीं होता है तथापि “चौलुस्यमहीमहन्दुहिता” के रूप में उल्लेख करने से ही इसकी ऐतिहासिकता में विश्वास होता है।<sup>८</sup> पर, प्र० हूल्टज ने विजय-श्री को कल्पित पात्र माना है, राजवश ने सम्बन्धित नहीं।<sup>९</sup> स्टेनकोनो नाटिका के वस्तु-उत्त्व के आधार पर उसे निम्न-वर्गीय पात्र मानते हैं।<sup>१०</sup> उनकी मान्यता है कि नाटिका में एक मुख्य राजवश की नायिका चाहिए और यह सबकलाहै। स्टेनकोनो ने नाटिका में उल्लिखित गारिजातमजरी के जन्म से सम्बन्धित कल्पित कथा के आधार पर अनुमान किया है कि लेखक वा प्रभिप्राय यही उसे राजवश से निम्न बतलान का है। किन्तु ये दोनों मत भ्रामक हैं। दग्धपत्रक में कनिष्ठा के सम्बन्ध में यह नहीं लिखा कि वह हीनवर्णी होती है, अपितु वही कनिष्ठा नायिका को भी ज्यछा के समान नृपवंशजा, मुग्धा, दिव्या तथा अतिमनोहरा का विवान है।<sup>११</sup> इसके अनिरिक्त विजयश्री

१. पारिजातमजरी ११, ३, ६ तथा ४-५,
२. वही, ११०,
- ३ ए० ई० ८, पृ० ६८,
४. दि परमार औंफ धार एण्ड मालवा, पृ० ३८-३९,
- ५ पारिजात मजरी, ११, ३, ६,
- ६ वही ११३,
- ७ वही,
८. हृष्टव्य, वही ११६, ७, कुछ इसका नाम पद्मावती भी बताते हैं।
९. ए० ई० ८, पृ० १०१,
१०. ई० ए० ३५, पृ० २३६,
११. दग्धपत्रक ३।४५-४६,

के लिए लेतक द्वारा प्रयुक्त नायिका ग्रन्थ से उसकी कुलीनता का ही भंकेत है। श्री के. एम. मुंशी के अनुसार भी पारिशतमंजरी या विजयश्री गुजरात के राजा जयसिंह की ही पुत्री थी।<sup>१</sup> उनका अनुमान है कि कपोंकि नाटिका के उपलब्ध २ अंक विजयश्री के प्रणाय-प्रसंग में ही समाप्त हो जाते हैं, इससे प्रतीत होता है कि नाटिका के अन्त में विजयश्री का राजा के माथ विवाह किया जा सकता संभव है। इससे पुनः यह भी प्रकट होता है कि १२१० ईस्वी से पहिले जयसिंह गुजरात पर पूर्णतः अधिक्षित हो चुका था।<sup>२</sup>

प्रस्तुत नाट्य प्रशस्ति में उपर्युक्त घटनाओं के अतिरिक्त अन्य पात्र तथा घटनायें कल्पित हैं। प्रो० हुल्ट्ज ने विजयश्री आदि कल्पित पात्रों के कारण इसे प्रशस्ति के रूप में असफल (Poor Panagysic) कहा है,<sup>३</sup> यद्यपि हम विजयश्री को ऐतिहासिक मानते हैं, तथापि यह सर्वप्रथम एक नाट्यरचना है, वाद में प्रशस्ति। अतः यहाँ विशुद्ध प्रशस्ति की आकांक्षा करना सर्वथा अस्वाभाविक है। नाटिका होने के कारण कवि को इसमें कलना-प्रयोग का पर्याप्त अवसर प्राप्त है। अतएव यह सर्वाणि में प्रशस्ति नहीं बन पाई है तथापि प्रारम्भ में जिन ऐतिहासिक घटनाओं का जिस प्रकार निर्देश किया है, उनसे प्रशस्ति का रूप भी अस्तुणा रहा है। स्टेनकोना के अनुसार इसमें अनेक सुन्दर स्थल होने पर भी इसका काव्यात्मक महत्त्व अधिक नहीं है। सबसे प्रमुख वात यही है कि इसकी रचना जीवित, समकालीन राजा को नायक के रूप में विनियोग करके एक प्रशस्ति के रूप में हुई है।<sup>४</sup> अतः इसका ऐतिहासिक नाट्य-प्रशस्ति के रूप में महत्त्व कम नहीं है।

परमार नरेश भोजदेव ११वीं सदी के पूर्वार्ध में हुए थे। उत्तरी भारत में उस ससय त्रिपुरा के कलचुरी राजा गांगेय विक्रमादित्य (१०१०-१०४१) दिनोंदिन प्रभुत्व की ओर बढ़ते हुए भोज से संतुष्ट न था। फलतः भोज ने गांगेय पर आक्रमण करके उसकी राजधानी त्रिपुरा को अधिकृत कर लिया था।<sup>५</sup> अर्जुनवर्मा द्वारा जयसिंह को पराजित करने की घटना भी ऐतिहासिक है। अर्जुनवर्मा के ताम्रपत्रों से भी यह ज्ञात होता है।<sup>६</sup> सद् १२०६ में चालुक्य राजा जयन्तसिंह या जयसिंह ने देश को अपने अधिकार में कर लिया था। फरवरी सद् १२१० में सुभट्वमंद का

१. ग्लो० गु० मुंशी० पृ० २११,

२. वही प० २१२,

३. ए० इ० ८, पृ० १०१,

४. इ० ए०, ३५ पृ० २२६,

५. ग्लो० गु० मुंशी, पृ० १४३,

६. ऐ० इ० ८, पृ० ६६,

पुन अर्जुनवर्मद गही पर बैठा।<sup>१</sup> इसके शीघ्र बाद ही उसने जयसिंह को पर्वपर्वत के निकट हराया।<sup>२</sup> सद १२३१ के उसके शिलालेख से स्पष्ट है कि जयसिंह पटना की गही पर था।<sup>३</sup> उसने स्वय को गुजरातेश को बचाने वाला लिखा है। नाटिका में उसे गुजरपति लिखा है।<sup>४</sup> नाटिका से अर्जुनवर्मा तथा जयसिंह के परस्पर युद्ध की भी मलक मिल जाती है। इसके अनुसार जयसिंह के माथ अर्जुनवर्मा का युद्ध पर्वपर्वत के निकट हुआ था।<sup>५</sup> सभवत पर्वपर्वत की उपत्यका दोनों राज्यों की सीमा थी।<sup>६</sup> इतिहासकार पर्वपर्वत को मालवा तथा गुजरात के बीच में स्थित मानते हैं।<sup>७</sup> प्रशस्तिकार ने जयसिंह तथा अर्जुनवर्मा के युद्ध की तुलना हिरण्यकश्यप के साथ विष्णु के युद्ध से की है।<sup>८</sup> इसमें दोनों की चतुरग सेनाओं का आलकारिक वरणन किया है।<sup>९</sup> गुजरात राजा की गजसेना का दमन, शत्रुस्त्रियों का अपहरण, गुर्जरेन्द्र की रमणियों को सीभाग्य सिन्धुर के भ्रवलेपन तथा शत्रु समुद्राय में अवला वना देने के वरणन से उस युद्ध की भयकरता तथा अर्जुनवर्मा के मौर्य का ग्रामास होना है।<sup>१०</sup>

नाटक में अर्जुनवर्मा को 'त्रिविघ-बीर चूडामणि' लिखा है।<sup>११</sup> यह इसकी चराधि थी। तात्रपत्रों में इसे त्रिविघबीर, तथा रसिक सजीवनी टीका में "बीर चूडामणि" उल्लेख है।<sup>१२</sup>

नाटिका से नारायण नाम के प्रधान वा ज्ञान होता है।<sup>१३</sup> नाटिका में अर्जुन की प्रमुख रानी सर्वकला का भी उल्लेख है। इसे 'कुन्तलेन्द्रमुता' बहा है, अत यह कुन्तल राजा की पुत्री थी।<sup>१४</sup> प्र० ० हुल्टज ने कुन्तलेन्द्र का साथ्य बीरमल द्वितीय से

१. ग्लो० गु० मु शी, पृ० २१०,

२. वही

३. वही,

४. पारिजातमजरी, ११७, १०, १८,

५. वही, १४-५,

६. ऐ० इ० द, पृ० ६६,

७. व परमार शाँफ धार एण्ड मालवा, पृ० ३६,

८. पारिजातमजरी १४-५,

९. वही,

१०. हृष्टव्य वही तथा ११७, १०, १८,

११. वही, तथा अनेकशा,

१२. ऐ० इ० द, पृ० ६६,

१३. पारिजातमजरी, ११८,

१४. हृष्टव्य, वही १११, २१३७-६२ आदि,

माना है<sup>१</sup> जिसका समय ११७२-१२१६ ई० है।<sup>२</sup>

साहित्यिक पर्यंवेक्षणः—नाटिका ‘पारिजातमंजरी’ का नायक परमार वंश का प्रल्पात राजा अर्जुन तर्वर्मा धीर ललित है। दो नायिका हैं: ज्येष्ठा सर्वकला तथा कनिष्ठा पारिजात मजरी या विजयश्री। नाटिका की वस्तु मूलतः कल्पित है किन्तु प्रासंगिक घटनाओं के संकेत ऐतिहासिक हैं। अग्रीरस शृंगार है। नाटिका के प्रथम अंक में मुख्यतः वसन्तोत्सव होने से उसका नाम वसन्तोत्सव अक है। द्वितीय में ताड़क नामक कर्णभूषण का दर्पण के समान विशेष प्रयोग किया गया है। अतः उसका नाम ताड़क दर्पण है।

नाटककार ने इसका कथानक “विक्रमांकदेवचरितम्”, राजतरगिणी, और हरिवश के परिजातमंजरी नामक प्रसंग में वर्णित प्रणायकथा से संजोया है। इसका नाट्य-विवान भी रत्नावली के आदर्श पर किया गया है। तथापि इस नाट्य-प्रसास्ति की अपनी विशेषताएँ हैं। स्वाभाविक रूप से यद्यपि पात्रों के चरित्र उभरे नहीं हैं, किन्तु शृंगार रस की उद्भावना अत्यधिक परिस्फुट है। नायिका विजयश्री का श्रांगारिक वरणन चिवात्मक भावोद्दीपक तथा उत्तेजक है। प्रथम अक राजप्रासाद तथा अन्तःपुर में घटित होता है। द्वितीय अक धारागिरि लीलोद्यान तथा प्रमदवन में। नाटिका का प्रदर्शन ही वसन्तोत्सव पर शारदा भवन में ही नहीं हुआ था, अपितु इसके समग्र प्रथमांक में वसन्तोत्सव का ही वरणन है। वसन्तोत्सव भारत का बहुत प्राचीन उत्सव है।<sup>३</sup> नाटिका में उसके लिए चंत्रोत्सव,<sup>४</sup> चंत्रपर्व<sup>५</sup> तथा मधूत्सव<sup>६</sup> आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है।<sup>७</sup> इसमें वसन्तोत्सव के समय अबीर, कस्तूरी, गुलाल तथा रंग से परस्पर प्रणाय-विनोद तथा नृत्य संगीत का अत्यन्त सुन्दर वरणन किया गया है। हिन्दोलों के प्रसंग में वर्णित हिन्दोल-राग के स्वर संयोजन के वरणन से तथा माघवी-सहकार के प्रणाय-प्रसंग में निर्दिष्ट देशी तथा शास्त्रोक्तर गाँवों के स्वर-विन्यास के निर्देश से लेखक का संगीत-ज्ञान प्रकट होता है।<sup>८</sup> माघवी-सहकार विवाह के अवसर पर महारानी के कर्णफूल में पारिजातमंजरी को प्रतिविम्बित करके राजा

१. ए० ई० ८, पृ० १०१,

२. ग्लो० गु० मुंशी, पृ० २११,

३. इ० ए० २६, पृ० १८७,

४. पारिजातमंजरी, १६,

५. वही पृ० २,

६. वही ११०-११, २०,

७. हृष्टव्य, वही, १२०-१२ आदि

को रूपसीन्दर्भ को हृदयगम कराने का प्रसग अत्यन्त मार्मिक है। धारानगरी, शारदा-सदन, लीलोद्यान, विद्वन्सभा आदि का बरंगन भी सारकृतिक हृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार द्वितीय ग्रन्थ में उपवन-विशेषज्ञों के “चित्र-प्रयोग” का बरंगन अत्यन्त उपादेय है। इस नाटिका से तत्त्वालीन धारा के सारकृतिक जीवन तथा नागरिक मनोविज्ञोद आदि का अच्छा ज्ञान होता है। इसकी भाषा आलाकारिक है। सरहृत का राजा आदि ने प्रयोग किया है, शेष पाथो ने प्राहृत। गद्य में शूरमेनी तथा पद्य में महाराष्ट्री प्रयुक्त है।<sup>१</sup> कहीं कहीं भाषा अत्यन्त सरल, सरस तथा स्वाभाविक है। कहीं-कहीं विलट्टता बढ़ गई है। गद्य प्रयोग में समस्त-पदानुराग, पदों की सरलता सरसता वीं अपेक्षा रसानुभूति में वाधक है, तथापि समग्र रूप में यह एक मरम रचना है।

#### (५) ‘प्रतापरुद्रकल्याण’

श्री विद्यानाथ रचित ‘प्रतापरुद्र कल्याण’ छोटे-छोटे पाँच भवों का नाटक है। डॉ आफ्फेच्ट एवं कीथ आदि ने इसका उल्लेख किया। यह स्वतन्त्र रूप में भी अकाशित हूआ है। किन्तु वास्तव में यह स्वतन्त्र नाटक न होकर विद्यानाथ रचित विशालकाषण लक्षण-ग्रन्थ “प्रतापरुद्रयशेषूपण” का ही एक भाग है। प्रतापरुद्र-यशेषूपण नामक अलकार-ग्रन्थ में ‘नाटक प्रकरण’ नामक तृतीय प्रवरण में सधि आदि विभिन्न घगों से युक्त नाटक के उदाहरण के रूप में यह उपन्यस्त है।<sup>२</sup>

रचयिता :—‘प्रतापरुद्र यशेषूपण’<sup>३</sup> श्री विद्यानाथ की एक मात्र ज्ञान महान् कृति है। विद्वानों ने इस ग्रन्थ के अन्त वाह्य साक्ष के आधार पर विद्यानाथ को प्रतापरुद्र का समकालीन माना है।<sup>४</sup> प्रतापरुद्र वारगल के कावतीय वश के यशस्वी राजा थे। सामायत इनका समय १३ वीं शदी के ठीक अन्त तथा १४ वीं के प्रारम्भ में माना जाता है।<sup>५</sup> इस प्रकार विद्यानाथ का समय भी १३-१४ वीं शदी ठहरता है।

नाटक का कथानक —प्रस्तावना में काकतीय वश के परिचय के पश्चात् वेतालिकों द्वारा यह सूचना मिलती है कि काकतीय वश के खुलदेवता भगवान् रुद्रदेव

१. ए० इ० दृ, पृ० १००,

२. प्र० र० यशो० पृ० १३४-२१८,

३. यहाँ ‘प्रतापरुद्र यशेषूपण’ में उदाहृत नाटक की ही अध्ययन के लिए प्रयुक्त किया है, प्र० सक्तरण, १६०६, गवर्नरेट सेट्टल प्रेस, धम्बई।

४. प्र० र० यशो० यूमिका, पृ० १'-१२ आदि

५. वही यूमिका, पृ० २४, तथा हिं० स० तिट० कृष्णभाचारी, पृ० ६५८,

ने प्रतापरुद्र के राज्याभिषेक की स्वप्न में आज्ञा दी है। इस स्वप्नादेश को कार्यान्वित करने के प्रसंग में स्वयं-भूदेव के अनुग्रह के फलस्वरूप श्रमण-महोत्सव किया जाता है। राज्याभिषेक के संभार की तैयारी होती है तथा जैव यात्रा का आयोजन किया जाता है। द्वितीय अंक में प्रतापरुद्र के अभिषेक के सन्दर्भ में दिग्विजय प्रस्थान का संभार वर्णित है। इसी समस्त अंक में विशाल विविध संभ्य-सामग्री का उल्लेख है। अंत में जैव-यात्रा का प्रवर्तन होता है। तृतीय अंक में विजय-यात्रा का सविस्तार वर्णन है। दो वार्ताहरे द्वारा प्रतापरुद्र के प्रताप का वर्णन तथा विजय का वर्णन है। चारों दिशाओं के कलिग, पांड्य, ग्रंग, वंग, कर्लिग, मालव आदि के राजाओं को जीत कर प्रतापरुद्र लौट आता है। चतुर्थ अंक में महाभिषेक का आयोजन तथा पंचम अंक में महाभिषेक के सम्पादन का सविस्तार वर्णन है। इन अंकों के ऋग्मणः नाम कल्याणस्वप्न, विजय-यात्रा-विलास, वीर-रुद्रविजय, त्वरितमहोत्सव तथा प्रतापरुद्र-राज्याभिषेक है।

**साहित्यिक समालोचन-** नाटक वर्णन प्रधान है यह साहित्यक हृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें वर्णनानुवर्णना की अधिकता है। पात्रों का चरित्र-चिरण प्रायः नहीं है। नाटक में शब्दशः प्रतापरुद्र के प्रताप, पराक्रम का उल्लेख अवश्य है। किन्तु वीरता, उत्साह आदि की उद्भावना कहीं नहीं है। इसमें एक नीरस कथानक को नीरस ढंग से ही उपन्यस्त कर दिया गया है। लेखक ने इसमें नाट्य-शिल्प के तत्वों का प्रदर्शन अवश्य किया है, किन्तु नाट्यकना की हृष्टि से कलात्मकता के तथा नाटकीयता के अभाव के कारण संवेदनशीलता, कलात्मक-सौन्दर्य तथा रसपे-शलता आदि का सर्वथा अभाव है। केवल यह नाटक का उदाहरण है, जिससे नाटक के तत्वों के प्रयोग आदि के सम्बन्ध में यत्किञ्चित् ज्ञान भले ही हो सकता है।

**ऐतिहासिक समालोचनः**—‘प्रतापरुद्रकल्याण’ एक ऐतिहासिक नाटक है, किन्तु इसमें किसी भी ऐतिहासिक घटना का व्यवस्थित रूप से उल्लेख नहीं है। प्रमंगवश स्थान-स्थान पर काकतीय-इतिहास के ऐतिहासिक व्यक्तित्वों का वर्णन है। अतः इससे वारंगल के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। विशेष रूप से यह प्रतापरुद्र के समकालीन लेखक की रचना है, अतः इससे ऐतिहासिकता के निर्वाह की अपेक्षा की जाती है।

नाटक के अनुसार प्रतापरुद्र काकतीय कुल का राजा था।<sup>१</sup> काकतीय राजाओं का सम्बन्ध वारंगल (या औरंगलबुद्दु) से माना जाता है। किन्तु, नाटक में प्रायः “एक शिला” से ही काकतीय राजाओं का सम्बन्ध दिखाया गया है।<sup>२</sup>

१. प्र० रु० यशो० पृ० १४६ आदि

२. वही, पृ० १३५ आदि,

डा० वर्नेल के अनुमार वारगल ओरुक्कल का, जिसका कि श्रयं "एकशिला" होता है। अष्ट तथा मुसलमानी रूपाभ्यर है।<sup>१</sup> अत स्पष्ट है कि मूलत "वारगल" शब्द का तात्पर्य भी 'एकशिला' से है। एकशिला नगरी आनन्द तथा तेलग की राजधानी थी। नाटक में एक स्थान पर "आनन्द" शब्द का भी इस देश के लिए प्रयोग हुआ है,<sup>२</sup> पर प्रायश त्रिलिंग शब्द ही प्रयुक्त है।<sup>३</sup> नाटक में 'त्रिलिंग' का प्राचुर रूप तिलग लिखा है।<sup>४</sup> इसी से तेलग और तेलग शब्द तदभव के रूप में उद्भूत है। प्रतापरुद्र को 'त्रिलिंगाधिप' लिखा<sup>५</sup> है। विद्वानों की मान्यता है कि श्री शैलनाथ आदि तीन लिंगस्वरूप देवताओं के अस्तित्व के बारण ही आनन्द को त्रिलिंग कहा गया है।<sup>६</sup> इनमें से नाटक में श्री शैलनाथ का भी उल्लेख है।<sup>७</sup>

काक्तीय शब्द की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में ठीक-ठीक ज्ञान नहीं होता है। शब्दत यह गोत्रादि प्रतीत होता है। विद्वान कभी इस शब्द का सम्बन्ध वाक श्रयं वाले काक्त शब्द से ही जोड़ते हैं, तो कभी दुर्गा शक्ति के नामों से। डा० त्रिपाठी वे अनुमार ये दोनों श्रयं समीक्षा के सामने नहीं ठहरते<sup>८</sup> प्रतापरुद्रयोभूपरा के काव्य प्रकरण में रत्नापणी टीका में शाब्दिक व्युत्पत्ति का शब्द से सम्बन्ध करते हुए लिखा है इसका नाम की दुर्गा शक्ति एकशिला के राजाश्री की कुल देवना थी। उसी की भक्ति या आराधना के कारण काक्तीय नाम पढ़ा है।<sup>९</sup> नाटक में भी काक्तीय कुल वी दुर्गा देवी के समाराधन के साथ विजयप्रस्थान वरके हनुमदचन वे सभीप विश्राम करने वा सबेत है।<sup>१०</sup> ज्ञात होता है कि दुर्गादेवी काक्तीयों

१. प्र० र० यशो मूर्मिका, पृ० १२, फुटनोट,

२ प्र० र० यशो० पृ० १७५,

३. वही पृ० १६७,

४ वही,

५ वही पृ० १३८,

६ दृष्टव्य, वही, पृ० २१३, रत्नापणी टीका,

७. वही पृ० २१३,

८. प्रा० भा० इति० त्रिपाठी पृ० ११६,

९ काक्तिनिर्म दुर्गाशक्तिरका शिलानगरेशवराणा कुलदेवता, सा शक्ति-भजनीया अस्मेति काक्तीय, देखो, प्र० र० यशो० पृ० १० टीका तथा पृ० ४५०,

१०. वही, पृ० १६०,

की कुलदेवी थी । हनुमदानल भी पक्षिला राजघानी के पास ही था ।<sup>१</sup> नाटक में एकशिला के काकतीय कुल के 'कुल देवता' स्वयम्भू देव का गी निर्देश है ।<sup>२</sup> नाटक में इनका कुलगुरु<sup>३</sup> कुलपति,<sup>४</sup> तथा देवदेव भगवान्<sup>५</sup> के रूप में उल्लेख दृष्टा है । नाटक से ज्ञात होता है कि स्वयम्भू की आज्ञानुसार ही 'रुद्राम्बा'<sup>६</sup> को पुरुषभाव में राजा ने राज्य पर अधिक्षित किया था तथा अब वीररुद्र को राज्यभार सौंपने का प्रावेश भी रुद्र ने दिया ।<sup>७</sup> नाटक में इस स्वयम्भू के 'स्वप्नादेश' का ही प्रारम्भ में विस्तार से वर्णन है । इसमें ऐतिहासिक सत्य गही प्रतीत होता है कि काकतीय ग्रपना समस्त राज्य-कार्य रुद्रदेव की आज्ञा ममक कर ही उत्तरते थे । स्पष्ट है कि रुद्रदेव के प्रति उनकी ग्रपना भक्ति, श्रद्धा तथा निष्ठा थी । 'रुद्रदेव-स्वयम्भू' को, यही कारण है कि, कही रुद्र का अवतार माना है तो कहीं भगवान् तक कह दिया है ।<sup>८</sup>

नाटक में महादेव तथा मुमुक्षुम्भा की ओर प्रारम्भ में ही 'भूभृनुतामहादेवी-पितरी' कहकर संकेत किया है ।<sup>९</sup> रत्नापण टीका में इनका तातार्य मुमुक्षुम्भा तथा महादेव से ही माना है ।<sup>१०</sup> विभिन्न हस्तप्रतियों में मुमुक्षुम्भा के ही विभिन्न नाम प्राप्त हैं । नाटक में इन्हें प्रतापरुद्र के माता पिता के रूप में उल्लेख किया है ।

नाटक में यह भी लिखा है कि प्रतापरुद्र के वीररुद्र तथा प्रतापरुद्र नाम इसके गुणों के प्रनुसार पढ़े, वास्तविक नाम रुद्र ही था । रुद्रदेव या रुद्राम्बा ने स्वप्न में शिवस्वरूप स्वयम्भू को देखा । उन्होंने प्रतापरुद्र को महानताओं की प्रजंसा की तथा राज्यभार सौंपने का निर्देश दिया । नाटक में लिखा है कि वाकतीय-चर ने रवि के समान प्रतापी होने के कारण इसका नाम प्रतापरुद्र रखा,<sup>११</sup> तथा विष्णु के अवतार के सहश होने के कारण वीररुद्र नाम रखा ।<sup>१२</sup> और यहाँ तक

- 
१. वही, भूमिका, पृ० १३,
  २. प्र० रु० यशो पृ० १३५, १४६,
  ३. वही, पृ० १०७,
  ४. वही पृ० १४६,
  ५. वही, पृ० २४६,
  ६. वही ११२६, पृ० १५३,
  ७. वही, पृ० १४७ आदि
  ८. वही, पृ० १३६,
  ९. वही, टीका ।
  १०. प्र० रु० यशो १११ पृ० १३६
  ११. वही, ११२, पृ० १३६,

कि कहीं वहीं नाटक में इसे 'कार्यतीय विषयों' के रूप में भी उल्लेख कर दिया है।

नाटक से स्पष्ट है कि रुद्राम्बा एक स्त्री थी। इसे नाटक में सर्वा गनारी वहा गया है<sup>१</sup> किन्तु इसने गणपति के पश्च त् पुरुष रूप में रुद्रदेव के नाम से शासन किया था। नाटक में इसे रुद्रनरेश्वर आदि भी कहा है।<sup>२</sup> यह गणपति तथा उमा सोमा के रूप में चित्रित है।<sup>३</sup> यहीं गणपति को मानमशभु भी लिखा है। नाटक के अनुसार गणपति के उत्तराधिकारी रुद्रदेव नाम से विस्तात रुद्राम्बा के अनन्तर ही राज्य पर बैठे। तत्कालीन विभिन्न अभिलेखों के अनुसार जो वर्णावली निश्चित् की गयी है उससे भी ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम त्रिभुवनमर्त्न, तब प्रोल, उसके बाद रुद्र, उसके बाद उसका छोटा भाई महादेव बैठा। महादेव के पश्चात् गणपति, गणपति के बाद पुत्र न होन से रुद्राम्बा और उसके पश्चात् प्रतापरुद्र बैठा। इस अम से रुद्राम्बा इस वश की छठो शासिवा थी और प्रतापरुद्र ७ वर्ष।<sup>४</sup> दा० त्रिपाठी ने भी यही अम माना है। उन्होंने लिखा है कि पुत्रहीन होने के कारण गणपति का उत्तराधिकार १२६१ ई० के लगभग कम्या रुद्राम्बा को मिला, और प्राय ३० वर्ष पर्यंत राज्य करने के पश्चात् प्रतापरुद्र बैठा।<sup>५</sup> इस प्रत्तार नाटक का कम प्रायः इतिहास सम्मत है।

नाटककार ने प्रतापरुद्र के राज्याभिषेक से पूर्व दिग्विजय के प्रसंग में चारी दिशाओं के कलिण, पांड्य, अग, वग, मालव, गुजर, हृष, चोल, काश्मीर नेपाल आदि अनेक राज्यों के साथ युद्ध का वर्णन है। वह अनिरजनात्मक तथा रुद्र है। तथापि प्रतापरुद्र के अनक शिलालेख, सस्तृत तथा तमिल में प्राप्त हैं। उनके अनुसार यह निश्चित है कि यह एक प्रतापी, पराक्रमी राजा था। इतिहासकारों के अनुसार यह दक्षिण के प्रभिद्ध राजाओं में से एक था। इसन पठीसी यादव तथा पाढ्य आदि एवं मुसलमानों से भी युद्ध लड़े थे। कांजीवरम् के प्रभिलेख में इसे एक शिला का महामङ्गलचत्रवर्ती कहा है।<sup>६</sup> वस्तुत प्रतापरुद्र कार्यतीय वश का अनिम

१. वही, ११२६, पृ० ४४७,

२. वही, ११२०, पृ० ४४८, १७५,

३. वही, ११२२, २३,

४. वही, नूमिका, पृ० १६,

५. वही, नूमिका, १६-२२,

६. प्रा० मा० इति० त्रिपाठी, पृ० ३१६,

७. प्र० र० यशो० नूमिका, पृ० १६,

प्रभावशाली नरेश था । यद्यपि 'प्रतापरुद्रकल्याण' एक समकालीन रचना है । पर नाटककार ने प्रशंसात्मक प्रशस्ति के रूप में नाटक का निर्माण किया । स्वयं नाटककार ने कई स्थलों पर इसे 'काकतीवीर का स्तोत्र'<sup>१</sup> 'चरिद्गान'<sup>२</sup> तथा चरितानुबन्ध<sup>३</sup> के रूप में निर्देश किया है । किन्तु यह चरित्र-वग-परिचय तथा श्रतिरंजनात्मक प्रशंसा एवं गुणगान तक ही सीमित है । यद्यपि प्रतापरुद्र का साहसिक चरित्र ऐसी प्रशस्ति के सर्वथा योग्य था, तथापि 'प्रतापरुद्रकल्याण' को एक कल्पना-प्रवान ऐतिहासिक प्रशस्ति भर कहना ही उचित है, इससे अधिक कुछ नहीं । तब भी यह अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि नाटककार विद्यानाथ ने 'प्रतापरुद्र यशो-भूषण'<sup>४</sup> अलकार-ग्रन्थ तथा 'प्रतापरुद्रकल्याण' नाटक लिखकर प्रतापरुद्र के यश को अनंत कर दिया है ।

### (६) गंगादास-प्रतापविलास (अप्रकाशित)

प्रस्तुत नाटक गंगाधर कवि की रचना है । यह नाटक अप्रकाशित है । इंडिया आफिस कैटलाग, वाल्यूम ७ नं० ४११७ में इसका सोन्दरण विस्तृत परिचय दिया गया है, उससे यह ज्ञात होता है कि यह ६ अंक का, किन्तु बहुश त्रुटित नाटक है । इसमें चंपकपुर (चम्पानेर) के राजा-चौहान हम्मीर के बंशज गंगादास भूवलभ प्रतापदेव के जीवन से सम्बन्धित घटनाओं को नाट्यबद्ध किया गया है । सामान्यतः इसमें भी उसकी दिविजय का वर्णन है, किन्तु मुख्यतः गुजरात के सुल्तान महमूद शाह द्वितीय (१५ वीं शती) के साथ इसके संघर्ष का ही वर्णन किया गया है । इससे ज्ञात होता है कि सुल्तान ने प्रतापदेव से उसकी कन्या की याचना की थी, किन्तु प्रतापदेव ने इसको ठुकराकर उसका अपमान किया । फलत, दोनों में भार्यकर युद्ध हुआ । इस युद्ध में ग्रन्थ देशी राजपूतों ने भी सम्भवतः सुल्तान की ही सहायता की । नाटक में इस संघर्ष का प्रभावशाली वर्णन है । इसमें महमूद को अहमदशाह का, जिसने अहमदावाद वसाया, का पुत्र कहा गया है । इसमें प्रताप-देव के पाव दुर्ग का पायाचल आदि नामों से तथा उसके सचिव हरिराम, उसकी रानी प्रतापदेवी इत्यादि का उल्लेख है ।

नाटक के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि लेखक तथा राजा दोनों ज्ञात थे । इसमें महाकाली का अनेकशः उल्लेख हुआ है । यहीं तक कि प्रस्तावना के अनुसार नाटक का अभिनय भी देवपूजन के समय हुआ था । यही नहीं, बल्कि यवनाधिपे को

१. प्र० रु० यशो० पृ० १४१,

२. वही, पृ० १४०,

३. वही, पृ० १३६,

जीतने के लिये देवीसमाराघन का भी इसमें वर्णन है। उद्धरणों के देखने से यही जात होता है कि नाटककार ऐतिहास का अच्छा जानकार था, तथा उसने इसे ऐतिहासिक आधार पर लिखा है और इसमें नि सन्देह ऐतिहासिकता एवं वीर रस सक्रान्त हुआ है एवं अनेक उपयोगी ऐतिहासिक उल्लेख हुए हैं। अन हम इसे एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक नाटक मानते हैं किन्तु सम्पूर्ण रूप में स्वतन्त्र रूप से उपलब्ध न होने से इसका यथोचित भूल्याकृत किया जाता असम्भव है।

### (७) रालवर्मविलास [अप्रकाशित] :

यह नाटक गवर्नर्मेंट ऑरियन्टल मानुष्किष्ट लायब्रेरी मद्रास में सुरक्षित ५ अको का, अप्रकाशित नाटक है। वहाँ के कैटलाग भाग २ (१६४० ई०) में न० १०६५ में रविवर्मविलास नाम भी लिखा है किन्तु हाल में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर इसका नाम रामवर्मविलास ही है।<sup>१</sup> इसका लेखक बालकवि सामनाय वी चौधी पीढ़ी में हुआ। इसके पिता कलहस्ती तथा पितामह मलिकाजुँन थे। यह स्वयं कोचीन के राजा रामवर्मा (१५३७ ई०) वी राजसमा में था, जिसने भाई गोदवर्मा (१५३७-६१ ई०) के लिए शासन त्याग दिया। प्रस्तुत नाटक में इस राजत्याग के वृत्त एवं वाराणसी आदि वी तीर्थयात्रा आदि वो नाट्यबद्ध किया गया है।

### (८) रत्नकेतूदय [अपूर्ण] :

यह नाटक बालकवि की अपूर्ण रचना है। इसमें अपने भाश्यदाता राजा रामवर्मा के राज्य-त्याग तक के ऐतिहासिक वृत्त को नाट्यबद्ध किया गया है। अत इसका ऐतिहासिक महत्व है, किन्तु यह अपूर्ण एवं अप्राप्य है, अत इस पर विशेष प्रबाध ढालना कठिन है।

### (९) भोजराजसच्चरित (भोजराज चरित) :

परिचय—“भोजराज चरित” नामक नाटक का इंडिया आफिस काटलाग बाल्यम ७ में नम्बर ४१८१, पर उल्लेख है। श्री एच सी. गय ने १६३६ में यूरोप प्रवास में अपने “मुरजन-चरित” वी खोज के प्रसाग में इंडिया आफिस के सप्रह में “भोजराज सच्चरित” नामक नाटक की हस्तलिखित प्रति वो देखा। उसे उन्होंने ई० हिं० चत्वार सद १६४१ पृ० ७-२७ में अपने सक्षिप्त समालोचन के साथ प्रकाशित करवाया है,<sup>२</sup> किन्तु श्री राय ने ई० ओ० चा० की सह्या का उल्लेख नहीं किया है। यद्यपि ई० ओ० का० में उल्लिखित तथा श्री राय द्वारा प्रकाशित नाटक के नाम से (सत् का) कुछ अन्तर है, पर वह अत्यन्त गोण है। अनुमानतः दोनों नाटक एक ही है।

१. उपर्युक्त सूचना ई० १७।६३ को मद्रास सायब्रेरि से प्राप्त प्रश्नोत्तर के आधार पर है, लेकि कि पुस्तक प्राप्त नहीं हो सकी।
२. ई० हिं० चत्वार १६४१, बाल्यम १७, सितम्बर सप्तीमेंट्री, पृ० ७-२७,

**रचयिता एवं रचनाकाल:** — “भोजराज सच्चरित” के वल दो अंकों का है। द्वितीय अंक की समाप्ति पर “समाप्तोऽयं ग्रन्थः” भी लिखा हुआ है। इस लघु नाटक के लेखक का नाम सूत्रधार के द्वारा वेदान्तवागीश भट्टाचार्य वतलाया गया है, तथा उसके गुरु का नाम नारायण लिखा है।<sup>१</sup> नाटक के अन्तिम अंक की समाप्ति में भी गुरु श्रीमद्भारायण सरस्वती तथा लेखक वागीश भट्टाचार्य का उल्लेख है।<sup>२</sup> नाटक में नारायण सरस्वती को ब्रह्म-विन्मुक्तीन्द्र परमात्म-विद्या का पडित तथा वाराणसी का निवासी वतलाया है। डा० मुकर्जी के अनुमार जंकर के ब्रह्मपुत्र के भाष्य पर वार्तिक लिखने वाले नारायण तथा नारायण सरस्वती एक है।<sup>३</sup> श्री राय का मत है कि सुरजन-चरित के रचयिता चन्द्रशेखर के निकट समय में ही वेदान्तवागीश, भट्टाचार्य हुए हैं। नाटक में सुरजनपुत्र भोज के चरित्र वो उपजीव्य बनाया गया है, अतः यह सम्भव है कि थोड़ा बहुत आगा पीछा हो। पर ज्यादा नहीं। सुरजन-चरित का लेखक चन्द्रशेखर अकबर का समकालीन था तथा सुरजन की ममा में रहता था। भट्टाचार्य भी भोज का आश्रित प्रतीत होता है, अत वह १६वीं के अन्त तथा १७वीं के प्रारम्भ में रहा होगा।<sup>४</sup> नाटक से लेखक वंपणव ब्राह्मण के भक्त के रूप में चित्रित किया है<sup>५</sup> तथा उसने अनेक धार्मिक स्थानों का वर्णन भी किया है, किन्तु अपते सम्बन्ध में और कोई सूचना नहीं दी है।

**ऐतिहासिकता:**—वेदान्त-वागीश भट्टाचार्य ने नाटक के प्रारम्भ में गोपाल व्यास के पुत्र चक्रधर व्यास की प्रशंसा की है<sup>६</sup> तथा अन्त में धर्माध्यक्ष भी लिखा है।<sup>७</sup> वह सम्भव है कि चक्रधर व्यास भोज का धर्म-पडित या धर्मगुरु हो। सुरजन चरित में भी गोपाल के पुत्र चक्रधर व्यास का उल्लेख है। प्रायणः नाटक में प्राचीन भोज का भी उल्लेख किया गया है तथा वर्तमान भोज को उसी के समान यशस्वी वतलाया है।<sup>८</sup> सम्भव है प्राचीन भोज से लेखक का अभिप्राय प्रतिहार भोज (द३६-

१. छष्टव्य, इ० हिं० व्वा० १६४१, वही पृ० ८,

२. वही, पृ० २७,

३. वही, पृ० २ कुट्टनोट,

४. वही, पृ० ३,

५. वही, पृ० ७,

६. वही, पृ० ७,

७. वही, पृ० ४,

८. तथा प्रजा .....कृपालुः। वही, पृ० ६,

दूर) या परमार भोज (१०१०-१०५५) दे रहा हो,<sup>१</sup> किन्तु उसने गम्बन्ध मे भी अन्य विशेष बोई सकत नहीं है।

नाटक मे सुरजन के पुत्र भोज का जो कि वृन्दावती का राजा था, चरित्र दर्शित है।<sup>२</sup> वृन्दावनी का साम्य राजस्थान की धू दी से माना गया है।<sup>३</sup> नाटक मे सुरजन को भी वृन्दावनी का राजा कहा है। राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार टाड के ग्रनुमार रावसुरजन धू दी के राजा ग्रनुंन का सबसे बड़ा लड़का था। यह सब १५३३ मे शासनाश्वर हुआ। सुरजन की मृत्यु के बाद इसका बड़ा लड़का राव भोज धू दी की गही पर बैठा। टाड ने इससी बई विजये का उल्लेख किया है उसमे जात होता है कि भोज नि मन्देह प्रतापी शासन था।<sup>४</sup> पर नाटक मे भोज की वदान्यता, भक्ति प्रजाप्रेम, वीरता, हुणालुता आदि का ही बगान है। नाटक मे भोज के नाम वा वारस्वार उल्लेख अवश्य है, किन्तु उसके जीवन मे सम्बन्धित किसी भी महत्वपूर्ण घटना वा उल्लेख नहीं है। अन्य पात्र प्राय काल्पनिक हैं नाटक मे भोज की मी बनकराजी कमला का उल्लेख अवश्य है,<sup>५</sup> किन्तु अन्य कोई ऐतिहासिक मानने नहीं है। श्री राय ने लिया है कि सुरजन चरित्र मे गुजरं देश पर भोज-विजय का उल्लेख है, किन्तु नाटक मे उसका भी सकृत नहीं है।<sup>६</sup> वस्तुत इस नाटक से किसी ऐतिहासिक (घटना) तत्व के उपलब्ध नहीं होती, जिस आधार पर इसे ऐतिहासिक नाटक क रूप मे उपयोगी माना जा सके। सामान्यत यह प्रशमित मात्र है। योड़ा बहुत सुरजन तथा भोज सबन्नी इतिहास के ज्ञान के निय उपयोगी भने ही न जा सकता है किन्तु हासकालीन ऐतिहासिक नाटको मे इसे सामान्य रखना ही कहा जा सकता है।

१ साहित्यिक समालौचना — साहित्यिक दृष्टि मे यह दो श्रकों की एक सरन प्रशमित है, सप्तर्ण नाटक नहीं। पर्याय की अपेक्षा अधिक है। चरित्र चित्रण की अपेक्षा, भक्ति वर्मणियता आदि गुणों तथा तीर्थों के बरण अधिक है। वाराणसी, जगन्नाथ थोक, गगा सागर आदि की महिमा का वर्णन है। श्री राय न इसकी एक

१ हृष्टद्य ६० हिं० क्वा० १६४९, यही, पृ० ४,

२ सूरिजननन्दनस्य धर्मतिमनो भीजस्य वृन्दावन्यधोशस्य राज वही, पृ० ६,

३ वही पृ० ३ पुस्टोट

४ राजस्थान का इतिहास : टाड हिंदो प्रमुदादक मे शब कुमार टाकुर, १६६२, पृ० ७४८-५३,

५ इ० हिं० क्वा० वही, पृ० १२,

६ वही पृ० ४,

विशेषता का उल्लेख करते दुए लिखा है कि इसमें स्त्री-पात्र का सर्वया अभाव है तथा प्रणयात्मक पड़यन्द्र-चित्रण की परम्परा का उल्लंघन है। इसका एक मात्र कारण यही प्रतीत होता है कि नाटक का रचयिता भक्त था तथा उसका उद्देश्य गुणगान करना या प्रशास्ति लिखना मात्र था, थ्रेष्ठ सरम नाटक लिखना नहीं।

### (१०) रघुनाथविलास :

रघुनाथविलास नाटक १६५८ में सरस्वती महल संस्कृत सीरिज तंजीर से प्रकाशित हो चुका है। इसका लेखक श्री यज्ञनारायण दीक्षित तंजीर के राजा अच्युत नायक के मंत्रिश्वेष्ठ गोविन्दमरवीन्द्र का पुत्र था।<sup>१</sup> नाटक के अनुमार यह यायजूक तथा वासिष्ठवंशादभव एवं रामभक्त था। श्री दीक्षित ने रघुनाथविलास के अतिरिक्त रघुनाथभूप विजय तथा साहित्य रत्नाकर महाकाव्य भी लिखे।<sup>२</sup> श्री दीक्षित तंजीर के राजा रघुनाथ नायक (१७वीं पूर्वार्द्ध)<sup>३</sup> के मंत्री थे। इसमें उनसे सम्बन्धित प्रणय-कथा को ही ५ अंकों में नाट्यवद्ध किया है।<sup>४</sup> अतः वह १७वीं सदी की समकालीन कृति है।

राजा रघुनाथ सिहल द्वीप तीर्थयात्रा को गये, वहाँ सिहलकुमारी चन्द्रकला पर अनुरक्षत हो गये। चन्द्रकला के पिता विजयकेतु तथा उपमाता प्रतिभावती योगिनी भी रघुनाथ को ही उचित वर समझकर देना चाहते थे। प्रतिभावती ने रघुनाथ के पास ज कर विजयकेतु का विचार वत्ताया तथा विवाह निश्चित हो गया। किन्तु रघुनाथ योगनी से प्राप्त मरणिपादुका द्वारा छिपकर मिहलद्वीप पहुँचा और चन्द्रकला से ग नवरं विवाह किया। अन्त में, मुक्ताद्वीप से विजयकेतु के लौटने पर विवाह भी संरपन्न हो गया। इस संक्षिप्त कथानक को ही लम्बे लम्बे वर्णनों तथा प्रयोजनहीन संभापणों द्वारा विस्तार दिया है। घटनाओं को भी पुनरावृत्ति हुई है। लेखक ने इसे नवरसोद्वाहक अवश्य लिखा है<sup>५</sup> किन्तु वस्तुतः यह नीरस तथा नाट्यकला की दृष्टि से असफल नाटक है। यहाँ तक कि पाठ्य के रूप में भी रोचक प्रतीत नहीं होता है। नायक धीरोदात्त की अपेक्षा वीरलनित अधिक है। अंगीरस शृंगार का वर्णन अवश्य है किन्तु रसास्वाद में असमर्थ है। प्रणयकथा भी अस्वाभाविक तथा गल्पकथाओं के सहज है। नाटक के संपादक श्री गोपालद्वे ने इसे ऐतिहासिक नाटक के रूप में उल्लेख किया है।<sup>६</sup> निःसन्देह इसका नायक ऐतिहासिक है, किन्तु

१. रघुनाथविलास, ११६,

२. वही १२३ तथा पृ० ८, ६,

३. वही, पृ० ८,

४. वही, पृ० ६, तथा मूलिका, पृ० १,

५. रघुनाथ विलास, पृ० ६,

६. वही, प्रीत्येष पृ० १,

उससे सम्बन्धित विमी ऐतिहासिक घटना की उल्लेख इसमें नहीं हुआ है। कथा में अनिमानवी तथा रोमाटिक रूप इतना उमर आया है जि उमरा वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्तित्व भी विनष्ट हो गया है। सुदूर हीप में प्रणय व्यापार योगनी के विनियोग, वारध्वार रघुनाथ को नारायण विष्णु तथा हरि का अवतार आदि के रूप में उल्लेख स<sup>१</sup> इसकी ऐतिहासिकता आफ्ल हो गयी है। सामान्यतः चन्द्रवल्ला मलयकेतु<sup>२</sup> विजयकेतु तथा उसकी राजघानी वनक<sup>३</sup> एवं विजयकेतु को पारस्पीको द्वारा आक्रान्त कर लेन पर अच्युतराय द्वारा रक्षा आदि के<sup>४</sup> उल्लेख अवश्य दुए हैं, पर ये कितने ऐतिहासिक हैं कहना अमरव है। यद्यपि इसमें कुछ इतिहास विशद भी उल्लेख हुए हैं,<sup>५</sup> तब भी रघुनाथ, उसके पिता अच्युतनायक<sup>६</sup> पत्नी जाह्नपा<sup>७</sup> राजघानी तजापुर<sup>८</sup> आदि कुछ ऐतिहासिक उल्लेख हैं जिनके कारण यह ऐतिहासिक अवश्य है, किन्तु वल्पना प्रधान अमरुलित।

### (११) सेवन्तिका परिणाय

सेवन्तिकापरिणाय के रचयिता चोक्कनाथ हैं, जिन्तु सस्कृत साहित्य में इस नाम के कई व्यक्तियों का उल्लेख है। उनमें तीन मुख्य हैं—निष्पाध्वरिन्द्र वा पुत्र चोक्कनाथ, युधिष्ठिर विजय के दीवाजार, भरद्वाज गौत्री मुदण्णन भट्ट को पुत्र तथा रामभद्र दीक्षित के सम्बन्धी। इन तीनों का ही समय १८वीं सदी है। सेवन्तिकापरिणाय के रचयिता चोक्कनाथ निष्पाध्वरीन्द्र के ही पुत्र थे। नाटक में निष्पाध्वरीन्द्र के ६ पुत्र बताये गये हैं।<sup>९</sup> यह उनमें से ५वें थे। कान्तिमतीपरिणाय के रचयिता यही चोक्कनाथ थे। उसमें इन्हे 'तिष्पाध्वरीन्द्रतनय' बहा है। कान्तिमतीपरिणाय की प्रस्तावना से भी यह ६ भाइयों में ५वें ज्ञात होते हैं। कान्तिमतीपरिणाय की प्रस्तावना के प्रमुखार इनकी माँ का नाम नरमाम्बा था तथा इन्होंने रसविलास नामक भाषण भी लिखा था।<sup>१०</sup> इस प्रकार हम ज्ञात होता है कि—(१) चोक्कनाथ न तीन ग्रन्थ सेवन्तिकापरिणाय कान्तिमतीपरिणाय नाटक

१ रघुनाथविलास पृ० ८२, ११३ इत्यादि,

२ वही पृ० १०३-४६,

३ वही, पृ० १०५,

४ वही पृ० ११२,

५ वही पृ० १०६, १४२,

६ वही पृ० ११२, ११४ आदि,

७ वही पृ० ८८ आदि,

८ वही प० ६१, ६३ ८८ आदि

९ सेवन्तिका० ११४

१० वही, भूमिका पृ० ६, १०,

तथा रसविलास भाण लिखे। अम की इटिंग से ऐसा प्रतीत होता है कि सबप्रथम रसविलास (भाण), तब कान्तिमतीपरिणय तथा अत में सेवन्तिका परिणय की रचना की। क्योंकि कान्तिमती परिणय की प्रस्तावना में रसविलास का उल्लेख है, पर सेवन्तिकापरिणय का नहीं। लेखक का विश्वृत परिचय भूमिका में दिया गया है अतः वहाँ उपटब्य है। मुख्यत ये राजा शाहजी (१६८४-१७१० ई०) के सभा कवि थे तथा वहाँ ४-५ वर्ष अवश्य रहे। वहाँ इन्होंने कान्तिमतीपरिणय लिखा। अतः इनका समय १५वीं शती माना जाता है।<sup>१</sup>

यह नाटक वडे-वडे ५ अकों में विन्यस्त है। इसकी रचना केलादिराजा वसवभूपाल की सभा में रह कर की। यह राजा भी साहित्यिक था।<sup>२</sup> वसवभूपाल तथा सेवन्तिका के परिणय के वृत्तान्त को ही अपने ढंग से इसमें विनयस्त किया है तथा इसका नुश्हेण्य नगर में नाटक की नायिका तथा नायक की उपस्थिति में नुश्हेण्य उत्सव के समय प्रभिन्न भी हुआ है।<sup>३</sup>

**संक्षिप्त कथानक:**— केरल के राजा मित्रवर्मा को गोदवर्मा ने पराजित करके सबस्व प्रपहरण कर लिया, अत मित्रवर्मा केलादि प्रदेश में भूकाम्बिका नगर में रहने लगा। केलादि के राजा वसवभूपाल ने वहाँ उसके रहने सहने की उचित व्यवस्था की, एक बार वसवभूपाल सपरिवार भूकाम्बिका के रथोत्सव दर्शन को ले गया, वहाँ मित्रवर्मा की पुत्री सेवन्तिका को देखकर प्रासक्त हो गया। विरहातुर राजा पर रानी को सन्देह हुआ, और उसने पता नगाने के बहुत प्रयत्न किये पर विदूपक के प्रयासों ने विफल कर दिये। सेवन्तिका भी वसवनरेन्द्र को देखकर इतनी मुख्य हो चुकी थी कि उसे ही पति रूप में प्राप्ति की इच्छा से प्रतिदिन पैदल चलकर वन में कालिका की पूजा करने आया करती थी। एक बार अनवसर में वृष्टि रूप विघ्न आ जाने के कारण देवालय से घर नहीं लौट सकी। तभी गोदवर्मा ने मित्रवर्मा को अपमानित करने की इच्छा से ससैन्य निपादों द्वारा सेवन्तिका का अपहरण करा दिया। इस समाचार को सुनकर वसवभूपाल ने निपादों का दमन करके सेवन्तिका का उद्वार किया। बाद मे महामति ज्योतिषी ने आकर राजा को सेवन्तिका की प्राप्ति का विश्वास दिलाया। वहाँ सेवन्तिका तथा वसवेन्द्र का मिलन एवं प्रणय-व्यापार हुआ। इसी दीच में मित्रवर्मा ने अपने मित्र चित्रवर्मा की सहायता से राज्य प्राप्त करके समस्त परिवार के भेजने के लिये पत्र भेजा। वसवेन्द्र ने विवश होकर सेवन्तिका सहित सभी को विदा कर दिया।

१. सेवन्तिका, पृ० ३,

२. वहाँ पृ० १०.

३. वहाँ, पृ० ५.

चतुर्थ भक्त में विश्ववर्मा ने मित्रवर्मा के शनु गोदवर्मा को पराजित करके मित्रवर्मा को राज्य पर प्रतिष्ठित किया और इसके फलस्वरूप सेवन्तिवा माँगी। मित्रवर्मा ने भी प्रात ही विवाह करने का निश्चय किया। इस निश्चय को सुनकर सेवन्तिका आत्महत्या को उद्यत हुई पर शुभ शकुन होने से रुक गयी। पंचम भ्रंक में मित्रवर्मा ने वसवभूपाल को प्रमन्न करने को आभूषण म जूपा भेजने का आदेश दिया। सेवन्तिका सखियों के सहयोग से उसमें छिपकर वसने द्र के समीप आ पहुँची। इस वृत्तान्त से विश्ववर्मा लजिजत होकर लौट गया। सेवन्ति. १ के वहाँ पहुँचने पर रानी ने राजा की भत्सना की तथा उसे ले गया, पर बाद म रानी को स्वप्नादेश मिलने पर मित्रवर्मा ने ग्राकर विवाह करा दिया।

इस नाटक में अधिकाश वात्र घटनायें काल्पनिक प्रतीत होने हैं। नायक ही प्रमुखपात्र है, वह ऐतिहासिक है। किन्तु गोदवर्मा की पराजय के अतिरिक्त उससे सबन्धित अन्य किसी भी घटना का उल्लेख नहीं है। मुख्यत नाटक शागारिक भावना से अतिप्रोत है तथा नाटिका के अनुकूरण पर उपन्यस्त है। नायक धीरलितप्राय है। दो ज्येष्ठा तथा कनिष्ठा नायिकाओं की भी अवतारणा है तथा नायक नायिकाओं के प्रणय तथा पड़यत्र में ही नाटक केन्द्रित है।<sup>१</sup> यह अवश्य है कि प्रहृत रूप से प्रणयकथा को उपजीव्य बनाने तथा कल्पना के उच्छृंखल प्रयोग बरने पर भी पात्रों के नामकरण तथा देशकाल आदि के उल्लेख में ऐतिहासिकता का ध्यान रखा है। यहाँ वस्तुत नाटककार का उद्देश्य ऐतिहासिक नाटक वा निर्माण करना न होकर, ऐतिहासिक नायक से सम्बन्धित प्रेमप्रधान नाटक रचना मात्र है, और उसमें वह सफल भी हुआ है।

सेवन्तिका परिणय के प्रणयन में नाटककार ने शाकुन्तल, मालविकामिमित्र तथा मालती माधव आदि से प्रचुर सहायता ली है। भाव, भाषा शब्द के अतिरिक्त वाक्य तक भी लिये हैं। यही नहीं, घटना तथा पूरा का पूरा दृश्य विधान भी बैसा ही किया है।<sup>२</sup> दृश्य नाटककार उनसे अपने को अति तुच्छ समझता है।<sup>३</sup> 'यद्यपि नाटककार ने अपनी भी कुछ उद्भावना करने की चेष्टा की है किन्तु कथाविन्यास में कहीं भी मौलिकता नहीं आ पायी है। कुछ घटनायें जैसे मजूपा में छिपकर नायिका का जाना मादि अप्राप्तागिक है। स्स्कृत तथा प्राकृत पर लेखक का अधिकार है, किन्तु

१. सेवन्तिका० भूमिका, पृ० ८,

२. वही, भूमिका, पृ० ११,

३. वही पृ० १६,

प्राकृत का ही बहुलतः प्रयोग किया गया है। रंगमंच की इटिले में इसका महत्व नहीं है। कुनूहल पूर्ण पाठ्यनाटक के रूप में ही यह उपादेय है।

### (१२) कान्तिमती पारण्यम् [अप्रकाशित] :

कान्तिमतीपरिणाय पूर्वोत्तर चाक्षनाथ की ही प्रसिद्ध कृति है। यह पूर्ण है तथा तंजीर महाराजा मोनुस्त्रिपट्ट लाइब्रेरी में सुरक्षित है। वहाँ की कैटलाग के वाल्यूम द, (१६३०) में नं० ३३६७ पर इसका उल्लेख हुआ है। चोक्रनाथ ने सेवन्तिकापरिणाय नाटक से भिन्न कथावर्तु को यहाँ उपजीव्य बनाया है। जैसाकि लिखा जा चुका है, यह चस्केन्द्र के पतिरिक्त शाहजी में आश्रित भी रहे थे। उसी समय ग्रन्थदाता शाहजी से सम्बन्धित कथानक पर यह ऐतिहासिक नाटक निक्षा है। इसमें शाहजी तथा कातिमन्ती के विवाह की घटना को रूपाशित किया है। अनुमानत यह भी सेवन्तिका परिणाय के अनुहप कथानक पर उपनिवेद्ध प्रतीत होता है। दोनों के नाम साम्राज्य से प्रतीत होता है नाट्य-योजना तथा कथा विन्यास भी लगभग समान ही होगा।<sup>१</sup>

### (१३) सदाशिवि रचितवसुलक्ष्मीकल्याणम् [अप्रकाशित] :

मंस्कृत शाहित्य में प्रतापरुद्र-यगोभूयण के अनुकरण पर अनेक रचनाएँ हुई हैं, उनमें से रामवर्मन-यगोभूयण भी एक है। यह त्रिवेन्द्रन् राजमहल के पुस्तकालय की हस्तलिखित पुस्तकों में सुरक्षित है। इसमें प्रायः समस्त उदाहरणादि चावन्कोर के राजा रामवर्म कुलशेष्वर की स्तुति के रूप में उपनिवेद्ध हैं। इसके तृतीय अध्याय नाटक-प्रकरण से उदाहरण के लिए वसुलक्ष्मीकल्याणम् नाम का नाटक दिया गया है। इसका लेखक चोक्रनाथ ध्वरित् का पुत्र सदाशिव-मस्तित है।<sup>२</sup> उसकी मां मीनाक्षी तथा गोव्र भारद्वाज था। ये कई भार्दि थे। इसको एक अन्य कृति लक्ष्मी-कल्याणम् का भी पता चलता है।<sup>३</sup> कुछ ने इसे युविष्ठरविजयम् के टीकाकार भरद्वाज-गोत्री-सुदर्शन भट्ट का पुत्र भी माना है। जो भी हो, पर रामवर्मा की समकालीन रचना होने से इसका समय १८ वीं शती का प्रारम्भ निश्चित है।

१. कृति के कुछ उद्धरणमान प्राप्त हैं, अतः सम्पूर्ण प्राप्त न होने से समालोचन असम्भव है।

२. त्रिवेन्द्रम् आकंलाजीकल सीरिज वाल्यूम, ५, पार्ट १, १६२४ में पृ० १०-२१ तक प्रकाशित लेख एवं इंडियन ऐंटिक्वरी, वाल्यूम, एल ३ १६२४ पृ० १-५ में छपे लेख के आधार पर ही उपर्युक्त विवेचन है।

३. टी० ए० एस० ५-१, पृ० १८,

४. वही, फुटनोट भी

**सत्यकि प्रथानक** — मिथुन का राजा कथा वसुलक्ष्मी का विवाह श्रावन्कोर के राजा रामवर्मा से करना चाहता था, पर रानी मिहन के राजकुमार के साथ। अतः रानी न मन्दिर दर्शन के बहाने समुद्र-मार्ग से पुत्री को लका भेजा, पर जहां दुर्घटनाग्रस्त होकर रामवर्मा की रानी वसुमती के भाई अन्तपाल वसुमतुराज द्वारा शासित, श्रावन्कोर के दिनारे जा लगा। दुर्घटना न राजकुमार को वहिन के पास भेजा। वही रामवर्मा से उसका प्रेम हो गया। रानी ने ईर्ष्या से उसका विवाह पाण्डव राजा से करना चाहा, पर विद्वूपक ने उसे असफल कर दिया। तभी मिथुन-राज के मनी नीतिसागर ने वसुलक्ष्मी का पता लगाया और श्रावन्कोर जाकर उसका रामवर्मा से विवाह निश्चित कर दिया। यही कथा नाटक में ५ अंको में नाट्य-बद है।

कथानक परम्परागत प्रेमकथा मात्र है। नाट्य योजना का उद्देश्य भी नाट्य-लक्षणों का प्रदर्शन मात्र है, चरित्र चित्रण आदि नहीं। अतएव यही न कलात्मकता का निर्वाह है, न वस्तुविधान का सौष्ठव और न ही चरित्र विकास। धिसी-घिटी प्रेमकथा को शृंगार की उद्भावना के लिए नाट्यबद्ध किया है, पर वह उसमें भी असफल है। कथानक कल्पित है। रामवर्मा ऐतिहासिक है। अन्य पात्र कल्पित। नाटककार ने मिथुनराज तथा पाण्डवराज आदि के उल्लेख में इतिहासीकरण करना चाहा है, पर तत्स्मन्वित कथा निराधार ही प्रतीत होती है। निष्पर्यंत यह एक वर्तपना प्रधान ऐतिहासिक नाटक है। नाट्यरूपा तथा ऐतिहासिकता की दृष्टि से यह प्रतापछद्रवल्याएं से भी असफल है।

(१४) **सुव्रह्णाण्याध्वरिन् रचित वसुलक्ष्मीकल्याणम् [अप्रकाशित]** : यह भी मानुस्तिक्ष्ट लाइब्रेरी विवेन्द्रभूमि में सुरक्षित जीर्ण नाटक है।<sup>१</sup> कुछ हस्तश्रियों में सेखक का नाम श्रीकण्ठ तथा नीलकण्ठ आदि मिलता है। पर विद्वान श्रव्यदीक्षित के परिवार में छठी गीढ़ी में उत्पन्न मुख्याध्वरिन् को ही इसका लेखक मानते हैं। इसमें भी रामवर्मा का चरित्र है। माना जाता है कि यह रामवर्मा के राज्य के २६वें वर्ष में लिखा गया है। अतः लगभग १७८५ ई० की रचना है।<sup>२</sup>

कथानक — मनी बुद्धिसागर श्रावन्कोर के राजा को उत्तर में बढ़ाने तथा हृषणराज से मित्रता बढ़ाने के लिए सिन्धुराज की राजकुमारी से विवाह करना चाहता है। मनी को जब राजकुमारी के लका जान की सूचना मिलने पर सेनापति तथा दुर्गपाल आदि की सहायता से उसे बड़ी बना बर राजमहल में भेज देता है।

१. यह विवेचन टो० ए० एस०, ५-१, १६२४, पृ० २२-२५ के तथा ए० ए० बाल्यम्, एल ४, १६२४ पृ० ५-८ के आधार पर है।

२. टो० ए० एस० पृ० ५०१, पृ० ३३,

फलतः राजा-राजकुमारी का प्रेम हो जाता है। रानी इसे रोकने की ओर के राज-कुमार से राजकुमारी के विवाह की योजना बनाती है, पर वह असफल हो जाती है, और अन्त में दोनों का विवाह हो जाता है।

यह नाटक राजानिधि के पूर्वोक्त नाटक की अनुकृति है। रामबन्ध ऐतिहासिक है, पर बुद्धिसागर तथा 'बनु' से वने वग्नेन, वनुपाल श्रादि कल्पित हैं। इसमें हृषण-राज की अवतारणा भी श्रुटिपूर्ण है। वस्तुतः उसका साम्य ईस्ट इंडिया कम्पनी से प्रतीत होता है।<sup>१</sup> इसी प्रकार यहाँ सिन्धुराज तथा रामबर्मद के चाचा मार्तण्ड की नित्रता का भी उल्लेख है, तथा सिन्धुप्रांत श्रादि की सीमाएँ का भी ज्ञान होता है।<sup>२</sup> पर उनमें कितनी ऐतिहासिकता है, नहीं रुहा जा सकता। समग्र रूप में यह कल्पित भविक है। अतः इसमें ऐतिहासिकता की अधिक संभावना नहीं है।

### (१५) वालमात्णविजय

रचना, रचयिता तथा रचनाकालः—वालमार्तण्ड १८वीं सदी में रचित सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक है। इसका रचयिता देवराज कवि, देवराजसूरि, देवराज नश्चिल तथा देवराज श्रादि नामों से जाना जाता है। यह नाह्यण था। इसके चिता का नाम 'शेषाद्रि' था, जो तिन्नेवली जिनें के पट्टमदाई गाँव से आकर त्रिवेन्द्रम् में घुनीम्द्रम् के पास श्राद्धम गाँव में रहने लगा।<sup>३</sup> मान्यता है कि ११ ब्राह्मणों को श्रामदान के समय इन्हें भी यह गाँव दान में प्राप्त हुआ था। देवराज व्रावन्कोर के सुप्रसिद्ध राजा वालमार्तण्ड (१७२६—१७५८) तथा रामबर्मद के आवित था। यह राजा के द्वारा सम्मानित भी हुआ, तथा इसे प्रधुर पुरस्कार भी मिला था।<sup>४</sup> वालमार्तण्ड-विजय की रचना देवराज ने सम्भवतः वालमार्तण्ड के समय में ही की थी। अतः नाटक का रचनाकाल १८ वीं शती के मध्य में निश्चितप्राप्यः है।

नाटक का कथानकः—वालमार्तण्ड श्री पद्मनाथ का अनन्य भक्त था, किन्तु, वह राज्यकार्य को भक्ति प्रचुरिति का कारण मानता था। अतः महामोहीत्यादक राज्यभार के प्रति उद्विग्न रहता था। एक बार वालमार्तण्ड राज्यभार के सम्बन्ध में चित्तन करता हुआ भक्तिपूर्वक श्राद्धना कर रहा था कि भगवान के दर्शन हुए। भगवान ने उसके मन की द्विविद्या की जान्त करते हुए आदेश दिया कि 'तू मेरा राज्य समझकर शासन कर, तुम्हे मोह नहीं होगा।'<sup>५</sup> तभी दिविजय का निर्देश हुआ।

१. द्वौ० ए० एम० २४, २५,

२. वही, २५,

३. वालमार्तण्ड विजय, भूमिका, पृ० १,

४. वही, पृ० ११६,

५. वालमार्तण्ड विजय भूमिका, पृ० १०

इसके पश्चात् राजा ने इस आश्वर्योत्थादक घटना को मन्त्रियों को सुनाया तथा श्री पदमनाथ का महाभिषेक करने का निश्चय किया। बालमातंड ने श्री पदमनाथ के मन्दिर का जीर्णोद्धार करा के सोत्साह महाभिषेक किया तथा उनके चरणों में राज्य द्वो समर्पित करके एक अधीनस्थ शासक के रूप में राज्य कार्य करने की घोषणा की, एवं दिविजय करने का निश्चय किया। प्रजा को राजा के इस प्रवास के समाचार से डुख हुआ। राजा ने प्रजा को सान्त्वना देकर, ग्राहणों को दान शादि देवर, मन्त्री तथा युवराज पर राज्यभार छोड़कर, विजयन्याना और प्रस्थान किया। अनेक देशों को जीत कर विजयाना से लौटने पर, अधीनस्थ राजाओं से प्राप्त प्रचुर धन से ५ दिन के अन्दर मन्दिर का पुनर्निर्माण कगाया तथा धूमधाम से पदमनाथ का महाभिषक किया और उनके चरणों में सर्वस्व अर्पित करके श्री पदमनाथ की मुद्रा द्वारा राज्य-कार्य करने लगा। अन्न में उसने पटितो, विद्वानों तथा कवियों को दानादि से पुरस्त्र कर सम्मानित किया।

**समालोचन —**उपर्युक्त कथानक को नाटककार ने ५ शंकों में कलात्मक रूप से विवरण किया है। उपलब्ध नाटक में प्रारम्भ का कुछ अभ्यास प्राप्त नहीं है, हवें श्लोक से नाटक प्रारम्भ है। श्री पदमनाथ के चरणों में राज्य समर्पित करने के पश्चात् उसने अपने नाम में 'बाल' शब्द संयुक्त किया, तथा दिविजय भी की। अन नाटक का बालमातंडविजय नाम सार्थक है।

नाटक नाट्यकला की दृष्टि से सफल है। भीरस भयानक को भी बदलना द्वारा सरस, भजीव तथा मासल बनाकर प्राप्तुन किया है। वर्णनों का विस्तार प्रवृद्ध है और लेखक प्रशस्ति के समान ही अतिरजनात्मक चित्रण भी बर गया है। दास-गुप्ता ने इसी बारण द्वारे नाटक की अपेक्षा प्रशस्ति कहना उपयुक्त समझा है,<sup>१</sup> किन्तु हमारी मान्यता है कि बालमातंड मस्त्रत नाट्य साहित्य के हालसकालीन अन्य अनेक समकालीन नाटकों की अपेक्षा अधिक सफल है। कवि की भाषा सशक्त तथा कल्पना उच्चर है, तथापि नाटककार ने कालिदास विशाखदत्त आदि पूर्ववर्ती कवियों के 'दाय' का पूरा पूरा उपयोग किया है।<sup>२</sup> प्रारम्भ में धमिक तथा नैतिक वातावरण की सृष्टि हुई है। सम्भवत श्री पदमनाथ के चरणों में राज्य को समर्पित कराके पृष्ठभूमि के रूप में गोतोवन भारतीय दर्शन की अभिव्यक्ति दी है तथा दिविजय द्वारा राजा को कम्थेत्र में सफलता के साथ अग्रसर किया है। सदसे अधिक विशेषता यह है कि नाटक में वीर रस की अभिव्यजना हुई है। यही कारण है कि अपेक्षाकृत बालमातंड में ऐतिहासिकता की अधिक अनुभूति होती है।

१. हि० सं० लिट० १, पृ० ४७३,

२. याल० प्रीकेस, पृ० ११,

ऐतिहासिकता की दृष्टि से नाटक का प्रमुख पात्र 'मार्तण्ड' ऐतिहासिक है इसका वासाया हुआ वलरामपुर गांव भी वत्तलाया जाता है। नाटक में वालमार्तण्ड को वचिकुलोदभव वत्तलाया है।<sup>१</sup> विवेन्द्रम के पूर्व अनन्य भक्ति, वदान्यता, धर्मप्रियता, तथा प्रजानुराग भी ऐतिहासिक हैं। यह भी ऐतिहासिक सत्य है कि मार्तण्ड ने अनेक शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। यही वर्षों राज्य को पद्मनाथ के समर्पण मादि की समस्त घटनायें भी मूलत ऐतिहासिक हैं। यह अवश्य है कि नाटक में वर्णित घटनाओं को कल्पना द्वारा मांसल बनाकर प्रस्तुत किया गया है।

वालमार्तण्ड में वर्णित दिविजय के चित्रण से ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम मार्तण्ड ने शुचीन्द्रम् से उत्तरपूर्व की ओर समुद्र के सहारे-सहारे विजययात्रा की। इसी समय पांड्यराजा को पराजित किया था।<sup>२</sup> तीन मास तक वह उत्तर के राजाओं का दमन करता रहा। वह स्वयं श्रीराम् गया और कुछ समय स्वयं वहीं रहा, आगे सेनापति को भेजा।<sup>३</sup> मार्तण्ड ने इस यात्रा में उत्तर, पूर्व पश्चिम के प्रदेशों को रोंद डाला। विद्वानों ने नाटक में वर्णित अनेक घटनाओं को ऐतिहासिक माना है, किन्तु केरल तथा कोल आदि की विजय से सम्बन्धित घटनायें काल्पनिक भी हैं।<sup>४</sup> नाटक में भोण्ड, पाण्ड्य, तुडीर कर्णाटि, शान्धि, यवन, कोंकण, महाराष्ट्र, पारसीक, विर्भ, वंग, अंग तथा कोलम्बपुर आदि की विजय का उल्लेख है, किन्तु इन वर्णनों में कितनी ऐतिहासिकता है कहना असम्भव है। हमारा विश्वास है कि अधिकांश वर्णन परम्परागत ढंग से किया गया है। वर्णन अत्यन्त आलंकारिक, अतिरंजनात्मक प्रशस्तियों के अनुरूप है।<sup>५</sup> कल्पना के आधिक्य से सत्यांश भी लुप्त प्रायः हो गया है। यही कारण है कि नाटक में ऐतिहासिकता संकान्त नहीं हुई है और केवल ऐतिहासिकता का आभास मात्र होकर रह गया है। अतः वालमार्तण्ड ऐतिहासिक दृष्टि से उतना अधिक उपादेय नहीं है, जितना कि सांस्कृतिक। दिविजय यात्रा के प्रसंग में श्री राम् रामेश्वरम् तथा तिळचेन्दुर एवं नवतिरुपति आदि अनेक सांस्कृतिक स्थानों का स्वाभाविक वर्णन है।<sup>६</sup> इससे दक्षिण

१. वाल० पृ० ४, ११५,

२. द्रावनकोर आकियालाजीकल सीरिज़, वालपूम् ५, पृ० २६-२७,

३. वाल० पृ० २६,

४. हृष्टव्यः वाल० पृ० ३०-३१,

५. वाल० प्रीफेस, पृ० ५,

६. देखो० वाल० पृ० १६, पृ० ३२, ३३ आदि।

७. वाल० पृ० ३४-४०,

भारत की धार्मिक भावना, धार्मिक परम्परा तथा नदी-देवालय आदि का भी ज्ञान होता है। सक्षेप में, वालमातंण्डविजय नाटक दक्षिण भारत की सस्तुति की भनक देने में सवधा सफल है। यही नदी वृत्तिक मातंण्ड का चरित्र दक्षिण में इतना अधिक स्थोकप्रिय है कि वहाँ इस पर आधारित अनेक रचनाएँ हुई हैं।<sup>१</sup>

### (१६) मृगाकलेखा :

नाटककार मृगाकलेखा नाटिका के रचयिता विश्वनाथदेव गोदावरी के तट पर स्थित धारासुर नगर के निवासी दाक्षिणात्य थे, किन्तु वाद में वागण्डसी में आकर वस गये। नाटिका में इनको त्रिमलदेव का पुत्र बतलाया गया है।<sup>२</sup> नाटिका की भूमिका के अनुसार बनारस में विश्वेश्वर के पात्रोत्सव पर यह अभिनीत भी हुई थी।<sup>३</sup> श्री तिस्ते न्यायसार के प्रणेता माधवदेव को विश्वनाथदेव का वशोद्रव भानते हैं।<sup>४</sup> इतिहासकारों के अनुसार विश्वनाथदेव का समय १८ वीं शती बैं अन्त में माना जाता है।<sup>५</sup>

व्यानक — इसमें विलिंग वे राजा वपूर्तिलक तथा (ग्रामाम के राजा) कामश्वर की पुत्री मृगाकलेखा की प्रेमकथा ही नाट्यरूप में विन्यस्त है। कथा इस प्रकार है कि एक बार विलिंगेश्वर कामश्वर की पुत्री मृगाकलेखा को देखकर अत्यधिक अनुरक्त हो जाता है और उसे रानी विलासवनी से भी अधिक मानता है। किन्तु दानव शशपाल भी मृगाकलेखा के रूपोन्माद पर मुश्व होने के कारण उसका अपहरण करना चाहता है। वपूर्तिलक का प्रधानामात्य रत्नचूड़, इससे पहले कि शशपाल मृगाकलेखा का अपहरण करने, मृगाकलेखा को सिद्धियेगिनी परिद्वाजिका की सहायता से राजा के अन्त पुर में ले जाता है। वहाँ दोनों में गाढ़प्रेम हो जाता है, किन्तु प्रबसर पाकर मृगाकलेखा का अपहरण करके शमशान में वालिका के मन्दिर में छिपा रखता है। कपूर्तिलक मृगाकलेखा के विरह से दुखित होकर उन्मत्त हो जाता है और प्राणत्याग की इच्छा से शमशान से जा पहुँचता है। प्रसारवेश वहाँ कातिका मन्दिर में पहुँच कर दानवेश को मार, मृगाकलेश्वर को मुक्त करा लाना है। विवाहोत्सव वीं तीयारी होती है। कामरूप का राजा अपने पुत्र-चण्डघोष तथा मन्त्री नीतिवृद्ध के साथ पुत्री के विवाहोत्सव में सम्मिलित होता है। ठीक विवाह के समय एक मस्त हाथी पागल हो जाता है।

१ वाल० प्रीकेस, पृ० १२,

२. मृगाकलेश्वरा, पृ० ५,

३ वही, पृ० २-३,

४ वही, भूमिका, पृ० १,

५ हिं० स० सिट० हृष्णमाचारी, पृ० ६६२,

तभी शंखपाल का भाई आकर विघ्न पैदा कर देता है। किन्तु हाथी के द्वारा वह मारा जाता है और सभी विघ्नों की शांति के साथ कपूर्ततिलक का भेनापति तिग्मप्रताप भी रत्नचूड़ के साथ दिविजय करके जा पहुँचता है। अन्त में, सभी के सान्निध्य में कपूर्ततिलक तथा मृगांकलेखा का विवाह हो जाता है।

**समालोचन—** उपर्युक्त संक्षिप्त कथानक नाटिका के ४ अंकों में उपनिवेद्ध है। प्रारम्भ के दो अंकों में मृगांकलेखा तथा कपूर्ततिलक का मिलन तथा प्रणाय-न्यापार, तृतीय में दानव के चंगुल से मृगांकलेखा की प्राप्ति तथा चतुर्थ में विवाह आदि वर्णित है। प्रारम्भ के दो अंकों में इसका ऐतिहासिक नायक स्वाभाविक रूप से वीरत्वलित रूप में चित्रित है, किन्तु अन्तिम अंकों में उमकी अधीरता तथा वीरता उभर आई है। इसका अंगीरस शृंगार है। प्रारम्भ के दो अंकों में शृंगार की बहुत ही स्वाभाविक, हृदयस्पर्शी अभिव्यञ्जना हुई है। यथावसर हास्य, वीभत्स तथा वीर का भी चित्रण है। वैसे, इसमें दो नायिका हैं—विलावती तथा मृगांकलेखा। किन्तु विलावती का दो-तीन स्वान पर नामोल्लेख मात्र है, चरित्रोद्घाटन नहीं। ज्येष्ठा का मानिनी, गंभीरा, प्रगल्भा होना तथा देवी के बास से नायक का नवानुराग में भयभीत रहना आदि की वर्णना इसमें नहीं है। बल्कि, यहाँ तो विलावती पहिले से पहिले मृगांकलेखा को सपत्नी रूप में स्वीकार करने को सन्तुष्ट रहती है। इसी प्रकार न दानव द्वारा अपहरण की घटना को उचित रूप में प्रदर्शित किया है, न मत्त हाथी के प्रवेश, तथा शंखपाल के भाई के प्रवेश और हत्या का ही कोई प्रयोजन प्रतीत होता है। नाटककार, काव्यात्मकता, नाट्यमुलभ गत्यात्मकता तथा रसपेशलता आदि की हृष्टि से प्रारम्भ के दो अंकों में अत्यविक सफल है। शैली सरल तथा स्वाभाविक है। वीभत्स तथा वीर के अनुरूप समस्त शैली का भी प्रयोग किया है। इस पर शाकुन्तल, रत्नावली आदि रचनाओं का प्रभाव प्रकट है।<sup>१</sup> कहीं-कहीं वीर में सहसा शृंगार के चित्रण द्वारा रसदोष भी हो गया है, जैसे तृतीय अंक में। इसी प्रकार दानवपात्र, तिरस्करिणीविद्या, आदि का विनियोग भी स्वाभाविकता में वाधक है। अंत के दो अंकों में अस्वाभाविकता अधिक है यदि नाटककार प्रयत्न अंकों के समान उनको भी रूप देता तो निःसन्देह सफल नाटिका बन पड़ती।

इसमें ऐतिहासिक पात्रों के रूप में कलिंगराज कपूर्ततिलक ही प्रमुख पात्र है। कपूर्ततिलक से सम्बन्धित प्रणायकथा का ही इसमें चित्रण है। अन्य पात्र प्राय काल्पनिक प्रतीत होते हैं। यद्यपि नाटक में कपूर्ततिलक की श्रिभुवन-विजय का भी उल्लेख है किन्तु उसमें ऐतिहासिकता प्रतीत नहीं होती।<sup>२</sup> वह आलंकारिक तथा रूढ

१. हृष्टव्यः मृगांकलेखा, १३२, २१२६, ४४, ४५, आदि,

२. देखो, मृगांक ४२१, आदि,

है। इसी प्रकार वर्दुरनिलम् के वैमन के बरंगन में भी ऐतिहासिकना नहीं है।<sup>१</sup> वस्तुत इमाना ऐतिहासिक दृष्टि से ग्रधिक महत्व नहीं है। केवल प्रमुख पात्र तथा अन्य पात्रों को ऐतिहासिक ढंग से उपन्यस्त बरन के कारण ही ऐतिहासिक माना जा सकता है।

### (१७) राजविजयनाटकम् (अपूर्ण)

राजविजयनाटक को थी आर सी मजूमदार तथा थी कु ज योविन्द गोस्वामी ने सर्वप्रथम, कलकत्ता से १६४७ में सम्पादित तथा प्रकाशित किया, पर यह अपूर्ण है। इसमें प्रथम अर्क पूर्ण है द्वितीय अर्क का आधा भाग है, तथा अन्त में इसी नाटक की सग्रहीत प्रसिद्ध सूक्तियों का सग्रह है। इसकी सूक्तियों के सग्रह के आधार पर श्रीमजूमदार ने निष्ठाप्य निकाला है कि समवत यह नाटक अपने समय में इतना लोकप्रिय हो गया था कि इसके पायों को लोगों ने सग्रहीत करना उचित समझा।<sup>२</sup> जो भी हो, इस नाटक का ऐतिहासिक तथा सामाजिक दोनों दृष्टि से महत्व है।

नाटक तथा नाटकदार—राजविजयनाटक के इस अपखण्ड की प्रस्तावना में नाटक के राजविजय नाम का उल्लेख है, किन्तु लेपर की नहीं है। सूत्रधार केवल यही बतलाता है कि किसी नदीन विन (वेनापि नव्यन विना) राजविजय नाटक का प्रणयन करके मुझे दिया है।<sup>३</sup> यह सम्भव है कि यदि इसकी पूर्ण प्रति प्राप्त हो जाय तो लेखक का नाम भी अन्त में सम्भवत मिल जाय। किन्तु इस अपखण्ड-रचनिता के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। परन्तु, नाटक का समय सुनिश्चित है। नाटक का नायक वगाल का सुप्रगिद राजा राजवल्लभ है। राजवल्लभ से सम्बन्धित घटनाप्री का इसमें चिरण है अत विश्वाप है कि इसकी रचना राजवल्लभ के प्राथित किसी वगाली लेखक ने १८वीं सदी में ही की है। मजूमदार ने नाटक की कुछ विशेषताप्री के आधार पर इसके वगाली लेखक होने का अनुमान लिया है।<sup>४</sup> नाटक से यह भी जात होता है कि नाटक म वर्णित घटना माघ मास की शक स० १६७३ की अर्थात् १७५५ की है,<sup>५</sup> क्योंकि राजा राजवल्लभ का देहान्त १७६३ में हो गया था।<sup>६</sup> अत यह निश्चिन है कि नाटक की रचना लगभग १८वीं सदी के मध्य में ही हुई थी।

१. भूगोक्त ४१८, ३, १३ अग्नि

२. राजविजय, भूमिका, पृ० ५,

३. राजविजय, पृ० ३,

४. यही, भूमिका, पृ० ५-६,

५. यही, पृ० १७,

६. यही, भूमिका, पृ० ७,

**कथानकः—** प्रस्तावना से ज्ञात होता है कि पुरोहितों के समूह के समूह, कलिकाल में दुष्कर यज्ञ के सपादन के लिये राजनगर को जा रहे हैं। वहीं किसी नव्यकवि के वनाये राजविजय नामक नाटक का प्रभिन्नय भी होगा। इसके अनन्तर अत्यधिक विस्तार से राजवल्लभ की वीरता, भक्ति प्रादि का वर्णन करते हुए प्रशस्तिपाठ होता है। यहीं ज्ञात होता है कि वेद-वेदान्त में निष्णात दक्षिणात्य पण्डित यज्ञ करने के अभिलापी राजवल्लभ के महल में यज्ञ सम्बन्धी उपदेश देने के लिये आया है। तदनन्तर उत्कल का पंडित राजा से भेट तथा अत्युक्तिपूर्ण प्रशंसा करता है एवं यज्ञ सम्पादन के लिए राजा की उत्साहित भी करता है। इसके बाद पंडितों में यज्ञ संबंधी परिचर्चा, अग्निष्टोम आदि सात प्रकार के यज्ञों का वर्णन, तथा इनके लिए उपयोगी उपरणों का उल्लेख आदि है। इस प्रकार “यज्ञोदयम्” नामक प्रथम अंक में यज्ञ की तैयारी होती है। द्वितीय में पंडित ग्राकर यज्ञीय अनुष्ठान प्रारम्भ करते हैं। राजा और पुरोहित आते हैं और राजा वैद्य-कुलोपवीत में सक्रिय भाग लेते हैं। इसके पश्चात् दूसरे अपखड में भी यज्ञीय क्रिया-कलाप का वर्णन है। वहाँ यह भी ज्ञात होता है कि पहले रामनवमी के दिन विक्रमपुर में सप्त-स्त्या-विधि का संग्रहन किया था। अन्त में, अनेक अतिरजनात्मक प्रशस्तियों के संग्रह के साथ नाटक समाप्त होता है।

**समालोचनः—** उपलब्ध राजविजय नाटक इतना अपूर्ण है कि इसके सम्बन्ध में कोई निश्चित मत स्थापित करना असम्भव है। मुख्य विषय वैद्यों को उपवीत होने तथा यज्ञ सपादन के अधिकार से सम्बन्धित है। प्राचीनकाल में वल्लालसेन आदि ने वैद्यों को उपनयन का अधिकारी ठहराया था, किन्तु यह नाटक में स्पष्ट करा दिया है कि वैद्य यज्ञ तथा उपवीत के पूर्णतः अधिकारी हैं।<sup>१</sup> नाटक में राजवल्लभ द्वारा शक संवत् १६७७ (१७५५ ई०) के माध मास में राजा द्वारा वैद्यों को यज्ञोपवीत युक्त करने तथा यज्ञ के संपादन का उल्लेख है।<sup>२</sup> रामनवमी की पूजातिथि को विक्रम नगर में सप्तस्त्यायज्ञ करने का उल्लेख है।<sup>३</sup> राजनगर की समृद्धि का वर्णन है। राजा के पराक्रम, वदान्यता, भक्ति आदि का चित्रण भी है। इन्हीं गुणों के कारण राजा को सर्वग्रह भी कहा है।<sup>४</sup> राजा के सप्तदशरत्नों का संकेत है।<sup>५</sup> तत्कालीन सामाजिक (विशेषतः धार्मिक) दशा का भी वर्णन है, किन्तु च्यवस्थित रूप से कथानक

१. राज विजय, पृ० १७,

२. वही,

३. वही, पृ० २४,

४. वही, पृ० ६,

५. वही, पृ० २५,

का विचार संस्कृत में नहीं किया गया है। यद्यपि यह नाटक ऐतिहासिक पुरुष राजवल्लभ से सम्बन्धित इतिवृत्त को लेकर उपन्यस्त है, किन्तु राजवल्लभ से सम्बन्धित ऐतिहासिक तथा राजनीतिक घटनाओं का विनियोग भी नहीं हुआ है।

राजवल्लभ, जो कि नाटक का नायक है, १८वीं शताब्दी के मध्य वगाल के प्रमुख राजनीतिक व्यक्तिरूप के रूप में प्रमिष्ठ है। राजवल्लभ का ममम्त जीवन सघर्ष तथा उत्थान-पतन से भरा हुआ था। राजवल्लभ १७०७ ई० में एक छोटे से गाँव में पैदा हुआ,<sup>१</sup> किन्तु बुशलता के कारण १८वीं शताब्दी में वगाल की राजनीति पर द्याया रहा। श्री मजूमदार ने इसके राजनीतिक तथा ऐतिहासिक जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला है।<sup>२</sup> किन्तु नाटक में राजवल्लभ से सम्बन्धित किसी भी राजनीतिक घटना वा उल्लेख नहीं है। मुख्यतः नाटक में इससे गम्भन्धित सामाजिक पक्ष का ही चित्रण है। इतिहासकारों के अनुमार राजवल्लभ बदूत बड़ा समाज-सुधारक था। श्री मजूमदार के अनुसार अपने समय में उसने ही सर्वप्रथम विधावाचिवाह का सूक्ष्मात् विद्या, इसी के पश्चात् श्री ईश्वरचन्द्र विद्यासामर को इस दिशा में सफलता प्राप्त हुई। उत्थान-परम्परा के सम्बन्ध में भी नियमों का पुनर्निर्धारण किया तथा अनेक यज्ञों वा सफलता से अनुष्ठान किया।<sup>३</sup> नाटक में इसी पक्ष को अपनाया गया है। नाटक से अनेक यज्ञ-संस्थाओं यज्ञानुष्ठानों के सम्पादन तथा यज्ञीय क्रिया-रूपाप का भी परिचय मिलता है। इस प्रकार यह तत्कालीन सामाजिक दशा पर ग्रच्छा प्रकाश डालता है। कदाचित् यह नाटक पूरा प्राप्त होता तो सम्भव था कि इसमें किसी राजनीतिक, ऐतिहासिक कथानक का उल्लेख प्राप्त हो सकता। किन्तु दुर्भाग्य से यह अमूर्ण है।

साहित्यिक दृष्टि में नाट्य निर्माण में नाटककार ने शास्त्रीय नियमों का पालन किया है। ह्यामकालीन नाटक होने हुए भी इसकी भाषा में प्राजलता है तथा प्रबाहृ है। कहीं वही वाक्य बहुत छोटे-छोटे, अतः नाटकीय हैं। किन्तु कहीं-कहीं लम्बे समस्त-वाक्यों के प्रयोग से नाटक विलप्त भी हो गया है। मूच्यन्तरस्तु के रूप में ही प्रमुखतः समस्त वाक्यों का प्रयोग है। इन्होंके भी प्रायः सकल तथा विभिन्न द्वन्द्वों में संपर्यमृत हैं। नाट्य-शिल्प की दृष्टि से ह्यामकालीन नाटकों में यह उत्कृष्ट कृति है। अतः इसका महत्व असदिग्ध है। श्री मजूमदार ने<sup>४</sup> राजविजय नाटक की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया है—(१) नाटक का कथानक समकालीन सामाजिक

१. राज विजय, भूमिका, पृ० ८,

२. वही, पृ० ६-११,

३. वही, पृ० १०-११,

४. राज विजय नाटक, प्रीक्षेत्र, (१),

घटना पर आधारित है। (२) नाटक का नायक वंगाल का सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक पुरुष है, जिसने कि तत्कालीन राजनीति में प्रमुख भाग लिया। (३) नाटक की रचना न केवल वंगाल की, अपितु भारतीय इतिहास की प्रमुख घटना ज्ञासी के मुद्र के वाद की रचना है। (४) यह नाटक अंग्रेजों से पूर्वकालीन वंगाल में रचित संस्कृत की श्रन्तिम छृति है।

इन सभी कारणों से यह नाटक संस्कृत के ऐतिहासिक नाटकों में ही नहीं, अपितु संस्कृत साहित्य में भी निःसंविग्ध रूप से महत्वपूर्ण छृति है।

---

## परम्परा एवं उपसंहार

### परम्परा :

हम देख चुके हैं कि प्राचीन तथा मध्यवाल में समृद्धत के ऐतिहासिक नाटकों की रचना पर्याप्त सख्ती में होती रही है। मद्यपि आधुनिक काल (१६ वीं, २०वीं सदी) को समृद्धत-साहित्य का पतन-काल कहा जाता है। किर भी इम काल में समृद्धत के ऐतिहासिक नाटकों की परम्परा अशुण्ण रही है। इस काल की विशेषता यह है कि इस युग में अनेक नाटकारों ने प्राचीन मध्यवालीन तथा समवालीन इनिकृत को उपजीव्य बनाकर प्राचीन तथा नवीन शिल्पविधान द्वारा अभिनव विचार-धारा और उद्देश्य-सारणी के अनुरूप अनेक नाटकों की रचना की है। आधुनिक काल में अधिकांश रचनाएँ राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होनेर लियी गई हैं। इस युग में अभिमृष्ट अधिकाश नाटकों में मचीयता तथा नाटकीयता के निर्वाह एवं कथ्य को अत्यधिक प्रेपणीय बनाने तथा वस्तुगत यथार्थ के प्रक्षेप की पूरी चेष्टा रही है। किन्तु ये नाटक भी प्रमुखत वर्णनात्मक तथा चरित्रप्रधान हैं। अत प्राचीन तथा मध्यवालीन नाटकों की अपेक्षा इनकी साहित्यिक तथा ऐतिहासिक उपादेयता अधिक नहीं है। इसी बारण प्रस्तुत स्थान पर सीमाओं को ध्यान में रख कर इनके विस्तृत अध्ययन का लोभ मवरण करना पढ़ रहा है। अतश्च यहाँ समृद्धत के ऐतिहासिक नाटकों की परम्परा के परिचय के रूप में आधुनिक नाटकों का संक्षिप्त विवरण मात्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

समृद्धत के आधुनिक नाटकों में गुजरात के श्री मूर्त्तिकलानन्द-याज्ञिक (१८८६ ई०) का स्थान महत्वपूर्ण है। श्री याज्ञिक ने तीन ऐतिहासिक नाटकों की रचना की है। (१) द्यतिपति साम्राज्यम्—यह बीर शिवाजी के पौरुषपूर्ण राजनीतिक जीवन को आधार बनाकर लिखा गया १० अक्षों का नाटक है। (२) प्रतापविजय—यह महारणा के जीवन एवं परामर्श को आधार बनाकर रचित ६ अक्षों का बीररस से परिपूर्ण नाटक है। (३) सयोगिना स्वयम्बर—यह पृथ्वीराज चौहान तथा सयोगिना

की सुप्रसिद्ध प्रणयकथा पर आश्रित ६ शंकों का नाटक है। ये सभी नाटक प्रसिद्ध ऐतिहासिक कथा पर आधारित है। किन्तु ये नाटक आधुनिक नाट्यशिल्प से प्रभावित तथा ऐतिहासिकता से संयुक्त है।

श्री वंचानन तर्कनन्दन (१८६६-१९४१ ई०) भी अपने समय के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इनकी सात कृतियाँ प्रसिद्ध हैं, जिनमें ऐतिहासिक नाटक भी है। (४) अमरमठम् (१९११)-इसमें महाराणा प्रताप के पुत्र अमरमिहू से सम्बन्धित ऐतिहासिक कथानक द शंकों में नाट्यवद्ध है। यह नाटक राष्ट्रीयता से युक्त अत्यधिक सफल नाटक है। इसके प्रारम्भ में आधुनिक नाटककारों के समान नाटक की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। यह विशुद्ध ऐतिहासिक आधार पर उपन्यस्त है। तथा यह इस काल की अत्यन्त सफल नाट्यकृति है। (५) अनारकली-डा० राधवन् ने श्री तर्कनन्दन के इस अप्रकाशित नाटक का उल्लेख किया है। संभवतः यह अनारकली से सम्बन्धित सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक प्रणय-कथा पर आश्रित है।

बंगाल के प्रसिद्ध विद्वान् म० म० हरिदास सिद्धान्तवागीण (१८७६-१९३६ ई०) इस युग के प्रतिनिधि लेखक थे। इन्होंने दो दर्जन रचनाएँ संस्कृत साहित्य को दी। इनके तीन ऐतिहासिक नाटक प्राप्त हैं। (६) मेवाड़ प्रताप, (७) वंगीय प्रताप, तथा (८) शिवाजी प्रताप-ये तीनों नाटक सुप्रसिद्ध इतिवृत्त पर आधारित हैं।

म० म० श्री मयुरा प्रसाद दीक्षित (१८७८ ई०) ने आधुनिक युग की रांचे के अनुरूप ढेढ़ दर्जन कृतियों की रचना की। इनके छोटे-छोटे दो ऐतिहासिक नाटक प्राप्त हैं। इनका (६) वीरप्रताप नाटक-महाराणा प्रताप तथा अकबर से सम्बन्धित प्रसिद्ध ऐतिहासिक कथानक पर आधारित वीर-रस प्रधान नाटक है। इसमें हल्दीवाली के युद्ध तथा भामाशाह की स्वामिभक्ति आदि का वर्णन बड़ी ही ओजस्वी भाषा में किया है। (१०) पृथ्वीराजविजय-पृथ्वीराज तथा मोहम्मद गौरी से सम्बद्ध प्रसिद्ध ऐतिहासिक युद्ध के कथानक को आधार बनाकर सफल हुआन्त नाटक की रचना की है। यह वीररस प्रधान छोटे-छोटे द्वाह शंकों की सुन्दर सफल अभिनेय रचना है। इनके दो अन्तिम नाटक आधुनिक इतिहास पर आधारित हैं, (११) गाँधी विजय-यह गांधीजी की राजनैतिक सफलताओं पर आधारित दो शंकों की छोटी सी रचना है। (१२) भारत विजय-यह दीक्षितजी की सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं सर्वोत्कृष्ट रचना है। इसमें भी भारतीय जनता तथा अंग्रेजों के राजनैतिक युद्ध से सम्बन्धित ३०० वर्षों के इतिवृत्त को सात शंकों में इतनी सफलता से विव्यस्त किया है कि यह भारत के स्वातंत्र्य-युद्ध का समस्त चित्र एक बार ही समग्र रूप में प्रतिविभित कर देता है। इसमें लोक-भाषा के रूप में नैपाली का प्रयोग भी किया गया है।

आधुनिक काल में रचित ऐतिहासिक नाटकों में (१३) माधवस्वात्र्यम्—वा विशिष्ट स्थान है। यह ७ अंकों में विभक्त विजालकाय ग्रप्रदाशित' नाटक है। इसका दूसरा नाम 'चन्द्रविजय' भी है। इस नाम से कान्तिचन्द्र वर्णर्जी पर विजय से लेखक का अभिप्राय है। इसकी रचना जयपुर के मुप्रसिद्ध कवि पटित गोपीनाथ दाधीच द्वारा २०वीं सदी के मध्य म हुई। श्री दाधीच जी (सस्तृत २३, हिन्दी ६) कुल २६ छत्तियाँ प्राप्त हैं। प्रस्तुत नाटक उनकी बाद की रचना है। यह जयपुर के राजा माधवमिह में सम्बन्धित प्रमिद्ध इनियूत्त को उपजीव्य बनाकर मुद्राराश्रम की अनुदृति पर रचित है।

जब सर्वाई राममिह (द्वितीय) का नि सन्तान दहावसान हुआ, और उनकी इच्छानुसार ईमरदा के कु० श्री कायममिह को उत्तराधिकारी बनाया तब उनका नाम माधवमिह (द्वितीय) हुआ। उस समय राज्य म उत्पन्न समस्याओं तथा मन्त्रियों की महत्वकाषायो एव राजनीतिक उथल-पुथल का इसमें यथार्थं चित्रण है। इसमें भी रामसिहजी के प्रधानामात्य फतहर्मिह चपाकत को पदच्युत वर तथा अन्य सहयोगी मन्त्रियों को निरस्त वर श्री कान्तिचन्द्र स्वयं प्रधानामात्य बनाता है। यह घटना मुद्राराश्रम के मन्त्रियों के युद्ध एव समरण जैसी है। इस नाटक में घटनाओं को विस्तृत चिजित किया है। स्वगत शैली का बरान के निए प्रमुख रूप से प्रयोग है। यह पात्र-वहू नाटक है। क्योंकि यह में नाटकीयता का अभाव है। सूत्रवार के वर्णन में नाटकात्मक मुद्राराश्रम का प्रभाव स्वयं स्वीकार करता है। इस नाटक म आधुनिक काल के अनुसृप्त प्राकृत के स्थान पर देशभाषा हिन्दी का स्थीर, प्रनिहारी आदि में प्रयोग कराया गया है। किन्तु यह तत्सम नहीं है। इसी प्रकार निश्चिवग क पात्रा द्वारा कवित, सर्वेया, दोहा, चौपाई आदि द्यन्दा का प्रयोग हुआ है। नटी आदि पात्र हिन्दी में सभापण करते हैं। नाटकीय तत्त्वों का इसमें भी पूर्ण निर्वाह हुआ है। नाटक पर मुद्राराश्रम का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। विशेषता यह है कि इसमें हास्य के लिए भद्र विद्युपक का प्रयोग हुआ है। भाषा सरल है तथा सस्तृत मूर्त्तिया का प्रयोग भी हुआ है।

इस नाटक में जयपुर की तत्कालीन राजनीति का बड़ा मुन्दर स्फुट चित्रण है। इसमें पात्र एव घटनायें इनिहाया सम्मत हैं। लेखक के अनुसार इसमें सरल नीति का प्रदर्शन किया गया है। प्रस्तावना के अनुसार यह नाटक जयपुर की रामप्रकाश नाट्यशाला<sup>१</sup> में सफलता के साथ अभिनीत हुआ था।

<sup>१</sup> वह नाट्यशाला आज रुल रामप्रकाश टाक्कीज के नाम से प्रसिद्ध है विदेश्च नाटक राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जयपुर (शाला) में सुरक्षित हैं। हस्त-लिखित प्रति सुवाच्य तथा सुरक्षित है। उसमें एक ओर लिखित ३४५ पृष्ठ है। प्रत्येक पृष्ठ में १७ १८ पत्तियाँ हैं।

इसी परम्परा में सुदृश्यनपति रघुन (१४) मिहलविजय, श्री नोपजि भीम भट्ट रचित (१५) काञ्चीरसन्धान समृद्धम (एकांगी), तथा श्री चिन्तामणि रामचंद्र सहतबुद्धे का धीर मिवाजी के ऐतिहासिक वृत्त पर ग्राधारित (१६) अदलमदन (१६१६) आदि अनेक नाटक आते हैं। जो जायद साधनों के ग्रभाव में मुद्रित भी नहीं हो पाए हैं।

रेडिंगो रूपक—उपर्युक्त नाटकों के अतिरिक्त आधुनिक कान में संस्कृत के अनेक ऐतिहासिक नाटक 'रेडिंगो रूपक' के दृष्टि न रखे हैं तथा विभिन्न आकाशवाणी के केन्द्रों ने सफलतापूर्वक प्रसारित हुए हैं। यद्यपि आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों पर संस्कृत कार्यक्रमों को प्रमुखता न भिलने से ऐसे नाटकों की अधिकता नहीं है, तथापि जो प्रसारित हुए हैं वे अन्य भाषाओं के नाटकों के समान ही पर्याप्त सफल रहे हैं। जयपुर केन्द्र से इन प्रकार के अनेक नाटकों का प्रसारण हुआ है। प्रो० हरिराम आचार्य द्वारा किया हुआ मुद्राराधास का सफल रूपान्तर जयपुर के आकाशवाणी केन्द्र से सफलतापूर्वक प्रसारित हुआ था। भास आदि अन्य नाटककारों द्वारा रचनाओं के रूपान्तर तथा अन्य कुछ स्वतंत्र ऐतिहासिक नाटकों का भी प्रसारण हुआ था, जिन्हें आकाशवाणी केन्द्रों की उपेक्षा के कारण उस ओर अभी नाटककारों का अधिक ध्यान नहीं गया है।

उक्त सामान्य सर्वेक्षण से स्पष्ट है कि संस्कृत के ऐतिहासिक नाटकों की परम्परा किसी न किसी रूप में न केवल ग्रविच्छिन्न रही है, अपितु संस्कृत नाटककारों ने आधुनिक युग के प्रभाव को आत्मसात् किया है। नाट्यजित्य में युगानुहर परिवर्तन हुआ है और रूपायन तथा मंचन की ओर भी इष्टि गई है। इम नवसे यह प्रकट हो जाता है कि संस्कृत में ऐतिहासिक नाटकों के अभाव का आरोप विल्कुन भ्रामक है तथा संस्कृत साहित्य की गरिमा के सर्वथा प्रतिकूल है। वास्तविकता यह है कि संस्कृत के ऐतिहासिक नाटक अन्य भाषाओं के नाटकों के समान इतिहास के उद्देश्य के पूरक भर नहीं हैं, अपितु इतिहास के समृद्ध स्रोत हैं। संस्कृत के ऐतिहासिक नाटकों की यही ऐतिहासिक महत्त्व साहित्यिक महत्त्व के साथ इनकी समधिक उपादेयता को परिवृद्ध कर देती है।

### उत्तरांशः

संस्कृत के ऐतिहासिक नाटकों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो गया है कि संस्कृत में ऐतिहासिक नाटकों के अभाव की परम्परागत मान्यता नितान्त निराधार है। वस्तुतः संस्कृत के ऐतिहासिक नाटक सख्त एवं गुणवत्ता की इष्टि से पर्याप्ति समृद्ध है। संस्कृत के इन नाटकों की साहित्यिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक उपादेयता न केवल संस्कृत के अन्य नाटकों से बहुत अधिक है, अपितु अन्य भाषा के

नाटकों से भी किसी दृष्टि से न्यून नहीं है। सामान्यत सस्त्रुत के ऐतिहासिक नाटकों का विवेचन करते हुए इनमे वहूविध महत्त्व पर प्रकाश ढाला जा चुका है तथा इनके इतिहास तत्त्व एव नाट्यकला का भी मूल्यांकन किया है, उसमे प्रकट हो गया है कि सस्त्रुत के ऐतिहासिक नाटक अन्य भाषा वे ऐतिहासिक नाटकों से भिन्न हैं। इनकी रचना का उद्देश्य तथा दशकाल सभी कुछ भिन्न हैं। इनकी सर्जना के प्रेरणा न तो आधुनिक जैसे उद्देश्य रहे हैं न इनमे इतिहास के शुल्काबद्ध विवरणों की प्रमुखि है और न ऐतिहासिक कानूनम तथा वातावरण आदि पर अतिरिक्त ध्यान दिया गया है। यही कारण है कि ये नाटक आधुनिक ऐतिहासिक साहित्य के समान इतिहास के प्रति प्रनिपद्ध नहीं हैं। इनके उपर्याप्त इतिहास ग्रन्थ नहीं है, अपितु ये स्वयं इतिहास के उपर्याप्त हैं। यतः इनकी नाट्यकला तथा इतिहास-तत्त्व का आधुनिक ऐतिहासिक नाटकों के समान अध्ययन एव विशेषण करना न सम्भव है, न समीचीन ही। अनेक हमने इनके मौलिक परिवेश मे ही इनका अध्ययन करते हुए इनकी उपलब्धि को उद्घासित किया है।

सस्त्रुत व प्राचीन ऐतिहासिक नाट्य भास, कालिदास, शूद्रक तथा विशाखदत्त जैसे लघ्वप्रतिष्ठ नाटककारों वी निवारनी से प्रमूलत है। उनकी नाट्यकला सुदीर्घकाल से समालोचन की निक्षण पर परीक्षित होती रही है और आज उनकी उत्कृष्टता सर्वान्धम्य है। विशेषत ये ऐतिहासिक इतिहास अपनी प्रेपरीयता, सर्वेकामकता, मन्देवनशीलता, ओजस्विना, रमण्यता एव सम-सामयिक यदायर्थ से समुक्त हैं। इनमें अमुरजनात्मकता वा सहज निर्वाह हुआ है। भास के दोनों ऐतिहासिक नाटक स्वप्न-धासवदत्ता तथा प्रनिज्ञायोगन्धरायण, कालिदास का मालविकानिमित्र, विशाखदत्त का मुद्राराक्षस तथा शूद्रक का मृच्छकटिक आदि सस्त्रुत नाट्यसाहित्य की प्रतिनिधि रचनाएँ हैं। इसमे ऐतिहासिकता तथा सर्जनात्मक प्रतिभा का मजुल निर्वाह हुआ है।

सस्त्रुत के ऐतिहासिक नाटक मुख्यत तीन प्रकार के हैं (१) राजनीतिक, (२) सांख्यिक (३) रोमाटिक या प्रणयप्रधान।

प्रतिज्ञायोगन्धरायण तथा मुद्राराक्षम आदि नाटकों म राजनीतिक पक्ष प्रधान है। हम्मीरमदमदन भी ऐसा ही नाटक है। मृच्छकटिक साम्झूतिक पृष्ठभूमि पर निर्मित है। रोमाटिक नाटकों मे रोमानी पृष्ठभूमि मे राजनीतिक तथा पठ्यन्म्रो ज्ञाताना वाना बुना गया है। कुछ पर्वती नाटकों मे ऐतिहासिक शैली को अपनाया गया है। परंथ उनमे सफल नहीं बन पड़े हैं, क्योंकि इन पर इतिहास का आरोप प्रतीत होता है। अत ये सवादात्मक इतिहास मात्र बनकर रह गए हैं। कुछ पर्वती नाटक प्रशस्तिपरक हैं। इनम सर्जनात्मक प्रतिभा का दर्शन नहीं होता है। अत इस प्रकार के नाटक ऐतिहासिक नाटक के रूप मे सफल नहीं हैं।

मध्यकालीन नाटकों में ह्लासकालीन नाट्यकला दृष्टिगत होनी है। किर भी ये सम-सामयिक यथार्थ के प्रतिविम्बन में सर्वथा सफल है। मुख्यतः मध्यकालीन ऐतिहासिक नाटक अनुकरण के रूप में, राज्याश्रम में, श्रावणिक वातावरण में तथा प्रशस्तियों के रूप में रचित है। अतः इनमें नाट्यकला का सहज निर्वाह नहीं हुआ है। इन रचनाओं में या तो कहीं कल्पना का प्राचुर्य है, या कहीं इतिहास-तत्त्व का अधिक प्रक्षेप। इस अध्ययन से स्पष्ट हो गया है कि संस्कृत के ऐतिहासिक नाटक प्राचीन युग से आधुनिक युग की ओर आते-आते उत्कृष्ट से ह्लास की ओर अग्रसर हुए हैं। इनमें नाट्यकला का उत्तरोत्तर ह्लास हुआ है। मौलिकता का अभाव है। संस्कृत के परवर्ती ऐतिहासिक नाटक प्रायः दाइप बन गए हैं। उनमें शृंगारप्रधान नाटिकाओं, में एक योगिनी या माध्वीपात्र तथा धीरलित जैसे नायक का विनियोग हुआ है। प्रायशः इनमें लेख-प्रयोग प्रश्नायोदैश्य तथा राजनैतिक उद्देश्य के लिए हुआ है। ये रचनाएँ अनुकृति के रूप में निर्मित हुई हैं। उदाहरणार्थ, हर्यं की नाटिकाएँ अपने क्षेत्र में सफल होते हुए भी काव्यशिल्प एवं कथ्य आदि की दृष्टि से मालविकाग्निमित्र से प्रभावित हैं, और पारिजातमंजरी आदि परवर्ती रचनाएँ तो पूरणतः इसकी अनुकृतियाँ हैं। कौमुदीमहोत्सव में भी विशाखदत्त रचित मुद्राराक्षस के प्रभाव, प्रवाह, संघर्ष तथा ओजस्विता का अभाव है। इसमें भिक्षुणी का प्रसग पूरणतः अनुकृति के रूप में निर्क्षिप्त है। उद्ययन नाटकों पर भास के नाटकों का प्रभाव स्पष्ट है, और जहाँ कहीं वेचित्र्य हैं कहीं उनकी नाट्यकला अपकर्य का कारण बन गई है। तापसवत्सराज में नायक नायिका का आत्महत्या के क्षणों में पुनर्मिलन एक नवीन योजना है। पर इसमें न ऐतिहासिकता है, न भास की उत्कृष्टता। यह योजना आधुनिक नाटकों के अनुरूप है, मौलिक है और कवि की नाट्यकला का श्रेष्ठ निर्दर्शन है।

बीणावासवदत्ता अवश्य उत्कृष्ट रचना है। पर वह भी सम्पूर्ण रूप में प्राप्त नहीं है। मध्यकाल के नाटकों में हम्मीरमदमर्दन अवश्य एक सफल ऐतिहासिक नाटक के रूप में उभर कर आता है। इसमें ऐतिहासिकता का सुन्दर विनिवेश है। विशुद्ध इतिहास के आधार पर रचित यह नाटक निश्चित रूप से मध्यकालीन ऐतिहासिक नाटकों में प्रतिनिधि रचना है। इसमें घटनाओं का धात-प्रतिधात, पात्रों की सक्रियता, अन्तर्छन्द, पद्यव्र, राजनैतिक गतिविधि को द्रुतता आदि के कारण ऐतिहासिकता का पूर्ण निर्वाह हुआ है। इसमें विना रक्तपात के मुद्राराक्षस की तरह राजा को विजयश्री का वरण, इसकी कल्पना एवं इतिहास के सम्यक् नियोजन का उत्कृष्ट निर्दर्शन है।

इस काल के मृगांकलेखा, प्रतापरुद्रकल्याण, गगादासप्रताप विलास आदि परवर्ती नाटक कल्पना-प्रधान या इतिहास-प्रधान सामान्य रचनाएँ हैं। ये अर्धेति-

हामिक हैं। इनमें न नाटकीय सर्जनात्मकता का सहज प्रयोग हुआ है, न ऐतिहासिकता की सृष्टि ही।

आधुनिक विद्वान् ऐतिहासिक नाटकों को शुद्ध ऐतिहासिक तथा अर्धऐतिहासिक आदि वर्ग में विभक्त करना उचित समझने हैं। किन्तु इनकी रचना वा उद्देश्य ऐतिहासिक नहीं रहा है तथा इनका रूप भी भिन्न है। अत वहमने इनको विशुद्ध ऐतिहासिक, कल्पना-प्रवान तथा इतिहास प्रधान आदि नाम दिये हैं। इससे इनकी वस्तु तथा वस्तुविद्यास का आधार लोजने में सरलता मिलती है। जिनकी वस्तु अधिकारिक या प्रासादिक रूप में इतिहास में गृहीत है तथा इतिहास-सम्मत है, और जिसका इतिहास-तत्व ज्ञात तथा प्रामाणिक है उसी को हमने ऐतिहासिक नाटकों में अन्तर्भूत किया है। वस्तुतः किसी न किसी सुनिश्चित मुख्य इतिहास तत्व का विनियोजन ऐतिहासिक नाटक की विश्वसनीयता के लिए अनिवार्य होता है। उसी के द्वारा उसकी प्रामाणिकता व्यक्त होती है। यद्यपि सस्कृत के ऐतिहासिक नाटकों का एकमात्र उद्देश्य रसपेशल रचना की निर्मिति रहा है। अब उसकी रचना किसी ऐतिहासिक उद्देश्य की प्रेरणा से नहीं हुई है। इनके रचनाकार या तो विशुद्ध माहित्यकार थे, या कुछ राजनीति के विद्वान् तथा प्रनुभवी खिलाड़ी या राज्याधिकर होने से राजनीति के प्रनुभवी थे। राज्याधिकरों ने प्राय प्रणय प्रधान तथा प्रशस्तिपरक नाटक ही बहुत लिखे हैं। इनकी रचना में सम्पादिक या कुछ पूर्व के लोक प्रमिद्ध इतिहास जौ ही आधार बनाया गया है। अत इनमें अनेक लोक-विशुद्ध इतिहास-सम्मान तत्वों का विनियोग हुआ है। और यही इनकी महत्वपूर्ण विशेषता है। इतिहास के स्रोत ग्रन्थ के रूप में भी इन नाटकों का महत्व निविदाद है। अन भास के नाटकों को प्रमाण मान कर उद्यन्कालीन इतिहास में सशोधन हुआ है। मालविकागिनभित्र के आधार पर शुग-इतिहास में अध्यार्थ जुड़ा है। मुद्राराक्षस के आधार पर मीर्य-इतिहास में परिवर्तन-परिवर्धन हुआ है। मृच्छकटिक के आधार पर तथा पश्चाद्वर्ती अनेक नाटकों के आधार पर इतिहास-निर्माण में पर्याप्त सहयोग मिला है। विशेषकर गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश एवं दक्षिण के इतिहास में। किन्तु इनका विश्लेषण इतिहास-ग्रन्थों के आधार पर सम्भव नहीं है। अत हमने यथाप्रसार अनुमान तथा सम्भाव्यता के आधार पर ही इनका विश्लेषण किया है।

प्राचीन लोकसम्मत सास्कृतिक तत्वों का समावेश इन नाट्यकृतियों की मूल्यवृद्धि का महत्वपूर्ण कारण है। इसके कारण ही ये नाटक सच्चे अर्थ में ऐतिहासिक कृतियाँ बन पड़े हैं। भारत के सास्कृतिक इतिहास को सौमारने के लिए इनमें प्रचुर उपयोगी सामग्री विद्यमान है। इनमें यद्यपि नाटककार ने आधुनिक नाटकों के समान वस्तुगत देशवाल एवं वातावरण की सृष्टि नहीं की है। और यह

२४.	पदभ०	पदभूराण
२५.		पंचरात्रनाटक १—(भास नाटक चक्र)
२६.	प्रतिज्ञा०	प्रतिज्ञापीमन्त्वरायण, सं० वामन शोपाल कल्परेख, प्र० सं०
२७.	प्रतिमा०	प्रतिमानाटक (भास नाटक चक्र)
२८.		प्रवन्धकोश
२९.		प्रियदर्शिका—सं० काले
३०.	प्र० रू० यशो०	प्रतापरुद्रयशोभूषण, वस्त्रई, प्र० क्ष० १६०६
३१.		पारिजातमंजरी, घार, १६५३
३२.		पादताडितक
३३.	वसन्त०	वसन्तविलास
३४.	वृ० क० मंजरी	वृहदकथा मंजरी
३५.	वृ० क० श्लो० सं०	वृहदकथाश्लोकसंग्रह
३६.	बाल०	बालमातंडविजय
३७.		भामहालकार
३८.		भासनाटकचक्रम्, पूना, १६३७
३९.		महाभारत
४०.		मत्स्य पुराण
४१.	मालविका०	मालविकाग्निमित्र सं० एस० सी० पंडित
४२.	मेघ०	मेघदूत,
४३.		मालतीमाधव,
४४.	मृच्छ०	मृच्छकटिक, चौखम्बा, २०११
४५.		” परांजपे
४६.		” सं० काले, १६६२, वस्त्रई,
४७.		महाभाष्य सं० काले
४८.	मुद्रा०	मुद्राराक्षस, सं० के एच ध्रुव, पूना, १६२०
४९.		” सं० शारदारंजनराय, वृ० सं०
५०.		” सं० पंडित—१६४४
५१.		” सं० तेलंग १६२८ सप्तम सं०
५२.		” सं० आर० एस० वालिम्बे, पूना प्र० सं०
५३.		मृगांकलेखा-वनारस, १६२६
५४.		रत्नावली सं० शारदारंजन राय, १६४४
५५.		” सं० देवधर व सुरू, प्र० सं०
५६.		रघुवंश

## ४८० : संस्कृत के ऐतिहासिक नाटक

५७.	रामायण
५८	राजविजय बलवद्धा, १६४७
५९.	रघुनाथ विलास, तजोर, १६५८
६०.	लीलावतीबीथी, १६४८
६१.	ध्यक्तिविवेक
६२.	विष्णुपुराण
६३. वाणा०	वीणावासवदत्ता-मुद्रा, १६३१
६४.	वस्तुपाल तजपाल प्रशस्ति,
६५.	वायुपुराण
६६.	विश्वमोर्यवशीष्म्
६७	शब्दवल्पद्रुम, चतुर्थवड, चौखम्बा, प्र० स०
६८	स्वप्नवासवदत्ता स० काले
६९	साहित्यदर्शण
७०. सेवनितवा०	सेवनितवापरिशय-मैसूर १६५८
७१.	मुहूर्त-सक्रीर्तन
७२. सुहृत०	सुहृत कीनिवल्लोलिनी
७३.	सयोगिना श्वयवर (नाटक) १६२८
७४.	हृष्पधरित
७५. हम्मीर०	हम्मीरमदमर्दन वडोदा, १६२०
७६	हरिवश

## ENGLISH BOOKS

(जो देवनागरी में भी उल्लिखित हैं)

- 1 A History of Sanskrit Literature . Macdonell 1958, Delhi
- 2 A History of Indian Literature . Weller, 3rd Ed
- 3 A History of Sanskrit Literature, (Classical) 1st Vol . Das Gupta 1947
- 4 A study of History A J Toynbee, Vol I, 1948 4th Ed.
- 5 A New English Dictionary . H H Mery, 1901
6. A Volume of studies in Indology : 1941
7. Ancient India : Mookerjee
- 8 Age of the Nandas and Mauryas
- 9 A little clay Cart Ryder
10. Ajmer Historical and Descriptive . Harbilas Sharda, 1st Ed
- 11 Bhasa . Dr Pusalkar B B S

12. British Drama : A Nicoll 1955, 4th Edition.
13. Bhasa: A.S.P. Ayyar, 1957 2nd Ed.
14. Buddhist India: T W Rhys Davies 1950
15. B. C. Low, Volume I, Calcutta, 1955
16. " " II, 1946
17. Cambridge History of Ancient India, I, 1955, Delhi
18. Chalukyas of Gujarat A.K. Majumdar, 1956. (चा० गु०)
19. Dramas in Sanskrit Literature : Jagirdar, 1947
20. Early History of Chauhanas: Dr. Dasharath Sharma. 1st ed  
(अ. हि. ची. )
21. Early History of India : 4th Ed 1957.
22. Encyclopaedia of Britannica, XIX. 11th Ed.
23. Glory of Gujarat: K. M. Munshi, (ग्लो० गु०)
24. History of India (150-350 A.D) K. P. Jayaswal
25. History of Classical Sanskrit Literature : M. Krishnamachariar 1917, Madras, (हि० क्ला० स० लि० )
26. History of India : Shah.
27. History of Indian Literature: M. Winternitz. 1927, Vol. I  
(हि० इ० लि०)
28. Indian Drama : Saniti Kumar, 1957
29. Introduction to the study of Mudraraksha: Dr. Devasthali, 1949
30. Introduction to the study of Mrichhakatika : Dr. Devasthali, 1951
31. Indian in the time of Patanjali : Dr. V. N. Puri, 1957  
(पतंजलिकालीन भारत)
32. Indian in the Vedic Age: Dr. P. L. Bhargava, 1956
33. Journal of Mythic society, April 1933. (जे० एम० एस०)
34. Krishnaswami Aigung Comm. Volume. (कृ० आ० का० वा०)
35. Kuppuswami Comm. Volume (कू० काम०)
36. Kane Comm. Volume-1941
37. Kalidas : Ramswami Shastri, 1933,
38. Kalidas : G. C. Chhala.
39. Malaviya Comm. Volume
40. Purana text of the D Kali age: Parjitar.
41. Political History of Ancient India : Roy Chaudhry, 6th Edition, 1953.
42. Sanskrit English Dictionary, M V. 1959
43. Some Problems of Indian Literature : Winternitz, 1925  
(सम० प्रा० सं० लि०)
44. Sanskrit Drama : Keith, 1959.

- 45 Sukhthankar M. Volume, Vol I, Calcutta, 1955  
 46 Shree Harsha of Kannauj : K M Panikkar, 1922.  
 47 Shakespear George Ein.  
 48 The Indian Theatre Dr Gupta  
 49 The Vedic Age, Vol I  
 50 The Magadhas in Ancient India  
 51 The Age of Imperial Unity, Vol II, 1946  
 52 Thomas Volume, 1939  
 56 Theatre of Hindus Wilson  
 54 The Mauryan Polity Chandra Dikshitar, 1953  
 55 The Maukharies E A Paris.  
 56 The Gupta Empire Mookerjee, 3rd Ed  
 57 The Parmar of Dhara and Malva, 1st Ed  
 58 The types of the Sanskrit Drama Manakad, 1936  
 59 The Development of Dramatic Art : Donall Chiv. Stuart, 1908  
 60. The Social play in Sanskrit Raghavan, 1st Ed. Bangalore 1956  
 61 The Great epic of India F W Hopkins 1920  
 62 The Play ascribed to Bhasa C. R Devadhar 1927  
 63. The Age of Imperial Unity, Bombay, B V B 1951  
 64 World Drama Nicoll, 1961.

### English JOURNALS

Annals (एनालस)	Annals of the Bhandarkar oriental Research Institute, Poona, 20-21, Vol. 2, July, 30-31, Vol 12 etc
A I (ए० इ०)	Apigraphia Indica Vol 2, April, 1920 etc. All India oriental Conference, 14th Sessions, 1948, Part II, Allahabad University Studies, Vol 2
I A (इ० ए०)	Indian Antiquary, 1782, etc
I C (इ० कल्पर)	Indian Culture, (Different Volumes)
I H Q (इ० हि० कवा०)	Indian Historical Quarterly, "
J. A O S. (जे० ए० ओ० एस०)	Journal of American Oriental Societies, Vol 20, 3rd Ed etc
J. B O R. S (जे० बी० ओ० प्रा० एस०)	Journal of Bihar Orissa Research Society, (Different Volumes)
J. R A S. (ज० आर० ए० एस०)	Journal of Royal Asiatic Society, 1909
N A (न्य० ए०)	New Antiquary, Vol 42, No 2

Poona Orientalist, Vol 5  
Proceedings of the Indian History Congress,  
Calcutta, 1939.

Proceedings of the Indian Historical Cong-  
ress, Ist Session, 1922, Poona.

Proceedings of the 2nd Oriental Conference  
5th Conference, 8th Conference, 1930 and  
1935

T. A. S. (टी. ए. एस.) Travancor Archeological Series Volume  
Ist, 1920

### हिन्दी ग्रन्थ

१. अनुसन्धान और प्रक्रिया, १६६० दिल्ली
२. इतिहास दर्शनः डा० बुद्धप्रकाश, प्र० सं० १६६२
३. इतिहास प्रवेशः जयचन्द्र विद्यालंकार, १६५६-५७
४. कालिदासः मिराशी ई० सं० १६५६
५. कालिदास का भारतः भगवतशरण उपाध्याय प्र० सं०
६. गु० सा० इति० गुप्त साम्राज्य का इतिहासः वासुदेव उपाध्याय, सागर,  
१६५७
७. प्र० ऐति० ना० प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकः डा० जोशी, प्र० सं० २०१६
८. पाणिनिकालान भारतः वासुदेवशरण अग्रवाल, प्र० सं०
९. प्रा॒भा॑के कला वि॒० प्राचीन भारत के कला विलास प्र० सं०
१०. प्रा॒भा॑शा॒० प० प्राचीन भारत की शासन पद्धतिः डा० सदाशिव अल्तेकर,  
द्वि० सं० २०१६
११. प्रा॒भा॑ इति० प्राचीन भारत का इतिहासः डा० रमाशंकर त्रिपाठी, तृ०  
सं० १६६२
१२. प्रा॒भा॑ लि॒० मा॒० प्राचीन लिपिमाला: गौरीशंकर हीराचन्द्र ओझा
१३. प्राचीन भारतः मुकर्जी, १६६२
१४. भा॒० सा॒० शा॒० भारतीय साहित्य शास्त्र, बलदेव उपाध्याय, भाग २,  
२००५
१५. भा॒० ना॒० सा॒० भारतीय नाट्य साहित्य (सेठ गोविन्द दास प्रभिनन्दन  
ग्रन्थ), सं० नगेन्द्र, प्र० सं०
१६. भा॒० वृ॒० इति० भारतवर्ष का वृहद् इतिहासः भगवदत्त, भाग १,
१७. भा॒० इति० रूप० भारतीय इतिहास की रूपरेखा: जयचन्द्र विद्यालंकार  
भाग २, १६३३

## ४८४ : सस्तुत के ऐतिहासिक नाटक

१८. मा० प्रा० इति० भारत का प्राचीन इतिहास सत्यकेतु, डि० स० १६६०  
 १९. नाट्यकला रघुवश, दिल्ली, १६६१  
 २०. नट्यसमीक्षा॒ः दशरथ शोका, प्र० स० २०१६  
 २१. नाथूराम प्रेमी अभिनन्दन ग्रन्थ, १६४६  
 २२. चन्द्रगुप्त मौर्य और उसका काल मुकर्जी, १६६२  
 २३. चन्द्रगुप्तः प्रो० हरिश्चन्द्र सेठ, बुलन्दशहर, १६४०  
 २४. जैन साहित्य का इतिहास नाथूराम प्रेमी,  
 २५. राजस्थान का इतिहास टाड (हिन्दी) ठा० केशव कुमार,  
 १६६२  
 २६. रामकथा कमिलबुल्के, प्र० स०  
 २७. रासमाला (हिन्दी), जयपुर, १६५८  
 २८. वेदनावध्य डॉ० मुधीर कुमार गुप्त  
 २९. विश्वमादित्य डॉ० राजवली पाडेड १६६०  
 ३०. शास्त्रीय समीक्षा के सिद्धान्त डॉ० गोविन्द श्रिगुणायत  
 ३१. शूद्रकः चन्द्रबली पांडे  
 ३२. सस्तुत साहित्य का इतिहास कीथ (हिन्दी) १६६०  
 ३३. , वाचस्पति गंगोला, १६६०  
 ३४. „ बलदेव उपाध्याय, चतुर्थ स० १६५६  
 ३५. समीक्षा शास्त्र सीताराम चतुर्वेदी  
 ३६. सस्तुत कवि दशन डा० भोलाश कर च्यास, प्र० स०  
 बनारस  
 ३७. समीक्षायण कन्हैयालाल सहल, प्र० स०  
 ३८. हर्षवर्णन गोरीशकर चटर्जी, १६५०  
 ३९. हिन्दुस्तान की पुरानी सम्यता वेनोप्रसाद, १६५०  
 ४०. हिन्दूसम्यता मुकर्जी (हिन्दी)

### हिन्दी पत्र-पत्रिकाएँ :

- आलोचना जनवरी १६६४  
 नागरी प्रचारिणी पत्रिका, ५, वैशाख १६६१ ना० प्र० ५०  
 नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग ११,  
 साप्ताहिक हिन्दुस्तान, २२ जुलाई, १६५६  
 सम्मेलन पत्रिका, १६६३, भाग ४७, अक्टूबर ४,  
 समिति वाणी, ब्रैमसिक, वर्ष १, भाग ३  
 दिशाल भारत, जून १६६३,